



भारत का राजपत्र

The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग III—खण्ड 4

PART III—Section 4

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 59]

नई दिल्ली, सोमवार मार्च 28, 2011/चैत्र 7, 1933

No. 59]

NEW DELHI, MONDAY, MARCH 28, 2011/CHAITRA 7, 1933

भारतीय पशु चिकित्सा परिषद्

अधिसूचना

नई दिल्ली, 1 मार्च, 2011

फा. सं. 10-7/2010 वी सी आई.—भारतीय पशु चिकित्सा परिषद् अधिनियम, 1984 (1984 का 52) की धारा 23 की उप-धारा (1) के अनुसरण में भारतीय पशु चिकित्सा परिषद् से भारतीय पशु चिकित्सा व्यवसायी रजिस्टर बनाए रखने की अपेक्षा की गई है जिसमें उन सभी व्यक्तियों के नाम अंतर्विष्ट होंगे जो मान्यता प्राप्त पशु चिकित्सा अर्हता धारण करते हैं और जो उस राज्य/संघ की पशु-चिकित्सा के पास तत्समय नामावलीगत है जिस पर अधिनियम का विस्तार है।

सचिव, भारतीय पशु चिकित्सा परिषद्, भारतीय पशु चिकित्सा परिषद् अधिनियम, 1984 (1984 का 52) की धारा 23 की उप-धारा (2) द्वारा प्रवृत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए निर्देश देते हैं कि भारतीय पशु चिकित्सा व्यवसायी रजिस्टर 2010 का अनुपूरक साधारण जानकारी के लिए प्रकाशित किया जाए।

डॉ. अनुप भौमिक, सचिव

[विज्ञापन III/4/141/10-असा.]

भारतीय पशु चिकित्सक रजिस्टर, अनुसूचक-2010

क्र.सं.	नाम	पंजी. सं.	पता	अर्हताएं	जन्मतिथि
1	ए. धर्मा नाइक, पुत्र श्री ए. लच्छू नाइक	एपीएसवीसी/ 04901/09	म.न. 2-102, गंगीरेनीगडेम, श्यामपेट, वारंगल-506348, आंध्र प्रदेश	बीवीएससीएंडएएच /एसवीवीयू/09	01.06.86
2	ए. अनिल कुमार, पुत्र श्री ए. रामनजनेयुलु	एपीएसवीसी/ 04911/09	म.न. 46/1-एम-25-4, आदित्य नगर, कुर्नूल- 518002, आंध्र प्रदेश	बीवीएससीएंडएएच /एसवीवीयू/09	01.07.84
3	ए. अनीता, पुत्री श्री अरासुमनी रामचंद्रन	पॉण्डीएसवीसी /324/09	न. 67, गंगल अम्मन कोइल स्ट्रीट, पिल्लईथोट्टम, कुवरपलायम, पॉण्डीचेरी	बीवीएससीएंडएएच /पीयू/09	6.1.87
4	ए. अनीथा, पुत्री श्री ए. सत्यनारायण	एपीएसवीसी/ 04906/09	म.न. 6-74, गांधी रोड, हुस्नाबाद, करीमनगर- 505467, आंध्र प्रदेश	बीवीएससीएंडएएच /एसवीवीयू/09	04.02.85
5	ए. अरुणा किरन, पुत्री श्री अप्पला नायडू	एपीएसवीसी/ 04964/09	डी.न. 62-4-5/1, श्रीहरिपुरम, मलकापुरम डाक, विशाखापटणम - 530011, आंध्र प्रदेश	बीवीएससीएंडएएच /एसवीवीयू/09	13.08.85
6	ए. चिन्नरा जुलाइयाह, पुत्र श्री ए. सैम्मन	एपीएसवीसी/ 04816/09	मगुदूर (डाक), अर्धावीडू (एम), प्रकासम जिला - 523333, आंध्र प्रदेश	बीवीएससीएंडएएच /एसवीवीयू/08	01.01.81
7	ए. जयपाल, पुत्र श्री ए. वेंकट सुब्बा रेड्डी	एपीएसवीसी/ 04855/09	वाडलामोपुर ग्राम एवं डाक- डक्काली (एम), नेल्लोर जिला, आंध्र प्रदेश	बीवीएससीएंडएएच /एसवीवीयू/09	28.12.81
8	ए.के. गुप्ता, पुत्र श्री बी.एन. गुप्ता	यूपीएसवीसी/ 5053/09	ग्राम एवं डाक- भदारवाडा, तह.- मौरानीपुर, जिला- झांसी, उ. प्र.	बीवीएससीएंडएएच /केयू/09	05.08.78
9	ए.के. गुप्ता, पुत्र श्री पी.सी. गुप्ता	यूपीएसवीसी/ 5050/09	स्मृति गलकड्यापुर, (मऊदोस्तपुर) मुआमीर, जिला- इलाहबाद, उ.प्र.	बीवीएससीएंडएएच /केयू/09	30.04.83
10	ए.के. मिश्रा, पुत्र श्री डी.एस. मिश्रा	यूपीएसवीसी/ 5010/09	मऊ बाजार, डाक- मऊ, जिला- चित्रकूट, उ.प्र.	बीवीएससीएंडएएच /जेएनकेवीवी/09	01.01.85
11	ए. के. सहारावत, पुत्र श्री रवीन्द्र कुमार	यूपीएसवीसी/ 5046/09	ग्राम- भोकारेई, तहसील- जनसथ, मुजफ्फरनगर, उ.प्र.	बीवीएससीएंडएएच /एसडीएयू एसके/09	05.02.84
12	ए.के. सिंह, पुत्र श्री एन.बी. सिंह	यूपीएसवीसी/ 5064/10	देवरा (मौहरज्या), बारा, जिला- इलाहबाद, उ.प्र.	बीवीएससीएंडएएच /आईजीकेवी/09	23.07.82
13	ए.के. उपाध्याय, पुत्र श्री एच.एल. उपाध्याय	यूपीएसवीसी/ 5071/10	ग्राम- भुइला, डाक- सिंकदरा, जिला- जौनपुर, उ.प्र.	बीवीएससीएंडएएच /जीएडीयूएसयू/ 09	07.02.83
14	ए.के. वर्मा, पुत्र श्री डी.आर. वर्मा	यूपीएसवीसी/ 4929/09	ग्राम- परसन का पुरा, डाक - उन्नरेतु, जिला-अम्बेडकर नगर, उ.प्र.	बीवीएससीएंडएएच /एनडीयूएंडटी/ 09	15.02.83
15	ए.के. वर्मा, पुत्र श्री आर.जे. वर्मा	यूपीएसवीसी/ 4937/09	ग्राम- मनका पुरा, डाक- खाफरादीन, फैजाबाद, उ.प्र.	बीवीएससीएंडएएच /एनडीयूएंडटी/ 09	30.08.82
16	ए.एन. कुशवाहा, पुत्र श्री ए.एल. कुशवाहा	यूपीएसवीसी/ 5034/09	ग्राम- हरहाई, डाक- चरवा, जिला- कौशम्बी, उ.प्र.	बीवीएससीएंडएएच /एसवीवीयू/09	11.09.81

17	ए.आर. चंद्रशेखर, पुत्र स्व. श्री ए.आर. अजन्ना	कर्नाएसवीसी/ 4362/09	10वां क्रॉस, सप्तगिरि एक्सटें., टोवेरी— 572102, तुमकुर तालुक एवं जिला, कर्नाटक	बीवीएससी/ यूएसबंगलौर/ 86	12.8.61
18	ए.एस. भाटिया, पुत्र श्री एस.एस. भाटिया	यूपीएसवीसी/ 5062/09	ग्राम— हसनपुर, दिल्ली रोड, पंचायत घर के निकट, जिला— सहारनपुर, उ.प्र.	बीवीएससीएंडएच /आईजीकेवी/ 09	01.04.82
19	ए. श्रीकांत, पुत्र श्री ए. धर्मा राव	एपीएसवीसी/ 04996/09	नरसमपेट (एम/वी), नेक्कोडा रोड, म.न.— 19— 103/3— 1, वारंगल जिला, आंध्र प्रदेश	बीवीएससीएंडएच /एसवीवीयू/09	05.06.84
20	ए. सुधाकर नाइक, पुत्र श्री ए. टीक्या नाइक	एपीएसवीसी/ 04892/09	म.म. 30—126, इदुलागुडा, पेट्रोल बंक के निकट, मिरयलगुडा, नालगोंडा जिला, आंध्र प्रदेश	बीवीएससीएंडएच /एसवीवीयू/09	06.06.86
21	ए.टी. पोआंबा, पुत्र श्री अकाई	एनएसवीसी/0 242/09	योगखाओ ग्राम, बी.पी.ओ. टोबू, जिला— मोन, नागालैंड	बीवीएससीएंडएच /सीएयू/09	9.9.86
22	आशीष जैन, पुत्र श्री रखाब चंद जैन	राजएसवीसी/ 3602/09	1/613, स्काउट फील्ड हाउसिंग बोर्ड, सवाईमाधोपुर — 322001, राजस्थान	बीवीएससीएंडएच /आरएयू/09	18.09.84
23	अब्दुल लतीफ के.ए., पुत्र श्री अब्दुल अजीज के.एस.	केएसवीसी/35 82/09	कलापुरक्कल हाउस, डाक— चेरानेल्लोर, अर्नाकुलम— 628034, केरल	बीवीएससीएंडएच /केएयू/09	20.05.85
24	अभानी भास्कर कुमार अमृत लाल	जीवीसी/ 1407	द्वारा श्री मयूर जी. अभानी, श्रीराम मेडिकल स्टोर, जेतपुर, जिला— राजकोट, गुजरात	बीवीएससीएंडएच /जीएयू/91	3.4.65
25	अभय कुमार, पुत्र श्री जगदीश शरण गर्ग	यूकेएसवीसी/ 500/10	ग्राम एवं डाक— वेटरिनरी अस्पताल, भगवानपुर, हरिद्वार, उत्तराखंड	बीवीएससीएंडएच /जीबीपीयूएंडटी /93	17.08.72
26	अभिजीत कुमार झा, पुत्र श्री लक्ष्मी नारायण झा	जेवीसी/630 /09	बारगंडा आमघाट रोड, मकटपुर, गिरिडीह— 815301, झारखंड	बीवीएससीएंडएच /बीएयू/09	12.02.84
27	अभिजीत मिश्रा, पुत्र श्री जयप्रकाश मिश्रा	ओएसवीसी/2 275/09	प्लॉट न.1963, एटी एवं डाक — कलाराहंगा, भुबनेश्वर, उड़ीसा	बीवीएससीएंडएच /ओयूएटी/09	07.06.87
28	अभिमन्यु परमार, पुत्र श्री अशोक सिंह परमार	पीबीएसवीसी/ 2914 /09	5, गुलमोहर कॉम्प्लेक्स, ग्राम एवं डाक— ढाखोली, जिराकपुर, पंजाब	बीवीएससीएंडएच /आरएयू/09	15.10.85
29	अभिनव शर्मा, पुत्र श्री बी.के. शर्मा	एचवीसी/ 874/09	म.न. 127/2, पुरानी मंडी, जिला मंडी, हि. प्र.	बीवीएससीएंडएच /सीएसकेएचपीकेवी /09	16.04.84
30	अभिनव वर्मा, पुत्र श्री जी.पी. वर्मा	यूपीएसवीसी/ 5070/10	119/2, महाराज गंज रोड, विजय पैलेस के निकट, बछावन, रायबरेली, उ.प्र.	बीवीएससीएंडएच /एएयू/09	19.07.85
31	अभिषेक असाती, पुत्र श्री ए.के. असाती	एमपीएसवीसी /2635/09	नया बाजार न. 3, बड़ा पुल, दामोह, म.प्र.— 470661	बीवीएससीएंडएच /जेएनकेवीवी/ 09	9.1.84
32	अभिषेक कालुंडिया, पुत्र श्री जिरेन कल्याण कालुंडिया	जेवीसी/641 /09	चिड़िया पहाड़ी, कठबाहरी, चाइबासा, पश्चिमी सिंधभूम— 14, झारखंड	बीवीएससीएंडएच /बीएयू/09	26.02.86

33	अभिषेक कुमार, पुत्र श्री लीलाम्बर यादव	यूकेएसवीसी / 447 / 09	म.न. 1/3/9, फूल बाग, पंतनगर- यू.एस. नगर, उत्तराखंड	बीवीएससीएंडएच / जीबीपीयूएंडटी / 09	17.09.82
34	अब्राहम जॉफ्री ज्ञानराज जे. (जी. जॉन स्टीफन)	टीएनएसवीसी / 4437 / 09	102-ए, टुककरामलपुरम, तिरुनेलवेली- 627007, तमिलनाडु	बीवीएससी / टीए एनयूकीएस / 89	20.03.67
35	अब्राहम पी, एलेक्स, पुत्र श्री पी.ए. अलेक्जेंडर	केएसवीसी / 34 99 / 09	पुथेनपराम्बिल हाउस, कुंडारा ईस्ट, कुंडारा डाक, कोल्लम- 691501, केरल	बीवीएससीएंडएच / केएसयू / 07	25.05.83
36	अधा हिम्मतदान उदयदान	जीवीसी / 526	21, विश्वकर्मा नगर, शिवाजी पार्क के सामने, सुबाग रोड, दूधियावाड़ी, पालनपुर- 385001, जिला-बनासकंठा	बीवीएससीएंडएच / जीएसयू / 80	10.5.58
37	आदिती, पुत्री श्री नरेश कुमार बजाज	पीबीएसवीसी / 2906 / 09	252 ई, एसबीएस नगर, पाखोवल रोड, लुधियाना, पंजाब	बीवीएससीएंडएच / जीएडीवीएसयू / 09	14.6.85
38	अदीति शर्मा, पुत्री श्री विनोद कुमार शर्मा	यूकेएसवीसी / 491 / 09	V / 132, टीए कॉलोनी, पंतनगर, जिला- यू.एस. नगर, उत्तराखंड	बीवीएससीएंडएच / जीबीपीयूएंडटी / 01	17.08.77
39	अदीति डोमनीक डी, मिरांडा, पुत्री श्री अरलिनडो डी मिरांडा	गोआएसवीसी / 148 / 09	13, बैंक ऑफ इंडिया कॉलोनी, अक्वेम आल्टो, मरगाओ, गोआ	बीवीएससीएंडएच / पीयू / 09	
40	आदित्य कुमार, पुत्र श्री सुरेंद्र कुमार	यूपीएसवीसी / 4960 / 09	ग्राम- खानपुर, डाक- डिगरूवा, जिला- फतेहपुर, उ.प्र.	बीवीएससीएंडएच / यूपीपीडीडीयूपीसी वीवी / 09	25.04.83
41	आदित्य प्रताप पांडा, पुत्र स्व. श्री प्रवाकर पांडा	ओएसवीसी / 2 259 / 09	प्लॉट न. 402, नयापल्ली (नुआसाही), भुबनेश्वर- 12, उड़ीसा	बीवीएससीएंडएच / ओयूएटी / 08	07.03.86
42	अधारा अर्जन सुंदरजी	जीवीसी / 299	ए/3, कृति अपार्टमेंट, एल.डी. इंजी. होस्टल के पीछे, गुलबेतकारा, अहमदाबाद, गुजरात	बीवीएससीएंडएच / जीएसयू / 73	6.3.53
43	अधेरा सुरेशचंद्र गणेश	जीवीसी / 1647	एटी: नासीपुर, तालुक- टंकारा, जिला- राजकोट - 363651, गुजरात	बीवीएससीएंडएच / जीएसयू / 93	29.12.70
44	अगिवाले रोहिणी बालकृष्णा	महाएसवीसी / 8300 / 09	ए-103, संगम अपार्टमेंट, बराज रोड, बी केबिन, बदलापुर (प.) - 421504, महाराष्ट्र	बीवीएससीएंडएच / एमएएंडएफएसयू / 07	26.08.84
45	अगिवाले सत्यवान मधुकर	महाएसवीसी / 8291 / 09	मकान न. 44, गौरापुर, डाक- पलसाई, तालुक-वडा, जिला - थाणे- 421312, महाराष्ट्र	बीवीएससीएंडएच / एमएएंडएफएसयू / 09	13.10.86
46	अगरावत विनोद कुमार मनिराम	जीवीसी / 2214	एटी: मोरबी, द्वारा सी.एम.अग्रावत, अंकुर सोसायटी, मकान न. 4, जीआईडी गेट के सामने, मोरबी, जिला- राजकोट, पिन- 363641	बीवीएससीएंडएच / जीएसयू / 99	25.5.71
47	अहेर संदीप भाऊसाहेब	महाएसवीसी / 8183 / 09	1, शीतल अपार्टमेंट, पम्पिंग स्टेशन रोड, गंगापुर रोड, तालुक एवं जिला - नाशिक- 422013, महाराष्ट्र	बीवीएससीएंडएच / एमएएंडएफएसयू / 09	12.09.84

48	अहेर तुषार किसन	महाएसवीसी / 8326 / 10	शिवशंकर नगर, कॉ.न. 1, शिवसदन, आर-11, चक्रपानी, वसाहत रोड, भोसारी, तालुक -हवेली, जिला पुणे, महाराष्ट्र	बीवीएससीएंडएच / एमएएंडएफएसयू / 09	13.07.84
49	अहमद फाहिम, पुत्र श्री ऐजाज़ अहमद	यूपीएसवीसी / 5025 / 09	म.न. 24 / 338, रेलवे वेस्ट केबिन के निकट, अबुबकर नगर, देवड़ा, उ.प्र.	बीवीएससीएंडएच / जीबीपीयूएंडटी / 09	06.12.82
50	अहमद मौह, मसूद राना, पुत्र श्री मोनोवर अली अहमद	एसएम / 2442 / 09	द्वारा: मोनोवर अली अहमद, ग्राम नयाहाट, डाक- बरकंडा, जिला- धुबरी- 783348, असम	बीवीएससीएंडएच / एएयू / 09	1.2.80
51	ऐतलवाद अमर कुमार सुधाकर राव	महाएसवीसी / 8224 / 09	एटी:गड्डेवाडी, डाक वायगांव, तालुक- अहमदपुर, जिला- लातूर- 413515, महाराष्ट्र	बीवीएससीएंडएच / एमएएंडएफएसयू / 09	10.06.87
52	अजय गोस्वामी, पुत्र श्री तारा चंद	हरिएसवीसी / 2128	पुलिस फैमिली क्वार्टर के निकट, तोशम जिला, भिवानी, हरियाणा	बीवीएससीएंडएच / सीसीएसएचएयू / 09	16.4.85
53	अजय कुमार खालखो, पुत्र श्री मणि खालखो	सीएसवीसी / 533 / 10	डाक- चाल, जिला- रायगढ़, छत्तीसगढ़	बीवीएससीएंडएच / आईजीकेवी / 09	07.10.81
54	अजय कुमार मिश्रा, पुत्र श्री राज कुमार मिश्रा	एमपीएसवीसी / 2622 / 09	एच / 19, मॉडल कॉलोनी, सुझोरा, मांडले, म.प्र.	बीवीएससीएंडएच / जेएनकेवी / 09	24.1.83
55	अजय कुमार सिन्हा, पुत्र स्व. श्री अलख कुमार सिन्हा	जेवीसी / 655 / 10	305, आराधना अपार्टमेंट, नॉर्थ आफिस पाड़ा, डोरांडा रांची - 834002, झारखंड	बीवीएससीएंडएच / आरएयू / 89	02.12.63
56	अजय राज गुप्ता, पुत्र श्री आर.पी. गुप्ता	यूकेएसवीसी / 497 / 10	एच-190, शिवालिक नगर, बी.एच.ई.एल., हरिद्वार, उत्तराखंड	बीवीएससीएंडएच / जीबीपीयूएंडटी / 90	15.03.65
57	अजय सिंह, पुत्र श्री इंद्र पाल सिंह	यूपीएसवीसी / 4985 / 09	ग्राम चूडामनपुर, डाक- भुल्लनपुर, जिला- वाराणसी, उ.प्र.	बीवीएससीएंडएच / एमएएफएसयू / 09	10.10.79
58	अजय ठाकुर, पुत्र श्री अत्तर चंद ठाकुर	एचवीसी / 882 / 09	ग्राम- टीकरी, डाक- राखोह, तहसील- सरकाघाअ, जिला, मंडी, हि.प्र.	बीवीएससीएंडएच / सीएसकेएचपीकेवी / 09	10.12.86
59	अजीत सिंह भाटला, पुत्र श्री सुरेश सिंह भाटला	यूकेएसवीसी / 503 / 10	179 / 2, नया बाजार, चकराता, जिला देहरादून, उत्तराखंड	बीवीएससीएंडएच / आईजीकेवी / 09	01.04.82
60	अजीथ बी., पुत्र श्री बीरालिंगप्पा	कर्नाएसवीसी / 4289 / 09	होसापलाया एक्सटें., अरसा पुरा, कोराटगेरे- 572129, तुमकुर जिला, कर्नाटक	बीवीएससीएंडएच / केवीएएफएसयू / 09	2.5.86
61	अजुदिया दामजीभाई लावजीभाई	जीवीसी / 681	बी- 37, मिलापनगर सोसायटी, यूनिवर्सिटी रोड, राजकोट, गुजरात	बीवीएससीएंडएच / जीएयू / 77	22.8.51
62	अजुदिया विमल सावजी	जीवीसी / 393	बी-66, आलाप एवेन्यू, यूनिवर्सिटी रोड, राजकोट- 360005, गुजरात	बीवीएससीएंडएच / जीएयू / 76	1.5.65

63	अकबरी रमेशचंद्र भीखाभाई	जीवीसी/ 1782	एटी- दुंडोराजी, तालुक- कलावाड, जिला- जामनगर - 361160, गुजरात	बीवीएससीएंडएच / जीएयू/ 94	1.6.67
64	अकबरी दिनेश कुमार मधुभाई	जीवीसी/ 1526	एटी एवं डाक- पाता मेघपार, तालुक- कलावाड, जिला- जामनगर, गुजरात	बीवीएससीएंडएच / जीएयू/ 92	25.12.68
65	अकबरी रमेश कुमार रघुभाई	जीवीसी/ 1216	एटी: जाम सजादयली, तालुक - जाम कंडोराना, जिला- राजकोट, गुजरात	बीवीएससीएंडएच / जीएयू/ 89	17.1.72
66	आकाशदीप, पुत्र श्री पाला राम	पीवीएसवीसी/ 2871/09	म.न. 479, गुरु नानक कॉलोनी, रजवाहा रोड, संगरूर, पंजाब	बीवीएससीएंडएच / जीएडीवीएसयू / 09	25.4.86
67	अलका पटनायक, पुत्री श्री अजीत पटनायक	ओएसवीसी/ 2 306/09	एटी-नारायणी रोड, फुलबनी, जिला- कौंधमाल, उड़ीसा	बीवीएससीएंडएच / ओयूएटी/ 09	05.01.86
68	अलासे अश्विनी लक्ष्मण	महाएसवीसी/ 8293/09	37/2, ए-3, अमृत सोसायटी, इरंदवाना, तालुक एवं जिला- पुणे- 411032, महाराष्ट्र	बीवीएससीएंडएच / एमएंडएफएसयू / 09	29.01.87
69	अलाते अशोक विश्वनाथ	जीवीसी/ 191	एच- 301, नंदनवन अपार्टमेंट, सुसेन- तनसाली रोड, बडोदा- 390009, गुजरात	बीवीएससीएंडएच / पीकेवी/ 70	8.8.47
70	अलेक्जेंडर जी., (एम. गोविंदराज)	टीएनएसवीसी / 4417/09	आदमबई साउथ डाक, पट्टूकोट्टई तालुक, थंजावुर जिला, 614602, तमिलनाडु	बीवीएससी/ टीए एनयूवीएस/ 97	25.05.74
71	अलकुंटे दैवशाला हनुमंत	महाएसवीसी/ 8249/09	टेलीफोन एक्सचेंज कार्यालय के निकट, जूना बाजार रोड, माजलगांव, तालुक- माजल गांव, जिला-बीड- 431131	बीवीएससीएंडएच / एमएंडएफएसयू / 09	01.01.80
72	आलोक चौधरी, पुत्र श्री उग्रसेन वर्मा	यूपीएसवीसी/ 4903/09	ग्राम शेखुपुर, डाक- जलाल पुर, अम्बेडकर नगर, उ.प्र.	बीवीएससीएंडएच / यूपीपीडीडीयूपीसी वीवी/ 09	03.07.82
73	आलोक कुमार चौधरी, पुत्र श्री जगन्नाथ प्रसाद	यूपीएसवीसी/ 4964/09	ग्राम एवं डाक- केशव नगर, ग्रांट जिला, गोंडा, उ.प्र.	बीवीएससीएंडएच / यूपीपीडीडीयूपीसी वीवी/ 09	01.06.84
74	आलोक कुमार, पुत्र श्री टी.आर. रस्तोगी	यूपीएसवीसी/ 5004/09	ग्राम एवं डाक- हरदासपुर वाया राम नगर (किला), आंवला, जिला-बरेली, उ.प्र.	बीवीएससीएंडएच / जीवीपीयूएंडटी / 09	25.07.81
75	आलोक मिश्रा, पुत्र श्री आर.डी. मिश्रा	यूपीएसवीसी/ 4970/09	ग्राम एवं डाक-रेहटा खुर्द, जिला- अम्बेडकर नगर, उ.प्र.	बीवीएससीएंडएच / जीवीपीयूएंडटी / 09	31.07.82
76	आलोक प्रताप सिंह, पुत्र श्री वीरेंद्र कुमार सिंह	यूपीएसवीसी/ 4969/09	ग्राम एवं डाक-सेमराजपुर, जिला- मऊ, उ. प्र.	बीवीएससीएंडएच / जीवीपीयूएंडटी / 09	12.07.82
77	अमन देव मुदगिल, पुत्र श्री देव राज मुदगिल	एचवीसी/ 884/09	ग्राम- लठवान, डाक- लडसौर, तहसील- भोरांज, जिला- हमीरपुर, हि.प्र.	बीवीएससीएंडएच / सीएसकेएचपीकेवी / 09	05.04.85

78	अमरबीर सिंह, पुत्र श्री गुरमीत सिंह	पीबीएसवीसी/ 2685/09	179, भगत सिंह कॉलोनी, बस्ती गोबिंद गढ़, मोगा, पंजाब	बीवीएससीएंडएच /जीएडीवीएसयू /06	1.8.82
79	अमरेंद्र पटनाइक, पुत्र श्री अभय कुमार पटनाइक	ओएसवीसी/2 278/09	एटी- कोटौन, डाक- आरिलो, जिला- कटक, उड़ीसा	बीवीएससीएंडएच /ओयूएटी/09	02.06.84
80	अमरजीत सिंह, पुत्र श्री नजर सिंह	पीबीएसवीसी/ 948/10	म.न.- 5-271, डबल रेलवे गेट के निकट, धुरी- 148024, जिला- संगरूर, पंजाब	बीवीएससी/जीबी आईएच:डब्ल्यूएंडटी /73	1.10.50
81	अम्बालिया नारन भाई हभीरभाई	जीवीसी/ 1935	एटी एवं डाक- जाम केशोद, तालुक- जाम खम्बालिया, जिला- जामनगर, पिन- 361305, गुजरात	बीवीएससीएंडएच /जीएयू/96	
82	अमीन भूपेंद्र जेठालाल	जीवीसी/ 394	6, अमर आशा सोसायटी, उत्कर्ष सोसायटी के पीछे, भोलाव, भड़ौच, गुजरात	बीवीएससीएंडएच /जीएयू/76	13.1.53
83	अमित चंद्राकर, पुत्र श्री चिंता राम चंद्राकर	सीएसीएचएसव ीसी/499/10	जे-24, तिलक नगर, गुडियारी, रायपुर, छत्तीसगढ़	बीवीएससीएंडएच /आईजीकेवीवी/0 9	05.05.83
84	अमित देवरासी, पुत्र श्री डी.पी. देवरासी	यूकेएसवीसी/ 448/09	ग्राम भटियाना, डाक- कोठिल, जिला- चमोली, उत्तराखंड	बीवीएससीएंडएच /जीबीपीयूएंडटी /09	10.10.85
85	अमित गुप्ता, पुत्र श्री जगदीश प्रसाद गुप्ता	सीएचएसवीसी /542/10	नमनकला कब्रिस्तान के निकट (उत्तर), राजीव नगर, अम्बिकापुर, छत्तीसगढ़	बीवीएससीएंडएच /आईजीकेवीवी/0 9	07.06.82
86	अमित कुमार दोहारे, पुत्र श्री जगदीश प्रसाद	एमपीएसवीसी /2626/09	महाराना प्रताप स्क्वेयर, लहर, भिंड, म.प्र.- 477445	बीवीएससीएंडएच /जेएनकेवीवी/ 09	25.6.82
87	अमित कुमार नागेश, पुत्र श्री गजरू राम नागेश	सीएचएसवीसी /522/10	एच- 24/21, सिविल लाइन, कसारीडीह, दुर्ग, छत्तीसगढ़	बीवीएससीएंडएच /आईजीकेवीवी /09	06.06.82
88	अमित कुमार साहू, पुत्र श्री अजय कुमार साहू	ओएसवीसी/2 276/09	एटी एवं डाक- किशोरनगर, जिला- कटक- 754131, उड़ीसा	बीवीएससीएंडएच /ओयूएटी/09	01.05.86
89	अमित कुमार, पुत्र श्री शिव कुमार	हरिएसवीसी/2 123	ग्राम- तोठवाल, डाक- नांगली गोंडा, जिला, रिवाड़ी, हरियाणा	बीवीएससीएंडएच /सीसीएसएचएयू/ 09	15.4.85
90	अमिथा जॉर्ज, पुत्री श्री के.एस.एस. जॉर्ज	केएसवीसी/ 3501/09	कट्टुनिलाथ हाउस, XI/987 ए, सेंट जॉन पेटोम, कोचीन- 682001, केरल	बीवीएससीएंडएच /केएयू/09	15.01.86
91	अमरा राम, पुत्र श्री देव राम	राजएसवीसी/ 3707/10	ग्राम एवं डाक-छितेर का पार, वाया कावास, बाड़मेर- 344035, राजस्थान	बीवीएससीएंडएच /आरएयू/10	01.07.82
92	आनंद प्रकाश, पुत्र श्री एन.एन. सिंह	यूपीएसवीसी/ 5003/09	केजीएसकेजी बैंक, कृष्णा नगर, एमएयू रोड, सिधारी, जिला- आजमगढ़, उ.प्र.	बीवीएससीएंडएच /एमएफएसयू/0 9	12.07.83

93	आनंद, पुत्र श्री धुलप्पा	कर्नाएसवीसी / 4281 / 09	आनंद निवास, विवेकानंद हाई स्कूल के पीछे, शिवपुर रोड, बासवकल्याण- 585327, बिदर जिला, कर्नाटक	बीवीएससीएंडएच / केवीएफएसयू / 09	10.12.83
94	आनंद सागर सेठ, पुत्र श्री पदम लोचन सेठ	ओएसवीसी / 262 / 09	एटी एवं डाक- पटनागढ़ (बडपारा), जिला- बोलनगीर, उड़ीसा- 767025	बीवीएससीएंडएच / ओयूएटी / 08	21.07.81
95	आनंद कुमार ए. (पी. आरिमुथु)	टीएनएसवीसी / 4425 / 09	न. 120, सी.आर. कैम्प, थेनपल्लीपट्ट, कलासापक्कम, थिरुवन्नामलई- 606751, तमिलनाडु	बीवीएससीएंडएच / टीएनयूवीएस / 08	30.01.85
96	आनंदराज ए. (जी. अन्नादुरई)	टीएनएसवीसी / 4645 / 09	41 के, मामनंदल रोड, कल्लाकुरिची- 606202, विल्लुपुरम जिला, तमिलनाडु	बीवीएससीएंडएच / टीएनयूवीएस / 09	05.06.86
97	आनंदी प्रसाद सिंह, पुत्र श्री राम स्वरूप प्रसाद सिंह	जेवीसी / 645 / 10	होलिडिंग न.-सीसी / 61, क्रॉस रोड न. 22, चम्पियो कॉलोनी, सिधगोरा मार्केट, डाक एग्रिको ईस्ट, सिंघभूम, जमशेदपुर- 6831009, झारखंड	बीवीएससीएंडएच / आरएयू / 72	15.08.47
98	आनंथ बाबू जे. (पी. जगन्नाथन)	टीएनएसवीसी / 4654 / 09	कलिअम्मन कोविल स्ट्रीट, मिल कृष्णापुरम, राजापलायम तालुक, विरुधुनगर- 626108, तमिलनाडु	बीवीएससीएंडएच / टीएनयूवीएस / 09	24.04.86
99	आनंथराज ए. (आर. एथोनीसामी)	टीएनएसवीसी / 4506 / 09	97 / 31-ए, ब्रियंत नगर, 13वीं स्ट्रीट, थूथूकुडी- 628008, तमिलनाडु	बीवीएससीएंडएच / टीएनयूवीएस / 09	12.03.85
100	अनीश कुमार आर., पुत्र श्री राधाकृष्णन् नायर जी.	केएसवीसी / 3576 / 09	अनीश भवन, कन्नीमेल, पट्टाजी (डाक), कोल्लम- 691522, केरल	बीवीएससीएंडएच / केएयू / 09	15.05.86
101	अनीज अजीज, पुत्र श्री ए. अब्दुल अजीज	केएसवीसी / 3605 / 09	नीज मंजिल, ककाजोम डाक, अलपुज़ाह- 688005, केरल	बीवीएससीएंडएच / केएयू / 09	06.07.84
102	अनिल डारु, पुत्र श्री पावल सिंह	एमपीएसवीसी / 2598 / 09	ग्राम एवं डाक-बखराली, थाना- सेंधवा, बदवानी, म.प्र.	बीवीएससीएंडएच / जेएनकेवीवी / 09	5.3.85
103	अनिल कुमार गंगा रेड्डी, पुत्र श्री लक्ष्मनप्पा	कर्नाएसवीसी / 4247 / 09	होनाकुप्पी- 591227, गोकक तालुक, बेलगाम जिला, कर्नाटक	बीवीएससीएंडएच / केवीएफएसयू / 09	10.5.84
104	अनिल कुमार, पुत्र श्री बाबू लाल साऊ	जेवीसी / 652 / 10	गौरी शंकर मोहल्ला, झुमरी तल्लैया, कोडर्मा- 825409, झारखंड	बीवीएससीएंडएच / बीएयू / 89	05.01.64
105	अनिल कुमार, पुत्र श्री प्रताप सिंह	हरिएसवीसी / 2090	ग्राम एवं डाक- बरदूचाइना तालुक, लोहारु जिला- भिवानी, हरियाणा	बीवीएससीएंडएच / आरएयू / 07	5.1.80
106	अनिल कुमार, पुत्र श्री हनुमंथइयाह एच.	कर्नाएसवीसी / 4324 / 09	न. 7, चक्केरीडोड्डी लकोजीनाहल्ली - 571511, राम नगर तालुक व जिला, कर्नाटक	बीवीएससीएंडएच / केवीएफएसयू / 09	10.6.86
107	अनिता कुमारी, पुत्री श्री आशु सिंह	राजएसवीसी / 3607 / 09	ग्राम- सोंथाली पूनिया की धानी, डाक- तीतनवर, झुंझुनू- 333001, राजस्थान	बीवीएससीएंडएच / आरएयू / 09	13.03.83

108	अनिथा नारायणन, पुत्री श्री पी.के. नारायणन	केएसवीसी/35 19/09	थजाट्ट हाउस, काइपुजाह डाक, कोट्टायम— 686602, केरल	बीवीएससीएंडएच /केएयू/09	25.05.85
109	अनिथा श्रीराम सी. आर., पुत्री श्री रामचंद्र ए.	कर्नाएसवीसी/ 4334/09	अन्नपूर्णेश्वरी नीलया, एसआर एमटी कार्यालय के सामने, सांथे मार्केट, चिक्कबल्लापुरा— 562100, तालुक जिला, कर्नाटक	बीवीएससीएंडएच /केवीएफएसयू/ 09	21.11.85
110	अनिथा एस. (एम. शानमुगम)	टीएनएसवीसी /4624/09	2, मनुसामी स्ट्रीट, थिरुवल्लुवर नगर, पम्मल, चेन्नई— 600075	बीवीएससीएंडएच /टीएनयूवीएस /09	24.09.85
111	अंजानेया, पुत्र श्री मुदुकप्पा	कर्नाएसवीसी/ 4301/09	कोरावी, सदापुर— 584123, मानवी तालुक, रायचुर जिला, कर्नाटक	बीवीएससीएंडएच /केवीएफएसयू/ 09	1.6.86
112	अंजनी कुमार पांडे, पुत्र श्री रामभुवन पांडे	सीएचएसवीसी /488/09	शासकीय कुक्कुटपालन प्रक्षेत्र परिसर, कोरिया, छत्तीसगढ़	बीवीएससीएंडएच /जेएलएनकेवीवी/ 98	10.12.61
113	अंजु बाला, पुत्री श्री हरि ओम सिंह	हरिएसवीसी/2 136	# 754, महावीर कॉलोनी, यमुनानगर, हरियाणा	बीवीएससीएंडएच /सीसीएसएचएयू/ 09	20.9.85
114	अंजु राजन आर., पुत्री श्री राजन के. आर.	केएसवीसी/35 97/09	कोचुमुरियिल हाउस, कवियूर डाक, थिरुवला, पथानमथिट्टा — 689582, केरल	बीवीएससीएंडएच /केएयू/09	17.04.86
115	अन्नादुरई आर. (पी. रामाकृष्णन)	टीएनएसवीसी /4661/09	74, संजीवारायन कोइल स्ट्रीट, कुडालोर पोर्ट, कुडालोर — 607003, तमिलनाडु	बीवीएससी/टीए एनयूवीएस/92	07.02.69
116	अन्नाराव एस., पुत्र श्री शंकर राव	कर्नाएसवीसी/ 4252/09	न. 142, श्रीनिवास सरदागी— 585102, गुलबर्गा तालुक एवं जिला, कर्नाटक	बीवीएससीएंडएच /केवीएफएसयू/ 09	7.11.85
117	अनूप जियो जोस, पुत्र श्री जोस जॉर्ज	केएसवीसी/ 3535/09	नादुविले पुरक्कल हाउस, पराथोडे, इडुक्की डाक, 685571, केरल	बीवीएससीएंडएच /केएयू/09	30.01.84
118	अनुप कुमार, पुत्र श्री टी.पी. पांडे	यूपीएसवीसी/ 5031/09	ग्राम— चतुरपुर, खिदिराबाद, काडीपुर, सुल्तानपुर, उ.प्र.	बीवीएससीएंडएच /एसवीवीयू/09	05.06.83
119	अनूप वाल्स, पुत्र श्री राजेंद्र वाल्स	एमपीएसवीसी /2608/09	जी— 138, कृषि नगर कॉलोनी, अधरताल, जबलपुर, म.प्र.	बीवीएससीएंडएच /जेएनकेवीवी/ 09	1.07.83
120	अनूप एस., पुत्र श्री पी.एन. शिवदासन	केएसवीसी/34 95/09	पूथूचिरायिल हाउस, अरपूकारा वेस्ट (डाक), कोट्टायम— 686008, केरल	बीवीएससीएंडएच /केएयू/09	10.10.84
121	अंशुल कुमार खरे, पुत्र श्री सुरेश कुमार खरे	एमपीएसवीसी /2653/10	द्वारा गुलाब गोस्वामी, म.न. 25, इंदिरा कॉलोनी, सिविल लाइंस, सागर— 470001, म.प्र.	बीवीएससीएंडएच /जेएनकेवीवी/09	02.6.84
122	अंशुल एस. पुत्र श्री धरमपाल	हरिएसवीसी/2 108	# 627, सेक्टर 15 (ए), हिसार, हरियाणा	बीवीएससीएंडएच /सीसीएसएचएयू/ 09	9.5.85

123	अंतला परवीनभाई लावजीभाई	जीवीसी / 749	'दर्शन', 23, बंसीधर नगर, स्ट्रीट नं. 3, देसाई नगर के निकट, एस.टी. बस स्टैंड के पीछे, जुनागढ— 362002, गुजरात	बीवीएससीएंडएच / जीएयू/81	30.5.54
124	अनु अरोडा, पुत्री श्री सुमीत बग्गा	कर्नाएसवीसी / 4354 / 09	बी-932, सोमा विंडफॉल अपार्ट., अमृताहल्ली, बेंगलुरु, कर्नाटक	बीवीएससीएंडएच / सीसीएसएचएयू / 99	4.1.76
125	अनु गोपाल, पुत्र श्री वी.के. गोपालन	केएसवीसी / 3575 / 09	अर्जुन हाउस, नरियानानी डाक, पोनकुन्म, कोट्टायम— 686506, केरल	बीवीएससीएंडएच / केएयू/09	16.05.86
126	अनु जोसेफ पेरेकट्टू, पुत्री श्री पी.डी. जोसेफ	केएसवीसी / 3547 / 09	पेरेकट्टू हाउस, पनाचीपारा, डाक पूंजर, कोट्टायम— 686581, केरल	बीवीएससीएंडएच / केएयू/09	11.04.85
127	अनु सुधाकरन, पुत्री श्री एन.के. सुधाकरन	केएसवीसी / 3564 / 09	नाडुगिलेडाथू हाउस, कुमार मंगलम (डाक), पारा जंक्शन, थोडुपुजाह, इडुक्की, केरल	बीवीएससीएंडएच / केएयू/09	29.05.86
128	अनुज कुमार, पुत्र श्री अश्विनी कुमार	यूपीएसवीसी / 5005 / 09	ग्राम- सिंधापूर खास, डाक- माहिल, तहसील- पोवायन, जिला शाहजहापुर, उ.प्र.	बीवीएससीएंडएच / एसकेयूएसएंडटी / 09	20.03.85
129	अनुपम दत्ता, पुत्र श्री क्षितींद्र मोहन दत्ता	त्रिपुराएसवीसी / 179 / 08	ग्राम एवं डाक- कंचनवाली, जिला- त्रिपुरा (उत्तर)	बीवीएससीएंडएच / सीएयू/08	9.4.82
130	अनुराधा गुप्ता, पुत्री श्री छज्जू राम गुप्ता	राजएसवीसी / 3632 / 09	36, बैंक कॉलोनी, अलवर— 301001, राजस्थान	बीवीएससीएंडएच / आरएयू/09	06.05.83
131	अनुराधा गुप्ता, पुत्री श्री गिरीश चंद्र गुप्ता	राजएसवीसी / 3630 / 09	पुरुनोत्तम लाल, शंकर आटा चक्की के निकट, मोहन नगर एक्सटेंशन, हिंडोन सिटी, करौली— 322230, राजस्थान	बीवीएससीएंडएच / आरएयू/09	07.01.83
132	अनुराग द्विवेदी, पुत्र श्री ओम प्रकाश द्विवेदी	राजएसवीसी / 3687 / 09	जुलानिया मोहल्ला, बाकानी, झालावाड़— 326022, राजस्थान	बीवीएससीएंडएच / एसवीवीयू/09	31.12.84
133	अनुशा साली, पुत्री श्री साली के.आर.	केएसवीसी / 35 68 / 09	कस्तूरकटिल हाउस, अदीमाली डाक, अदीमाली, इडुक्की— 685561, केरल	बीवीएससीएंडएच / केएयू/09	23.04.86
134	अनुश्री, पुत्री श्री पी. कृष्णानुनी	केएसवीसी / 35 40 / 09	पद्मश्री, मुंडूर (डाक), पलक्कड— 678592, केरल	बीवीएससीएंडएच / केएयू/09	25.04.85
135	अपराजिता चौधरी, पुत्री श्री भास्कर चौधरी	गोआएसवीसी / 154 / 10	वड्डी, राइया, सियोलिम, बारडेज, गोवा	बीवीएससीएंडएच / टीएनवीएंडएसयू / 06	
136	अपराजिता दास, पुत्री श्री माखन लाल दास	त्रिपुराएसवीसी / 183 / 08	द्वारा माखन लाल दास, डाक एवं ग्राम— पानीसागर, त्रिपुरा (उत्तर)	बीवीएससीएंडएच / सीएयू/08	25.6.83
137	अपरनाथी भावेश देवगिरि	जीवीसी / 2182	'सगन्नाथ कृप', सुभा सोसा. के पीछे, एटी तालकू, केरांड, जिला-जूनागढ, पिन 362220, गुजरात	बीवीएससीएंडएच / जीएयू/00	3.9.76

138	अपराजिता भट्ट, पुत्री डॉ. जगदीश चंद्र भट्ट	यूकेएसवीसी / 471 / 09	नक्षत्रलोक, मुकुल विहार, लाडात, हलद्वानो, जिला नैनीताल, उत्तराखंड	बीवीएससीएंडएच / जीबीपीयूएंडटी / 09	28.12.84
139	आराधना प्रियदर्शिनी, पत्नी श्री तपसरंजन प्रधान	ओएसवीसी / 2 320 / 09	एस 1 / 159, नीलादरी विहार, चंद्र शेखरपुर, भुबनेश्वर, उड़ीसा	बीवीएससीएंडएच / ओयूएटी / 09	25.11.84
140	आरथी वी., पुत्री श्री एन.बी. रमेश कुमार	केएसवीसी / 35 29 / 09	श्री बालसम, टीसी 12 / 1240, लॉ कॉलेज जंक्शन, वंचीयूर डाक, कुन्नुकुजी, थिरुवनंतपुरम - 695035, केरल	बीवीएससीएंडएच / केएयू / 09	01.01.86
141	अरविंध टी.पी. (के. वी. परमेश्वरन पिल्लै)	टीएनएसवीसी / 4483 / 09	14-33 (पुराना न. 14 / 3सी), आनंद निवास, रमनपरम्बू, ठुकाले-629175, कन्याकुमारी जिला, तमिलनाडु	बीवीएससी / टीएन यूवीएएस / 94	12.06.71
142	अर्चना आल्विन करकेटा, पुत्री श्री टी.आई करकेटा	सीएचएसवीसी / 523 / 10	एच.बी. राजीव नगर, शंकर नगर, रायपुर, छत्तीसगढ़	बीवीएससीएंडएच / आईजीकेवीवी / 0 9	09.08.85
143	अर्चना, पुत्री श्री आर.पी. सिंह चौहान	यूपीएसवीसी / 4948 / 09	मौहल्ला सूर्य नगर, बस्ती रोड, जेठरा जिला, एटा, उ.प्र.	बीवीएससीएंडएच / यूपीपीडीडीयूपीसी टीवी / 09	21.03.83
144	अर्चना सिन्हा, पुत्री श्री सितेंद्र कुमार	कर्नाएसवीसी / 4359 / 09	प्लॉट न.146, पहली मंजिल, वनश्री नगर, डांडेली, उत्तर कन्नड़ तालुक व जिला, कर्नाटक	बीवीएससीएंडएच / बीएयू / 05	1.3.80
145	अरदेशना जमनादास ठाकरशी भाई	जीवीसी / 655	बी / 7- अवकार फ्लैट, देवबाग, कुमारशाला के सामने, भावनगर, गुजरात	बीवीएससीएंडएच / जीएयू / 77	10.1.51
146	अरिवारसी आर. (पी. राजामनिक्कम)	टीएनएसवीसी / 4679 / 10	1 / ए 1, अरिवू इल्लम, पेरियार नगर, सेनदुरई, अरियालूर- 621714, तमिलनाडु	बीवीएससीएंडएच / टीएनयूवीएएस / 09	26.10.83
147	अर्जुन कुमार, पुत्र श्री एच.सी. काटियार	यूपीएसवीसी / 4999 / 09	ग्राम एवं डाक-सराय, प्रयाग, जिला-कन्नौज, उ.प्र.	बीवीएससीएंडएच / एनडीयूएंडटी / 09	31.05.83
148	आरोड़ा नीलेश जयकिशन	जीवीसी / 2213	3- मानसी सोसायटी, अजय टेनामेंट्स, सेक्शन-5, महादेव नगर, वस्त्रल रोड, अहमदाबाद - 382418, गुजरात	बीवीएससीएंडएच / जीएयू / 00	1.6.77
149	अर्पण प्रीत कौर, पुत्री श्री जसपाल सिंह पाल	पीबीएसवीसी / 2904 / 09	244, नॉर्थ एस्टेट, किशोरी राम अस्पताल के निकट, भटिंडा, पंजाब	बीवीएससीएंडएच / जीएडीवीएएसयू / 09	11.4.86
150	अरुण कुमार देवगण, पुत्र श्री कुंज बिहारी देवगण	सीएचएसवीसी / 483 / 09	जूनियर एम.आई. 18, बोधघाट कॉलोनी, जगदलपुर, छत्तीसगढ़	बीवीएससीएंडएच / आईजीकेवीवी / 9 0.91	01.04.67
151	अरुण कुमार गौड़, पुत्र श्री हरे प्रसाद गौड़	सीएचएसवीसी / 475 / 09	पशु चिकित्सालय परिसर, नारायणपुर, छत्तीसगढ़	बीवीएससीएंडएच / जेएलएनकेवीवी / 75	03.05.52
152	अरुण कुमार एन. एस., पुत्र श्री पी. नागराजन अंसारी	केएसवीसी / 34 92 / 09	म.न. 8, पवित्र नगर, मनकौड डाक, थिरुवनंतपुरम, केरल	बीवीएससीएंडएच / केएयू / 09	28.08.83

153	अरुण टी.आर., पुत्री श्री टी.आर. रमेश	केएसवीसी / 35 11 / 09	थाचापल्ली, डाक वडनापल्ली, थिसूर— 680614, केरल	बीवीएससीएंडएच / केएयू / 09	03.05.86
154	अरुण ठाकुर, पुत्र श्री एच.सी. ठाकुर	एचवीसी / 887 / 09	ग्राम— किलरा, डाक— महोगे, थाना— थियोग, जिला— शिमला, हि.प्र.	बीवीएससीएंडएच / सीएसकेएचपीकेवी / 09	12.10.86
155	अरुण ए. (एम. असोकन)	टीएनएसवीसी / 4591 / 09	मनमलई मुरुगन कोइल स्ट्रीट, चेंगम डाक व तालुक, थिरुवन्नामलई जिला— 606709, तमिलनाडु	बीवीएससीएंडएच / टीएनयूवीएएस / 09	18.11.85
156	अरुणा एन.वी., पुत्री श्री विक्टर अरुल रेजना	केएसवीसी / 35 07 / 09	अरुण निवास, उंडापारा, पूवाचल डाक, कट्टकाडा, थिरुवनंतपुरम —695575, तमिलनाडु	बीवीएससीएंडएच / एमयू / 09	04.07.86
157	अरुणा एन.वी. (ए. विक्टर अरुल रत्ना राजा)	टीएनएसवीसी / 4627 / 09	5—170, ए.आर. मंजिल, वेट्टूकट्टूविलई, पलूर, करुंगल डाक, कन्याकुमारी जिला— 629157, तमिलनाडु	बीवीएससीएंडएच / टीएनयूवीएएस / 09	04.07.86
158	अरुणदीप पी.एस., पुत्र श्री ससिधरन पी.पी.	केएसवीसी / 35 46 / 09	पुथियेदन हाउस, कुट्टिकड डाक, चलकुडी, थिसूर— 680724, केरल	बीवीएससीएंडएच / केएयू / 09	15.05.87
159	अरुण कुमार के. एस., पुत्र श्री कृष्णामूर्ति	कर्नाएसवीसी / 4314 / 09	रेवनासिद्धेश्वर रोड, अज्जमपुरा —577547, ताइकेरे तालुक, चिक्कमगलूर जिला, कर्नाटक	बीवीएससीएंडएच / केवीएफएसयू / 09	9.1.87
160	अरुणविक्रम के. (ए. कंडासामी)	टीएनएसवीसी / 4585 / 09	3 / 22, कुडी स्ट्रीट, कलंगनी डाक, नमक्कल जिला— 637014, तमिलनाडु	बीवीएससीएंडएच / टीएनयूवीएएस / 09	30.07.86
161	अरवादिद्या विशाल दीप भगवानजी भाई	जीवीसी / 2998 / 09	मकान न. 36, उमा सोसायटी, तालुक हलवड, जिला सुरेंद्र नगर— 363330, गुजरात	बीवीएससीएंडएच / एसडीएयू / 09	07.03.87
162	अरविंद कुमार नंदनवर, पुत्र श्री बी. एल. नंदनवर	सीएचएसवीसी / 518 / 10	म.न. 631, राम नगर, सुपेला, भिलई, छत्तीसगढ़	बीवीएससीएंडएच / आईजीकेवीवी / 0 9	18.08.84
163	अरविंद कुमार पांडे, पुत्र श्री एस.बी. पांडे	सीएचएसवीसी / 525 / 10	डब्ल्यू.आर.एस. कॉलोनी, म.न. 129 / 6, टीओ 2, रायपुर, छत्तीसगढ़	बीवीएससीएंडएच / आईजीकेवीवी / 0 9	23.01.83
164	अरविंद कुमार, पुत्र श्री अमर सिंह	राजएसवीसी / 3639 / 09	गाम—मनोथडी, डाक—बाघोरा, तहसील— किशनगढ़बास, अलवर— 301405, राजस्थान	बीवीएससीएंडएच / सीसीएसएचएयू / 09	15.01.84
165	अरविंद कुमार, पुत्र श्री बनवारी लाल	राजएसवीसी / 3599 / 09	ग्राम एवं डाक—राजपुरा, वाया बलारन, तहसील—लक्ष्मनगढ़, सीकर— 332401, राजस्थान	बीवीएससीएंडएच / आरएयू / 09	07.01.82
166	अरविंद कुमार वर्मा, पुत्र श्री बाबू राम	यूपीएसवीसी / 4951 / 09	ग्राम— ओडराहा, डाक भीखमपुर, जिला— लखीमपुर, उ.प्र.	बीवीएससीएंडएच / यूपीपीडीडीयूपीसी वीवी / 09	16.08.86
167	अरविंदराज एन. (आर. नागराजन)	टीएनएसवीसी / 4621 / 09	18 / 8, कंडासामी स्ट्रीट, बजानई मैडम, किच्चीपलायम, सलेम— 636015, तमिलनाडु	बीवीएससीएंडएच / टीएनयूवीएएस / 09	24.05.84

168	आशा विजयन, पुत्री श्री वियज कुमार एस.	केएसवीसी / 35 02 / 09	अश्वथी भवन, धानी निन्ना विला, कोलीयूर, मुट्टाकडु डाक, थिरुवनंतपुरम, केरल	बीवीएससीएंडएच / केएयू / 09	25.07.85
169	आशीष अग्रवाल, पुत्र श्री मनोज गुप्ता	एमपीएसवीसी / 2595 / 09	द्वारा अनूप गुप्ता, बी.आर. गार्डस के निकट, नैना गढ़ ब्रिज, मोरैना, म.प्र.	बीवीएससीएंडएच / एमपीईएमवीवी / 0 9	2.12.86
170	आशीष गुप्ता, पुत्र श्री चमम लाल गुप्ता	एचवीसी / 888 / 09	ग्राम—साघौत, डाक— साघौत, तहसील—सरकाघाट, जिला— मंडी, हि.प्र.	बीवीएससीएंडएच / सीएसकेएचपीकेवी / 09	17.04.86
171	आशीष कुलश्रेष्ठ, पुत्र श्री शांति स्वरूप कुलश्रेष्ठ	राजएसवीसी / 3730 / 10	“शांति सदन”, पंचायत समिति कार्यालय के निकट, बाड़ी, धौलपुर— 328021, राजस्थान	बीवीएससीएंडएच / एसकेआरएयू / 10	27.07.84
172	आशीष कुमार, पुत्र श्री जगदीश प्रसाद	यूपीएसवीसी / 5061 / 09	355 / 469, बरीहाट जिला, बहराइच, उ.प्र.	बीवीएससीएंडएच / टीएनवीएंडएएसयू / 09	18.08.84
173	आशीष कुमार, पुत्र श्री माधव राव बैकर	सीएचएसवीसी / 516 / 10	जोन न. 3, स्ट्रीट न.—8, सिंधु गढ़ निर्माण समिति, न्यू आदर्श नगर, दुर्ग, छत्तीसगढ़	बीवीएससीएंडएच / आईजीकेवीवी / 0 9	11.07.87
174	आशीष कुमार सिंह, पुत्र श्री भदौरिया आर.बी.एस.	कर्नाएसवीसी / 4309 / 09	न. 10 / 1, जेकोस स्टाफ क्वार्टर, वन्नारपेट, विवेकनगर— 560047, बंगलूरु अर्बन, कर्नाटक	बीवीएससीएंडएच / केवीएफएसयू / 09	1.7.86
175	आशीष महाजन, पुत्र श्री अशोक कुमार	कर्नाएसवीसी / 4283 / 09	न. 19—6—58, द्वारा: साईसदन, गौली लेआउट, शिवनगर— 585401, बिदर तालुक व जिला, कर्नाटक	बीवीएससीएंडएच / केवीएफएसयू / 09	27.3.83
176	आशीष सुब्रमण्यम सी., पुत्र श्री सी.के. सुब्रमण्यम	केएसवीसी / 35 27 / 09	नेस्ट, ओन्नापरम्बू, पेरिन्जनम, थिसूर— 680686, केरल	बीवीएससीएंडएच / केएयू / 09	14.06.85
177	अशिषेककुमार सिंह, पुत्र श्री सिद्धेश्वर प्रसाद सिंह	जेवीसी / 635 / 09	क्वा.न. 3188, एसटी—09, सेक्टर— 4ई, घास, बोकारो— 827004, झारखंड	बीवीएससीएंडएच / बीएयू / 09	05.06.85
178	आशानी अली, पुत्री श्री एम. अलीकुट्टी	केएसवीसी / 35 33 / 09	एशली निवास, मुस्लिम स्ट्रीट, कोट्टाराकारा, कोल्लम— 691506, केरल	बीवीएससीएंडएच / केएयू / 09	05.02.85
179	अशोक बैधा, पुत्र श्री मेघा राम बैधा	राजएसवीसी / 3759 / 10	शिव स्ट्रीट, पुरा मौहल्ला, जालोर— 343001, राजस्थान	बीवीएससीएंडएच / आरएयू / 09	13.03.82
180	अशोक कुमार जाट, पुत्र श्री भंवर लाल जाट	राजएसवीसी / 3712 / 10	ग्राम—रैला, तहसील—बानेरा, भीलवाड़ा— 311024, राजस्थान	बीवीएससीएंडएच / एसकेआरएयू / 10	21.04.84
181	अशोक कुमार पाटिल, पुत्र श्री ओंकार पाटिल	एमपीएसवीसी / 2606 / 09	ग्राम— हीरापुर, डाक—कारपुर, खांडवा, म.प्र.	बीवीएससीएंडएच / जेएनकेवीवी / 09	24.2.82
182	अशोक कुमार, पुत्र श्री हरि राम	राजएसवीसी / 3690 / 09	4—ई, 385, जे.एन.वी. कॉलोनी, बीकानेर— 334003, राजस्थान	बीवीएससीएंडएच / आरएयू / 09	15.06.83

183	अशोक कुमार, पुत्र श्री नबाब सिंह	राजएसवीसी / 3697 / 09	ग्राम एवं डाक— दुबारा, धौलपुर, राजस्थान	बीवीएससीएंडएच / जेएनकेवीवी / 09	25.09.82
184	अशोक कुमार, पुत्र श्री धरम पाल	हरिएसवीसी / 2 110	ग्राम एवं डाक— पंडु पिंडारा, जिला— जींद, हरियाणा	बीवीएससीएंडएच / सीसीएसएचएयू/ 09	10.4.85
185	अशोक कुमार सुले, पुत्र श्री मांग	एमपीएसवीसी / 2601 / 09	ग्राम— पचाया, डाक— जोडवा, थाना— भीखनगांव, खारगोन, म.प्र.	बीवीएससीएंडएच / जेएनकेवीवी / 09	8.6.84
186	अशोक कुमार, पुत्र श्री वीर सिंह	एचवीसी / 891 / 09	ग्राम एवं डाक—जाहू, तहसील— भोरंज, जिला— हमीरपुर, हि.प्र.	बीवीएससीएंडएच / सीएसकेएचपीकेवी / 09	06.07.86
187	आशुतोष ठाकुर, पुत्र श्री मनमोहन सिंह	एचवीसी / 869 / 09	ग्राम एवं डाक—नैन पुखार, तहसील— देहरा, जिला— कांगड़ा, हि.प्र.	बीवीएससीएंडएच / सीएसकेएचपीकेवी / 09	06.11.85
188	अश्विनी जदाऊँ, पुत्र श्री आर.एस. जदाऊँ	यूपीएसवीसी / 5029 / 09	1247, केशव पुरम आवास विकास, कल्याणपुर, कानपुर, उ.प्र.	बीवीएससीएंडएच / एसवीवीयू / 09	21.03.83
189	अश्विनी कुमार लाम्बा, पुत्र श्री जयबीर सिंह	हरिएसवीसी / 2 111	भरमा कॉलोनी, डिनोड रोड, भिवानी, हरियाणा	बीवीएससीएंडएच / सीसीएसएचएयू/ 09	26.5.83
190	अश्विनी कुमार, पुत्र श्री रामधन	हरिएसवीसी / 2 101	ग्राम एवं डाक—सिसाना, जिला— सोनीपत, हरियाणा	बीवीएससीएंडएच / सीसीएसएचएयू/ 09	6.11.84
191	अश्वथा एम.बी., पुत्र श्री बासवलिंगप्पा एम.बी.	कर्नाएसवीसी / 4287 / 09	मल्लेनाहल्ली, कब्बाला— 577527, होसादुर्ग तालुक, चित्रदुर्गा जिला, कर्नाटक	बीवीएससीएंडएच / केवीएएफएसयू/ 09	1.6.85
192	अश्विन जयराजन	महाएसवीसी / 8159 / 09	मधुकुंज, 12 / 1, जयनगर, दत्तापद रोड, बोरोवली ईस्ट, मुम्बई— 400066, महाराष्ट्र	बीवीएससीएंडएच / एमएएंडएफएसयू / 08	29.06.85
193	अश्वथनारायणप्पा वी., पुत्र श्री अश्वथप्पा	कर्नाएसवीसी / 4291 / 09	न. 56 / 1, वीरम्मनहल्ली, अलीपुरा—56215, गौरीबिदनूर तालुक, चिक्कबल्लापुरा जिला, कर्नाटक	बीवीएससीएंडएच / केवीएएफएसयू/ 09	10.9.84
194	आतम अभय टोप्पो, पुत्र श्री इरियस टोप्पो	जेवीसी / 642 / 09	नरदूली, भंडरा, लोहारडागा— 835306, झारखंड	बीवीएससीएंडएच / बीएयू / 09	10.07.85
195	अथीरा जॉर्ज, पुत्री श्री एम.एम. जॉर्ज	केएसवीसी / 34 96 / 09	प्लामथोटिटियल हाउस, अथिरमपुज़ाह, कोट्टायम— 686562, केरल	बीवीएससीएंडएच / केएयू / 09	03.05.84
196	अथिरा प्रकाश, पुत्री श्री के.बी. प्रकाश	केएसवीसी / 35 23 / 09	पुथुसेरी हाउस, पनाचीकडु, कुज़ीमट्टोम डाक, कोट्टायम — 686533, केरल	बीवीएससीएंडएच / केएयू / 09	01.07.85
197	अतुल कुमार गुप्ता, पुत्र श्री के.एम. लाल गुप्ता	यूपीएसवीसी / 4973 / 09	नया दुर्गा मंदिर, सुहास नगर चौराहा, हिमायपुर रोड, फिरोज़ाबाद, उ.प्र.	बीवीएससीएंडएच / एनडीयूएंडडी / 09	03.02.82

198	अवधेश निरंजन, पुत्र श्री एल.एस. निरंजन	यूपीएसवीसी / 5067 / 10	म.न. 542, मोह. आजादपुरा, जिला—ललितपुर, उ.प्र.	बीवीएससीएंडएच / जीएडीवीयू / 09	06.03.82
199	अवधेश निरंजन, पुत्र श्री लखन सिंह निरंजन	पीबीएसवीसी / 2866 / 09	कमरा न. 224, होस्टल न. 8, पीएयू, लुधियाना, पंजाब	बीवीएससीएंडएच / जीएडीवीएएसयू / 09	6.3.82
200	अवनीश कुमार उपाध्याय, पुत्र श्री एच.एल. उपाध्याय	पीबीएसवीसी / 2865 / 09	कमरा न. 123, होस्टल न. 8, जीएडीवीएएसयू, लुधियाना, पंजाब	बीवीएससीएंडएच / जीएडीवीएएसयू / 09	7.2.83
201	अवधेश, पुत्र श्री धनपत सिंह	हरिएसवीसी / 2 114	17 / 23, काठ मंडी, रोहतक, हरियाणा	बीवीएससीएंडएच / सीसीएसएचएयू / 09	2.10.84
202	अवहद शरद रामभाऊ	महाएसवीसी / 8320 / 10	एटी: सुतारवाड़ी, डाक धवल पुरी, तालुक पारनेर, जिला अहमदनगर—414103, महाराष्ट्र	बीवीएससीएंडएच / एमएंडएफएसयू / 09	05.01.85
203	अवजीत कुमार सिंह, पुत्र श्री अमरदेव सिंह	यूपीएसवीसी / 4966 / 09	8 / 9 / 80 ए. बेगम गंज, दालमंडी मकबरा, जिला— फैजाबाद, उ.प्र.	बीवीएससीएंडएच / एनडीयूएंडटी / 09	01.07.82
204	अविनाश आर.जी., पुत्र श्री रूद्रप्पा आर.जी.	कर्नाएसवीसी / 4274 / 09	रामागोंडनाहल्ली, दावणगेरे— 577514, दावणगेरे जिला, कर्नाटक	बीवीएससीएंडएच / केवीएफएसयू / 09	7.5.86
205	अवध बिहारी सिंह, पुत्र स्व. श्री रामचंद्र सिंह	जेवीसी / 644 / 10	वेटरिनरी सर्जन, वेटेरिनरी अस्पताल, पूर्वी सिंघभूम, चाईबासा— 833201, झारखंड	बीवीएससीएंडएच / आरएयू / 75	16.06.53
206	आयुष सिंह, पुत्र श्री महेंद्र सिंह नेगी	यूकेएसवीसी / 483 / 09	मल्ला गोरखपुर, वार्ड न. 19, कनाल रोड, हलद्वानी, जिला नैनीताल, उत्तराखंड	बीवीएससीएंडएच / ओयूएंडटी / 09	23.12.84
207	बी.सी. नारायण रेड्डी, पुत्र श्री बी. पी. नागी रेड्डी	एपीएसवीसी / 04835 / 09	थोंडूर ग्राम, डाक व (एम), पूलीवेंडुला तालुक, कडपा जिला — 516401, आंध्र प्रदेश	बीवीएससीएंडएच / एसवीवीयू / 09	20.01.83
208	बी. चंद्र शेखर, पुत्र श्री बी. नीलकांतु	एपीएसवीसी / 04955 / 09	पेड्डावीथी, कोरासवाड़ा ग्राम, श्रीकाकुलम जिला— 532214, आंध्र प्रदेश	बीवीएससीएंडएच / एसवीवीयू / 09	18.11.84
209	बी. चन्ना केसवुलु नाइक, पुत्र श्री बी. हनेमी नाइक	एपीएसवीसी / 04880 / 09	एन.वी. थांडा, रेड्डी पल्ली डाक, नल्लामदा (एम), अनंतपुर जिला, आंध्र प्रदेश	बीवीएससीएंडएच / एसवीवीयू / 09	10.09.83
210	बी. ज्योत्सना, पुत्री श्री बी. वेंकटेश्वर राव	एपीएसवीसी / 04970 / 09	गुल्लापल्ली (डाक), चेरुकुपल्ली (एम), गुंटूर जिला, आंध्र प्रदेश	बीवीएससीएंडएच / एसवीवीयू / 09	02.05.87
211	बी.के. वर्मा, पुत्र श्री राम वर्मा	यूपीएसवीसी / 4940 / 09	170, पाटली नगर, रामा देवी, कानपुर, उ.प्र.	बीवीएससीएंडएच / एनडीयूएंडटी / 09	30.10.80
212	बी. कल्पना रेड्डी, पुत्री श्री बी. पिच्ची रेड्डी	एपीएसवीसी / 04914 / 09	म.न. 9-3-151/1, पुराना क्लब रोड, खम्मम— 507001, आंध्र प्रदेश	बीवीएससीएंडएच / एसवीवीयू / 09	16.09.86

213	बी. कृष्णा, पुत्र श्री बी. चैयू रामइयाह	एपीएसवीसी / 04881 / 09	एन.जी.ओ कॉलोनी, डी.न. 9 / 772, कानीगिरि, प्रकासम - 523230, आंध्र प्रदेश	बीवीएससीएंडएएच / एसवीवीयू / 09	14.08.85
214	बी. परीश कुमार, पुत्र श्री बी. वेनू गोपाल	एपीएसवीसी / 04920 / 09	सरकारी अस्पताल के क्वार्टर्स, सत्यावीदू, चित्तूर जिला, आंध्र प्रदेश	बीवीएससीएंडएएच / एसवीवीयू / 09	12.04.83
215	बी. पवन कुमार रेड्डी, पुत्र श्री बी. वेंकट रेड्डी	एपीएसवीसी / 04998 / 09	म.न. 3-95, येथम ग्राम, कोडेर (एम), महबूबनगर जिला- 509102, आंध्र प्रदेश	बीवीएससीएंडएएच / एसवीवीयू / 09	10.08.83
216	बी. प्रसन्ना बाई, पुत्री श्री बी. बोज्या नाइक	एपीएसवीसी / 04822 / 09	पेडापल्ली थंडा डाक, सत्या साई मंडल, अनंतपुर जिला, आंध्र प्रदेश	बीवीएससीएंडएएच / एसवीवीयू / 09	07.06.85
217	बी. राम्या, पुत्री श्री बी. भुजंग राव	एपीएसवीसी / 04926 / 09	म.न. 18-779, अशोक नगर, मिरयलगुडा, नालगोंडा जिला- 508207, आंध्र प्रदेश	बीवीएससीएंडएएच / एसवीवीयू / 09	16.05.85
218	बी. रंगम्मा, पुत्री श्री बी. सिगइयाह	एपीएसवीसी / 04975 / 09	पोकुरु डाक, वी.वी. पलेम (एम), प्रकासम जिला 523113, आंध्र प्रदेश	बीवीएससीएंडएएच / एसवीवीयू / 09	16.05.85
219	बी.एस. यादव, पुत्र श्री कृष्णा यादव	यूपीएसवीसी / 4926 / 09	मौह. अग्रवाल स्ट्रीट न. 4, बाई पास रोड, मैनपुरी, उ.प्र.	बीवीएससीएंडएएच / यूपीपीडीडीयूपीसी वीवी / 09	15.01.86
220	बी. सम्पत कुमार, पुत्र श्री बी. ईश्वरइयाह	एपीएसवीसी / 04894 / 09	म.न. 12-1-485 / 37, न्यू इंदिरा नगर, सीताराम बाग, हैदराबाद-6, आंध्र प्रदेश	बीवीएससीएंडएएच / एसवीवीयू / 09	13.05.85
221	बी. सिवा रामी रेड्डी, पुत्र श्री बी. रामी रेड्डी	एपीएसवीसी / 04834 / 09	* 7 / 307-एन, भाग्य नगर कॉलोनी, कडम्पा- 516002, आंध्र प्रदेश	बीवीएससीएंडएएच / एसवीवीयू / 09	05.06.84
222	बी. उमामहेश्वरी, पुत्री श्री बी. अंजी रेड्डी	एपीएसवीसी / 04915 / 09	मामिलागुडेम (डाक), मोथे (एम), नालगोंडा जिला- 508212, आंध्र प्रदेश	बीवीएससीएंडएएच / एसवीवीयू / 09	27.03.83
223	बी.वी.वी.सत्यनारायण मूर्ति, पुत्र श्री बी. अप्पा राव	एपीएसवीसी / 04912 / 09	सब-पोस्ट मास्टर, पेडापुरम टाउन पोस्ट ऑफिस, पेडापुरम, पूर्वी गोदावरी जिला- 533437, आंध्र प्रदेश	बीवीएससीएंडएएच / एसवीवीयू / 09	02.07.84
224	बी. विद्या, पुत्री श्री बी. श्याम सुंदर रेड्डी	एपीएसवीसी / 04916 / 09	धनलक्ष्मी कॉलोनी, गजवेल, मेडक जिला, आंध्र प्रदेश	बीवीएससीएंडएएच / एसवीवीयू / 09	01.06.84
225	बी. विनय, पुत्र श्री बी. नरेंद्र	एपीएसवीसी / 04922 / 09	म.न. 3-4-706 / 1, न्यू रायपुरा, इंदिरा नगर, हनम कौंडा, वारंगल, आंध्र प्रदेश	बीवीएससीएंडएएच / एसवीवीयू / 09	23.01.85
226	बबारिया चिमनलाल नाथालाल	जीवीसी / 1210	धोराजी, खरवाड़ प्लॉट, गरबी चौक, जिला राजकोट, गुजरात	बीवीएससीएंडएएच / जीएयू / 89	12.6.64
227	बाबरिया दिनेश कुमार पोपट भाई	जीवीसी / 1936	द्वारा:बाबरिया पोपटभाई जादव भाई, एटी डाक:मोती परबदी, वाया जेतलसर (जे), तालुक धाराजी, जि.राजकोट-360360	बीवीएससीएंडएएच / जीएयू / 96	17.11.73

228	बाबू एम., पुत्र श्री मुनिवेंकटस्वामी एस.	कर्नाएसवीसी / 4317 / 09	चोक्कनडाहल्ली— 562102, तालुक सिदलाघट्टा, जिला चिक्कबल्लापुरा, कर्नाटक	बीवीएससीएंडएच / केवीएफएसयू / 09	30.7.86
229	बाबू पी. (पी. हजारथइयाह)	टीएनएसवीसी / 4666 / 09	16/4, एमईएस व्वाटर्स, सेवन वैल्स पम्प स्टेशन, पुराना जेल रोड, मिंट, चेन्नई— 600001, तमिलनाडु	बीवीएससीएंडएच / टीएनयूवीएस / 09	27.09.86
230	बादल सिंह, पुत्र श्री आर.बी. सिंह	यूपीएसवीसी / 5054 / 09	ग्राम— करौर, डाक— करौर, जिला— जौनपुर, उ.प्र.	बीवीएससीएंडएच / जेएनकेवीवी / 09	25.05.79
231	बदमालिया विजय कुमार नाजाभाई	जीवीसी / 301	प्रासीलपार्क, ब्लॉक न.—40, सौराष्ट्र यूनिवर्सिटी, यूनिवर्सिटी रोड, राजकोट— 5, गुजरात	बीवीएससीएंडएच / जीएयू / 73	2.5.49
232	बड़गूजर हार्दिक राजेंद्र	जीवीसी / 3042 / 09	सी—31, संजयनगर कॉलोनी, सुतारपदा, तावेरावल, जिला— जूनागढ़, गुजरात	बीवीएससीएंडएच / एएयू / 09	06.05.87
233	बागले शैलेश सिद्रमप्पा	महाएसवीसी / 8225 / 09	3/4, भूषण नगर, वांगी रोड, तालुक व जिला सोलापुर— 413004, महाराष्ट्र	बीवीएससीएंडएच / एमएंडएफएसयू / 09	01.06.87
234	बाहिरे संघरत्ना विश्वनाथ	महाएसवीसी / 8265 / 09	एटी: वाधीवाड़ा, भानखेड़ा, डाक, सेंगांव तालुक, हिंगोली जिला— 431513, महाराष्ट्र	बीवीएससीएंडएच / एमएंडएफएसयू / 09	01.05.82
235	बाल कृष्ण दावा, पुत्र श्री चगन लाल	एमपीएसवीसी / 2596 / 09	एल—197, भारती निकेतन, गोविंदपुरा, भोपाल, म.प्र.	बीवीएससीएंडएच / जेएनकेवीवी / 57	3.3.35
236	बालाजी पी. (के.पी. प्रभाकरन)	टीएनएसवीसी / 4655 / 09	82, वार्ड न. 6, थिरुवल्लुवर, तीसरा मेन स्ट्रीट, चिदाम्बरम, कुडालोर—608001, तमिलनाडु	बीवीएससीएंडएच / टीएनयूवीएस / 09	19.06.85
237	बालकृष्णन आर. (सी. राजेंदिरन)	टीएनएसवीसी / 4575 / 09	61/35, पुडुवलावुपट्टी, अरियूरनाडू, कोल्ली हिल्स, नमक्कल जिला, तमिलनाडु	बीवीएससीएंडएच / टीएनयूवीएस / 09	02.04.86
238	बालाकृष्णन यू.वी. (टी.वी.यू. वारियर)	टीएनएसवीसी / 4665 / 09	34, सर माधवन नायर रोड, महालिंगापुरम, चेन्नई— 600034, तमिलनाडु	बीवीएससी / केयू / 68	05.06.42
239	बालामुरुगन एन. (एम.नटराजन)	टीएनएसवीसी / 4543 / 09	8/377, सेंगाडू, वेलालापुरम डाक, इडापडी तालुक, सलेम — 636306, तमिलनाडु	बीवीएससीएंडएच / टीएनयूवीएस / 09	26.04.85
240	बालासुब्रमण्यम एस. (पी. शिवशंकरन)	टीएनएसवीसी / 4482 / 09	प्लॉट न. 2716, एएम ब्लॉक, 12वां मेन रोड, वार्ड— 7वीं स्ट्रीट, अन्ना नगर (वेस्ट), चेन्नई— 600040, तमिलनाडु	बीवीएससी / टीएनयू / 86	14.03.62
241	बालासुब्रमण्य एन. एस., पुत्र श्री नागराज आर.	कर्नाएसवीसी / 4261 / 09	न. 842, पहला मेन रोड, छठा बी क्रॉस, केम्पे गौडा नगर, तालुक दासराहल्ली, बेंगलुरु — 57, कर्नाटक	बीवीएससीएंडएच / केवीएफएसयू / 09	16.8.86
242	बालाविग्नेश्वरन एम. (के. मोहनराम)	टीएनएसवीसी / 4595 / 09	9/2 बी, नेसावालर स्ट्रीट, रामनाथपुरम तालुक व जिला— 6235001, तमिलनाडु	बीवीएससीएंडएच / टीएनयूवीएस / 09	24.03.87

243	बलधा हिरेन कुमार दामजीभाई	जीवीसी / 2238	किशन प्लॉट, गॉडल रोड, जामकमडोराना, जिला— राजकोट— 360405, गुजरात	बीवीएससीएंडएच / जीएयू / 00	7.7.78
244	बलराम, पुत्र श्री चरन लाल	एमपीएसवीसी / 2610 / 09	द्वारा श्री मोहन लाल, सिंगोटिया, नई आबादी, कुकडाजगत, छिंदवाड़ा, म.प्र.	बीवीएससीएंडएच / जेएनकेवीवी / 09	10.6.75
245	बलतेज सिंह, पुत्र श्री मिल्खा सिंह	पीबीएसवीसी / 2870 / 09	ग्राम एवं डाक—पाखोपुर, जिला तरनतारन, वाया चोहला साहिब, पंजाब	बीवीएससीएंडएच / जीएडीवीएएसयू / 09	15.5.87
246	बमानिया संजीव कुमार हीरालाल	जीवीसी / 2272	16, सूर्य नगर सोसायटी, एसटी स्टैंड के निकट, गोधरा, पंचमहल, गुजरात	बीवीएससीएंडएच / जीएयू / 00	16.12.77
247	बंदामिकी पाहवा, पुत्री श्रीमती बी. पाहवा	मेघएसवीसी / 2 67 / 09	मूपिलाइतसयिर, ख्लेइथिरशी, बीपीओ थडलास्केइन, जयतिया हिल्स, मेघालय	बीवीएससीएंडएच / सीएयू / 09	4.3.85
248	बंदीवार विजय गंगाराम	महाएसवीसी / 8155 / 09	द्वारा:पंढारीनाथ वेंकटराव सुघव,अमित निवास,डाथनगर, रामपुर रोड, देगलूर,ता. देगलूर, जि. नांडेड 431717, महाराष्ट्र	बीवीएससीएंडएच / एमएएंडएफएसयू / 03	04.12.77
249	बंगार योगेश चंद्रकांत	महाएसवीसी / 8312 / 10	बंगार रेजिडेंस, पिम्पलगांव (ख), तालुक अम्बेगांव, जिला पुणे— 410503, महाराष्ट्र	बीवीएससीएंडएच / एमएएंडएफएसयू / 09	11.07.87
250	बंसोड रूतुजा रमेश	महाएसवीसी / 8178 / 09	28, अत्रेय लेआउट, नागपुर— 440022, महाराष्ट्र	बीवीएससीएंडएच / एमएएंडएफएसयू / 09	01.07.85
251	बड़ा प्रकाशभाई सरदारभाई	जीवीसी / 3102 / 10	एटी एवं डाक—नलशेरी, तालुक— विजयनगर, जिला— साबरकंठा, गुजरात	बीवीएससीएंडएच / एएयू / 10	17.05.87
252	बारद भूरसिंह चंदासिंह	जीवीसी / 1616	कर्मपेठ क्लिनिक, मेन बाजार, एटी / डाक—दांता, जिला— बनासकंठा, पिन— 385120, गुजरात	बीवीएससीएंडएच / जीएयू / 93	10.8.61
253	बारैया मनोज भांजीभाई	जीवीसी / 2245	“किरन”, शास्त्रीनगर, डॉक्टर भिलाष हाउस के पीछे, रवापार रोड, मोरबी—363641, गुजरात	बीवीएससीएंडएच / जीएयू / 00	17.7.78
254	बरसारा सुरेशभाई मावजीभाई	जीवीसी / 2110	एटी एवं डाक— खारेदा, तालुक— मोरबी, जिला— राजकोट 363642, गुजरात	बीवीएससीएंडएच / जीएयू / 98	9.3.72
255	बरबाचिया प्रभातभाई चानाभाई	जीवीसी / 1906	एटी— आलियाबाद, नवापारा, मोमागे कृपा, तालुक व जिला— जामनगर, गुजरात	बीवीएससीएंडएच / जीएयू / 95	19.12.70
256	रिया विट्ठल सिंह दालसुखभाई	जीवीसी / 1724	एटी—खानपुर, डाक—वडोडरा, तालु.—गोधरा,जिला:पंचमहल, पिन— 389120, गुजरात	बीवीएससीएंडएच / जीएयू / 94	1.6.71
257	बारोट ललित कुमार रतिलाल	जीवीसी / 706	अचला, 6,साबरकुंज सोसा., वैशाली सिनेमा के निकट, हिम्मतनगर— 383001, जिला साबरकंठा, गुजरात	बीवीएससीएंडएच / जीएयू / 83	12.12.59

258	बारोट रजनीकांत भाई पनुलाल	जीवीसी / 530	नवपुरा, सब्जीमंडी के निकट, देतरोज रोड, एटी व तालुक— कडी, जिला—मेहसाना, पिन— 382715, गुजरात	बीवीएससीएंडएच / जीएयू / 80	8.9.56
259	बारोट वीरल कुमार भगवान दास	जीवीसी / 2999 / 09	एटी एवं डाक— पिलुचा, तालुक— वडगाम, जिला— बनासकंठा, गुजरात	बीवीएससीएंडएच / एसडीएयू / 09	10.01.87
260	बारोट विशाल महेश कुमार	जीवीसी / 3079 / 09	ए-45, विजय पार्क सोसायटी, गोरनोकुवो के पास, मणिनगर (पूर्व), अहमदाबाद, गुजरात	बीवीएससीएंडएच / एएयू / 09	22.08.82
261	बरुआ ज्योति रेखा मजिंदर, पुत्र श्री यू. च. मजिंदर बरुआ	एसएसएम / 246 2 / 09	द्वारा: उमेश च. मजिंदर बरुआ, म.न. 50, कृष्णपुर, ए.जी. कार्यालय के पास, बेलटोला, गुवाहाटी— 29, असम	बीवीएससीएंडएच / एएयू / 09	12.12.84
262	बरुआ स्तुति, पुत्र श्री प्रसांत कुमार बरुआ	एसएसएम / 245 5 / 09	द्वारा श्री पद्म दास, म.न. 1, बाई लेन—2, चंदन नगर, सिक्स माइल गोवाहाटी, असम	बीवीएससीएंडएच / एएयू / 09	18.12.84
263	बरवालिया भरत कुमार परशोत्तमभाई	जीवीसी / 1886 / 09	14, जिगर पार्क सोसा., ओधव, निकोल गाम रोड, उत्तम नगर, अहमदाबाद, गुजरात	बीवीएससीएंडएच / जीएयू / 96	03.03.72
264	बसंती जेना, पुत्री श्री ब्रजेंद्र कुमार जेना	ओएसवीसी / 2 287 / 09	एटी नागपाल वार्ड न. 2, डाक — उदाला, जिला— मयूरभंज, उड़ीसा	बीवीएससीएंडएच / ओयूएटी / 09	03.08.84
265	बासप्पा एन., पुत्र श्री वीरप्पा गौडा एन.	कर्नाएसवीसी / 4225 / 09	तीसरा क्रॉस, प्रथम मेन, श्रावथी नगर, शिमोगा— 577201, कर्नाटक	बीवीएससी / यूएसएस बंगलौर / 80	20.10.56
266	बासवन्ना गौडा एच. जी., पुत्र श्री कुभेरा गौडा एच.जी.	कर्नाएसवीसी / 4299 / 09	न. 155, हीरे कुम्बला गुंटे— 583218, तालुक कुडलिगी, जिला बेलारी, कर्नाटक	बीवीएससीएंडएच / केवीएफएसयू / 09	1.6.84
267	बासवराज कारेब्राह्मनावर, पुत्र श्री हनमप्पा	कर्नाएसवीसी / 4270 / 09	इब्राहिमपुर— 580001, नवलगुंड तालुक, धारवाड़ जिला, कर्नाटक	बीवीएससीएंडएच / केवीएफएसयू / 09	31.7.85
268	बासवराज वड्डार, पुत्र श्री शिवप्पा वड्डार	कर्नाएसवीसी / 4262 / 09	वार्ड न.3, सैदापुर गली, मुधोल — 587313, मुधोल तालुक, बगलकोट जिला, कर्नाटक	बीवीएससीएंडएच / केवीएफएसयू / 09	1.8.85
269	बासवराज जी.डी., पुत्र श्री दारा केशवरप्पा	कर्नाएसवीसी / 4298 / 09	डोड्डाजोगिनाहल्ली— 577214, शिकारीपुरा तालुक, शिमोगा जिला, कर्नाटक	बीवीएससीएंडएच / केवीएफएसयू / 09	2.6.86
270	बासवराज, पुत्र श्री मल्लिकार्जुन निट्टुरे	कर्नाएसवीसी / 4285 / 09	12—2—172, अशोक नगर, कर्नाटक कॉलेज के पीछे, बिदर— 585401, कर्नाटक	बीवीएससीएंडएच / केवीएफएसयू / 09	10.1.84
271	बावा राजेश पुरी सूरज पुरी	जीवीसी / 429	शिवशक्ति सदन, गाम तलाब के निकट, एटी अमुध, तालुक उंझा, जिला मेहसाना, गुजरात	बीवीएससीएंडएच / जीएयू / 77	1.6.51
272	बावाजी राजेशगर मोतीगर	जीवीसी / 1826	40, भवानीनगर सोसायटी, सिद्धपुर रोड, उंझा श्री रोड, पाटन, गुजरात	बीवीएससीएंडएच / जीएयू / 95	30.5.70

273	बावरिया अतुल कुमार गिरधरलाल	जीवीसी/ 1421	शांतिनिकेतन सोसायटी, धकनी गद्दी, एटी— उपलेटा, जिला राजकोट, गुजरात	बीवीएससीएंडएच / जीएयू/ 91	2.4.68
274	बावाने प्रदीप विश्वनाथ	महाएसवीसी/ 8202/09	एटी— रामगढ़, तालुक— कुरखेडा, जिला— गढ़चिरोली, महाराष्ट्र	बीवीएससीएंडएच / एमएएंडएफएसयू / 09	27.07.84
275	बवशी जयेशकुमार कमल कांत	जीवीसी/ 493	257/2, जी—1, सेक्टर— 19, गांधी नगर, गुजरात	बीवीएससीएंडएच / जीएयू/ 79	1.3.58
276	बेबेडन सिनिया एस. (सिरोमोनी)	टीएनएसवीसी / 4500/09	नेसा विला, पांडीविलई मेकामंडपम डाक, कन्याकुमारी जिला, तमिलनाडु	बीवीएससीएंडएच / टीएनयूवीएस / 09	12.03.86
277	बेचारा वेल्जीभाई लाधाभाई	जीवीसी/ 1198	“पितृकृपा”, 5—बी, गुंजन पार्क, आलाप सेंकचुरी के पीछे, यूनिवर्सिटी रोड, राजकोट—5, गुजरात	बीवीएससीएंडएच / जीएयू/ 89	13.6.64
278	बीनू जैन, पुत्री श्री जे.के जैन	यूपीएसवीसी/ 4978/09	V—10/4, बादशाह नगर कॉलोनी, फैजाबाद रोड, लखनऊ, उ.प्र.	बीवीएससीएंडएच / यूपीपीडीडीयूपीसी वीवी/09	01.07.84
279	बीशमी पी, पुत्री श्री विवेक रामास्वामी	कर्नाएसवीसी/ 4347/09	न. 298, तीसरी स्टेज, 11 वामेन, राजाराजेश्वरी नगर, बीईएमएल लेआउट, बंगलौर—88, कर्नाटक	बीवीएससीएंडएच / पीयू/ 02	28.10.79
280	बेलदार जिग्नेश कुमार कालीदास	जीवीसी/ 3043/09	अयोध्या नगर, एटी एवं डाक—नसवाड़ी, तालुका पंचायत के पीछे जिला बड़ौदा, गुजरात	बीवीएससीएंडएच / एएयू/ 09	27.06.86
281	बेलसारे मंजिरी मधुकर	महाएसवीसी/ 8294/09	साहस, सबनिस अस्पताल के पीछे, आरे रोड, नाइक वाड़ी, गोरेगांव (ईस्ट), तालुक व जिला मुम्बई— 63, महाराष्ट्र	बीवीएससीएंडएच / एमएएंडएफएसयू / 09	02.09.84
282	बेदाले ललित निवृत्ति	महाएसवीसी/ 8167/09	दुर्गामाता नगर, एटी एवं डाक— न्हावी, तालुक— यवल, जलगांव— 425511, महाराष्ट्र	बीवीएससीएंडएच / एमएएंडएफएसयू / 09	29.01.85
283	बेंजामिन अंजीरे, पत्नी डॉ. अखिल बेंजामिन	एसएम/ 242 8/09	द्वारा जिला पशुपालन एवं पशु चिकित्सा अधिकारी, जोरहाट, असम	बीवीएससीएंडएच / आरएयू/ 85	9.2.61
284	भद्रक हमीरभाई हरदासभाई	जीवीसी/ 1170	मंगल धाम सोसायटी, मंगरोल रोड, केशोड— 362220, जिला— जूनागढ़, गुजरात	बीवीएससीएंडएच / जीएयू/ 89	1.6.67
285	भदसिया बाबूभाई शामजीभाई	जीवीसी/ 87	एचआईजी— 693, एकता कॉलोनी, सेक्टर— 27, गांधीनगर, गुजरात	बीवीएससी/ नागपुर विवि/ 64	10.10.38
286	भदजा त्रिभोवन छगनभाई	जीवीसी/ 1054	एटी एवं डाक— नेसदा (खानपुर), तालुक— टंकारा, जिला— राजकोट, गुजरात	बीवीएससीएंडएच / जीएयू/ 88	11.2.63
287	भद्रीगें विराज विनायक	महाएसवीसी/ 8163/09	सोनाबाई चॉल, कमरा न.1, एस. न. रोड मुलुंड, जिला मुम्बई (सबअर्बन), 400080, महाराष्ट्र	बीवीएससीएंडएच / एमएएंडएफएसयू / 08	21.01.86

288	भगत विजय तेजराव	महाएसवीसी / 8286 / 09	देवगंधार अपार्ट., 240 सेक्टर- 18, सम्भाजीनगर रोड, चिंचवाड जिला, पुणे, महाराष्ट्र	बीबीएससीएंडएच / एमएएंडएफएसयू / 07	02.07.83
289	भगवत शेखर रामचंद्र	जीवीसी / 1195	क्वार्टर-डी-7 / 1, स्टाफ क्वा., सरदार कृषिनगर, दांतीवाड़ा कृषि विश्वविद्यालय, सरदार कृषिनगर-385506, बनासकंठा	बीबीएससीएंडएच / पीआरवी / 75	12.12.49
290	भालानी विनोदराय गोविंदजी	जीवीसी / 464	टेलीफोन एक्सचेंज के निकट, कोर्ट रोड, वनस्थली (सोराथ), - 362610, जिला-जूनागढ़, गुजरात	बीबीएससीएंडएच / जीएयू / 78	5.7.56
291	भालिया संजय कुमार रमेशचंद्र	जीवीसी / 1530	वेटरिनरी अधिकारी, वेटरिनरी डिस्पेंसरी, नसवाड़ी, तालुक नसवाड़ी, जिला बड़ौदा, गुजरात	बीबीएससीएंडएच / जीएयू / 92	22.11.68
292	भलोदिया नटवरलाल भांजीभाई	जीवीसी / 430	903-ए, पिरामिड टावर, अमीन मार्ग, बंसी पार्क, राजकोट-5, गुजरात	बीबीएससीएंडएच / जीएयू / 77	1.2.53
293	भलोदिया प्रतीक अमृतभाई	जीवीसी / 3104 / 10	"श्रीनाथजी", 18 / शाहीबाग -1, जंजरदा रोड, जूनागढ़, गुजरात	बीबीएससीएंडएच / एएयू / 10	07.06.87
294	भलोदिया प्रवीण कुमार नान्जीभाई	जीवीसी / 1176	44, पार्वतीनगर, भूरावाव, गोधरा, जिला-पंचमहल- 389001, गुजरात	बीबीएससीएंडएच / जीएयू / 89	23.8.64
295	भांडेरी रमेश कुमार वल्लभभाई	जीवीसी / 1844	एटी:कलवाड़ (शीतला), सारदा पटेल चौक के निकट, घोराजी रोड, तालुक कलवाड़, जिला - जामनगर, गुजरात	बीबीएससीएंडएच / जीएयू / 95	15.3.67
296	भांडेरी राजेश खुशाल	महाएसवीसी / 8307 / 09	शांति भवन, 18, पुलिस स्टेशन के निकट, मोवाड, तालुक व जिला- नागपुर, महाराष्ट्र	बीबीएससीएंडएच / एमएएंडएफएसयू / 09	26.03.81
297	भानु कावड़े, पुत्र श्री एन.एल. सिंह कावड़े	सीएचएसवीसी / 480 / 09	कार्या, सहनिदेशक, पशु चिकित्सालय संग, जगदलपुर, छत्तीसगढ़	बीबीएससीएंडएच / जेएलएनकेवीवी / 90.91	27.08.61
298	भनवादिया प्रफुल्ल कुमार शांतिलाल	जीवीसी / 1202	एटी व डाक-जमवाली, तालुक - जोधपुर, जिला- जामनगर, पिन- 360530, गुजरात	बीबीएससीएंडएच / जीएयू / 89	4.9.64
299	भरत कुमार, पुत्र श्री राम सरूप	हरिएसवीसी / 2 096	106 / 31, छोटू राम कॉलोनी, रोहतक, हरियाणा	बीबीएससीएंडएच / सीसीएसएचएयू / 09	26.1.82
300	भरत कुमार, पुत्र श्री उमा शंकर	यूपीएसवीसी / 4911 / 09	ग्राम बसिया, डाक- बस्ती, जिला बस्ती, उ. प्र.	बीबीएससीएंडएच / यूपीपीडीडीयूपीसी वीवी / 09	24.12.82
301	भारते सचिन जयसिंह	महाएसवीसी / 8258 / 09	शंकर नगर, खडकाट, तालुक अष्टी, जिला बीड- 414203, महाराष्ट्र	बीबीएससीएंडएच / एमएएंडएफएसयू / 09	01.06.84
302	भारत भूषण एम., पुत्र श्री मंजू नाइक	कर्नाएसवीसी / 4263 / 09	सरस्वतीपुत्र टांड्या- 577548, कडूर तालुक, चिकमगलूर जिला, कर्नाटक	बीबीएससीएंडएच / केवीएफएसयू / 09	14.5.87

303	भरतराज एस.वी., पुत्र श्री वसन्धइयाह	कर्नाएसवीसी/ 4297/09	डी.के. कॉलोनी, कोराटगेरे— 572129, तुमकुर जिला, कर्नाटक	बीवीएससीएंडएच /केवीएफएसयू/ 09	19.4.87
304	भारतेश शर्मा, पुत्र श्री के.जी. शर्मा	सीएचएसवीसी /545/10	सेक्टर 212, स्ट्रीट— 19, स्मृति नगर, भिलई, छत्तीसगढ़	बीवीएससीएंडएच /जेएलएनकेवीवी/ 09	31.12.67
305	भारती, पुत्री श्री कुंवर सिंह	सीएचएसवीसी /538/10	498/2, पांटन, 6, वीआईपी नगर, भिलई, छत्तीसगढ़	बीवीएससीएंडएच /आईजीकेवीवी/0 9	04.09.86
306	भारती साहू, पुत्री श्री ओ.एल. साहू	सीएचएसवीसी /510/10	गांधीनगर, बसंत पुर, राजनंद गांव, छत्तीसगढ़	बीवीएससीएंडएच /आईजीकेवीवी/0 9	09.01.86
307	भारती वर्मा, पुत्री श्री पन्ना लाल	एमपीएसवीसी /2605/09	म.न. 70.सेक्टर—सी,स्लाइस— 3, स्कीम न. 78, विजय नगर, ए.बी. रोड, इंदौर, म.प्र.	बीवीएससीएंडएच /जेएनकेवीवी/09	25.6.85
308	भट्ट हरित धनंजय भाई	जीवीसी/ 3044/09	20,अरिहंत पार्क अपार्ट.,सर्जन सोसायटी के पीछे, रविदर्शन अपार्टमेंट के निकट, सिटी लाइट, सूरत, गुजरात	बीवीएससीएंडएच /एएयू/09	02.09.86
309	भावना राठौड़, पुत्र श्री भेरू लाल राठौड़	राजएसवीसी/ 3691/09	बरदी के चबूतरे के निकट, झालरा पाटन, झालावाड़— 326023, राजस्थान	बीवीएससीएंडएच /आरएयू/09	25.05.84
310	भवानी के.पी. (के. प्रकासम)	टीएनएसवीसी /4622/09	209, III मेन रोड, थिरुमलाई नगर, हस्तिनापुरम, चेन्नई— 64	बीवीएससीएंडएच /टीएनयूवीएस /09	24.11.86
311	भवसार विपुल कुमार जगदीश कुमार	जीवीसी/ 1763	ए—12,श्री कृष्ण रो हाउस, आदित्यनाथ सोसायटी के निकट, टीबी रोड, मेहसाना, गुजरात	बीवीएससीएंडएच /जीएयू/94	18.11.67
312	भवसार योगेश कुमार कन्हैया लाल	जीवीसी/ 2160	एटी एवं डाक— बिलोदरा, तालुक— मनसा, जिला गांधीनगर, गुजरात	बीवीएससीएंडएच /जीएयू/99	29.9.76
313	भव्या एस. (आर. सेकर)	टीएनएसवीसी /4648/09	12, पेरुमल कोविल स्ट्रीट, कल्लाकुरिची— 606202, विल्लुपुरम, जिला तमिलनाडु	बीवीएससीएंडएच /टीएनयूवीएस /09	20.08.85
314	भावना गुप्ता, पुत्री श्री जी.एल. गुप्ता	एमपीएसवीसी /2646/09	द्वारा: श्री आर.के. गुप्ता, पन्ना मोड़, कुथला, शिव सनातन स्कूल के निकट, कटनी, म.प्र.	बीवीएससीएंडएच /जेएनकेवीवी/09	20.3.85
315	भेलोंडे जयप्रकाश जयसिंहराव	महाएसवीसी/ 8302/09	16, शिवम दीपनगर, मुखेड तालुक, मुखेड, जिला नांडेड, महाराष्ट्र	बीवीएससीएंडएच /एमएयू/99	05.09.76
316	भिमानी भरत कुमार भुदारभाई	जीवीसी/ 1155	द्वारा: उत्तम डेयरी, गोमतीपुर, अहमदाबाद, गुजरात	बीवीएससीएंडएच /जीएयू/89	1.5.64
317	भिमानी चिमनकुमार खीमाजीभाई	जीवीसी/ 1609	एटी— अजब, तालुक— केशोड, जिला— जूनागढ़, पिन— 362220, गुजरात	बीवीएससीएंडएच /जीएयू/93	10.6.69

318	भिंडे हरेश गंगाजी	जीवीसी / 1938	बी/5, स्वामीनारायण नगर, जादिया, जूनो वास, मधुपुर, तालुक— भुज, जिला— कच्छ, गुजरात	बीवीएससीएंडएच / जीएयू/96	30.7.73
319	भिंगरादिया बटुकभाई वाघाभाई	जीवीसी / 1254	एटी व डाक—गधादा(एसएन), श्रीजी सिनेमा, तालुक—गधादा, जिला— भावनगर, गुजरात	बीवीएससीएंडएच / जीएयू/90	9.3.66
320	भोजाने सोमनाथ मारुति	महाएसवीसी / 8271/09	एटी—जरकारवाड़ी, डाक— पारगांव, तालुक अम्बेगांव, जिला— पुणे— 412406, महाराष्ट्र	बीवीएससीएंडएच / एमएएंडएफएसयू / 09	04.03.85
321	भोले गजानन श्रीनिवास	महाएसवीसी / 8191/09	द्वारा: गंगा सभागृह, तीसरी मंजिल, कृदा स्ववेयर, हनुमान नगर, नागपुर—440009, महाराष्ट्र	बीवीएससीएंडएच / एमएएंडएफएसयू / 09	23.08.86
322	भूरा राम, पुत्र वीरा राम चौधरी	राजएसवीसी / 3597/09	ग्राम एवं डाक— केसूरी, तहसील— संचोर, जालोर— 343041, राजस्थान	बीवीएससीएंडएच / आरएयू/09	10.07.77
323	भूत पुरुषोत्तम भोवनभाई	जीवीसी / 265	“निरूपम”, दुरवेश नगर सोसायटी, जूनागढ़— 362001, गुजरात	बीवीएससीएंडएच / जीएयू/72	1.7.48
324	भोरानिया दयालजी अमरशी	जीवीसी / 878	12— अवनी पार्क सोसायटी, सनादा रोड, मोरबी, जिला राजकोट, गुजरात	बीवीएससीएंडएच / जीएयू/86	1.6.62
325	भोरकार वसंत दामोदर	जीवीसी / 193	11/बी, अनुपम नगर, एच कॉलोनी, पुराना पैडरा रोड, ट्यूब कंपनी के निकट, वडोदरा— 390020, गुजरात	बीवीएससीएंडएच / पीकेवी / 70	14.10.44
326	भोसले सचिन तुकाराम	महाएसवीसी / 8335/10	बेलवाड़ी, तालुक— इंदापुर, जिला— पुणे— 413104, महाराष्ट्र	बीवीएससीएंडएच / एमएएंडएफएसयू / 09	01.03.86
327	भूपेंदर शर्मा, पुत्र श्री पृथू दत्त शर्मा	राजएसवीसी / 3699/09	खंडेलवाल मेडिकल स्टोर, सरकारी अस्पताल के सामने, भद्रा, हनुमानगढ़— 335511, राजस्थान	बीवीएससीएंडएच / केएयू/09	23.12.84
328	भूपेंदर कुमार देवनगण, पुत्र श्री धनराज प्रसाद	सीएचएसवीसी / 526/10	ग्राम एवं डाक— थनूड, जिला— दुर्ग, छत्तीसगढ़	बीवीएससीएंडएच / आईजीकेवीवी / 09	28.12.85
329	भूपेंद्र कुमार, पुत्र श्री संतोष कुमार	सीएचएसवीसी / 527/10	ग्राम एवं डाक— केसरा पाटन, दुर्ग, छत्तीसगढ़	बीवीएससीएंडएच / आईजीकेवीवी / 09	12.07.84
330	भूत दीपेशकुमार दहयालाल	जीवीसी / 1888	एफ—14, जनकपुरी अपार्टमेंट, जंजरदा रोड, जूनागढ़	बीवीएससीएंडएच / जीएयू/95	21.10.72
331	भूत वियज कुमार बाबूलाल	जीवीसी / 1713	एटी एवं डाक— बुरी, तालुक मनवादर, जिला— जूनागढ़, पिन— 362630, गुजरात	बीवीएससीएंडएच / जीएयू/94	5.3.71
332	भुवा छगनलाल नारनभाई	जीवीसी / 830	“नारायण”, भाग्यलक्ष्मी सोसायटी, सरदार बाग के पीछे, जूनागढ़, गुजरात	बीवीएससीएंडएच / जीएयू/80	2.10.53

333	भूवा वीरेन मनसुखलाल	जीवीसी / 2246	एटी- कोलीथाड, तालुक- गंडल, जिला-राजकोट, गुजरात	बीवीएससीएंडएच / जीएयू/ 00	5.6.78
334	बिजैनी पंडा, पुत्री श्री उदय नाथ पंडा	ओएसवीसी /2 291 /09	ग्राम- मलातही, डाक- डीपी देउली, वाया बालंगा, पुरी- उड़ीसा	बीवीएससीएंडएच / ओयूएटी /09	02.05.83
335	बिकाश शर्मा, पुत्र श्री चंदन लाल शर्मा	एमपीएसवीसी /2611 /09	न्यू कोर्ट हाउसिंग बोर्ड ट्रायंगल के निकट, एम.एस. रोड, मोरैना, म.प्र.	बीवीएससीएंडएच / जेएनकेवीवी /09	20.07.83
336	बिंदेश्वरी सिंह, पत्नी श्री राम कुमार सिंह	सीएचएसवीसी /477 /09	एफ/21/03, सिविल लाइन, कांकर, छत्तीसगढ़	बीवीएससीएंडएच / आईजीकेवीवी /9 5.96	12.11.73
337	बिनोद कुमार, पुत्र स्व. श्री फौदी साहू	जेवीसी /648 /10	कौशलया भवन, मां आनंदमयी नगर, काठीतरन, रातू- 835222, झारखंड	बीवीएससीएंडएच / बीएयू/84	04.05.59
338	बिप्लब देब रॉय, पुत्र स्व. श्री बिजन बिहारी देब रॉय	त्रिपुराएसवीसी /175/08	द्वारा सलिल धर, डाक एवं ग्राम श्रीरामपुर, कैलाशर, त्रिपुरा (उत्तर)	बीवीएससीएंडएच / सीएयू/07	9.2.83
339	बिप्लब साहू, पुत्र श्री धरनीधर साहू	ओएसवीसी /2 265 /09	एटी-झरावा मैस, डाक घबल गिरि, वाया जे. के. रोड, जिला जयपुर- 755019, उड़ीसा	बीवीएससीएंडएच / ओयूएटी /08	10.06.80
340	बिरादर किशन बालाप्रकाश, पुत्र श्री बिरादर बालाप्रकाश मानिकराव	कर्नाएसवीसी / 4360 /09	वेटरिनरी अधिकारी, पशुपालन एवं पशु चिकित्सा सेवा, बीजलगांव, नंदी डाक, औरद तालुक, बिदर जिला, कर्नाटक	बीवीएससीएंडएच / एमएएफएसयू/0 5	1.5.82
341	बिस्मिथा के.एस., पुत्री श्री के.के. सुभाष चंद्र बोस	केएसवीसी /35 78 /09	कट्टीपराम्बिल हाउस, मूथाकुन्म डाक, अर्नाकुलम- 683516, केरल	बीवीएससीएंडएच / केएयू/09	23.05.86
342	बिस्वभानु सामंत सिंघर, पुत्र श्री उपेंद्रनाथ सामंत	ओएसवीसी /2 317 /09	प्लॉ.न.130,सिरिपुर, नुआसाही, डाक डेल्टा जिला, खुरदा, भुबनेश्वर- 751003, उड़ीसा	बीवीएससीएंडएच / ओयूएटी /09	22.06.86
343	बोबिथा स्टेनली, पुत्री श्री स्टेनली जॉर्ज	केएसवीसी / 3560 /09	कारीकोथू हाउस, अवोली डाक, मुवाट्टुपुजाह, अर्नाकुलम- 686677, केरल	बीवीएससीएंडएच / केएयू/09	16.09.86
344	बोडा जयेशकुमार गोपालभाई	जीवीसी / 2308	बी-12,सिल्वर कॉइन अपार्ट., जज के बंगले के सामने, प्रेम चंद नगर रोड,अहमदाबाद, गुजरात	बीवीएससीएंडएच / जीएयू/ 96	23.9.78
345	बोडार खीमा रनमल	जीवीसी / 2244	एटी:भिंडा,वाया:भडथर, तालुक जाम खम्भालिया, जिला- जामनगर- 361306, गुजरात	बीवीएससीएंडएच / जीएयू/00	15.2.75
346	बोराह बिदुमनी, पुत्र श्री बाबुल बोराह	एसएम /243 1 /09	गर्ल्स होस्टल, कालेज ऑफ वेटरिनरी साइंस, खानापाड़ा, गुवाहाटी- 22, असम	बीवीएससीएंडएच / एसयू/09	25.11.86
347	बोराह जयंत जीत, पुत्र श्री रत्नेश्वर बोराह	एसएम /243 6 /09	बुंदाबन नगर,सिजुबारी, खकाह मस्जिद के निकट, हातीगांव, गुवाहाटी, असम	बीवीएससीएंडएच / एसयू/09	31.7.83

348	बोराह रश्मि रेखा, पुत्री डॉ. सैलजानंद बोराह	एएसएम/242 9/09	म.न.5, बाई लेन-8, सेवालीपार्थ, हातीगांव, गुवाहाटी, असम	बीवीएससीएंडएच /एएयू/07	11.7.83
349	बोरीसागर प्रकाश छोटालाल	जीवीसी/ 1260	वेटेरिनरी डिस्पेंसरी, धारी, तालुक- धारी, जिला- अमरेली, गुजरात	बीवीएससीएंडएच /जीएयू/90	14.1.68
350	बोरा प्रशांत, पुत्र श्री रमेश च. बोरो	एएसएम/ 2438/09	द्वारा: रमेश च.बोरो, ग्राम न. 1, गलाचुबा, डाक-सीकरी बंगला, जिला गुडलगिरि- 784528, असम	बीवीएससीएंडएच /एएयू/09	1.05.85
351	बोरोले राजेंद्र सुधाकर	महाएसवीसी/ 8301/09	"अनुसुधा"ए932/1,विद्यानगर सोसायटी के निकट, ए/पी फेजपुर, तालुक-यवल,जिला- जलगांव, महाराष्ट्र	बीवीएससीएंडएच /एमएंडएफएसयू /05	01.06.81
352	ब्रह्मक्षत्री कैलाश कुमार घनश्याम लाल	जीवीसी/ 1614	जनता नगर सोसायटी के निकट, मानसरोवर रोड, पालनपुर- 385001, जिला- बनासकंठा, गुजरात	बीवीएससीएंडएच /जीएयू/93	16.11.70
353	ब्रह्मभट्ट नरेंद्र कुमार जयति लाल	जीवीसी/ 891	भटवाडो, कनसारा शेरी, एटी एवं तालुक- मनसा, जिला- गांधीनगर, गुजरात	बीवीएससीएंडएच /जीएयू/87	3.7.63
354	ब्रह्मभट्ट यशवंत कुमार जयदेवभाई	जीवीसी/ 707	मानक कृपा विद्या मंदिर के निकट, अलकापुरी, हिम्मत नगर - 383001, जिला- साबरकंठा, गुजरात	बीवीएससीएंडएच /जीएयू/83	9.2.61
355	ब्रह्मभट्ट योगश कुमार वीनू भाई	जीवीसी/ 2184	ए-17, अवनी पार्क सोसायटी, एटी एवं डाक कपाड़गंज, जिला खेडा, गुजरात	बीवीएससीएंडएच /जीएयू/99	20.5.76
356	ब्रज मोहन शर्मा, पुत्र श्री ओलाराम शर्मा	एमपीएसवीसी /2612/09	द्वारा राम गोपाल शर्मा, न्यू कोर्ट हाउसिंग बोर्ड, ट्राएंगल, एम.एस. रोड, मोरैना, म.प्र.	बीवीएससीएंडएच /जेएनकेवीवी/09	15.09.84
357	ब्रजेश कुमार, पुत्र श्री एन.के. मिश्रा	यूपीएसवीसी/ 4906/09	जवाहर नगर, कबरई, जिला- महोबा, उ.प्र.	बीवीएससीएंडएच /जीबीपीयूएंडटी /09	12.11.82
358	ब्रजनंदन प्रसाद सिंह, पुत्र स्व. श्री मुंशी प्रसाद सिंह	जेवीसी/597 /09	प्रमुख इंस्ट्रक्टर (रिटायर्ड), गोरियाकर्मा, बरही, हज़ारीबाग, झारखंड	बीवीएससीएंडएच /आरएयू//71	28.03.49
359	बृजेश भारद्वाज, पुत्र श्री एस.के. उपाध्याय	यूपीएसवीसी/ 4965/09	ग्राम- महुवल, डाक- किछौचा, जिला अम्बेडकर नगर, उ.प्र.	बीवीएससीएंडएच /सीएसकेएचपीकेवी /09	15.08.86
360	बृजेश कुमार पूनिया, पुत्र श्री धन्ना राम पूनिया	राजएसवीसी/ 3621/09	ग्राम- मौहब्बत सारी, डाक- घोड़ीवाला खुर्द, झुंझुनू- 333705, राजस्थान	बीवीएससीएंडएच /आरएयू/09	01.11.79
361	बृजेश कुमार सिंह, पुत्र श्री सूर्य बाली	यूपीएसवीसी/ 4921/09	ग्राम- बिहाटा, डाक- पलथी, तहसील- फूलपुर, आजमगढ़, उ.प्र.	बीवीएससीएंडएच /यूपीपीडीडीयूपीसी वीवी/09	05.03.78
362	बृजेश कुमारी मीना, पुत्री श्री कालू लाल मीना	राजएसवीसी/ 3762/10	म.न. 36-ए, संजय नगर, कोटा, राजस्थान	बीवीएससीएंडएच /एसकेआरएयू/10	02.05.83

363	ब्रूस एम.एस. (पी. मुथुस्वामी)	टीएनएसवीसी / 4455 / 09	एस.बी. बिल्डिंग, कुज़ीथनुराई वेस्ट, डाक: पाकोड कन्याकुमारी जिला— 629168, तमिलनाडु	बीवीएससी / टीएनए यू / 76	30.06.51
364	बठानी राहुल कुमार हरसुखलाल	जीवीसी / 3103 / 10	अवध सोसायटी-1, स्ट्रीट न.-2, "बुंदावन" सनाला रोड, मोरबी, गुजरात	बीवीएससीएंडएच / एएयू / 10	11.06.88
365	बुटानी मगनलाल गोपालभाई	जीवीसी / 1464	एटी एवं डाक— कानेरी, वाया एवं तालुक: केशोड, जिला: जूनागढ़, गुजरात	बीवीएससीएंडएच / जीएयू / 91	26.6.67
366	सी. गुरिवी रेड्डी, पुत्र श्री सी. यनाडी रेड्डी	एपीएसवीसी / 04898 / 09	राम चंद्र नगर (ग्राम), डाक— ए. नक्कालाधिन्ने चपाडु (एम), कडपा जिला, आंध्र प्रदेश	बीवीएससीएंडएच / एसवीवीयू / 09	10.08.85
367	सी.एम. वेंकटेश्वर सर्मा, पुत्र श्री सी. एम.बी. कृष्णा मूर्ति	एपीएसवीसी / 04876 / 09	डी.न. 2 / 1015—बी. श्री सत्य साई नीलायम, नेहरू नगर, कडपा, आंध्र प्रदेश	बीवीएससीएंडएच / एसवीवीयू / 09	12.04.85
368	च. नागेंद्र, पुत्र श्री च. अंजनइयाह	एपीएसवीसी / 04993 / 09	बूटलापल्ली (ग्राम एवं डाक), मिरयलगुडा (एम), नालगोंडा जिला, 508207, आंध्र प्रदेश	बीवीएससीएंडएच / एसवीवीयू / 09	15.06.83
369	च. एस. कृष्णा राव, पुत्र श्री च. राजा रत्नम	एपीएसवीसी / 04990 / 09	श्रीनिवास नगर, टंगुटूर (एम) प्रकासम जिला, आंध्र प्रदेश	बीवीएससीएंडएच / एसवीवीयू / 09	12.07.82
370	च. येरुनायडू, पुत्र च. श्री राम मूर्ति	एपीएसवीसी / 04952 / 09	मुशिडीपल्ली ग्राम एवं डाक, देवरापल्ली(एम), विशाखापटणम जिला— 531030, आंध्र प्रदेश	बीवीएससीएंडएच / एसवीवीयू / 09	30.08.85
371	च. मल्ली बाबू, पुत्र श्री च. सत्यनारायण	एपीएसवीसी / 04947 / 09	नाथावरम (डाक) (एम), विशाखापटणम जिला— 531115, आंध्र प्रदेश	बीवीएससीएंडएच / एसवीवीयू / 09	07.05.86
372	च. श्री रूपावल्ली, पुत्री श्री च. किशन किशोर	एपीएसवीसी / 04819 / 09	5-4-768, भूलक्ष्मी नगर, वनस्थलीपुरम, हैदराबाद— 500070, आंध्र प्रदेश	बीवीएससीएंडएच / एएनजीआरएयू / 02	07.07.79
373	चंचोडिया कादम्बरी, पुत्री डॉ. दिनेश कुमार	जीवीसी / 3054 / 09	बंगला न. 14, द्वारा श्री डी.के. चंचोडिया, प्रताप नगर, रेलवे कॉलोनी, बड़ौदा, राजस्थान	बीवीएससीएंडएच / एएयू / 09	13.10.86
374	चकिंगल पी. देवानंद	जीवीसी / 3096 / 09	साबरमती आश्रम, गौशालम क्या.न. 62, आश्रम रोड, अहमदाबाद, गुजरात	बीवीएससीएंडएच / केएयू / 92	01.06.68
375	चक्रबर्ती राजू, पुत्र श्री बाबुल चक्रबर्ती	एएसएम / 242 5 / 09	ग्राम— उत्तर अमेरी, डाक— बारपानी, जिला— नागांव— 782425, असम	बीवीएससीएंडएच / एएयू / 08	28.2.81
376	चक्रबर्ती शर्मिष्ठा, पुत्र डॉ. अपूर्व चक्रबर्ती	एएसएम / 244 6 / 09	कॉलेज ऑफ़ वेटरिनरी साइंस कैंपस, एएयू, खानापाड़ा, गुवाहाटी—22, असम	बीवीएससीएंडएच / एएयू / 09	30.8.85
377	चंचपारा दिनेशभाई मेघराजभाई	जीवीसी / 1052	वेटरिनरी डिस्पेंसरी, वापी, तालुक— किल्ला—परदी, जिला— वलसाड, गुजरात	बीवीएससीएंडएच / जीएयू / 88	9.10.65

378	चंद्र शेखर सारस्वत, पुत्र श्री शंकर लाल सारस्वत	राजएसवीसी/ 3587/09	110-एल-ब्लॉक, श्रीगंगानगर - 335001, राजस्थान	बीवीएससीएंडएच /एसकेएनडीएयू/ 08	01.06.83
379	चंद्र शेखर चंद्राकर, पुत्र श्री तुलसी राम चंद्राकर	सीएचएसवीसी /463/09	वेटरिनरी क्लब पाड़ा, महा समुंद, छत्तीसगढ़	बीवीएससीएंडएच /जेएलएनकेवीवी/ 90-91	23.04.68
380	चंद्र भान, पुत्र श्री नवाब सिंह	यूपीएसवीसी/ 4916/09	ग्राम एवं डाक- हिरोंडा, जिला- आगरा, उ. प्र.	बीवीएससीएंडएच /यूपीपीडीडीयूपीसी वीवी/09	03.01.81
381	चंद्र प्रकाश शर्मा, पुत्र श्री मूल चंद शर्मा	राजएसवीसी/ 3588/09	शिवपुरी कॉलोनी, वार्ड नं. 17, नीम का थाना, सीकर- 332713, राजस्थान	बीवीएससीएंडएच /आरएयू/09	16.02.83
382	चंद्र शेखर मुखोपाध्याय, पुत्र श्री एस. मुखोपाध्याय	पीबीएसवीसी/ 2917/09	डिपा. ऑफ एनिमल बायोटेक्नोलॉजी, जीएडीवी एएसयू, लुधियाना, पंजाब	बीवीएससीएंडएच /डब्ल्यूबीयूएंड एफएसयू/02	1.4.79
383	चंद्रकेशन पी. (आर. पेरियासामी)	टीएनएसवीसी /4572/09	5, इलांगो स्ट्रीट, ग्राम- ए.करटुपलायम, वेल्लापलायम डाक, सक्तिनगर वाया, इरोडे- 638315, तमिलनाडु	बीवीएससीएंडएच /टीएनयूवीएएस /09	25.02.84
384	चंद्र मोहन एस., पुत्र श्री सिदप्पा आर.	कर्नाएसवीसी/ 4316/09	उप्पाकुंटे ग्राम, मुदियाननूर- 563127, श्रीनिवासपुरा तालुक, कोलार जिला, कर्नाटक	बीवीएससीएंडएच /केवीएफएसयू/ 09	20.8.86
385	चंद्रपाल कतार सिंह	जीवीसी/ 1197	द्वारा वेटरिनरी सेक्शन, साबर डेरी, एटी डाक बोरिया, तालुक - हिम्मतनगर, जिला- साबरकंठा, पिन- 383001	बीवीएससीएंडएच /जीबीपीयूएटी/81	1.9.55
386	चापडिया अमित कुमार त्रिकमभाई	जीवीसी/ 2285	बोरडी चोरा, इसानी फालिया, वनथली (सोराथ)- 362610, जिला- जूनागढ़, गुजरात	बीवीएससीएंडएच /जीएयू/00	9.9.77
387	चरन विष्णुदान अयादनजी	जीवीसी/ 587	4, लक्ष्मी नारायण सोसायटी, एट एवं तालुक- इदार, जिला- साबरकंठा, गुजरात	बीवीएससीएंडएच /जीएयू/81	18.5.57
388	चौधरी अमित कुमार रामजीभाई	जीवीसी/ 2692/09	मोट्टावास, डाक चोराडा, तालुक मनसा, जिला- गांधीनगर- 383210, गुजरात	बीवीएससीएंडएच /एसडीएयू/06	26.09.83
389	चौधरी अंकित कुमार कांतिभाई	जीवीसी/ 3105/10	एटी एवं डाक- मेहसाना, गुजरात	बीवीएससीएंडएच /एएयू/10	03.08.88
390	चौधरी अरविंद कांजीभाई	जीवीसी/ 3045/09	एटी- मोती हिरवानी, तालुक- खेरालू, जिला- मेहसाना, गुजरात	बीवीएससीएंडएच /एएयू/09	31.10.85
391	चौधरी बाबू भाई डूंगरभाई	जीवीसी/ 1620	एटी- उनाद, तालुक- खेरालू, जिला- मेहसाना, गुजरात	बीवीएससीएंडएच /जीएयू/93	1.6.69
392	चौधरी चंदलाल गनेशजी	जीवीसी/ 2289	एटी: शेरपुरा, डाक-कनसारी, तालुक- दीसा, जिला- बनासकंठा- 385535, गुजरात	बीवीएससीएंडएच /जीएयू/00	1.6.78

393	चौधरी डाइयाभाई बहेचरभाई	जीवीसी / 923	एटी- खटोडा, तालुक- वडनगर, जिला- मेहसाना, गुजरात	बीवीएससीएंडएच / जीएयू / 87	1.6.62
394	चौधरी धवल पोपटभाई	जीवीसी / 3106 / 10	जी-5, प्रमुखनगर, शायोना सिटी के सामने, घाटलोडिया, अहमदाबाद, गुजरात	बीवीएससीएंडएच / एएयू / 10	07.08.87
395	चौधरी दिनेश कुमार चामाभाई	जीवीसी / 2161	एटी व डाक गोडाधा, तालुक -मांडवी, जिला-सूरत, पिन - 394160, गुजरात	बीवीएससीएंडएच / जीएयू / 99	20.7.74
396	चौधरी गोविंद भाई जीवनभाई	जीवीसी / 1403	एटी एवं डाक- पामोल, तालुक- वीजापुर, जिला- मेहसाना, गुजरात	बीवीएससीएंडएच / जीएयू / 91	11.10.66
397	चौधरी जयेश कुमार अमृतलाल	जीवीसी / 3046 / 09	एटी- बापूपुरा, तालुक- मनसा, जिला- गांधी नगर, गुजरात	बीवीएससीएंडएच / एएयू / 09	20.07.87
398	चौधरी मुकेश कुमार जगमलभाई	जीवीसी / 3107 / 10	एटी एवं डाक- रवियाना, तालुक- कंकरेज, जिला- बनासकंठा, गुजरात	बीवीएससीएंडएच / एएयू / 10	01.06.87
399	चौधरी मूलाभाई अम्बाभाई	जीवीसी / 3108 / 10	एटी- बुराल, डाक- खीमल, तालुक- दीसा, जिला- बनासकंठा, गुजरात	बीवीएससीएंडएच / एएयू / 10	05.06.86
400	चौधरी प्रकाश कुमार मुलजीभाई	जीवीसी / 2007	एटी एवं डाक- दधियाल, तालुक- विसनगर, जिला- मेहसाना, गुजरात	बीवीएससीएंडएच / जीएयू / 96	1.1.73
401	चौधरी राहुल कुमार चेलाजीभाई	जीवीसी / 3080 / 09	एटी एवं डाक- बालोड, तालुक- खेरालू, जिला मेहसाना, गुजरात	बीवीएससीएंडएच / एएयू / 09	22.08.86
402	चौधरी शंकरभाई सकाभाई	जीवीसी / 1184	मोटो चौधरीवास, मनसा रोड, एटी व डाक-चरदा, तालुक- मनसा, जिला- गांधीनगर, गुजरात	बीवीएससीएंडएच / जीएयू / 85	21.7.62
403	चौधरी विजय कुमार कालीदास	जीवीसी / 2112	19, जय मंगल सोसायटी, मीराम्बिका रोड, नारनपुरा, अहमदाबाद-13, गुजरात	बीवीएससीएंडएच / जीएयू / 98	31.8.75
404	चौधरी विनोद कुमार अभिराज	जीवीसी / 1760	जिला बैंक के निकट, एटी व डाक-चरदा, तालुक-मनसा, जिला- गांधीनगर, गुजरात	बीवीएससीएंडएच / जीएयू / 94	25.9.72
405	चौधरी अभुभाई प्रेमजीभाई	जीवीसी / 793	एटी-कोडराली, डाक-छापी, तालुक- वडगाम, जिला- बनासकंठा- 385210, गुजरात	बीवीएससीएंडएच / जीएयू / 84	1.6.59
406	चौधरी अनिल कुमार मुलजीभाई	जीवीसी / 3000 / 09	ग्राम- कानपुर, तालुक एवं जिला- गांधीनगर, डाक- छाला, गुजरात	बीवीएससीएंडएच / एसडीएयू / 09	31.07.87
407	चौधरी दशरथ कुमार वलजीभाई	जीवीसी / 2066	एटी- उचारपी, डाक- डेला, तालुक एवं जिला- मेहसाना, गुजरात	बीवीएससीएंडएच / जीएयू / 97	2.6.75

408	चौधरी गिरीश मेघजीभाई	जीवीसी/ 3001/09	कनसा, तालुक व जिला— पाटन— 384265, गुजरात	बीवीएससीएंडएच /एसडीएयू/09	27.01.85
409	चौधरी महेश कुमार अभिराज भाई	जीवीसी/ 2162	एटी— लक्ष्मीपुरा (खारा), डाक— मिठा, तालुक व जिला— मेहसाना, गुजरात	बीवीएससीएंडएच /जीएयू/99	30.3.75
410	चौधरी प्रनव कुमार रघुभाई	जीवीसी/ 2111	38, शंकर नगर सोसायटी, दूधसागर डेरी के सामने, मेहसाना, गुजरात	बीवीएससीएंडएच /जीएयू/98	24.9.76
411	चौधरी रजनी	जीवीसी/ 2994/09	म.न. 1254/3, सेक्टर 7—डी, गांधीनगर, गुजरात	बीवीएससीएंडएच /केवीएंडएफएसयू /06	19.10.83
412	चौधरी रमेश कुमार उमाजी	जीवीसी/ 2295	28, सनराइज पार्क सोसायटी, पटेल सोसायटी रोड, एटी व तालुक— दीसा, जिला— बनासकंठा, 85535, गुजरात	बीवीएससीएंडएच /जीएयू/00	2.1.78
413	चौधरी सुनीता	जीवीसी/ 2995/09	म.न. 1254/3, सेक्टर 7—डी, गांधीनगर, गुजरात	बीवीएससीएंडएच /केवीएंडएफएसयू /07	04.09.85
414	चौधरी गोविंद भाई रामसंगभाई	जीवीसी/ 1182	एटी एवं डाक— फतेहपुरा, तालुक खेरालू, जिला मेहसाना, गुजरात	बीवीएससीएंडएच /जीएयू/89	15.3.65
415	चौधरी मनोज कुमार अखिराज	जीवीसी/ 1253	एटी एवं डाक— चारदा, तालुक मनसा, जिला— गांधीनगर, गुजरात	बीवीएससीएंडएच /जीएयू/90	28.10.67
416	चौहान अशोक कुमार नारनभाई	जीवीसी/ 1658	एटी— हातीपुरा, डाक— आशारभा, तालुक— अंकलाव, जिला— आनंद, गुजरात	बीवीएससीएंडएच /जीएयू/93	25.5.67
417	चौहान देवेंद्र कुमार शंकर लाल	जीवीसी/ 2132	“शांतिकुंज”, 217 बी, श्रीनगर सोसायटी—1, मुंडाव रोड के निकट, दोहोद, गुजरात	बीवीएससीएंडएच /जीएयू/98	19.9.75
418	चौहान हरेश कुमार दशरथलाल	जीवीसी/ 1744	7, गुरुकृपा सोसायटी, आबू हाईवे रोड, पालनपुर— 385001, बनासकंठा, गुजरात	बीवीएससीएंडएच /जीएयू/94	1.6.70
419	चौहान हर्षद कुमार चतुरभाई	जीवीसी/ 1977	ई—15/1, स्टाफ क्वार्टर्स, सरदार कृषिनगर दांतीवाडा कृषि विश्वविद्यालय, सरदार कृषिनगर—385506, बनासकंठा	बीवीएससीएंडएच /जीएयू/96	27.2.72
420	चौहान महेंद्र सिंह गूमनसिंह	जीवीसी/ 1914	एटी:चौहानगढ़, डाक— मरपुरिया, तालुक— अमीरगढ़, जिला— बनासकंठा— 385135, गुजरात	बीवीएससीएंडएच /जीएयू/95	1.6.72
421	चौहान महेश भाई खानाभाई	जीवीसी/ 1861	रोहिर निवास, एटी एवं डाक —बावला, जिला—अहमदाबाद— 384710, गुजरात	बीवीएससीएंडएच /जीएयू/94	6.1.70
422	चौहान मानसिंह खुमनसिंह	जीवीसी/ 467/10	द्वारा: डॉ.के.डी. चौहान, ब्लॉक न. 1055, सेक्टर—27, स्वास्तिक सोसायटी, गांधीनगर, गुजरात	बीवीएससीएंडएच /जीएयू/78	15.03.53

423	चवन शाम सुंदर सरजेराव	महाएसवीसी / 8254 / 09	एडवो.एस.एस. चवन, म.न. 22, वकील कॉलोनी, परभनी, जिला परभनी— 431401, महाराष्ट्र	बीवीएससीएंडएच / एमएंडएफएसयू / 09	05.10.85
424	चावडा अरविंद कुमार हिरजीभाई	जीवीसी / 801	वृंदावन सोसायटी, तिम्बावाड़ी के निकट, जूनागढ़, गुजरात	बीवीएससीएंडएच / जीएयू / 84	6.6.78
425	चावडा चंदन सिंह लखाभाई	जीवीसी / 2138	एटी—ढोली, तालुक—ढोलका, जिला—अहमदाबाद— 382240, गुजरात	बीवीएससीएंडएच / जीएयू / 98	21.12.74
426	चावडा चतुरजी जे.	जीवीसी / 531	ए—320, सूर्य केलु टावर, जज के बंगले के सामने, सम्भव प्रैस के निकट, बोडाकदेव, अहमदाबाद— 380015	बीवीएससीएंडएच / जीएयू / 80	29.3.8
427	चावडा दशरथ सिंह पर्वत सिंह	जीवीसी / 1172	एटी एवं डाक— अजोल, तालुक— मनसा, जिला— गांधीनगर, गुजरात	बीवीएससीएंडएच / जीएयू / 89	15.6.65
428	चावडा कांतिलाल परषोत्तम भाई	जीवीसी / 887	सरकारी क्वा., डी / 15 / 97, सर्किट हाउस के निकट, खागा वाड़ी रोड, भावनगर, गुजरात	बीवीएससीएंडएच / जीएयू / 86	13.9.60
429	चावडा किरीत कुमार जयतिलाल	जीवीसी / 3047 / 09	एटी— मंगरोल विट्टल विलास, जेल रोड, जिला— जूनागढ़, गुजरात	बीवीएससीएंडएच / एएयू / 09	30.09.87
430	चावडा मुकेश कुमार गुलाबभाई	जीवीसी / 2064	एटी: रेलवे स्टेशन के निकट, लूनावाडा, तालुक: लूनावाडा, जिला—पंचमहल— 389230, गुजरात	बीवीएससीएंडएच / जीएयू / 97	1.2.74
431	चवहान सुशील शंकर	महाएसवीसी / 8259 / 09	द्वारा—एस.जी. चवहान, दूबेवर लेआउट, पुसाद, तालुक— पुसाद, जिला— यवतमाल, महाराष्ट्र	बीवीएससीएंडएच / एमएंडएफएसयू / 09	30.03.85
432	चेतन ए.बी., पुत्र श्री बासप्पा एम.	कर्नाएसवीसी / 4290 / 09	अट्टीमोगे, 577228, तारीकेरे तालुक, चिकमगलूर जिला, कर्नाटक	बीवीएससीएंडएच / केवीएफएसयू / 09	20.5.87
433	चेथन कुमार के.एन., पुत्र श्री नागराजा के.एम.	कर्नाएसवीसी / 4236 / 09	हॉस्पिटल रोड, गवर्नमेंट हॉस्पिटल एरिया, सिरिगेरे— 588541, चित्रदुर्गा तालुक एवं जिला, कर्नाटक	बीवीएससीएंडएच / केवीएफएसयू / 09	9.3.86
434	चिखालिया हर्षद कुमार दुर्लभजी भाई	जीवीसी / 3081 / 09	एटी एवं डाक— सरवद, तालुक मालिया (मियाना), जिला— राजकोट, गुजरात	बीवीएससीएंडएच / एएयू / 09	05.05.87
435	चिन्मय राउत, पुत्र श्री अक्षय कुमार राउत	ओएसवीसी / 284 / 09	एटी एवं डाक— रोहिया, वाया— नुआगांवहाट, जिला— जगतसिंहपुर, उड़ीसा	बीवीएससीएंडएच / ओयूएटी / 09	23.08.87
436	चिर्नॉय जिनोबाई रोहिंटन	महाएसवीसी / 8292 / 09	बंगला नं. 22, टेलको सीनियर ऑफिसर्स कोऑप.हाउ. सोसा. तालुक—पिम्परी, जिला—पुणे— 411018, महाराष्ट्र	बीवीएससीएंडएच / एमएंडएफएसयू / 09	27.10.85
437	चिश्ती सैयद सलमान चिश्ती सैयद सदरुद्दीन	महाएसवीसी / 8220 / 09	रिजवान, इनायत नगर, तालुक व जिला— परभनी— 431401, महाराष्ट्र	बीवीएससीएंडएच / एमएंडएफएसयू / 09	20.04.82

438	चित्रा धीमन, पुत्री श्री आर.एन. सिंह	यूकेएसवीसी/ 489/09	वेटरिनरी अधिकारी, वेटरिनरी अस्पताल, भिखियासेन, जिला अल्मोड़ा, उत्तराखण्ड	बीवीएससीएंडएच /जीबीपीयूएंडटी /01	15.06.79
439	चित्रा के.जे. (सी. राजा)	टीएनएसवीसी /4465/09	19, 84वीं स्ट्रीट, 13 सेक्टर, के.के. नगर, चेन्नई- 600078, तमिलनाडु	बीवीएससी/टीएन यूवीएस/00	10.06.74
440	चित्रम्बिगई के. (एम. कृष्णन)	टीएनएसवीसी /4498/09	14, भारती नगर, कलानिवासल, करईकुडी- 630001, तमिलनाडु	बीवीएससीएंडएच /टीएनयूवीएस /09	27.03.86
441	चोचा दिव्यकांत करणभाई	जीवीसी/ 2043	207, कृष्णा विहार, आजाद वे ब्रिज के निकट, नूतन नगर, वापी, तालुक- परदी, जिला- दलसाड- 396191, गुजरात	बीवीएससीएंडएच /जीएयू/98	6.1.75
442	चोथानी मेहुल कुमार गोगनभाई	जीवीसी/ 2187	ब्लॉक न. 182/ए/5, च-टाइप, सेक्टर 30, गांधीनगर, गुजरात	बीवीएससीएंडएच /जीएयू/99	16.6.76
443	चौगुले अनिल महावीर	महाएसवीसी/ 8266/09	ए/पी दत्तावाड, तालुक- शिराल, जिला- कोल्हापुर- 416107, महाराष्ट्र	बीवीएससीएंडएच /एमएंडएफएसयू /09	30.06.85
444	चौगुले सुनीता श्रीपति	महाएसवीसी/ 8304/09	एटी एवं डाक- पुनाल, तालुक- पनहाला, जिला- कोल्हापुर- 416205, महाराष्ट्र	बीवीएससीएंडएच /एमएंडएफएसयू /09	10.11.85
445	चौरे कुलदीप कल्याणराव	महाएसवीसी/ 8216/09	एटी- ताले पिम्पलगांव, तालुक पटोडा, जिला बीड- 414204, महाराष्ट्र	बीवीएससीएंडएच /एमएंडएफएसयू /09	01.05.85
446	चोवटिया पोपटभाई नांजीभाई	जीवीसी/ 358	2, मुरलीधर सोसायटी, जोशीपुरा, जूनागढ़, गुजरात	बीवीएससीएंडएच /जीएयू/75	7.7.50
447	चौधरी साधना, पुत्र श्री सरत च. चौधरी	एसएम/ 2463/09	द्वारा एस.सी. चौधरी, वीएफए 30-सॉ यूनिट, डिपा. ऑफ एलपीएम सीओवीएससी, एएयू खानापांडा, गुवाहाटी, असम	बीवीएससीएंडएच /एएयू/09	1.1.85
448	चुकेश्वर अतुल बबनप्पा	महाएसवीसी/ 8166/09	एटी डाक घाटबोरी, तालुक मेहकर, जिला- बुलघाना- 443301, महाराष्ट्र	बीवीएससीएंडएच /एमएंडएफएसयू /09	14.03.86
449	क्लीमेंट लुइस राज ए. (एम. आमलादॉस)	टीएनएसवीसी /4462/09	न. 10-ए/1 (पुराना न. 46-ए/1), वेस्ट सर्कुलर रोड, मंडावेलीपक्कम, चेन्नई- 600028, तमिलनाडु	बीवीएससी/एमयू/ 74	28.01.46
450	कौटिन्हो नताशा रेशल, पुत्र श्री लॉरेंस कौटिन्हो	गोआएसवीसी /149/09	द्वारा डेविड एंड कं., बेला विस्ता अपार्ट., मोंटे मरगाओ, गोआ	बीवीएससीएंडएच /पीयू/09	
451	कुन्हा कोस्टा मरिया निसेटा, पुत्र श्री मैनुअल कुन्हा कोस्टा	गोआएसवीसी /146/09	एग्रीकोल, राना, कुर्तोरिम, साल्सी, गोवा	बीवीएससीएंडएच /पीयू/08	
452	डॉ. अंजनेया रेड्डी, पुत्र श्री डी.	एपीएसवीसी/ 04908/09	मदनपुल्लालचेरू डाक, बेस्तावारीपेटा (एम), प्रकासम जिला, आंध्र प्रदेश	बीवीएससीएंडएच /एसवीवीयू/09	08.04.83

गुरुवइयाह

453	डी. सुरेश, पुत्र श्री डी.एल. प्रसाद राव	एपीएसवीसी/ 04946/09	द्वारा:श्री श्रीनी ऑटो जिरोक्स, मेन रोड, सलूर, विजियानगरम जिला— 535591, आंध्र प्रदेश	बीवीएससीएंडएच /एसवीवीयू/09	20.08.85
454	डी. अर्चना, पुत्री श्री डी. प्रकाश स्वामी	एपीएसवीसी/ 04934/09	सीएमपीएफ क्वार्टर्स, ब्लॉक— एफ, गोदावरीखानी, करीम नगर जिला, आंध्र प्रदेश	बीवीएससीएंडएच /एसवीवीयू/09	13.05.86
455	डी. चिन्ना बाबू, पुत्र श्री डी. टेलर जमाल	एपीएसवीसी/ 04858/09	म.न. 7/428, कनाला (ग्राम एवं डाक) नंदयाल तालुक, कुर्नूल जिला, आंध्र प्रदेश	बीवीएससीएंडएच /एसवीवीयू/09	01.06.82
456	डी. हरीश, पुत्र श्री डी. चंद्रा मौलीश्वर राव	एपीएसवीसी/ 04938/09	पेडापल्ली डाक, नगरम जिला, पिटलावानीपलेम ग्राम, गुंटूर जिला— 522329, आंध्र प्रदेश	बीवीएससीएंडएच /एसवीवीयू/09	26.08.87
457	डी. इंदिरा, पुत्री श्री डी. बिक्शा नाइक	एपीएसवीसी/ 04988/09	ग्राम:रल्ला वागू टांडा, डामरा चरिया (एम).मिरयलगुडा ता., नालगोंडा जिला, आंध्र प्रदेश	बीवीएससीएंडएच /एसवीवीयू/09	13.08.85
458	डी.के. गुप्ता, पुत्र श्री के.एल. गुप्ता	यूपीएसवीसी/ 5057/09	कांसपुर रोड, दातागंज, जिला बदाऊँ, उ.प्र.	बीवीएससीएंडएच /यूपीपीडीडीयूपीसी वीवी/09	15.02.78
459	डी.के. चौधरी, पुत्र श्री एन.बी. चौधरी	यूपीएसवीसी/ 4908/09	ग्राम—नदवान, डाक— बंकुनयान, जिला सिद्धार्थ नगर, उ.प्र.	बीवीएससीएंडएच /यूपीपीडीडीयूपीसी वीवी/09	31.03.79
460	डी. किशोर, पुत्र श्री डी. जानकेश्वर राव	एपीएसवीसी/ 04826/09	डी.न. 1-23-67, बलागा, बालाजी नगर, श्रीकाकुलम— 532001, आंध्र प्रदेश	बीवीएससीएंडएच /एसवीवीयू/09	12.08.82
461	डी.पी. सिंह, पुत्र श्री एस.डी. सिंह	यूपीएसवीसी/ 5036/09	ब्लॉक ए, भगवती नगर, सुसुवाहा, वाराणसी, उ.प्र.	बीवीएससीएंडएच /आगरा विवि/73	09.07.49
462	डी.पी. सिंह, पुत्र श्री एस.पी. सिंह	यूपीएसवीसी/ 5073/10	एसएच-3/1ए, 201, तुलसी विहार कॉलोनी, नवलपुर बासनी, जिला—वाराणसी, उ.प्र.	बीवीएससीएंडएच /आईजीकेवीवी/0 9	06.11.82
463	डी.पी. सिंह, पुत्र श्री आर. पी. सिंह	यूपीएसवीसी/ 5074/10	म.न. 1/577, न्यू कॉलोनी, सुरेद्र नगर, अलीगढ़, उ.प्र.	बीवीएससीएंडएच /आरएयू/10	02.10.85
464	डी. पल्लवी, पुत्री श्री अक्की रेड्डी	एपीएसवीसी/ 04943/09	पोन्नलुरु डाक एवं एम, प्रकासम जिला, आंध्र प्रदेश	बीवीएससीएंडएच /एसवीवीयू/09	02.05.84
465	डी. शांतिबाबू, पुत्र श्री डी. सोमुलु	एपीएसवीसी/ 04925/09	म.न. 6-2-1133/4ए, प्लॉट न.34, न्यू वेंकटेश्वर कॉलोनी, हैदराबाद रोड, नालगोंडा जिला, आंध्र प्रदेश	बीवीएससीएंडएच /एसवीवीयू/09	12.04.84
466	दाभी भगवानजी जीवनलाल	जीवीसी/ 805	एटी—शापुर (सोराथ), जगन्नाथ रोड, खान दरवाजी, तालुक— वनथली, जिला—जूनागढ़, गुजरात	बीवीएससीएंडएच /जीएयू/84	19.10.60

467	दामी संजय कुमार भगत सिंह	जीवीसी / 1267	14, हरिओम बंगला, आबाद नगर रोड, बोपल, अहमदाबाद, गुजरात	बीवीएससीएंडएच / जीएयू/ 90	24.7.67
468	दादगा प्रकाश नाथूभाई	जीवीसी / 1063	16, निशांत पार्क सोसा, सुष्टि पार्क होटल के पीछे, कॉमर्स कॉलेज के सामने, मिर्जापुर रोड, भुज, जिला: कच्छ 370001	बीवीएससीएंडएच / जीएयू/ 88	10.10.62
469	दधानिया दिनेश कुमार मोहन लाल	जीवीसी / 952	बी-36, आलाप एवेन्यू, पुष्कर घाम के निकट, यूनिवर्सिटी रोड, राजकोट- 5, गुजरात	बीवीएससीएंडएच / जीएयू/ 86	18.11.62
470	दधानिया जितेंद्र कुमार जमनादास	जीवीसी / 865	गोवानी शेरी, एटी: सुपेदी, तालुक- धोराजी, जिला- राजकोट, गुजरात	बीवीएससीएंडएच / जीएयू/ 87	23.8.61
471	दधानिया राजेश कुमार गोविंदभाई	जीवीसी / 1718	एटी एवं डाक- अम्बावाड़ी, तालुक- केशोड, जिला- जूनागढ़, गुजरात	बीवीएससीएंडएच / जीएयू/ 94	1.10.71
472	दधानिया शैलेश शामजीभाई	जीवीसी / 1909	303, सहारा अपार्ट., तीसरी मंजिल, सुश्रुत अस्पताल के निकट, सरदार चौक, वीजलपुर, नवसारी, गुजरात	बीवीएससीएंडएच / जीएयू/ 95	13.8.73
473	दधानिया विजय कुमार औधवजी भाई	जीवीसी / 1608	एटी- चलथान, सुमल दान फैक्टरी, जिला- सूरत, गुजरात	बीवीएससीएंडएच / जीएयू/ 93	9.8.71
474	दधानिया अश्विन कुमार मनसुखलाल	जीवीसी / 1553	एटी एवं डाक- मातीवाड़ी, तालुक- धोराजी, जिला राजकोट- 360440, गुजरात	बीवीएससीएंडएच / जीएयू/ 92	2.2.70
475	दधानिया राजेश कुमार चिमन लाल	जीवीसी / 2249	"साकेत", तिरुपति सोसायटी, एटी व डाक- जाम, जोधपुर, जिला- जामनगर, गुजरात	बीवीएससीएंडएच / जीएयू/ 00	15.10.77
476	दगडे अरुण मारुति	महाएसवीसी / 8152 / 09	रेलवे स्टेशन के सामने, ए/ पी भलवानी (जेउर), तालुक करमला, जिला- सोलापुर- 413202, महाराष्ट्र	बीवीएससीएंडएच / एमएंडएफएसयू / 08	02.06.85
477	दगडू संजय शांताराम	महाएसवीसी / 8213 / 09	द्वारा: शांताराम दूगडू, सावरकर नगर, तालुक मनवथ, जिला परभनी- 431505, महाराष्ट्र	बीवीएससीएंडएच / एमएंडएफएसयू / 09	21.08.84
478	दहीवाडे सिद्धार्थ सुभाष	महाएसवीसी / 8217 / 09	एटी- मांडवा पाठन, तालुक- अम्बाजोगई, जिला- बीड- 431517, महाराष्ट्र	बीवीएससीएंडएच / एमएंडएफएसयू / 09	05.07.83
479	डाके श्रीकांत लक्ष्मणराव	महाएसवीसी / 8278 / 09	डाके लक्ष्मण जनार्दनराव, एटी -पिम्परी(केडी), डाक-हिवारा, गोवर्धन, तालुक- माजलगांव, जिला- बीड	बीवीएससीएंडएच / एमएंडएफएसयू / 09	14.01.86
480	दलाल सुधीर कुमार	जीवीसी / 1822	12/ए, आश्रुति टेनामेंट्स, बोरसाड रोड, आनंद, गुजरात	बीवीएससीएंडएच / जेएनकेवीवी / 77	5.1.56
481	दलसानिया रतनशी जेराम	जीवीसी / 924	8-ए, डॉक्टर सोसायटी, "कृष्णाकुंज", चीतल रोड, अमरेली- 365801, गुजरात	बीवीएससीएंडएच / जीएयू/ 87	1.2.62

482	दल्वी दर्शन पांडुरंग	महाएसवीसी / 8323 / 10	1. कलमबाद, डाक- तुलई, तालुक- मुरबाद, जिला- थाणे- 421401, महाराष्ट्र	बीवीएससीएंडएच / एमएएंडएफएसयू / 09	01.07.86
483	दल्सानिया अश्विनी देसवी	जीवीसी / 2035	तालुक- शेरदी, तहसील- मनवादर, जिला- जूनागढ़, गुजरात	बीवीएससीएंडएच / जीएयू / 96	31.7.73
484	दल्सानिया राजेश नानजी	जीवीसी / 1890	'मधुवन', जलराम-3, शेरी न., भारत डेयरी के सामने, यूनिवर्सिटी रोड, राजकोट, गुजरात	बीवीएससीएंडएच / जीएयू / 95	30.6.73
485	दलवेंद्र सिंह, पुत्र श्री भगवान सिंह	राजएसवीसी / 3598 / 09	ग्राम- मोहब्बतसारी, डाक- घोरीवाड़ा खुर्द, झुंझुनू- 333705, राजस्थान	बीवीएससीएंडएच / आरएयू / 09	25.07.78
486	दामोर कांतिभाई मोतीभाई	जीवीसी / 1799	ए-16, सृष्टि सोसायटी, चानी जकात नाका, बड़ौदा, गुजरात	बीवीएससीएंडएच / जीएयू / 94	16.3.72
487	दामोर परेशकुमार सोमाभाई	जीवीसी / 2152	62, आशीष नगर, आईटीआई कॉलेज के पीछे, तालु: गोधरा, जिला- पंचमहल, गुजरात	बीवीएससीएंडएच / जीएयू / 98	24.1.73
488	डांगर निखिल शांतिलाल	जीवीसी / 3109 / 10	सरकारी अस्पताल के पीछे, कृष्णा सोसायटी, मेनददा, जिला- जूनागढ़, गुजरात	बीवीएससीएंडएच / एएयू / 10	04.01.87
489	डांगर रायाडे धरनतभाई	जीवीसी / 2188	वेटरिनरी डिस्पेंसरी, लालपुर, तालुक- लालपुर, जिला- जामनगर, गुजरात	बीवीएससीएंडएच / जीएयू / 99	1.6.73
490	डांगरिया अनुरस मंजीभाई	जीवीसी / 397	पशुपालन उपनिदेशक का कार्यालय, पशु चिकित्सा पॉलीक्लिनिक, सारू सेक्शन रोड, जामनगर, गुजरात	बीवीएससीएंडएच / जीएयू / 76	1.6.54
491	दानवीर सिंह यादव, पुत्र श्री हरपाल सिंह यादव	एमपीएसवीसी / 2640 / 09	सोलंकी पेट्रोल पम्प के निकट, एम.एस. रोड, मोरैना- 476229, म.प्र.	बीवीएससीएंडएच / जेएनकेवीवी / 09	18.10.79
492	दाराजी दिलीप कुमार कन्हैयालाल	जीवीसी / 533	जी-88 / 1046, शिवम अपार्ट., नवा वडाज, निकट व्यासवाडी, अहमदाबाद-13, गुजरात	बीवीएससीएंडएच / जीएयू / 80	8.7.58
493	दारजी प्रकाश चंद्र रतिलाल	जीवीसी / 882	11, नीलाम्बर बंगला-1, सामने नारायण विद्यालय, निकट स्वामीनारायण गुरुकुल, दामोई, वघोडिया, रिंग रोड, वडोडरा:19	बीवीएससीएंडएच / जीएयू / 87	6.1.64
494	दास अरुणोदय, पुत्र श्री अनथ च दास	एएसएम / 247 0 / 09	न्यू सचल, एफसीआई कॉलोनी, रूपकोवर पथ, म.न. 60, गुवाहाटी- 22, असम	बीवीएससीएंडएच / एएयू / 09	14.10.85
495	दास दीपा, पुत्री श्री हेम दास	एएसएम / 244 9 / 09	एस. हैबोरगांव, डाक- हैबोरगांव, जिला- नागांव, असम	बीवीएससीएंडएच / एएयू / 09	9.5.79
496	दास गौरांग, पुत्र श्री माधव च. दास	एएसएम / 245 6 / 09	ग्राम ईसापुरहाट, डाक एवं जिला- बारपेटा, असम	बीवीएससीएंडएच / एएयू / 09	23.12.85

497	दास जीबेश कमल, पुत्र श्री कमलेश्वर दास	एसएसएम/245 7/09	बोकाखाट मोहमैकी गांव, डाक —बोकाखाट, जिला—गोलाघाट, पिन— 785612, असम	बीवीएससीएंडएएच /एसएसएम/09	11.4.83
498	दसादिया दिनेश नवनीत लाल	जीवीसी/ 1628	बी-302, शक्ति पैलेस, रेनुका हॉल के निकट, नेहरू पार्क, बस्त्रपुर, अहमदाबाद— 15, गुजरात	बीवीएससीएंडएएच /जीएसएम/93	23.4.71
499	दस्माबाई बनोधु, पुत्री श्री घानसिंह	एपीएसवीसी/ 04928/09	रत्नागिरि डाक, भीनादेवरा पल्ली एम, करीमनगर जिला— 505497, आंध्र प्रदेश	बीवीएससीएंडएएच /एसवीवीसी/09	27.07.84
500	दाउद आदम सुल्तान	जीवीसी/ 398	ए-2, लिव-वैल सोसायटी, सम्पर्क, भद्रीघ— 392001, गुजरात	बीवीएससीएंडएएच /जीएसएम/76	21.4.51
501	दौंडकर प्रशांत सुदामराव	महाएसवीसी/ 8327/10	एटी एवं डाक— अम्बाले, तालुक— शिरूर, जिला— पुणे— 412211, महाराष्ट्र	बीवीएससीएंडएएच /एमएसएसएमएसएम/09	16.02.85
502	दवे रश्मिकांत रमणीक लाल	जीवीसी/ 196	30, श्री भक्ति टेनामेंट, प्रमुख स्वामी अस्पताल के निकट, एटलाडारा रोड, वडोडरा, गुजरात	बीवीएससीएंडएएच /जीएसएम/70	30.3.45
503	दवे चिराग भालचंद्र	जीवीसी/ 1638	13, अवंति बंगला, जोधपुर गाम रोड, सेटेलाइट, अहमदाबाद — 15, गुजरात	बीवीएससीएंडएएच /केकेवी/89	28.3.88
504	दवे महेश कुमार जमना शंकर	जीवीसी/ 588	बी/39-40, नंदीश्वर टेनामेंट, सोमेश्वर पार्क के निकट, सन—एन—स्टेप क्लब के सामने, सोला रोड, थल्लेज, अहमदाबाद	बीवीएससीएंडएएच /जीएसएम/81	3.10.58
505	दवे नीलम कुमार विष्णु प्रसाद	जीवीसी/ 957	म्युनिसिपल वॉटर वर्क्स के निकट, पुलिस स्टेशन के पास, एटी व तालुक बोरसाड, जिला— आनंद, गुजरात	बीवीएससीएंडएएच /जीएसएम/86	7.4.83
506	दवे नितिन कुमार रवि शंकर	जीवीसी/ 675	"चिंतन", 6, योगी नगर, अक्षर मंदिर के सामने, गॉडल, जिला— राजकोट, गुजरात	बीवीएससीएंडएएच /जीएसएम/72	9.12.50
507	दवे संजय कुमार मनुप्रसाद	जीवीसी/ 2067	12, ओम शुभम बंगला, नागलपुर, एटी एवं डाक— मेहसाना, गुजरात	बीवीएससीएंडएएच /जीएसएम/67	31.1.74
508	देवेंद्र कुमार अग्रवाल, पुत्र स्व. श्री आर.के अग्रवाल	यूकेएसवीसी/ 498/10	V/1431, टीए कॉलोनी, पंत नगर, यू. एस. नगर, उत्तराखंड	बीवीएससीएंडएएच /जीबीपीयूएंडटी /76	25.07.52
509	देवेंद्र कुमार, पुत्र स्व. श्री फूल सिंह	राजएसवीसी/ 3735/10	सेंट्रल शीप एंड वूल रिसर्च इंस्टीट्यूट, अविकानगर, जिला— टोंक, राजस्थान	बीवीएससीएंडएएच /जीबीपीयूएंडटी /94	08.07.68
510	डेविड दीनाकरन डी. (देईवक्कन)	टीएनएसवीसी /4485/09	198/109, राजाराम नगर, विद्या अस्पताल के पीछे, सलेम— 636007, तमिलनाडु	बीवीएससी/टीएनए यू/76	09.10.46

511	दया वी.ई. गिफ्टसन (वी. इमैनुअल)	टीएनएसवीसी /4671/10	19/148, शालोम इल्लम, नरियार विल्लै, कुजीथुरई, कन्याकुमारी जिला, तमिलनाडु	बीवीएससी/टीएन यूवीएस/02	19.06.79
512	देबाशीष देव, पुत्र स्व. श्री दिनेश रंजन देव	जेवीसी/624 /09	टूरिंग वेटरिनरी अधिकारी, राहरगोरा, जमशेदपुर, पूर्व सिंघभूम, झारखंड	बीवीएससीएंडएच /बीएयू/88	02.07.60
513	देबाशीषकर, पुत्र श्री सुरेश चंद्राकर	ओएसवीसी/2 279/09	एटी-पूर्वकाछा, डाक- मध्यकाछा, वाया: बहुग्राम, जिला - कटक-754200, उड़ीसा	बीवीएससीएंडएच /ओयूएटी/09	16.05.86
514	देबस्मिता देबाता, पुत्री श्रीसुदर्शन देबाता	ओएसवीसी/2 273/09	एटी एवं डाक- ब्रह्मापुरो, वाया-बंकी, जिला-कटक- 754008, उड़ीसा	बीवीएससीएंडएच /ओयूएटी/09	01.07.86
515	देबीप्रसाद मोहपात्रा, पुत्र श्री सच्चिदानंद मोहपात्रा	ओएसवीसी/2 301/09	एटी- बीजीपुर, डाक- निमापारा, जिला- पुरी, उड़ीसा	बीवीएससीएंडएच /ओयूएटी/09	24.05.86
516	देबोश्री भौमिक, पुत्री श्री टी.के. भौमिक	एमपीएसवीसी /2637/09	1139, यादव कॉलोनी, जबलपुर, म.प्र.- 482002	बीवीएससीएंडएच /जेएनकेवीवी/09	18.10.85
517	देचम्मा के.पी., पुत्र श्री पूनाचा के.एम.	कर्नाएसवीसी/ 4288/09	जनरल थिमइयाह लेआउट, अपइय्या स्वामी रोड, विराजपेट - 571218, कोडागू जिला, कर्नाटक	बीवीएससीएंडएच /केवीएफएसयू/ 09	18.7.86
518	देबकिया शैलेश कुमार मोहन लाल	जीवीसी/ 1566	बी+14, तिरुपति बंगलो, हनुमान टेकरी, धरती रिसोर्ट के पीछे, आबू हाईवे, पालनपुर, जिला- बनासकंठा, गुजरात	बीवीएससीएंडएच /जीएयू/92	20.5.72
519	देघरोतिया हसन भाई जलालभाई	जीवीसी/ 302	101, जहीराबाद सोसायटी, पानपुर पटिया एरिया, सवागढ़ पंचायत, तालुक हिम्मत नगर, जिला- साबरकंठा- 383220	बीवीएससीएंडएच /जीएयू/73	1.10.50
520	दीबान के. (टी. किट्टू)	टीएनएसवीसी /4647/09	नगावयाल रोड, देवाकोट्टई रास्ता, करईकुडी-5, सिवंगंगा जिला, तमिलनाडु	बीवीएससीएंडएच /टीएनयूवीएस /09	08.05.86
521	दीप कुमार, पुत्र श्री राम प्रकाश	यूपीएसवीसी/ 4919/09	ग्राम- किसौली, जिला- मुरादाबाद, उ.प्र.	बीवीएससीएंडएच /जीबीपीयूएंडटी /09	06.07.85
522	दीपक मोहन, पुत्र श्री वी. मोहनदास	केएसवीसी/35 36/09	वृंदावनम, टीसी 15/646 (1), वेलायमबलम शास्थामंगलम, डाक- थिरुवनंतपुरम, केरल	बीवीएससीएंडएच /केएयू/09	24.07.82
523	दीपक गुजराल, पुत्र डॉ. जगतरी लाल गुजराल	यूकेएसवीसी/ 496/10	वेटरिनरी अधिकारी (तेका), पोल्ट्री फार्म, हवलबाग, जिला- अल्मोड़ा, उत्तराखंड	बीवीएससीएंडएच /जीबीपीयूएंडटी /98	01.06.73
524	दीपक कुमार नाग, पुत्र श्री राम कुमार नाग	सीएचएसवीसी /471/09	ग्राम उसारीबेडा, लोहांडीगौड, जिला- बस्तर, छत्तीसगढ़	बीवीएससीएंडएच /आईजीकेवीवी/0 7-08	07.08.82
525	दीपक कुमार प्रधान, पुत्र श्री सुखदेव प्रधान	ओएसवीसी/2 263/09	क्वा.न. 4304, एचएएल टाउनशिप, सुनाबेदा-2, कोरापुट, उड़ीसा	बीवीएससीएंडएच /ओयूएटी/08	10.07.83

526	दीपक कुमार रथ, पुत्र श्री सुभाष चंद्र रथ	ओएसवीसी / 2 285 / 09	एटी एवं डाक-बैघनिया, जिला- नयागढ़- 752077, उड़ीसा	बीवीएससीएंडएच / ओयूएटी / 09	28.03.86
527	दीपक नवानी, पुत्र श्री नंद लाल	एमपीएसवीसी / 2604 / 09	सिविल लाइंस, बार्ड न. 2, ज्ञान ज्योति स्कूल के निकट, नैनपुर, मांडला, म.प्र.	बीवीएससीएंडएच / जेएनकेवीवी / 09	1.11.83
528	दीपक रंजन बेहेरा, पुत्र श्री सरत चंद्र बेहेरा	ओएसवीसी / 2 277 / 09	एटी एवं डाक-गराजंगा, जिला- कैदपाड़ा- 754213, उड़ीसा	बीवीएससीएंडएच / ओयूएटी / 09	05.01.86
529	दीपक, पुत्र श्री वृज किशोर राजपूत	यूपीएसवीसी / 4989 / 09	राजीव नगर, मुसकारा, जिला- हमीरपुर, उ. प्र.	बीवीएससीएंडएच / एनडीयूएंडटी / 09	01.12.82
530	दीपक शर्मा, पुत्र श्री सुरजीत शर्मा	हरिएसवीसी / 2 141	समरफील्ड हाई स्कूल के पास, गुरुद्वारा बस्ती, कलावली, जिला सिरसा, हरियाणा	बीवीएससीएंडएच / सीसीएसएचएयू/ 06	21.6.81
531	दीपक शिओ, पुत्र श्री अयोध्या प्रसाद शिओ	एमपीएसवीसी / 2616 / 09	ए-22, विजय नगर एक्सटेंशन, रनझी, जबलपुर, म.प्र.	बीवीएससीएंडएच / जेएनकेवीवी / 09	28.5.81
532	दीपक उपाध्याय, पुत्र श्री नंद कुमार उपाध्याय	एमपीएसवीसी / 2642 / 09	म.न. 250, कबीर वार्ड, डुंडा, सिओनी, म.प्र.- 480661	बीवीएससीएंडएच / जेएनकेवीवी / 09	24.06.86
533	दीपक टी. (एम. थिरुमेनन)	टीएनएसवीसी / 4512 / 09	चिथिराई स्ट्रीट, नागरासामपट्टी डाक, पोचमपल्ली तालुक, कृष्णागिरि- 635204, तमिलनाडु	बीवीएससीएंडएच / टीएनयूवीएस / 09	03.07.86
534	दीपेश रावते, पुत्र श्री तुला राम रावते	सीएचएसवीसी / 537 / 10	ग्राम एवं डाक- सोनारपल, जिला- बस्तर, छत्तीसगढ़	बीवीएससीएंडएच / आईजीकेवीवी / 0 9	13.12.85
535	दीपेश शर्मा, पुत्र श्री त्रिभुवन दत्त शर्मा	यूकेएसवीसी / 449 / 09	कोहली कॉलोनी, बितोरिया न. 1, हलद्वानी, जिला- नैनीताल, उत्तराखंड	बीवीएससीएंडएच / जीबीपीयूएंडटी / 09	25.12.82
536	दीप्ती बोध, पुत्री स्व. श्री जगदेव सिंह	एचवीसी / 865 / 09	द्वारा: श्री तुलसी राम, ग्राम टांडी, डाक- टांडी, जिला- माहौल एवं स्पिति, हि.प्र.	बीवीएससीएंडएच / सीएसकेएचपीकेवी / 09	08.02.85
537	दीप्ती नाग, पुत्र श्री के.पी. नाग	एमपीएसवीसी / 2657 / 10	एम 854, दर्पण कॉलोनी, ग्वालियर- 474011, म.प्र.	बीवीएससीएंडएच / आईजीकेवीवी / 0 9	7.10.83
538	डेका अनिल, पुत्र श्री नदेश्वर डेका	एसएम / 245 0 / 09	ग्राम एवं डाक- बोनगांव, जिला- बारपेटा, पिन- 781375, असम	बीवीएससीएंडएच / एसयू / 09	1.1.83
539	डेका सुरक्षा सुबेदी, पुत्र श्री संजीव डेका	एसएम / 247 9 / 09	द्वारा डॉ. संजीव डेका, ग्राम एवं डाक- बेजेरे, जिला- कामरूप- 781121, असम	बीवीएससीएंडएच / एसयू / 09	3.2.87
540	देवकर अवधूत विजय	महाएसवीसी / 8357 / 10	द्वारा: विजय रामचंद्र देवकर, ए/ पी-केम, तालुक करमला, जिला सोलापुर- 413223, महाराष्ट्र	बीवीएससीएंडएच / एमएंडएचएसयू / 09	08.11.85

541	देओरी जूरी, पुत्र श्री बिरन देओरी	एएसएम/243 2/09	नावापुर नगर, डाक- चापखोवा, सादिया, जिला- तिनसुखिया, असम	बीवीएससीएंडएएच /एएयू/09	3.8.85
542	देओरी पराग, पुत्र स्व. श्री प्रफुल्ल देओरी	एएसएम/243 5/09	कटिओरी बामराजबारी, जिला- शिवसागर, पिन- 785671, असम	बीवीएससीएंडएएच /एएयू/09	22.10.84
543	देराश्री पंकज कुमार जयतिलाल	जीवीसी/ 898	ए-603, संश्रय टावर, नंद दीप बंगले के निकट, लेकव्यू अपा. के पीछे, वस्त्रपुर लेक, वस्त्रपुर, अहमदाबाद- 380054	बीवीएससीएंडएएच /जीएयू/86	1.9.62
544	देसाई अमृत भाई लीलामाई	जीवीसी/ 1857	एटी एवं डाक- सुदासना, तालुक- सतलासना, जिला- मेहसाना- 384340, गुजरात	बीवीएससीएंडएएच /जीएयू/95	9.7.69
545	देसाई भरत कुमार मसोतभाई	जीवीसी/ 1081	महादेव वास, देसीवाडो, एटी एवं डाक- खेरालू, मेहसाना, गुजरात	बीवीएससीएंडएएच /जीएयू/88	1.6.64
546	देसाई हिम्मत उकाभाई	जीवीसी/ 1442	वैटरिनरी डिस्पेंसरी, अमरेली, तालुक एवं जिला- अमरेली, गुजरात	बीवीएससीएंडएएच /जीएयू/91	1.6.66
547	देसाई जयदीप कुमार मोहन सिंह	जीवीसी/ 1321	एटी एवं डाक- मारोली, छिनम रोड, जिला- नवसारी, गुजरात	बीवीएससीएंडएएच /केकेवी/90	26.12.65
548	देसाई कलामाई अर्जनभाई	जीवीसी/ 970	477/6, ईशान फ्लैट, विराटनगर, सेक्टर- 23, गांधी नगर, गुजरात	बीवीएससीएंडएएच /जीएयू/86	6.1.59
549	देसाई कृशनाक राजेंद्र कुमार	जीवीसी/ 3110/10	ई-37, जीईबी कॉलोनी, धुवल, गुजरात	बीवीएससीएंडएएच /एएयू/10	15.06.88
550	देसाई मनसुखलाल ठाकरशीभाई	जीवीसी/ 1028	एटी- दुमियानी, तालुक- उपलेटा, जिला- राजकोट, गुजरात	बीवीएससीएंडएएच /जीएयू/85	5.9.61
551	देसाई ओछव कुमार हसमुखलाल	जीवीसी/ 877	बी/20, उत्सव बंगला, श्री नगर सोसायटी के सामने, मेहसाना- 384002, गुजरात	बीवीएससीएंडएएच /जीएयू/86	10.4.63
552	देसाई प्रवीन भाई जशुभाई	जीवीसी/ 1698	पानियो वास, देसाई वाडो, खेरालू, जिला- मेहसाना, गुजरात	बीवीएससीएंडएएच /जीएयू/89	6.8.67
553	देसाई सेंधाभाई मुल्जीभाई	जीवीसी/ 1942	राबड़ीवास, एटी एवं डाक- मकटुपुर, तालुक- उंझा, जिला- मेहसाना, गुजरात	बीवीएससीएंडएएच /जीएयू/96	1.1.74
554	देसाई सुभाष नवनीत लाल	जीवीसी/ 2228	13/ए, कैलाश नगर सोसा., इनडोर स्टेडियम के निकट, घोडोड रोड, सूरत, गुजरात	बीवीएससीएंडएएच /जीएयू/71	19.9.45
555	देसाई सुबोध कुमार मोहन लाल	जीवीसी/ 1199	एटी एवं डाक- अलीपोर, तालुक- चिखाली, जिला- नवसारी- 396409, गुजरात	बीवीएससीएंडएएच /जीएयू/77	22.6.54

556	देसाई वसंत कुमार भोमाभाई	जीवीसी / 3004 / 09	एटी- रामपुरा (मोट), डाक- वटेर, तालुक- धनेरा, जिला- बनासकंठा, गुजरात	बीवीएससीएंडएच / एसडीएयू / 09	06.02.87
557	देसाई विक्रम रामजीभाई	जीवीसी / 3048 / 09	एटी- धुमथाल, तालुक- विसनगर, जिला- मेहसाना, गुजरात	बीवीएससीएंडएच / एएयू / 09	10.08.85
558	देशकर स्वागत किशोर	महाएसवीसी / 8195 / 09	राधे-राधे, डी-42, हिमालय विश्व, नागपुर रोड, वर्धा- 442001, महाराष्ट्र	बीवीएससीएंडएच / एमएएंडएफएसयू / 09	21.10.85
559	देखमुख अदिति विनय	महाएसवीसी / 8345 / 10	8, रामकृपा, डी.एल. वैद्या रोड, दादर, मुम्बई- 400028, महाराष्ट्र	बीवीएससीएंडएच / एमएएंडएफएसयू / 09	03.11.86
560	देशमुख नितिन माणिकराव	जीवीसी / 1352	सी-17, वर्धमान बंगला, अहमदाबाद हाईवे के निकट, पालनपुर-385001, गुजरात	बीवीएससीएंडएच / पीकेवी / 88	19.9.85
561	देखमुख रुचिर रमेशराव	महाएसवीसी / 8230 / 09	लक्ष्मी नारायण संदन, डी.पी. रोड, गजानन नगर, तालुक- माजलगांव, जिला- बीड, महाराष्ट्र	बीवीएससीएंडएच / एमएएंडएफएसयू / 09	31.12.86
562	देशमुख सागर सुरेंद्र	महाएसवीसी / 8288 / 09	नया प्रैस, विद्या कॉलोनी, अकोट, जिला- अकोला- 444101, महाराष्ट्र	बीवीएससीएंडएच / एमएएंडएफएसयू / 09	14.07.87
563	देशपांडे रसिका रमेश	महाएसवीसी / 8346 / 10	'वजाबाकी', 60 / 1, जयनगर, न्यू दशमेश नगर, न्यू उस्मानपुरा, तालुक व जिला औरंगाबाद- 431005	बीवीएससीएंडएच / एमएएंडएफएसयू / 09	17.06.87
564	देशपांडे शिरीष रामराव	महाएसवीसी / 8151 / 09	सुधांशी सीएचएस-5, नंदा पाटकर रोड, विले पार्ले (ईस्ट), मुम्बई- 57, महाराष्ट्र	बीवीएससीएंडएच / केकेवीपी / 74	17.12.47
565	देसीगुरजा डी. (पी. दुरईराजा)	टीएनएसवीसी / 4524 / 09	देसीगुरजा डेरी फार्म, डाक- नवाकुरिच, अदटूर तालुक, संलेम- 636112, तमिलनाडु	बीवीएससीएंडएच / टीएनयूवीएस / 09	03.03.84
566	डेशारिया परसोत्तम मन्जीभाई	जीवीसी / 1287	एटी एवं डाक-टीकर (रन), तालुक-हलवड, जिला-सुरेंद्र नगर, पिन- 363330, गुजरात	बीवीएससीएंडएच / जीएयू / 90	5.6.67
567	देव व्रत सिंह, पुत्र श्री मुरारी सिंह	यूकेएसवीसी / 501 / 10	8 / 212, शामु आवास विकास, शुभ विहार, काशीपुर, यू.एस. नगर, उत्तराखंड	बीवीएससीएंडएच / आगरा विवि / 78	01.01.56
568	देवालिया भरत कुमार रावजीभाई	जीवीसी / 1495	कलनाला के निकट, पोरबंदर रोड, उपलेटा- 360490, जिला- राजकोट, गुजरात	बीवीएससीएंडएच / जीएयू / 92	31.1.68
569	देवेंद्र कुमार कुशवाहा, पुत्र श्री राम सनेही	यूपीएसवीसी / 4968 / 09	ग्राम मौहली, डाक- पुरिनी, जिला- हमीरपुर, उ.प्र.	बीवीएससीएंडएच / एनडीयूएंडटी / 09	20.10.78
570	देवेंद्र कुमार, पुत्र श्री द्वारिका प्रसाद	यूपीएसवीसी / 5058 / 09	ग्राम एवं डाक- पंडवाहा, जिला- झांसी, उ. प्र.	बीवीएससीएंडएच / केयू / 09	15.04.79

571	देवेंद्र कुमार, पुत्र श्री घसीटा	यूपीएसवीसी / 4941 / 09	ग्राम एवं डाक— बिडोखेर (पुरई), हमीरपुर, उ.प्र.	बीवीएससीएंडएएच / एनडीयूएंडटी / 09	15.01.81
572	देवेंद्र पाल सिंह, पुत्र श्री आई.पी. सिंह	यूपीएसवीसी / 4907 / 09	1, कंचन नगर, आगरा रोड, जिला— हाथरस, उ.प्र.	बीवीएससीएंडएएच / आगराविवि / 83	04.09.59
573	देवेश कुमार गिरि, पुत्र स्व. श्री रमेश गिरि	सीएचएसवीसी / 500 / 10	ग्राम एवं डाक— बकावंद, जिला— बस्तर, छत्तीसगढ़	बीवीएससीएंडएएच / आईजीकेवीवी / 09	18.11.85
574	देवेश कुमार सिंह, पुत्र श्री महेंद्र प्रसाद सिंह	जेवीसी / 654 / 10	द्वारा: डॉ. महेंद्र प्रसाद सिंह, लाटेहर, झारखंड	बीवीएससीएंडएएच / बीएयू / 93	28.01.66
575	देवी रुमा, पुत्री स्व. श्री अतुल च. शर्मा बरुआ	एसएम / 247 / 09	द्वारा प्रशांत शर्मा बरुआ, ग्राम एवं डाक—मधुपुर, जिला— नागांव, असम	बीवीएससीएंडएएच / एएयू / 08	11.1.85
576	धदूक अशोक जगभाई	जीवीसी / 1452	द्वारा जलजीत हॉल, जलजीत अपा. —201, अमृतपार्क सोसा., आनंद नगर ब्रिज के निकट, राजकोट— 360002, गुजरात	बीवीएससीएंडएएच / जीएयू / 91	9.2.66
577	धामगुंडे अजय सुभाषराव	महाएसवीसी / 8246 / 09	“देह रक्षा” सदन, म.न. 1940, जायकवाड़ी वर्कशॉप के पीछे, कल्याण मंडपम के निकट, लोकमान्य नगर, परभनी: 431401	बीवीएससीएंडएएच / एमएंडएफएसयू / 09	25.07.83
578	धामोथरन पी. (टी. पलानीसामी)	टीएनएसवीसी / 4590 / 09	99 / 61, नैनमपट्टी रोड स्ट्रीट, इडापडुडी तालुक, सलेम जिला — 637101, तमिलनाडु	बीवीएससीएंडएएच / टीएनयूवीएस / 09	10.03.84
579	धमसानिया दिलीप कुमार दयालाल	जीवीसी / 1395	एटी: फाला, वाया: धुवन, तालुक व जिला— जामनगर— 361120, गुजरात	बीवीएससीएंडएएच / जीएयू / 91	14.11.66
580	धनलक्ष्मी एम. (आर. मरिमुथु)	टीएनएसवीसी / 4539 / 09	राजाराम कंपाउंड, कलियाम्मन कोविल स्ट्रीट, वडामदुरई, डिंडीगल जिला— तमिलनाडु	बीवीएससीएंडएएच / टीएनयूवीएस / 09	16.10.86
581	धनलक्ष्मी वी.एस. (वी. सिवाज्ञानम)	टीएनएसवीसी / 4561 / 09	14, पदाईवेट्टी अम्मान कोविल स्ट्रीट, ईस्ट गेट, थंजावुर— 613001	बीवीएससीएंडएएच / टीएनयूवीएस / 09	31.03.84
582	धनंजय कुमार सिन्हा, पुत्र श्री राम दास सिन्हा	जेवीसी / 646 / 10	ब्लॉक चौक, आर.वी.सी. कनके, रोची— 834006, झारखंड	बीवीएससीएंडएएच / बीएयू / 93	28.11.67
583	धनंजय प्रसाद सिंह, पुत्र श्री अशोक कुमार सिंह	जेवीसी / 653 / 10	बी.ए.एच.ओ., चंडिल सराईकेला खरसावान— 832401, झारखंड	बीवीएससीएंडएएच / बीएयू / 88	20.02.62
584	धने अक्षय अशोक	महाएसवीसी / 8333 / 10	आदित्य, 44, श्री कृष्णा नगर, अकुर्दी, तालुक—हवेली, जिला— पुणे— 411035, महाराष्ट्र	बीवीएससीएंडएएच / एमएंडएफएसयू / 09	03.08.86
585	धनेश वी., पुत्र श्री वी. विजयाराघवन	केएसवीसी / 35 / 66 / 09	दिव्यश्री हाउस, थलाक्कुलाथूर डाक, कोजीकोडे— 673317, केरल	बीवीएससीएंडएएच / केएयू / 09	06.03.85

586	धनिक लाल मंडल, पुत्र स्व. श्री बुधु मंडल	जेवीसी/610 /09	टीवीओ, कुरडेग, सिमडेगा, झारखंड	बीवीएससीएंडएच /आरएयू/91	26.01.67
587	धन्या जोस, पुत्री श्री जोस टी.एम.	केएसवीसी/35 55/09	थुरुथेल हाउस, चेमपारोडा डाक, कोजीकोड- 673528, केरल	बीवीएससीएंडएच /केएयू/09	15.05.86
588	धन्या पी., पुत्री श्री के. सुधाकरन नायर	केएसवीसी/36 02/09	कलापिलाविल वीडू, चेम्मकड डाक,मकान न.पी.पी.एस.वी.130, पेरिनाड,कोल्लम-691303,केरल	बीवीएससीएंडएच /केएयू/09	30.03.83
589	धरम पाल सिंह पूनिया, पुत्र श्री आर.सी. पुनिया	हरिएसवीसी/2 091	बैसला वाली गली, रशूलपुर रोड, पलवल, हरियाणा	बीवीएससीएंडएच /आरएयू/01	5.2.76
590	धरेप्पा गनागेर, पुत्र श्री रामप्पा	कर्नाएसवीसी/ 4246/09	न. 643, चीनीवर लेन, गोकक- 591307, बेलगाम जिला, कर्नाटक	बीवीएससीएंडएच /केवीएफएसयू/ 09	28.11.85
591	धरम सिंह मीना, पुत्र श्री केदार प्रसाद मीना	राजएसवीसी/ 3716/10	ग्राम- गोथ, तहसील- बामनवास, सवाईमाधोपुर- 322212, राजस्थान	बीवीएससीएंडएच /एसकेआरएयू/10	21.10.81
592	धर्मेन्द्र कुमार शर्मा, पुत्र श्री नाथू लाल शर्मा	राजएसवीसी/ 3617/09	प्लॉट न. 46, टीबीएम स्कूल के निकट,ब्रह्मपुरी, सवाईमाधो पुर- 322001, राजस्थान	बीवीएससीएंडएच /आरएयू/09	20.08.80
593	धर्मेन्द्र सिंह, पुत्र श्री एल.पी. सिंह	यूपीएसवीसी/ 4994/09	ग्राम एवं डाक- हांसीपुर, जिला- मिर्जापुर, उ.प्र.	बीवीएससीएंडएच /सीसीएसएचएयू/ 09	12.07.84
594	देढी जगदीश कुमार परशोत्तम भाई	जीवीसी/ 3082/09	एटी एवं डाक- मलधाव, तालुक- महुवा, जिला- भावनगर, गुजरात	बीवीएससीएंडएच /एएयू/09	29.09.82
595	ध्यान चंद, पुत्र श्री बनारसी दास	हरिएसवीसी/2 125	# 159, सेक्टर-4, पंचकुला, हरियाणा	बीवीएससीएंडएच /पंजाबविदि/62	14.10.40
596	धीरज गोयल, पुत्र श्री सत पॉल गोयल	पीबीएसवीसी/ 2872/09	म.न. 19714, गली न. 10-ए, अजीत रोड, भटिंडा, पंजाब	बीवीएससीएंडएच /जीएडीवीएसयू /09	28.2.85
597	धीरेंद्र सिंह, पुत्र श्री राजवीर सिंह	यूपीएसवीसी/ 4981/09	ग्राम बहादुर गढ़ी, डाक- पीलूखाना, जिला- अलीगढ़, उ.प्र.	बीवीएससीएंडएच /यूपीपीडीडीयूपीसी वीवी/09	15.07.83
598	ढोलकिया घनश्याम बच्चूभाई	जीवीसी/ 1308	बों-54, फार्म बाग, निर्मल सिंहजी वाड़ी, मुंदा रोड, भुज, कच्छ, पिन- 370061, गुजरात	बीवीएससीएंडएच /केकेवी/75	15.12.51
599	ढोलारिया संजय कुमार अर्जनभाई	जीवीसी/ 2068	एटी- चल्थान, सुमल दान फैक्ट्री, जिला- सूरत, गुजरात	बीवीएससीएंडएच /जीएयू/97	25.8.74
600	धुका अतौउरहमान गुलामनबी	जीवीसी/ 469	एटी- हसनपुर, डाक- धोता, तालुक- वडगाम, जिला- बनासकंठा, गुजरात	बीवीएससीएंडएच /जीएयू/78	1.3.55

601	दीक्षा रावत, पुत्री श्री अरविंद किशोर रावत	यूकेएसवीसी/ 461/09	150/4, धरमपुर, जिला— देहरादून, उत्तराखण्ड	बीबीएससीएंडएच / जीबीपीयूएंडटी /09	01.10.85
602	दिलीप कुमार एच., पुत्र श्री हनुमे गौडा	कर्नाएसवीसी/ 4339/09	अनुपम नीलया, एनईएस एकसर्टे, मलावल्ली— 571430 गाण्डिया जिला, कर्नाटक	बीबीएससीएंडएच / केबीएफएसयू/ 08	1.1.87
603	दिलीप कुमार सिंह, पुत्र श्री ए.के. सिंह	यूपीएसवीसी/ 4993/09	ग्राम— तोलागांव, डाक— माचरगवाल, जिला— कच्छी नगर, उ.प्र.	बीबीएससीएंडएच / सीबीएसएचएयू/ 08	10.11.82
604	दिलप्रीत कौर, पुत्री श्री जोगिंदर सिंह	पीबीएसवीसी/ 2905/09	म.न. 3274, गली नं. 5, महागज नगर, मुधियाना, पंजाब	बीबीएससीएंडएच / जीबीपीएसयू /09	2.5.86
605	दीना नाथ चौधरी, पुत्र श्री रूप लाल चौधरी	सीएचएसवीसी/ /535/10	ग्राम— बीडोली, धरमोडा तहसील, जिला— शामाड़, उत्तराखण्ड	बीबीएससीएंडएच / सीबीएससीबीबी/ 95/08	15.04.84
606	दिनेश कुमार चौधरी, पुत्र श्री भोमा राम चौधरी	राजएसवीसी/ 3701/09	ग्राम— सातक पदम सिंह, डाक— देवू, बाडसर— 344037, राजस्थान	बीबीएससीएंडएच / शनद कृषि वि / 09	15.06.82
607	दिनेश कुमार मालवीय पुत्र श्री हेम राज मालवीय	एमपीएसवीसी/ /2603/09	ग्राम— श्री राजीव बाथम, 114/1, नॉर्थ मुम्बई, इंदौर, म.प्र.	बीबीएससीएंडएच / सीएससीबीबी / 09	2.9.79
608	दिनेश कुमार पटेल, पुत्र श्री वीरेंद्र कुमार पटेल	सीएचएसवीसी/ /461/09	चक्रधर नगर चौक, रायगढ़, छत्तीसगढ़	बीबीएससीएंडएच / जेएलएनकेटीबी / 94-95	20.03.69
609	दिनेश कुमार सैनी, पुत्र श्री सीता राम सैनी	राजएसवीसी/ 3714/10	वार्ड नं. 1, खंडेला रोड, गणेश मंदिर के निकट, श्रीगांधीपुर, सीकर— 332715, राजस्थान	बीबीएससीएंडएच / एसकेआरएयू / 10	13.01.81
610	दिनेश कुमार सिंह, पुत्र स्व. श्री कैलाश प्रसाद सिंह	जेवीसी / 657 / 10	वी.ए.एच.ओ. पकुर गोकुलपुर पकुर— 816107 झारखण्ड	बीबीएससीएंडएच / आरएयू / 96	20.09.70
611	दिनेश कुमार टी. (एम. थिरुसंगु)	टीएनएसवीसी/ /4548/09	6 जेड 11, गुरुगा भवन, न्यू एम.जी पुरम, पेरामबूर— 621212, तमिलनाडु	बीबीएससीएंडएच / टीएनएसवीसीएस / 09	06.06.85
612	दिनेश, पुत्र श्री केदार नाथ	हरिएएसवीसी / 2 094	पवन ट्रेडिंग कंपनी, बालरामंद रोड, हिंगार, हरियाणा	बीबीएससीएंडएच / सीबीएसएचएयू/ 09	9.3.86
613	दिनेश कुमार वी. (आर.जी. विजय कुमार)	टीएएसवीसी / 4528 / 09	23 / 308, नैचमपट्टी रातू स्ट्रीट, अजापडी, संजय जिला— 637101, तमिलनाडु	बीबीएससीएंडएच / टीएनयूवीएस / 09	17.06.87
614	दीपक डेका, पुत्र श्री नरेंद्र नाथ डेका	पीबीएसवीसी / 2316 / 09	म.न. 932, आई-ब्लॉक, बीआरएस नगर, मुधियाना पंजाब	बीबीएससीएंडएच / एएयू / 00	1.2.75
615	दीपक कुमार कश्यप, पुत्र श्री देव नारायण कश्यप	सीएचएसवीसी / 501 / 10	श्याम हाकीज के पीछे, बित्तरामपुर, छत्तीसगढ़	बीबीएससीएंडएच / आई.जी.ए.बीबी / 0 9	31.08.82

616	दिवाकर मौर्या, पुत्र श्री एस.के. मौर्या	यूपीएसवीसी/ 4983/09	ग्राम कंडेला, डाक मोती नगर, फैजाबाद, उ. प्र.	बीवीएससीएंडएच /एमएफएसयू/0 9	22.08.78
617	दिवाकर मौर्या, पुत्र श्री एस.पी. मौर्या	यूपीएसवीसी/ 4982/09	कलाकंकर रोड, सिराथू, कौशम्बी, उ.प्र.	बीवीएससीएंडएच /एमएफएसयू/0 9	01.01.81
618	दिव्या गौडा एम., पुत्र श्री महादेवी गौडा	कर्नाएसवीसी/ 4241/09	हलेनाहल्ली, पुरुषनाहल्ली डाक-561204, डोड्डाबल्लपुर, बेंगलुरु रूरल, कर्नाटक	बीवीएससीएंडएच /केवीएफएसयू/ 09	16.7.86
619	दिव्या एस., पुत्र श्री शिवराज आर.	कर्नाएसवीसी/ 4343/09	पोम्बाराहल्ली, उट्टानूर, मुलबागल तालुक, कोलार जिला, कर्नाटक	बीवीएससीएंडएच /केवीएफएसयू/ 09	25.4.87
620	दिव्या सेन, पुत्री श्री सुरेश सेन	एचवीसी/ 889/09	ग्राम हरिपुर, डाक व तहसील- सुंदर नगर, जिला- मंडी, हि.प्र.	बीवीएससीएंडएच /सीएसकेएचपीकेवी /09	12.01.86
621	दिव्या टी.एम., पुत्री श्री ई.पी. गंगाधरन	केएसवीसी/35 73/09	थिरुमंगलथ मीथल हाउस, कुन्नथारा डाक, कोयिलांडी, कोजीकोड- 673327, केरल	बीवीएससीएंडएच /केएयू/09	24.02.85
622	दिव्या पी., पुत्री श्री रघुनाथन	केएसवीसी/ 3585/09	अच्युथम डाक, सिविल स्टेशन इरान्हीपालम, कोजीकोड- 673020, केरल	बीवीएससीएंडएच /केएयू/09	22.04.86
623	दिव्यामोल थॉमस, पुत्री श्री सी.एम. थॉमस	केएसवीसी/ 3551/09	चेरोलिककल हाउस, डाक- पदिंजटिनकारा, कडापलामट्टम, कोट्टायम- 686571, केरल	बीवीएससीएंडएच /केएयू/09	22.08.85
624	दियोरा धनजीभाई लालजीभाई	जीवीसी/ 1668	222, न्यू शांति विजय सोसायटी, वारछा रोड, सूरत, गुजरात	बीवीएससीएंडएच /जीएयू/93	12.9.68
625	डॉक्टर दिलावर हुसैन सुलेमान भाई	जीवीसी/ 1258	एटी एवं डाक- दाहेगाम, तालुक एवं जिला- भड़ौच, गुजरात	बीवीएससीएंडएच /जीएयू/89	1.6.63
626	डोडिया भरत सिंह पंचम सिंह	जीवीसी/ 359	404- अर्पण अपार्टमेंट, नानपुरा, तिमालियावाड़, कदम भवन के सामने, सूरत, गुजरात	बीवीएससीएंडएच /जीएयू/75	4.5.55
627	डोडिया धर्मेन्द्र सिंह उमेद सिंह	जीवीसी/ 1420	एटी व डाक-रामपुरा, चैखला, के निकट, तालुक सानंद, जिला: अहमदाबाद- 382110, गुजरात	बीवीएससीएंडएच /जीएयू/91	16.5.68
628	डोडिया प्रहलाद सिंह मधु सिंह	जीवीसी/ 1920	एटी एवं डाक- महादेवपुरा, तालुक- वीजापुर, जिला- मेहसाना, गुजरात	बीवीएससीएंडएच /जीएयू/96	5.11.74
629	डोडिया वेलाभाई रामजी भाई	जीवीसी/ 1851	एटी एवं डाक- चलावा, तालुक- देवदार, बनासकंठा, गुजरात	बीवीएससीएंडएच /जीएयू/95	1.6.69
630	डोम्पल विजय दिगम्बर	महाएसवीसी/ 8267/09	पुलिस कॉलोनी, मुखेड, तालुक मुखेड, जिला- नांडेड, महाराष्ट्र	बीवीएससीएंडएच /एमएंडएफएसयू /09	20.01.85

631	दोनापति श्रीनिवास रेड्डी (दोनापति चेन्ना रेड्डी)	टीएनएसवीसी / 4448 / 09	द्वारा:वाई.के.एम. रेड्डी, जी2, पहली मंजिल,डोर न.20 (पुराना न.40),रंगनिवास, बरनाबी रोड, किलपौक,चेन्नई-600010,त.ना.	बीबीएससीएंडएच / एपीएयू / 87	01.05.64
632	डोन ध्यानोबा अशरोबा	महाएसवीसी / 8234 / 09	डोन निवास, 172, जखिल (क्लॉक), तालुक सोलापूर,जिला - परभनी- 431514, महाराष्ट्र	बीबीएससीएंडएच / एमएंडएफएसयू / 09	06.07.85
633	दोषी विपिन चंद्र रेवाशंकर	जीवीसी / 1800	"अनमोल", 56, नेमीनाथ सोसायटी, रड्या राव गेट, गुजरात	बीबीएससीएंडएच / जीएयू / 96	17.4.45
634	दोषी दीपक कुमार धीरजलाल	जीवीसी / 1061	के-8,विश्वास फ्लैट,नयननगर, कृष्णा नगर, सैन्टर्ष बोधा, अहमदाबाद- 382345, गुजरात	बीबीएससीएंडएच / जीएयू / 89	5.7.66
635	दोषी मिनेष कुमार भूपेंद्र रे	जीवीसी / 1175	5-एएम प्रिया पार्क, 27 गाम दातीदार स्कूल के पीछे, वीवी नगर रोड, आनंद- 388001, गुजरात	बीबीएससीएंडएच / जीएयू / 89	27.11.64
636	डोवर फौल्ड सरियांग, पुत्र स्व. श्री ई. शुल्लई	मेघएसवीसी / 2 70 / 09	द्वारा: बी.टी. खारगोनकर, लॉजिनरियू गोल्डन एस्टेट, नौगधिमई- 793014	बीबीएससीएंडएच / एमएयू / 09	26.5.86
637	दूबे योगेश सुभाष	महाएसवीसी / 8223 / 09	दुर्गा निवास, ए/पी कोल्हार खुर्द, तालुक-सह्यद्रि जिला: अहमदनगर-413710,महाराष्ट्र	बीबीएससीएंडएच / एमएंडएफएसयू / 09	03.10.84
638	दुधात्रा परिवन चनाभाई	जीवीसी / 2113	एटी एवं डाक- भद्रोथ, तालुक- धोल, जिला- जामनगर- 361210, गुजरात	बीबीएससीएंडएच / जीएयू / 98	1.6.75
639	दुधात्रा सुरेश बावनजी भाई	जीवीसी / 2232	64-अमृत नगर, लाल बाग के पीछे, शांतिकुंज रोड, जूनागढ़- 362001, गुजरात	बीबीएससीएंडएच / जीएयू / 00	26.6.78
640	दुलाकसरिया देवाशीष, पुत्र श्री राजेंद्र नाथ	एसएम / 244 4 / 09	डाक- मसाराहाट, ग्राम-- दुलाकसरिया गांव, जिला-- सिवसागर, असम	बीबीएससीएंडएच / एमएयू / 09	30.12.84
641	दुर्गा प्रसाद यादव, पुत्र श्री आर.के. यादव	एसवीसी / 4914 / 09	ग्राम- कुखडूमपुर, डाक निर्गंधाभंभपुर, जिला-मक, उ.प्र.	बीबीएससीएंडएच / एपीपीडीडीसीपीसी जीपी / 09	25.02.82
642	दुर्शावत प्रद्युम्न नटवरसिंह	जीवीसी / 3006 / 09	38 आकाश बंगला, अंगोला रोड, हनुमान टेंकरी, पालनपुर, गुजरात	बीबीएससीएंडएच / एसडीएयू / 09	10.07.86
643	दत्ता लारा, पुत्र श्री खोगेन च. दत्ता	एसएम / 243 0 / 09	गणपुर शंकरपुर, डाक- जे.ई.सी., जिला-- जयपुर- 785007, असम	बीबीएससीएंडएच / एमएयू / 09	8.6.87
644	इलामारन ए. (पी. अंबाजगान)	टीएनएसवीसी / 4619 / 09	2, एम.पेन रोड, इन्धुलिकुरीवी डाक, जयभादूर जिला- 621604, तमिलनाडु	बीबीएससीएंडएच / टीएनयूवीएस / 09	25.07.86
645	इलामुगन ए. (एम. अप्पावू)	टीएनएसवीसी / 4520 / 09	ईन्डु स्ट्रीट, उरुथईरगमकुडीकडु, ओराथनाडु तालुक, थंजादूर- 614625, तमिलनाडु	बीबीएससीएंडएच / टीएनयूवीएस / 09	30.07.87

646	इलावरसू एस. (वी. सिवासामी)	टीएनएसवीसी / 4604 / 09	2 / 411, पेरियार नगर, सेंदूरई डाक एवं तालुक, अरियालूर जिला— 621714, तमिलनाडु	बीवीएससीएंडएच / टीएनयूवीएएस / 09	02.03.86
647	एन्बावेलन पी.ए. (पी. सी. अंगप्पन)	टीएनएसवीसी / 4609 / 09	5 / 285, नए बस स्टैंड के निकट, पलाकोड तालुक, धर्मापुरी, जिला— तमिलनाडु	बीवीएससीएंडएच / टीएनयूवीएएस / 09	18.10.85
648	ईश्वंथ राव एस. (आर. सुब्रह्मय्याह)	टीएनएसवीसी / 4608 / 09	2 / 125, वडापथी, थाथुवनचेरी डाक, थिरुविदईमरुदूर तालुक, थंजावुर— 612502, तमिलनाडु	बीवीएससीएंडएच / टीएनयूवीएएस / 09	03.04.84
649	फदादु नितिन कुमार जयंतिलाल	जीवीसी / 2248	604, अतिथि पैलेस अपार्टमेंट, टिनवाला फार्म, जनजादा रोड, जूनागढ़, गुजरात	बीवीएससीएंडएच / जीएयू / 00	26.4.78
650	फैहरीम सोलोमन वनलाल सुओंग, पुत्र श्री एस.टी. फैहरीम	एसएसएम / 245 2 / 09	ग्राम एवं डाक— मुओलहोई, हाफलोंग, जिला— एन.सी. हिल्स, असम	बीवीएससीएंडएच / एसयू / 09	19.12.79
651	फलादू शांतिलाल मुलजीभाई	जीवीसी / 1394	एटी—गोलाधर, डाक—माजेवाडी, तालुक एवं जिला— जूनागढ़, पिन— 362011, गुजरात	बीवीएससीएंडएच / जीएयू / 91	12.4.65
652	फालदू चंदूलाल भोवनभाई	जीवीसी / 820	ए-45, विजय नगर सोसायटी, महिला कॉलेज के पीछे, जामनगर— 361008, गुजरात	बीवीएससीएंडएच / जीएयू / 84	28.3.60
653	फराह मरिया डि सूजा, पुत्र श्री फ्रेडी डि सूजा	गोआएसवीसी / 151 / 09	केस जोस लुइस, विशांत सिनेमा के निकट, अक्वेम, एल्लो, मरगाओ, गोआ	बीवीएससीएंडएच / पीयू / 09	
654	फरीदा, पुत्री मौहम्मद याकूब	एपीएसवीसी / 04986 / 09	म.न. 2-1-699, नईम नगर, हनमकोंडा, वारंगल, आंध्र प्रदेश	बीवीएससीएंडएच / एसवीवीयू / 09	02.01.83
655	फनेश्वर, पुत्र श्री नारायण प्रसाद	सीएचएसवीसी / 489 / 09	ग्राम एवं डाक—बरबर्सपुर, तहसील—गोंडारदेही, जिला— दुर्ग, छत्तीसगढ़	बीवीएससीएंडएच / आईजीकेवीवी / 09	21.05.87
656	फुलेत्रा पंकज कुमार करसनभाई	जीवीसी / 1160	एटी एवं डाक— लिम्बुडा, तालुक— मनावदार, जिला— जूनागढ़— 362621, गुजरात	बीवीएससीएंडएच / जीएयू / 89	8.7.67
657	फुलवानी विश्वम्बर मगनलाल	जीवीसी / 944	अदानी कॉम्प्लेक्स के पीछे, पवन पार्क, महेंद्र शाह के अस्पताल के सामने, आनंद— 388001, गुजरात	बीवीएससीएंडएच / जीएयू / 87	20.6.63
658	जी. अरुणा, पुत्री जी. रामना	एपीएसवीसी / 04861 / 09	रोलुगुंटा (डाक) (एम) विशाखापटणम जिला, आंध्र प्रदेश	बीवीएससीएंडएच / एसवीवीयू / 09	20.07.84
659	जी. जॉन सुधाकर बाबू, पुत्र श्री जी. सत्य राजू	एपीएसवीसी / 04857 / 09	1 / 73 एफ, डीएसपी के बंगले के सामने, जम्मालमडुगु, कडप्पा जिला— 516434, आंध्र प्रदेश	बीवीएससीएंडएच / एसवीवीयू / 09	30.05.86
660	जी. सत्य साई चंदना, पुत्री श्री जी. नरसिंगा राव	एपीएसवीसी / 04967 / 09	डी.न. 53-16-67 / 2, मदिदलापलेम, विशाखापटणम— 530013, आंध्र प्रदेश	बीवीएससीएंडएच / एसवीवीयू / 09	23.11.85

661	जी. आनंद राव, पुत्र श्री जी. रामा राव	एपीएसवीसी / 04929 / 09	एच.डी. 24, नर्स क्वार्टर, मेन अस्पताल क्षेत्र के निकट, कोथागुडेम, खम्मम जिला— 507101, आंध्र प्रदेश	बीबीएससीएंडएच / एसवीवीयू / 09	22.03.20
662	जी. अरुणा, पुत्री श्री जी. थिरुपथि	एपीएसवीसी / 04983 / 09	सुडिला डाक, गोदावरीखानी ग्राम, करीम नगर जिला, आंध्र प्रदेश	बीबीएससीएंडएच / एसवीवीयू / 09	26.07.20
663	जी.सी. यादव, पुत्र श्री जयराम यादव	यूपीएसवीसी / 4945 / 09	ग्राम— देउरपुर, डाक— बंकज जगदीश, जिला— आजमगढ़, उ.प्र.	बीबीएससीएंडएच / एनडीयूएंडटी / 09	07.08.20
664	जी. ईश्वरा श्रीनिवास, पुत्र श्री जी. सिम्हाचलम	एपीएसवीसी / 04856 / 09	रविवालसा, गुरुगुबिली (एम), विजियानगरम जिला, आंध्र प्रदेश	बीबीएससीएंडएच / एसवीवीयू / 09	13.07.20
665	जी.जे. संकरा राव राजम, पुत्र श्री जी. नारायण राव	एपीएसवीसी / 04875 / 09	तलावरम (ग्राम व डाक), नीला नगरम (एसओ), श्रीकाकुलम जिला— 532462, आंध्र प्रदेश	बीबीएससीएंडएच / एसवीवीयू / 09	21.08.20
666	जी. कमलाकर, पुत्र श्री जी. बासवइयाह	एपीएसवीसी / 04924 / 09	क्या.न. एसटी2—111, बस स्टैंड कॉलोनी, गोदावरीखानी, करीम नगर जिला, आंध्र प्रदेश	बीबीएससीएंडएच / एसवीवीयू / 09	24.05.20
667	जी. लीना ग्रेस, पुत्री श्री जी. जयपाल	एपीएसवीसी / 04962 / 09	म.न. 1—203—जेड—73 / 43, मरकापुर, प्रकासम जिला— 523316, आंध्र प्रदेश	बीबीएससीएंडएच / एसवीवीयू / 09	17.07.20
668	जी. नरेश, पुत्र श्री जी. नरसिंग	एपीएसवीसी / 04893 / 09	चौलामडुडी डाक, मेटपल्ली (एम), करीम नगर जिला— 505325, आंध्र प्रदेश	बीबीएससीएंडएच / एसवीवीयू / 09	29.08.20
669	जी. नीजानंद, पुत्र श्री जी. मोगुलप्पा	एपीएसवीसी / 04992 / 09	म.न. 3—70, द्वारा माला कनकम्मा, रावलपल्ली (ग्राम व डाक), कोडांगल (एम), महबूब नगर जिला, आंध्र प्रदेश	बीबीएससीएंडएच / एसवीवीयू / 09	11.08.20
670	जी. पल्लवी, पुत्री श्री जी. गोपाल	एपीएसवीसी / 04913 / 09	म.न. 13—115, रावुला चेरुवु कट्टा, मंथानी (एम एवं ग्राम), करीम नगर जिला, आंध्र प्रदेश	बीबीएससीएंडएच / एसवीवीयू / 09	11.02.20
671	जी. पिनाकपानी, पुत्र श्री जी. गनेसन के.	एपीएसवीसी / 04974 / 09	डी.न. 8—553, गांधी रोड, चित्तूर— 517001, आंध्र प्रदेश	बीबीएससीएंडएच / एसवीवीयू / 09	05.06.20
672	जी. प्रतिभा, पुत्री श्री जी. यादगिरि	एपीएसवीसी / 04976 / 09	म.न. 7—9—1 / 2, अलिवेलू मंगा कॉलोनी, पनगल रोड, नालगोंडा टारन, नालगोंडा जिला, आंध्र प्रदेश	बीबीएससीएंडएच / एसवीवीयू / 09	21.07.20
673	जी. प्रवीना, पुत्री श्री जी. बालाचेन्नइयाह	एपीएसवीसी / 04919 / 09	पुत्री श्री जी. बालाचेन्नइयाह (आर. आई.), सुमिता नगर, 8 / 112, बडवेल, कडप्पा जिला, आंध्र प्रदेश	बीबीएससीएंडएच / एसवीवीयू / 09	09.04.20
674	जी. राजेश, पुत्र श्री जी. बासवराज्यम	एपीएसवीसी / 04837 / 09	म.न. 2—85, माचापुर ग्राम, गीसूगोंडा (एम), वारंगल जिला, आंध्र प्रदेश	बीबीएससीएंडएच / एसवीवीयू / 09	03.03
675	जी. रवि बाबू, पुत्र श्री जी. भास्कर	एपीएसवीसी / 04833 / 09	विजया मिल्क डेरी के निकट, पोन्नापुरम (ग्राम), नंदयाल (एम), कुर्नूल जिला, आंध्र प्रदेश	बीबीएससीएंडएच / एसवीवीयू / 09	07.06.20

676	जी. सरिथा, पुत्री श्री जी. रवीन्द्रइयाह	एपीएसवीसी/ 04867/09	इस्कापलेम ऑफ वाडीपलेम (ग्राम), इस्कापलेम (डाक), बुचिएडी पलेम (एम), नेल्लोर जिला, आंध्र प्रदेश	बीवीएससीएंडएच /एसवीवीयू/09	22.06.86
677	जी. शिवा शंकर, पुत्र श्री जी. नारायण राव	एपीएसवीसी/ 04980/09	डी.न. 6-58, सिवालयम स्ट्रीट, लालपुरम, गुंटूर- 522017, आंध्र प्रदेश	बीवीएससीएंडएच /एसवीवीयू/09	29.08.84
678	जी. सिवानागराजू, पुत्र श्री नरसइयाह	एपीएसवीसी/ 04853/09	4-4-875, नेहरू नगर, तिरुपति-517501, आंध्र प्रदेश	बीवीएससीएंडएच /एसवीवीयू/09	21.07.85
679	जी. श्रीनिवास, पुत्र श्री जी. रघुपति	एपीएसवीसी/ 04891/09	पोचमपल्ली ग्राम, रेगोंडा (एम), वारंगल जिला, आंध्र प्रदेश	बीवीएससीएंडएच /एसवीवीयू/09	05.05.84
680	जी. स्वर्ण लता, पुत्री श्री जी. रघु रामइयाह	एपीएसवीसी/ 04966/09	डी.न. 8-410, जवाहरलाल नेहरू स्ट्रीट, कानिगिरि, प्रकासम जिला, आंध्र प्रदेश	बीवीएससीएंडएच /एसवीवीयू/09	14.08.86
681	जी.वी.एस. कल्याणी, पुत्री श्री जी. सत्य नारायण	एपीएसवीसी/ 04995/09	म.न. 1-3-131/13 ए, रवि हाई स्कूल के निकट, निर्मल, आदिलाबाद जिला, 504106, आंध्र प्रदेश	बीवीएससीएंडएच /एसवीवीयू/09	17.04.84
682	जी. वेंकट राव, पुत्र श्री जी. वेंकटेश्वरलू	एपीएसवीसी/ 04899/09	द्वारा एम.एस. देवीनगर, मार्तूर (डाक एवं एम), प्रकासम जिला, आंध्र प्रदेश	बीवीएससीएंडएच /एसवीवीयू/09	20.07.80
683	जी. वेंकट सुरेखा, पुत्री श्री जी. वेंकटेश्वरलू	एपीएसवीसी/ 04863/09	म.न. 2-360, अदंकी रोड, दारसी, प्रकासम जिला- 523247, आंध्र प्रदेश	बीवीएससीएंडएच /एसवीवीयू/09	04.06.86
684	जी. वेंकटेश्वरलू, पुत्र श्री जी. वेंकटरत्नम	एपीएसवीसी/ 04848/09	कामारोल (ग्राम) एवं (एम), प्रकासम जिला, आंध्र प्रदेश	बीवीएससीएंडएच /एसवीवीयू/09	06.06.81
685	गदानी प्रकाश बाबू लाल	जीवीसी/ 589	114, शिव गणेश बंगला, मधुरम प्लॉट के निकट, थलतेज शिलाज, 100 फुट रोड, थलतेज, अहमदाबाद- 54	बीवीएससीएंडएच /जीएयू/81	26.5.58
686	गडरिया महेश कुमार राम निवास	जीवीसी/ 1010	बी-53, राधा कृष्ण नगर सोसा., मोती बाग के निकट, एटी जूनागढ़, पिन-362001, गुजरात	बीवीएससीएंडएच /जीएयू/87	6.2.64
687	गधवी भरत सिंह बक्सिराम	जीवीसी/ 1943	द्वारा सद्गुरु कंठरर्ष, रेलवे स्टे., इंदार, जिला- साबरकंठा, पिन- 383430, गुजरात	बीवीएससीएंडएच /जीएयू/96	26.1.72
688	गधवी चंद्रशेखर सवतदान	जीवीसी/ 2302	द्वारा: के.एस. गधवी, शिवाजी पार्क सोसायटी, एटी व तालुक -धानेरा, जिला बीकं, गुजरात	बीवीएससीएंडएच /जीएयू/00	1.3.70
689	गढवी धवल फत्तेसिंह	जीवीसी/ 3007/09	14, "साहेब कृपा", प्रेमानंद सोसायटी, बेचरपुरा क्रॉसिंग, लक्ष्मीपुरा, पालनपुर, गुजरात	बीवीएससीएंडएच /एसडीएयू/09	07.07.87
690	गढवी मनारकुमार समर्थदान	जीवीसी/ 2022	अर्बुदा नगर, सुखबाग रोड, दुआढीवादी रोड, पालनपुर, जिला- बनासकंठा, गुजरात	बीवीएससीएंडएच /जीएयू/97	2.6.88

691	गढ़वी नटवर्धन बानेसिंह	जीवीसी/ 534	4, वसुंधरा सोसायटी, गायत्री मंदिर के निकट, विसनगर रोड, मेहसाना— 384001, गुजरात	बीवीएससीएंडएच / जीएयू/ 80	18.4.57
692	गढ़िया मनसुख लाल नाथालाल	जीवीसी/ 810	25/26, भक्ति नगर, श्रीनाथ नगर के पीछे, जूनागढ़, गुजरात	बीवीएससीएंडएच / जीएयू/ 84	15.12.59
693	गढ़िया तलशीभाई लावजीभाई	जीवीसी/ 746	“जय श्रीजी कृपा”, 3/4, ज्योति नगर, कलावाड रोड, राजकोट—7, गुजरात	बीवीएससीएंडएच / जीएयू/ 80	12.11.56
694	गढ़वी जबरदान मुलीभाई	जीवीसी/ 590	5, वसुंधरा सोसा., गायत्री मंदिर के निकट, जीईवी के सामने, विसनगर रोड, मेहसाना, गुजरात	बीवीएससीएंडएच / जीएयू/ 81	1.3.55
695	गगन ख. सत्पथी, पुत्र श्री रमेश चंद्रराव सत्पथी	ओएसवीसी/ 296/09	द्वारा: तपन ख. सत्पथी, नीलाचल साही, तीसरी गली, पुराना बरहामपुर, डाक बरहामपुर, गंजम, उड़ीसा	बीवीएससीएंडएच / ओयूएटी/ 09	11.06.83
696	गायकवाड संजय भाऊसाहेब	महाएसवीसी/ 8334/10	मापरवाडी रोड, ए/पी— लोनी केडी, तालुक रहाटा, जिला अहमदनगर—413713, महाराष्ट्र	बीवीएससीएंडएच / एमएएंडएफएसयू / 09	09.04.87
697	गायकवाड सतीश श्रवण	महाएसवीसी/ 8358/10	कृषिनिवास, टाकाली धोकेश्वर, तालुक पारनेर, जिला अहमद नगर— 414304, महाराष्ट्र	बीवीएससीएंडएच / एमएएंडएफएसयू / 07	29.12.83
698	गजेंद्र, पुत्र श्री सुंदर लाल	हरिएसवीसी/ 2120	932/27, जनता कॉलोनी, नामदेव मंदिर के निकट, रोहतक, हरियाणा	बीवीएससीएंडएच / सीसीएसएचएयू/ 09	12.1.84
699	गजेंद्र सिंह, पुत्र श्री रूमी सिंह	यूपीएसवीसी/ 4923/09	ग्राम नागला बाग, डाक नौगावा, जिला हाथरस, उ.प्र.	बीवीएससीएंडएच / यूपीपीडीडीयूपीसी वीवी/ 09	08.01.84
700	गजेरा अरविंद वाल्जीभाई	जीवीसी/ 2163	एटी एवं डाक— भादवा, तालुक —कोटदा (संघनी), जिला— राजकोट, गुजरात	बीवीएससीएंडएच / जीएयू/ 99	12.4.76
701	गजेरा अशोक कुमार पोपटलाल	जीवीसी/ 1524	एटी— मिंदाडा, पावर हाउस के निकट, जीईबी, तालुक— मेंदर्दा, जिला— जूनागढ़, पिन— 362260, गुजरात	बीवीएससीएंडएच / जीएयू/ 92	21.7.69
702	गजेरा हरसुखलाल गोबरभाई	जीवीसी/ 1803	एटी: नगवाडर, डाक— नगवाडर, तालुक उपलेटा, जिला राजकोट, पिन— 360490, गुजरात	बीवीएससीएंडएच / जीएयू/ 94	1.3.70
703	गजेरा कनुभाई पोलाभाई	जीवीसी/ 917	एटी एवं डाक— दामोदा, तालुक खेरालू, जिला मेहसाना, गुजरात	बीवीएससीएंडएच / जीएयू/ 87	6.1.63
704	गजेरा मुकेश कुमार वल्लभभाई	जीवीसी/ 1489	एटी एवं डाक— रावनी, तालुक— वनथली, जिला जूनागढ़, पिन— 362002, गुजरात	बीवीएससीएंडएच / जीएयू/ 91	2.7.69
705	गजेरा प्रवीनभाई धरमसी भाई	जीवीसी/ 1391	पशु चिकित्सा विभाग, समुल डेरी, पीबी नं. 501, सूरत— 395008, गुजरात	बीवीएससीएंडएच / जीएयू/ 91	27.9.64

706	गज्जर स्वप्निल गिरीश कुमार	जीवीसी/ 3112/10	4, स्वप्निल अपार्टमेंट, हिलपारा, राजकोट, गुजरात	बीवीएससीएंडएएच /एएयू/10	10.08.87
707	गजराज सिंह, पुत्र श्री जसवंत सिंह	यूपीएसवीसी/ 4901/09	ग्राम एवं डाक- सियाऊ, पहाड़ियां, जिला- बिजनौर, उ.प्र.	बीवीएससीएंडएएच /एयू/71	15.06.45
708	गलकटू शिरीष शिवाजीराव	महाएसवीसी/ 8276/09	सुयोग कॉलोनी, पाती नं. 2, तालुक परभनी, जिला- परभनी- 431401, महाराष्ट्र	बीवीएससीएंडएएच /एमएएंडएफएसयू /09	20.04.84
709	गलांदे महेंद्र रंगनाथ	महाएसवीसी/ 8287/09	ए/पी वडगांव पान, तालुक संगमनेर, जिला अहमदनगर- 422614, महाराष्ट्र	बीवीएससीएंडएएच /एमएएंडएफएसयू /07	08.06.84
710	गामी भावेश कुमार ईश्वरलाल	जीवीसी/ 3008/09	एटी सुंधा, जिला बनासकंठा, तालुक पालनपुर, गुजरात	बीवीएससीएंडएएच /एसडीएयू/09	26.02.86
711	गामी धनजी भाई वाघजीभाई	जीवीसी/ 436	गायत्री नगर, सोसायटी-1, रवापार रोड, मोरबी, जिला- राजकोट, गुजरात	बीवीएससीएंडएएच /जीएयू/77	22.2.53
712	गामी महेश कुमार अमीचंदभाई	जीवीसी/ 1396	डी/5, शेरी नं. 4, बेघरपुरा, पालनपुर, जिला- बनासकंठा, गुजरात	बीवीएससीएंडएएच /जीएयू/91	1.6.69
713	गामी मनोज कुमार सोमाभाई	जीवीसी/ 3009/09	एटी एवं डाक-वेदांचा, जिला - बनासकंठा, तालुक- पालनपुर, गुजरात	बीवीएससीएंडएएच /एसडीएयू/09	07.08.86
714	गनात्रा अश्विन कुमार कांजीभाई	जीवीसी/ 708	ए-704, संश्रय टावर, नंद दीप बंगले के निकट, लेकव्यू अपार्ट, के पीछे, वस्त्रपुर, अहमदाबाद- 380054	बीवीएससीएंडएएच /जीएयू/83	1.1.59
715	गांधी अनिल कुमार बालकृष्ण	जीवीसी/ 492	32/ए, निमिषा पार्क टेनामेंट, किसान समोसावाला नाकचमा, कॉलेज रोड, नादियाड- 387001, जिला खेडा	बीवीएससीएंडएएच /जीएयू/79	5.5.57
716	गांधी शीतल सुनील	जीवीसी/ 1266	645, एमजी रोड, गुजराती वास के निकट, दाहोद, तालुकजिला पंचमहल- 389151, गुजरात	बीवीएससीएंडएएच /जीएयू/89	5.5.67
717	गनेश एम.के. (एम. एस. कंडासामी)	टीएनएसवीसी /4489/09	नं. 4/279(पुराना नं.4/267), मेलापलायम, उथुकुली रोड, चेन्नई मलई, इरोडे- 638051, तमिलनाडु	बीवीएससीएंडएएच /टीएएनयूवीएस /09	19.03.85
718	गंगाधर सुकते, पुत्र श्री विठ्ठल	कर्नाएसवीसी/ 4239/09	रेनुका नीलया, मंजुनाथ नगर, ए-ब्लॉक, लजारी, लखीमपुर, हावेरी- 581110, कर्नाटक	बीवीएससीएंडएएच /केवीएफएसयू/ 09	11.3.84
719	गंगुरदे हेमंत भीखाजी	जीवीसी/ 3049/09	एटी एवं डाक- गोधवी, तालुक अहावा, जिला- डांग- 394710, गुजरात	बीवीएससीएंडएएच /एएयू/09	22.04.86
720	गरिमा शर्मा, पुत्री स्व. श्री कमल किशोर शर्मा	यूकेएसवीसी/ 477/09	क्वा.नं. V/1521, टीए कॉलोनी, पंत नगर, जिला यू.एस. नगर, उत्तराखंड	बीवीएससीएंडएएच /जीवीपीयूएंडटी /09	11.02.86

721	गौरव द्विवेदी, पुत्र श्री आर.पी. द्विवेदी	यूपीएसवीसी/ 4990/09	432, नगेश गंज, जिला निर्जापुर, उ.प्र.	बीवीएससीएंडएच / एनडीयूएंडटी/ 09	08.07.82
722	गौरव सोमानी, पुत्र श्री शांति लाल सोमानी	राजएसवीसी/ 3748/10	भदादा संघ के पीछे, दरोगा मौहल्ला, भीलवाडा— 311001, राजस्थान	बीवीएससीएंडएच / आरएयू/09	31.07.81
723	गौस्वामी गौरवगिरि सुरेशगिरि	जीवीसी/ 3113/10	"गीतांजलि", भावना सोसायटी के पीछे, सावर कुंडला, जिला अमरेली, गुजरात	बीवीएससीएंडएच / एएयू/10	31.07.78
724	गौस्वामी विजयगिरि महेशगिरि	जीवीसी/ 3114/10	धावडिया, तालुक लूनावाड़ा, जिला पंचमहल, गुजरात	बीवीएससीएंडएच / एएयू/10	01.09.80
725	गौतम रूद्रपॉल, पुत्र श्री नारायण च. रूद्र पॉल	त्रिपुराएसवीसी /178/08	हाश नारायण च. रूद्र पॉल, ग्राम मलबाबा, डाक अमरपुर, थाना— बीरगंज, त्रिपुरा (साउथ)	बीवीएससीएंडएच / सीएयू/08	7.5.83
726	गवहाने ध्यानेश्वर शिवाजी	महाएसवीसी/ 8314/10	वनश्री गजानन—एल, कमरा न. 404, विरला कॉलेज हाइवे, कल्याण (वेस्ट), खडकपाडा, तालुक कल्याण, जिला धाणे— 421301	बीवीएससीएंडएच / एमएएंडएफएसयू /09	20.07.81
727	गावित रामदास भाई शांतिवन भाई	जीवीसी/ 1879	एटी एवं डाक— कालीबेल, तालुक अहवा, जिला— डांग्स— 394715, गुजरात	बीवीएससीएंडएच / टीएयू/95	05.79
728	गावंडे स्नेहा नरहरि	महाएसवीसी/ 8290/09	कल्पना 143—बी, भाग्यश्री कॉलोनी, सरस्वती स्कूल के निकट, अकोट, तालुक अकोट, जिला अकोला, महाराष्ट्र	बीवीएससीएंडएच / एमएएंडएफएसयू /09	06.04.87
729	गावरकर लीलाधर नारायणराव	जीवीसी/ 1234	टीएन— 6/डी, स्टाफ कॉलोनी, बनास डेरी, पालनपुर, बनासकंठा, गुजरात	बीवीएससीएंडएच / पीकेवी/89	5.6.87
730	गायत्री एस. (पी. सेली)	टीएनएसवीसी /4553/09	एनजीओ कॉलोनी, नटराजपुरम, भवानी इरोडे, जिला तमिलनाडु	बीवीएससीएंडएच / टीएनयूवीएस /09	01.05.83
731	गेंदम किशोर प्रेम बाबू	महाएसवीसी/ 8170/09	21/14, गोपाल नगर रोड, तीसरा बस स्टॉप, परसोदी, नागपुर, जिला— नागपुर— 440022, महाराष्ट्र	बीवीएससीएंडएच / एमएएंडएफएसयू /09	23.08.80
732	गेडिया किशोरभाई वी.	जीवीसी/ 2622/09	खोडियारकृपा, पीपी शेरी, स्टेशन रोड, एटी—चलाला, तालुक धारी, जिला अमरेली, गुजरात	बीवीएससीएंडएच / एएयू/06	15.12.80
733	गीता पटेल, पुत्री श्री बी.एल. पटेल	यूपीएसवीसी/ 4955/09	ग्राम जयरामपुर, डाक दुर्गागंज बाजार, जिला प्रतापगढ़, उ.प्र.	बीवीएससीएंडएच / यूपीपीडीडीयूपीसी वीवी/09	19.07.83
734	गीता डी. (कं. दुराईराजू)	टीएनएसवीसी /4601/09	1/75, एनजीजीओ कॉलोनी, चेंगलान्नई रोड, पुथुमरियम्मन कोइल डाक, पोन्नमपेट, सलेम जिला, तमिलनाडु	बीवीएससीएंडएच / टीएनयूवीएस /09	02.04.86
735	गिलानी राजेश नरशीभाई	जीवीसी/ 3050/09	ई—78, ईश्वरकृपा सोसायटी, 2बी—एच, स्पिनिंग मिल, एल.एच. रोड, पूनागाम, गुजरात	बीवीएससीएंडएच / एएयू/99	01.05.86

736	गेलोत उत्तमभाई वंछाभाई	जीवीसी/ 3010/09	ग्राम:नरासना,डाक:मोटा रासना, पूजा कोल्ड स्टोरजे के निकट, दीसा पालनपुर हाईवे, तालुक दीसा, जिला बीके, गुजरात	बीवीएससीएंडएच /एसडीएयू/09	08.02.87
737	जॉर्ज वर्गीज, पुत्र श्री एन.सी. वर्गीज	केएसवीसी/34 98/09	33/112ए.वेटनेस्ट, न. ई-17, सौम्यानगर(अलिचुवाडु), डाक ईडापल्ली, कोचीन- 682024, केरल	बीवीएससीएंडएच /केएयू/73	18.02.50
738	घुसआर रिजवान खान सबीरखान	जीवीसी/ 3011/09	85, न्यू अमनपार्क, सुखबाग रोड, पालनपुर, जिला बीके, गुजरात	बीवीएससीएंडएच /एसडीएयू/09	21.04.86
739	घोडासरा दीनेश कुमार जेठालाल	जीवीसी/ 987	डिपा. ऑफ पैथोलॉजी, वैटरिनरी कॉलेज, आनंद 388001, गुजरात	बीवीएससीएंडएच /जीएयू/86	5.12.61
740	घोघरी गोरधनभाई वल्लभ भाई	जीवीसी/ 1582	एटी: थोराला, डाक शांति नगर, तालुक महुवा, जिला भावनगर, गुजरात	बीवीएससीएंडएच /जीएयू/91	6.2.67
741	घोलप दिग्विजय बाबासाहेब	महाएसवीसी/ 8325/10	द्वारा बाबासाहेब शंकर राव घोलप, एपी- पठारी, तालुक रहाटा, जिला- अहमदनगर- 413710, महाराष्ट्र	बीवीएससीएंडएच /एमएएंडएफएसयू /09	24.07.87
742	घोया मेघराज धेमरभाई	जीवीसी/ 2164	एटी एवं डाक-जसलेनी, तालुक- पालनपुर, जिला बीके, गुजरात	बीवीएससीएंडएच /जीएयू/99	27.3.77
743	घुमदे राजेंद्र गजानन	महाएसवीसी/ 8260/09	एटी- वरुद, डाक सेवाग्राम, तालुक एवं जिला वर्धा- 442102, महाराष्ट्र	बीवीएससीएंडएच /एमएएंडएफएसयू /09	11.05.84
744	गिरधारी लाल अवासे, पुत्र श्री आर.सी. अवासे	एमपीएसवीसी /2649/09	82, विवेकानंद नगर, झबुआ, म.प्र. 457661	बीवीएससीएंडएच /जेएनकेवीवी/09	25.10.83
745	गिरि टीना सुरेश	जीवीसी/ 3100/10	एल/18, कोमल एन्कलेव, पीपीसीसी ग्राउंड के सामने, शांतिवन क्रॉस रोड, पलवी, अहमदाबाद, गुजरात	बीवीएससीएंडएच /केकेवीपी/99	11.03.75
746	गिरि प्रसाद आर. (ओ.एस. रामासामी)	टीएनएसवीसी /4495/09	6, नेताजी स्ट्रीट, ओडापलायम, मोदाकुरिचि, इरोडे- 738104, तमिलनाडु	बीवीएससीएंडएच /टीएनयूवीएस /09	09.11.84
747	गिरीश के.एस., पुत्र श्री शिवन्ना के.	कर्नाएसवीसी/ 4293/09	न. 25, शेट्टीहल्ली ग्राम-571 501, माहुर होबली, चम्पापटना तालु., रामनगर जिला, कर्नाटक	बीवीएससीएंडएच /केवीएफएसयू/ 09	2.11.84
748	गितेली अहमद मौहम्मद	जीवीसी/ 819	सलामत सोसायटी, लिलेसरा रोड, गोधरा, पिन- 389001, गुजरात	बीवीएससीएंडएच /जीएयू/84	13.10.60
749	गोडसे बंदू नागनाथ	महाएसवीसी/ 8247/09	ए/पी अम्बेचिंचोली, तालुक पंढरपुर, जिला सोलापुर, महाराष्ट्र	बीवीएससीएंडएच /एमएएंडएफएसयू /09	01.06.84
750	गोधानी महेंद्र कुमार मेघाजीभाई	जीवीसी/ 1528	"राज पैलेस", प्लॉट न. 17, दिव्यम पार्क, खोडियार कॉलोनी के सामने, जामनगर- 361006, गुजरात	बीवीएससीएंडएच /जीएयू/92	12.7.67

751	गोधात जयसुख लाल पोपटभाई	जीवीसी / 2145	लूनापारा, वाया जेतपुर, डाक— केराली, जिला राजकोट— 360410, गुजरात	बीबीएससीएंडएच / जीएयू / 98	14.8.74
752	गोगोई बिपुल ज्योति, पुत्र श्री गौरी गोगोई	एसएसएम / 243 9 / 09	द्वारा श्री गौरी गोगोई, ग्राम बरबास शिरिगिया गाव, डाक— देवरी बरबास, जिला धोमाजी, असम	बीबीएससीएंडएच / एसयू / 08	10.10.79
753	गोगोई देनिश, पुत्र श्री उत्तम च. गोगोई	एसएसएम / 242 7 / 09	द्वारा श्री उत्तम च. गोगोई, ग्राम—मैनापारा, डाक धिरामारा, जिला लखीमपुर, असम	बीबीएससीएंडएच / एसयू / 08	1.3.80
754	गोगोई मधुमिता, पुत्र श्री मानिक गोगोई	एसएसएम / 245 9 / 09	द्वारा एम. गोगोई, डोब बॉस्ले स्कूल के पीछे, बोहरागी मोठ, डिब्रुगढ़— 782001 असम	बीबीएससीएंडएच / एसयू / 09	10.12.85
755	गोहेल दयालभाई करषनभाई	जीवीसी / 646	ए/2, नाथवबाग अपार्टमेंट, छपारू हॉल के सामने, गोंघा सर्कल, भाव नगर, गुजरात	बीबीएससीएंडएच / जीएयू / 69	7.5.56
756	गोहिल भरतसिंह लखाधीरसिंह	जीवीसी / 1667	एटी— टोडा, डाक मधादा, वाया शिहोर, जिला भावनगर, गुजरात	बीबीएससीएंडएच / जीएयू / 93	3.2.70
757	गोहिल धर्मेन्द्र सिंह लखुभाई	जीवीसी / 1627	द्वारा श्री जीतसिंह एस. सोलंकी, 1/2, लक्ष्मी नगर सोसायटी, कयावरोहन रोड, गौर, तालुक एवं जिला— बड़ोदरा, गुजरात	बीबीएससीएंडएच / जीएयू / 08	25.10.65
758	गोहिल जयेश कुमार अमरसीभाई	जीवीसी / 1186	बी/17, उदय नगर सोसायटी, कुबेर नगर, सूरत, गुजरात	बीबीएससीएंडएच / जीएयू / 89	25.5.67
759	गोहिल लक्ष्मण भीमाभाई	जीवीसी / 909	एटी— कर्जुकी, वाया बबारा, डाक—कोटदा पिठ, तालुक— बबारा, जिला अमरेली, गुजरात	बीबीएससीएंडएच / जीएयू / 87	1.6.60
760	गोहिल रमेशचंद्र पोपटलाल	जीवीसी / 1418	24, शिवजली रॉ हाउस, चटराज सिनेमा के सामने, पटेल बाड़ी लाल दरवाजा, सूरत, गुजरात	बीबीएससीएंडएच / जीएयू / 91	6.10.67
761	गोजिया वेजानंद धनभाई	जीवीसी / 1501	एटी: बान्वा बंदर, तालुक जाम बल्लापुर, जिला— जामनगर, गुजरात	बीबीएससीएंडएच / जीएयू / 92	1.6.67
762	गोलकिया प्राणभाई रावजीभाई	जीवीसी / 654	प्लॉट नं. 80/ए सरिता सोसायटी, शंरी-6, भावनगर, जिला— भावनगर, गुजरात	बीबीएससीएंडएच / जीएयू / 77	25.1.52
763	गोंडालिया प्राणजी उकाभाई	जीवीसी / 2279	कृष्ण, पार्क सोसायटी, कुरुम सोसायटी, सदभावना अस्पताल के निकट, ताइयरी चौक, गंडी, अमरेली, गुजरात	बीबीएससीएंडएच / जीएयू / 90	3.5.75
764	गोंडकर सुहास भानुदास	महाएसवीसी / 8289 / 09	ए/पी पेठ (गोंडकर बाड़ा), तालुक — वाल्वा, जिला— सांगली, महाराष्ट्र	बीबीएससीएंडएच / एसएंडएफएसयू / 09	30.04.85
765	गोपाल कृष्ण, पुत्र श्री सुरिंदर पाल	पीबीएसवीसी / 2868 / 09	म.न. बी 4— 346, शुभाष नगर, सुनम जिला संगरूर, पंजाब	बीबीएससीएंडएच / जीएडीबीएसयू	30.8.84

766	गोपाल सचदेव, पुत्र श्री कृष्ण कुमार सचदेव	यूकेएसवीसी / 446 / 09	द्वारा तीसरी बटालियन, एस.एस.बी., एनटीडी, अल्मोड़ा, उत्तराखण्ड	बीवीएससीएंडएच / पीएच/ 85	14.09.61
767	गोपालकृष्ण आर, पुत्र श्री एन.के.आर अय्यर	केएसवीसी / 35 43 / 09	5 / 681, चेरुमुक्कु, चेम्बूकावू थिसूर- 680020, केरल	बीवीएससीएंडएच / केएच/ 09	02.09.66
768	गोपालकृष्णन एन. (डी. नरसिम्हन)	टीएनएसवीसी / 4668 / 10	121-ए.पिलईयर कोइल स्ट्रीट, मोसावाडी, वाया पेरानमलूर, वंडावासी ता., थिरुवन्नामलई- 604503, तमिलनाडु	बीवीएससी / टीएन यूवीएस / 02	16.07.76
769	गोपी आर. (के.वी. राजू)	टीएनएसवीसी / 4511 / 09	कून्दियूर डाक, मल्लीकुंदनम वाया, मेट्टूर तालुक, सलेम जिला- 636458, तमिलनाडु	बीवीएससीएंडएच / टीएनयूवीएस / 09	30.06.66
770	गोपालकृष्णन डी. (पी. दुरईसामी)	टीएनएसवीसी / 4587 / 09	1694, पेरमपट्टी कुडी स्ट्रीट, नल्लूर, परमाथिवेलूर तालुक, नमक्कल- 637203, तमिलनाडु	बीवीएससीएंडएच / टीएनयूवीएस / 09	13.10.66
771	गौर दीपक कुमार नर्मदा शंकर	जीवीसी / 1828	साबर विलिंगसैंटर, बयाद, एटी व डाक- अंजनावाव, तालुक- बयाद, एस.के., गुजरात	बीवीएससीएंडएच / जीएच/ 93	26.8.70
772	गोरिया करसनभाई कनाभाई	जीवीसी / 2190	एटी-मटिया, डाक महादेविया, तालुक कल्याणपुर, जिला- जामनगर, गुजरात	बीवीएससीएंडएच / जीएच/ 99	1.6.75
773	गोसाई अमृतपुरी गनपत पुरी	जीवीसी / 536	20, प्रीतम नगर सोसायटी, प्रकाश सोसायटी के निकट, राधनपुर रोड, मेहसाना, गुजरात	बीवीएससीएंडएच / जीएच/ 80	1.6.56
774	गोसाई भगवान भारती रणछोड़ भारती	जीवीसी / 399	ए / 37, श्वेता पार्क-1, वरसिया रिंग रोड, वडोदरा- 390022, गुजरात	बीवीएससीएंडएच / जीएच/ 76	9.12.54
775	गोसाई बिकेशगिरि महेंद्रगिरि	जीवीसी / 3051 / 09	10, बंसाही टेनामेंट, वैभव सिनेमा के पीछे, बकरोल, तालुक व जिला - आनंद, गुजरात	बीवीएससीएंडएच / एएच/ 09	14.12.86
776	गोसाई कमलेशगौर लक्ष्मणगौर	जीवीसी / 1711	एटी: सोमगरेना मुवादा, डाक ज़ारा, वाया कोठम्बा, लूसावडा, जिला- पंचमहल, गुजरात	बीवीएससीएंडएच / जीएच/ 94	20.4.72
777	गोसावी राहुल सुधाकर	महाएसवीसी / 8157 / 09	स्वामी शिवकृपा, जावली, शिंदे क्लासेज के निकट, अगलगांव रोड, तालुक- बारशी, जिला- सोलापुर- 413401	बीवीएससीएंडएच / एमएंडएफएसयू / 08	01.06.84
778	गोस्वामी चिरागपुरी बिपिनपुरी	जीवीसी / 3115 / 10	एटी एवं डाक- घडी, तालुक प्रांतिज, जिला- साबरकंठा, गुजरात	बीवीएससीएंडएच / एएच/ 10	05.07.88
779	गोस्वमी हर्ष विनोद चंद्र	जीवीसी / 3052 / 09	प्लॉट न. 1026 / ए, सेक्टर-2 -डीआर, गांधीनगर, गुजरात	बीवीएससीएंडएच / एएच/ 09	25.10.86

780	गोस्वामी हर्षद कुमार महेंद्रपुरी	जीवीसी/ 2070	एटी: लंगानोमठ, डाक नानाचेखला, तालुक तालोड, जिला साबरकंठा, गुजरात	बीवीएससीएंडएच /जीएयू/97	15.03.19
781	गोस्वामी ईश्वर भारती चंचल भारती	जीवीसी/ 199	प्लॉट न. 309-2, सेक्टर-7ए, गांधीनगर, गुजरात	बीवीएससीएंडएच /जीएयू/70	27.01.19
782	गोस्वामी जसवंतगर भगवंगर	जीवीसी/ 796	24, मातृ बंगला, अयोध्या नगर के निकट, मारुति भुरु, एक्सप्रेस होटल के सामने, रामोल, अहमदाबाद	बीवीएससीएंडएच /जीएयू/84	15.03.19
783	गोस्वामी शैलेश कांतिगिरि	जीवीसी/ 2061	एटी एवं डाक- वानोड, 364525, तालुक सावरकुंडला, जिला अमरेली, गुजरात	बीवीएससीएंडएच /जीएयू/97	15.03.19
784	गौरव टंडन, पुत्र श्री सुशील कुमार	पीबीएसवीसी/ 2902/09	म.न. सीएम 38/4, आई/एस दिल्ली गेट, फिरोजपुर सिटी, पंजाब	बीवीएससीएंडएच /जीएडीवीएसयू /09	21.03.19
785	गोवानी अतुल कुमार विट्ठलदास	जीवीसी/ 1592	अम्बापत स्ट्रीट, सुपेदी, तालुक - धोराजी, जिला राजकोट- पिन-360440, गुजरात	बीवीएससीएंडएच /जीएयू/92	26.03.19
786	गोवानी गोपालदास गोकलदास	जीवीसी/ 927	'गणेश भुवन', स्टेशन रोड, बैंक ऑफ बड़ौदा, धोराजी- 360410, तालुक धोराजी, जिला राजकोट, गुजरात	बीवीएससीएंडएच /जीएयू/85	15.03.19
787	गोवानी संजयकुमार मगनलाल	जीवीसी/ 1475	द्वारा: पंचामृत डेरी, गोधरा जिला, पंचमहल, गुजरात	बीवीएससीएंडएच /जीएयू/91	15.03.19
788	गोवर्धन सिंह, पुत्र श्री भंवर लाल पुरोहित	राजएसवीसी/ 3686/09	गीता भवन के निकट, कसोलिया रोड, जयतारन, पाली- 306302, राजस्थान	बीवीएससीएंडएच /पीयू/09	27.01.19
789	गोविना देवांगन, पुत्री श्री श्याम रतन देवांगन	सीएसवीसी /502/10	क्लब वार्ड, जिला- महासमुंद, छत्तीसगढ़	बीवीएससीएंडएच /आईजीकेवीवी/0 9	10.03.19
790	गोविंद आर., पुत्र श्री रवीन्द्रन पिल्लै	केएसवीसी/34 93/09	वालिया वीटिल पडीटाथिल इरेजा नॉर्थ, चेट्टीकुलानगर डाक, मावेलीकारा- 690106, केरल	बीवीएससीएंडएच /केएसयू/09	04.03.19
791	गोविंदप्पा पी., पुत्र श्री परमेश्वरप्पा एन.	कर्नाएसवीसी/ 4319/09	अरुणा थिएटर रोड,आज्जमपुरा - 577547, तारीकरे तालुक, चिकमगलूर जिला, कर्नाटक	बीवीएससीएंडएच /केवीएफएसयू/ 09	19.03.19
792	गोविंदरासू एम. (सी. मनिककम)	टीएनएसवीसी /4613/09	3/90-डी.नरसीपुरम कॉलोनी ग्राम, डाक कलप्पमबाड़ी,तालुक पेन्नागरम, धर्मापुरी-636811, तमिलनाडु	बीवीएससीएंडएच /टीएनयूवीएस /09	01.04.19
793	गौरीशंकर जी. (एस. पी. गनेशन)	टीएनएसवीसी /4576/09	5/89-डी 1, सैमबमपलायम, नल्लीपलायम, तिरुचेनगोडे तालुक, नमक्कल जिला, तमिलनाडु	बीवीएससीएंडएच /टीएनयूवीएस /09	27.06.19
794	गौरीशंकर एस. (एस. सत्यामूर्ति)	टीएनएसवीसी /4536/09	न. 8, नेताजी स्ट्रीट, मल्ला समुद्रम, तिरुचेनगोडे तालुक, नमक्कल- 637503, तमिलनाडु	बीवीएससीएंडएच /टीएनयूवीएस /09	27.06.19

795	गोया आवधुभाई रजसंगमाभाई	जीवीसी/ 1190	एटी— सेदरासना, डाक— कनोडर, तालुक— पालनपुर, जिला बभासकंठा, गुजरात	बीवीएससीएंडएच / जीएयू/ 85	5.8.81
796	गुजराती मोहनभाई लखमनभाई	जीवीसी/ 1000	“रक्षित” विजयनगर-2, सिद्धेश्वर मंदिर के निकट, जोशीपुरा, जूनागढ़, गुजरात	बीवीएससीएंडएच / जीएयू/ 86	13.11.80
797	गुलाम नबी अलीभाई मन्सूरी	जीवीसी/ 500	30, रहेमानी सोसायटी, मिनाल सोसायटी के निकट, जूहापुरा, अहमदाबाद— 380055, गुजरात	बीवीएससीएंडएच / जीएयू/ 78	21.12.55
798	गुनाविधि पी. (टी.पी. पनीरसेल्वन)	टीएनएसवीसी / 4516/ 09	64/ 1, कुमारन स्ट्रीट, चेर्यार, तिरुवन्नामलई जिला— 604407, तमिलनाडु	बीवीएससीएंडएच / टीएनयूवीएस / 09	19.03.86
799	गुरजिंदर पाल सिंह, पुत्र श्री बलवीर सिंह	पीबीएसवीसी/ 2867/ 09	बी XII 997, बाबा दीप सिंह नगर, न्यू कोर्ट के निकट, बरनाला, पंजाब	बीवीएससीएंडएच / जीएडीवीएसयू / 09	9.1.84
800	गुरभीत सिंह चहल, पुत्र श्री जसविंदर सिंह चहल	पीबीएसवीसी/ 2911/ 09	168, गुरु राम दास कॉलोनी, जालंधर रोड, बटाला, जिला— गुरदासपुर, पंजाब	बीवीएससीएंडएच / सीएसकेएचपीकेवी / 09	26.1.82
801	गुरपाल सिंह, पुत्र श्री इंदरजीत सिंह	पीबीएसवीसी/ 2877/ 09	ग्रॉपटी न. 653, सेक्टर-4, मालौत, जिला— मुक्तासर, पंजाब	बीवीएससीएंडएच / जीएडीवीएसयू / 09	2.4.86
802	गुरुराज पी.एम., पुत्र श्री मोहनदास पी. जी.	कर्नाएसवीसी/ 4294/ 09	श्रीनिवास, अपय्या स्वामी रोड, शांता थिएटर के निकट, विराजपेट - 571218, कोडागू जिला, कर्नाटक	बीवीएससीएंडएच / केवीएफएसयू/ 09	26.11.86
803	गुरुसामी ए. (एस. अरुणागिरि नादर)	टीएनएसवीसी / 4447/ 09	36, कावेल रामारसामी स्ट्रीट, टीएन पुडुकुडी, पुलियांगुडी, पिन— 627855, तमिलनाडु	बीवीएससी/ टीएन यूवीएस/ 92	08.04.69
804	ज्ञान चंद्र अग्रवाल	जीवीसी/ 922	11, कल्याणेश्वर सोसायटी, एटी एवं जिला— मेहसाना, गुजरात	बीवीएससीएंडएच / सीएसकेपीवी/ 8 6	5.4.62
805	ज्ञानेंद्र वशिष्ठ, पुत्र श्री नवल किशोर वशिष्ठ	हरिएसवीसी/ 2 106	3126/ 89 ए, कंपनी बाग, रिवाड़ी, हरियाणा	बीवीएससीएंडएच / सीसीएसएचएयू/ 09	22.9.85
806	हदा नैश अमरसिंह	जीवीसी/ 3116/ 10	48, ब्रह्मा सोसायटी, भुटावाव रोड, गोधरा, गुजरात	बीवीएससीएंडएच / एएयू/ 10	01.07.87
807	हदा सोहनभाई मोती सिंह	जीवीसी/ 2135	एटी: मोतीलाछेली, डाक— दाशला, तालुक गरबदा, दाहोद, गुजरात	बीवीएससीएंडएच / जीएयू/ 98	22.6.75
808	हदासा सी.बी. संगमा, पुत्री श्री एस.डी. शिरा	मेघएसवीसी/ 2 71/ 09	बोनीपा अटिल्ला तुपा, मेघालय	बीवीएससीएंडएच / एएयू/ 09	25.7.84
809	हदिया केशवजी शिवाजी भाई	जीवीसी/ 2153	35, शिवांजलि रॉ हाउस, पूना पटिया, एटी: मगोब, डाक— पूना गाम, तालुक चोरयासी, जिला— सूरत, गुजरात	बीवीएससीएंडएच / जीएयू/ 98	11.6.74

810	हडोले श्रीकृष्णा शामराव	जीवीसी / 1330	सुमल दान फौदरी, एटी— चलथान, जिला— सूरत, गुजरात	बीवीएससीएंडएच / पीकेवी / 87	22.6.65
811	हन्नुकर, पुत्र श्री प्रताप भराम	कर्नाएसवीसी / 4233 / 09	न. 266, लक्ष्मी गली, बविकनकरेरे — 590028, बेलगाम, कर्नाटक	बीवीएससीएंडएच / एमएफएसयू/ 02	28.5.79
812	हंसालिया विजय कुमार मोहन भाई	जीवीसी / 1056	एटी एवं डाक— झांजमेर, तालुक— उपलेटा, जिला— राजकोट— 360440, गुजरात	बीवीएससीएंडएच / जीएयू / 88	19.6.64
813	हंसेल जियो थॉमस, पुत्र श्री जॉर्ज कुदटी थॉमस	केएसवीसी / 3583 / 09	कोचुवडाक्केकारा हाउस, मंगाराम, कोन्नी डाक, पथानम थिट्टा— 689691, केरल	बीवीएससीएंडएच / केवीएएंडएफएसयू / 09	21.11.86
814	हनुमंत सिंह, पुत्र श्री रघुवंश प्रताप सिंह	सीएचएसवीसी / 484 / 09	पौडी बहार चर्च के निकट, कोरबा, छत्तीसगढ़	बीवीएससीएंडएच / जेएलएनकेवीवी / 74	18.05.52
815	हरीश के.एन., पुत्र श्री नागराजा	कर्नाएसवीसी / 4300 / 09	कोलादेवी ग्राम एवं डाक, कोलादेवी— 563131, मुल्गाबगल तालुक, कोलार जिला, कर्नाटक	बीवीएससीएंडएच / केवीएएफएसयू/ 09	2.3.86
816	हरकू देवी, पुत्री श्री खेमा राम	राजएसवीसी / 3703 / 10	ग्राम— रायचंदपुरा, तहसील— बैतूर, बाड़मेर, राजस्थान	बीवीएससीएंडएच / एसकेआरएसयू / 10	15.07.83
817	हरलीन कौर, पुत्री श्री अजीत सिंह	पीबीएसवीसी / 2889 / 09	2727—बी, गुरदेव नगर, लुधियाना— 141001, पंजाब	बीवीएससीएंडएच / जीएडीवीएसयू / 09	27.11.85
818	हरमनजीत सिंह, पुत्र श्री दर्शन सिंह	पीबीएसवीसी / 2864 / 09	7036, न्यू शक्ति नगर, स्ट्रीट न. 4, लुधियाना— 141007, पंजाब	बीवीएससीएंडएच / जीएडीवीएसयू / 09	8.3.84
819	हरपाल संघु, पुत्र श्री बिंद्रा सिंह संघु	पीबीएसवीसी / 2901 / 09	क्यू 7, पुलिस लाइन, अमृतसर, पंजाब	बीवीएससीएंडएच / जीएडीवीएसयू / 09	2.11.83
820	हरप्रीत इंदर सिंह बरार, पुत्र श्री कुलदीप सिंह	पीबीएसवीसी / 2878 / 09	म.न. बी XII —107, हरीन्द्र नगर, फरीदकोट, पंजाब	बीवीएससीएंडएच / जीएडीवीएसयू / 09	7.11.83
821	हरप्रीत कौर, पुत्री श्री दलजीत सिंह	पीबीएसवीसी / 2891 / 09	म.न. 146, कृष्णा कॉलोनी, वार्ड न. 8, दसूया, जिला होशियारपुर, पंजाब	बीवीएससीएंडएच / जीएडीवीएसयू / 09	22.4.85
822	हरप्रीत सिंह, पुत्र श्री रतन सिंह	पीबीएसवीसी / 2882 / 09	द्वारा सरबजीत बुटीक, शोरी शाह मंडी के निकट, नया बस स्टैंड, धारीवाल, जिला— गुरदासपुर— 143519, पंजाब	बीवीएससीएंडएच / जीएडीवीएसयू / 09	21.10.84
823	हसीना के.वी., पुत्री श्री मौहम्मद कुदटी के.वी.	केएसवीसी / 35 32 / 09	करुप्पन वीट्टिल हाउस, पुथुर डाक, कोट्टाकल, मलपुरम— 676503, केरल	बीवीएससीएंडएच / केएयू / 09	28.10.85
824	हटजदे रवीन्द्र कुमार इमदेव	महाएसवीसी / 8168 / 09	एटी एवं डाक—कोका (जंगल), तालुक— भंडारा, जिला— भंडारा— 441905, महाराष्ट्र	बीवीएससीएंडएच / एमएएंडएफएसयू / 09	31.08.84

825	हीबा शाहीन, पुत्री श्री अब्दुल खालिक अंसारी	यूकेएसवीसी/ 474/09	म.न. 1104/4, झा कॉलोनी, पंतनगर जिला, यू.एस. नगर, उत्तराखंड	बीवीएससीएंडएच /जीबीपीयूएंडटी /09	17.06.85
826	हेदाऊ वंदना रमेश	महाएसवीसी/ 8173/09	खात रोड, भइयाजी नगर, भंडारा, तालुक जिला भंडारा- 44190, महाराष्ट्र	बीवीएससीएंडएच /एमएंडएफएसयू /09	29.05.87
827	हेगडे रामचंद्रश्रीपति, पुत्र श्री हेगडे श्रीपति रामइय्या	कर्नाएसवीसी/ 4361/09	एटी एवं डाक:बेलगड्डे, सिरसी तालुक, उत्तर कन्नडा जिला- 581336, कर्नाटक	बीवीएससी/ यूएसबंगलौर/86	23.3.63
828	हेमचंद्रन आर. (वी. राजशेखरन)	टीएनएसवीसी /4593/09	1/23, शिवानायकनपट्टी, पलाया पलायम डाक, नमक्कल जिला, तमिलनाडु	बीवीएससीएंडएच /टीएनयूवीएस /09	15.05.86
829	हेमंतकुमार बेलचंदन, पुत्र स्व. श्री केदार सिंह बेलचंदन	सीएचएसवीसी /457/09	16, आनंद नगर, दुर्ग, छत्तीसगढ़	बीवीएससीएंडएच /आईजीकेवीवी/0 7-08	20.01.81
830	हिमाचल माझी, पुत्र श्री केशव माझी	ओएसवीसी/2 302/09	एटी-खलाना, डाक-धुचागुडा, वाया- सिनापाली, जिला- नौपदा- 766108, उड़ीसा	बीवीएससीएंडएच /ओयूएटी/09	13.08.86
831	हिमानी धांजे, पिता श्री जे.आर. धांजे	एचवीसी/883 /09	ग्राम बटाडा, डाक बागडी, तहसील थियोग, जिला शिमला, हि.प्र.	बीवीएससीएंडएच /सीएसकेएचपीकेवी /09	11.02.86
832	हिमांश वैश्या, पुत्र श्री फूलचंद वैश्या	सीएचएसवीसी /515/10	म.न. एन.एच. 10, टेलीकॉम कॉलोनी, कोरबा, छत्तीसगढ़	बीवीएससीएंडएच /आईजीके वीवी/09	17.04.86
833	हिमांशु अवस्थी, पुत्र श्री राजीव अवस्थी	यूपीएसवीसी/ 5008/09	4-4/2, जालनीगाम कॉलोनी, इंद्रा नगर, लखनऊ, उ.प्र.	बीवीएससीएंडएच /जीबीपीयूएंडटी /09	07.03.85
834	हिंगाडे सोनल शाम	महाएसवीसी/ 8179/09	देवांगन सोसायटी, बाघापुर लोहारा बाईपास रोड, तालुक जिला यवतमाल- 445001, महाराष्ट्र	बीवीएससीएंडएच /एमएंडएफएसयू /09	23.12.85
835	हिंगोनेकर नम्रता रामदास	महाएसवीसी/ 8353/10	पुत्री श्रीमती प्रभावती रामदास टायडे, प्लॉट न. 65/बी, नवजीवन ट्रेटर के निकट, एनएच नं. 6, ए/पी.मुक्ते नगर, तालुक मुक्तनगर, जिला जलगांव, महाराष्ट्र	बीवीएससीएंडएच /एमएंडएफएसयू /09	16.06.85
836	हीरपारा रंछोड कडवा	जीवीसी/ 1783	एटी- सासन गिर, तालुक- तलाला, जिला-जूनागढ़- 362135, गुजरात	बीवीएससीएंडएच /जीएयू/94	2.3.68
837	हिरपारा महेश मनसुखभाई	जीवीसी/ 2286	एटी- मोरवाड़ा, तालुक- भेसन, जिला- जूनागढ़- 382020, गुजरात	बीवीएससीएंडएच /जीएयू/00	12.12.76
838	हितेश कुमार मिश्रा, पुत्र श्री प्रेम शंकर मिश्रा	सीएचएसवीसी /494/10	विकास नगर, कौंडा गांव, जिला- बस्तर, छत्तीसगढ़	बीवीएससीएंडएच /आईजीकेवीवी/0 9	12.08.81

839	हुदेश कुमार यादव, पुत्र श्री आर.के. यादव	यूपीएसवीसी/ 5056/09	ग्राम एवं डाक— अखनीवा कोंच, जिला जालोन, उ.प्र.	बीवीएससीएंडएच / टीएनवीएंडएफएसयू / 09	04.03.85
840	हुछेगौडा के.एच., पुत्र श्री कारलू हुछेगौडा एच.	कर्नाएसवीसी/ 4322/09	कोडमभल्ली— 571501, छन्नापटना तालुक, रामनगर जिला, कर्नाटक	बीवीएससीएंडएच / केवीएएफएसयू/ 09	5.7.86
841	हुकुम चंद पटेल, पुत्र श्री रणछोड़ पटेल	एमपीएसवीसी / 2599/09	146, एमआईजी, विंदय विहार, न्यू हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी, खारगोन, म.प्र.	बीवीएससीएंडएच / एएनकेवीवी/09	3.8.77
842	आई ए. अंसारी, पुत्र मीह. असलम अंसारी	यूपीएसवीसी/ 5026/09	मीह. बधिया, डाक दक्षिण, जिला— फिरोजाबाद, उ.प्र.	बीवीएससीएंडएच / सीसीएसएचएयू/ 09	16.06.82
843	आई. सतीश कुमार, पुत्र श्री आई. प्रसाद	एपीएसवीसी/ 04958/09	रदापीवारी स्ट्रीट, 10—72/9ए, मेन रोड, बोखिली, विजियानगरम जिला— 535558, आंध्र प्रदेश	बीवीएससीएंडएच / एसकेवीयू/09	12.07.85
844	इलायजागन एम. (ई. मुनिस्वामी)	टीएनएसवीसी / 4466/09	हाई स्कूल स्ट्रीट, मिन्नाल, अरक्कोनम तालुक, वेल््लोर— 632510, तमिलनाडु	बीवीएससी/ टीएएन यूवीएस/97	07.05.73
845	इनामदार आरिफ इन्नास	महाएसवीसी/ 8188/09	ए/पी कारकुटे— मालवाडी, तालुक — मान, जिला सतारा, महाराष्ट्र	बीवीएससीएंडएच / एमएएंडएफएसयू / 08	07.06.85
846	इंदू एम.एस. (एम. सेल्वराज)	टीएनएसवीसी / 4535/09	धेवी टेक्सटाइल्स, 154, मेन रोड, नमक्कल— 637001, तमिलनाडु	बीवीएससीएंडएच / टीएनयूवीएस / 09	27.05.86
847	इंधुमथि बी. (के. बालासुब्रमण्यन)	टीएनएसवीसी / 4499/09	18, सुंदरम स्ट्रीट, जाफरकनपेट, चेन्नई— 600083	बीवीएससीएंडएच / टीएनयू वीएस/09	02.03.86
848	इंधुमथि वी. (एन. वीरप्पन)	टीएनएसवीसी / 4602/09	285/2, सेतु नगर, ओमाकुलम के निकट, चिदाम्बरम— 608001, कुडालोर जिला, तमिलनाडु	बीवीएससीएंडएच / टीएनयूवीएस / 09	08.06.86
849	इंगले ध्यानेश्वर शंकर राव	महाएसवीसी/ 8262/09	ग्राम पंचायत के पीछे, एटी एवं डाक— कान्हेरी (सलाप), तालुक बारशीटाकली, जिला— अकोला— 444001, महाराष्ट्र	बीवीएससीएंडएच / एमएएंडएफएसयू / 09	15.06.81
850	इंगले सचिन सुदामराव	महाएसवीसी/ 8226/09	“इंगले निवास”, राजे सम्माजी नगर, नगर रोड, बालेपिक, तालु, जिला बीड—431122, महाराष्ट्र	बीवीएससीएंडएच / एमएएंडएफएसयू / 09	21.01.83
851	इंगले विनायक शिवाजी राव	महाएसवीसी/ 8232/09	एटी उमरी, डाक— भाटेगांव, तालुक— हदगांव, जिला— नांदेड, महाराष्ट्र	बीवीएससीएंडएच / एमएएंडएफएसयू / 09	01.09.85
852	इंगतिपी मेरी मोन्जिर, पुत्र स्व. श्री तपनसिंह इंगती	एसएसएम/246 5/09	डॉक्टर्स कॉलोनी, दिभु, सिविल अस्पताल, कारबी— अंगलौंग, असम	बीवीएससीएंडएच / एएयू/09	3.8.84
853	इरनागौडा बापूगौडा पाटिल, पुत्र श्री बापूगौडा पाटिल	कर्नाएसवीसी/ 4222/09	प्लॉट न. 80, विश्वेश्वरइयाह नगर, आश्रम रोड, बीजापुर, कर्नाटक	बीवीएससीएंडएच / एमएयू/77	1.6.54

854	इसल गोपाल मधुकर	महाएसवीसी/ 8277/09	सिविल लाइन, तालुक दरयापुर, जिला अमरावती- 444803, महाराष्ट्र	बीवीएससीएंडएच /एमएंडएफएसयू /09	24.09.86
855	इशप्रीत सिंह गिल, पुत्र श्री बख्शीश सिंह गिल	पीबीएसवीसी/ 2869/09	53-ए, रणबीर मार्ग, पटियाला, पंजाब	बीवीएससीएंडएच /जीएडीवीएसयू /09	20.6.86
856	इशरत उटाह, पुत्र श्री कुदरातुल्लाह अंसारी	राजएसवीसी/ 3734/10	43, अंसारी मौहल्ला, सवाई माधोपुर- 322021, राजस्थान	बीवीएससीएंडएच /एसकेआरएयू/10	01.07.83
857	जे. भाग्या लक्ष्मी, पुत्री श्री जे. बालन्ना	एपीएसवीसी/ 04883/09	कुडासिंगी (ग्राम), सीकरी (डाक), पेडाबयालू (एम), विशाखा पटणम जिला, आंध्र प्रदेश	बीवीएससीएंडएच /एसवीवीयू/09	03.02.82
858	जे. नरेंद्र कुमार, पुत्र श्री जे. रायप्पा	एपीएसवीसी/ 04873/09	चिनाबोगिली, सीथानगरम (एम), विजियानगरम जिला, आंध्र प्रदेश	बीवीएससीएंडएच /एसवीवीयू/09	10.08.85
859	जे. श्रीकांत, पुत्र श्री जे. विनोद कुमार	एपीएसवीसी/ 04872/09	डी.न. 10/681, कार स्ट्रीट, धरमावरम, अनंतपुर जिला- 515671, आंध्र प्रदेश	बीवीएससीएंडएच /एसवीवीयू/09	28.08.85
860	जादव अजित सिंह सोम सिंह	जीवीसी/ 1878	जादव फालिया, एटी- दाहेली, तालुक- वलिया, जिला- भड़ौच, गुजरात	बीवीएससीएंडएच /जीएयू/ 85	21.8.73
861	जादव नाथा मासरी	जीवीसी/ 1985	एटी एवं डाक- चंदावना, तालुक- मंगरोल, जिला- जूनागढ़, गुजरात	बीवीएससीएंडएच /जीएयू/ 96	1.6.73
862	जादेजा हरीशचंद्र दिलीप सिंह	जीवीसी/ 1945	बी/9, सोनल नगर सोसायटी, निर्मल सिंह की बाड़ी, मुन्द्रा रोड, भुज, जिला-कच्छ, गुजरात	बीवीएससीएंडएच /जीएयू/ 96	21.9.85
863	जाधव नंद किशोर गोविंदराव	महाएसवीसी/ 8204/09	एटी:झुनझुनवाडी, डाक शिवाजी नगर, तालुक कलमनूरी, जिला हिंगोली, महाराष्ट्र	बीवीएससीएंडएच /एमएंडएफएसयू /09	21.05.86
864	जाधव रवि कुमार सुधाकर	महाएसवीसी/ 8206/09	जाधव निवास, म.न. 37, वांगी रोड (एचएडीसीओ), तालुक घ जिला:परभनी-431401, महाराष्ट्र	बीवीएससीएंडएच /एमएंडएफएसयू /09	24.10.83
865	जाधव सागर रामचंद्र	महाएसवीसी/ 8319/10	द्वारा रामचंद्र एन. जाधव, एम.वी. सीड्स कंपनी, नेहरू चौक, तालुक इंदापुर, जिला- पुणे- 413106, महाराष्ट्र	बीवीएससीएंडएच /एमएंडएफएसयू /09	24.03.87
866	जाधव विनायक लक्ष्मणराव	महाएसवीसी/ 8279/09	एटी-डाक- चिकलथाना (ब्लॉक), तालुक सैलू, जिला परभनी- 431503, महाराष्ट्र	बीवीएससीएंडएच /एमएंडएफएसयू /09	25.07.85
867	जाफर सादिक, पुत्र श्री शेख हैदर साहेब	कर्नाएसवीसी/ 4226/09	न. 9, पहला मेन, दूसरा क्रॉस, के.वी. लेआउट, के.आर. पुरम, बेंगलुरु-36, कर्नाटक	बीवीएससी/यूएस बंगलौर/70	6.6.44
868	जगदीश ए.एल., पुत्र श्री लक्ष्मी गौडा	कर्नाएसवीसी/ 4245/09	एस.के.पी. रोड, आरेहल्ली- 573101, बेलूर तालुक, हसन जिला, कर्नाटक	बीवीएससीएंडएच /केवीएफएसयू/ 09	7.4.87

869	जगदीप सिंह, पुत्र श्री अवतार सिंह	पी.बी.एस.वीसी / 2873 / 09	म.न. 1829, फेज 5, मोहाली- 160059, पंजाब	बी.वी.एस.सी.एंड.ए.एच. / जी.ए.डी.वी.एस.यू. / 09	7.3.87
870	जगदेव सिंह, पुत्र श्री जगतार सिंह	यूपी.एस.वीसी / 5055 / 09	ग्राम- कुएयान माहुलिया, डाक- भम्भट, शाहजहापुर, उ.प्र.	बी.वी.एस.सी.एंड.ए.एच. / आई.जी.के.वी / 09	20.04.82
871	जगीवला प्रकाश सुंदरलाल	जी.वी.सी / 540	16 / 17, त्रिलोक नगर, नारायण पार्क के निकट, सिद्धिविनायक पार्क के सामने, पालनपुर, चुंगी नाका के निकट, सूरत, गुजरात	बी.वी.एस.सी.एंड.ए.एच. / जी.ए.यू / 80	1.6.58
872	जगजीवन लाल कुशवाहा, पुत्र श्री लवकुश कुशवाहा	सी.एच.एस.वीसी / 472 / 09	बालक कॉलोनी, तमनार, जिला- रायगढ़, छत्तीसगढ़	बी.वी.एस.सी.एंड.ए.एच. / जे.ए.एन.के.वी.वी / 86-87	01.08.60
873	जगमोहन सिंह, पुत्र श्री आर.के. चंद्राकर	सी.एच.एस.वीसी / 491 / 09	म.न. एन.आई.जी 349, पद्मनाभपुर, दुर्ग, छत्तीसगढ़	बी.वी.एस.सी.एंड.ए.एच. / आई.जी.के.वी.वी / 0 9	24.12.84
874	जय भगवान, पुत्र श्री धरम पाल	हरि.एस.वीसी / 2 124	ग्राम एवं डाक- सिसाना, जिला- सोनीपत, हरियाणा	बी.वी.एस.सी.एंड.ए.एच. / सी.एस.एस.ए.ए.यू / 09	15.9.84
875	जयदेव वर्मा, पुत्र श्री प्रकाश चंद	यूपी.एस.वीसी / 5072 / 10	ग्राम- धरमपुरा, डाक खिरारी, मथुरा, उ.प्र.	बी.वी.एस.सी.एंड.ए.एच. / एस.वी.के.ए.यू / 09	02.07.80
876	जयकांत सी.एम. (सी. मस्तान)	टी.एन.एस.वीसी / 4612 / 09	103, जम्बाजगान नगर, मिज़ूर, पिन- 601203, थिरुवत्तूर जिला, तमिलनाडु	बी.वी.एस.सी.एंड.ए.एच. / टी.ए.एन.यू.वी.एस. / 09	09.01.85
877	जैन हरीश चंद्र	जी.वी.सी / 92	16, वृंदावन पार्क- II, आकृति नगर के सामने, बोरसाड रोड, आनंद- 383001, गुजरात	बी.वी.एस.सी.एंड.ए.एच. / विक्रमवि.वि / 64	11.7.40
878	जसपाल कारगेती, पुत्र श्री जी.डी. कारगेती	यू.के.एस.वीसी / 450 / 09	आदर्श कॉलोनी, डाक: चिलिया नोला, तहसील रानीखेत, जिला अल्मोडा, उत्तराखंड	बी.वी.एस.सी.एंड.ए.एच. / जी.के.वी.यू.एंड.टी. / 09	28.02.83
879	जय प्रकाश कछवा, पुत्र श्री राम लातूर कछवा	राज.एस.वीसी / 3709 / 10	ग्राम एवं डाक- देओली (मंजी), तहसील संगोड, कोटा- 325001, राजस्थान	बी.वी.एस.सी.एंड.ए.एच. / एस.के.आर.ए.यू / 10	01.12.82
880	जकसानिया कांतिलाल हिरजीभाई	जी.वी.सी / 1138	ए.टी. एवं डाक- जेतपुर (मछू), तालुक मोरबी, जिला राजकोट- 363630, गुजरात	बी.वी.एस.सी.एंड.ए.एच. / जी.ए.यू / 89	3.6.67
881	जालंधर जगदीश कुमार मोहनभाई	जी.वी.सी / 1499	ए.टी.-अंकोलवाड़ी (गिर), तालुक तलाला, पिन- 362140, जिला -जूनागढ़, गुजरात	बी.वी.एस.सी.एंड.ए.एच. / जी.ए.यू / 92	15.4.69
882	जालंधा पी. (पी. पेरियासामी)	टी.एन.एस.वीसी / 4616 / 09	11, सेकर वर्मा नगर, थिरुत्तानी, थिरुवत्तूर जिला- 631209, तमिलनाडु	बी.वी.एस.सी.एंड.ए.एच. / टी.ए.ए.यू. वी.एस. / 09	05.12.86
883	जालू गोपालदास करसनजी	जी.वी.सी / 798	5, चंद्रपार्क को ऑप हाउ. सो., ब्लॉक न. 48, 150 फीट रिंग रोड, पारिजात पार्टी प्लॉट के सामने, बिग बाजार के निकट, राजकोट-5	बी.वी.एस.सी.एंड.ए.एच. / जी.ए.यू / 84	24.3.60

884	जमदादे आशय अजीत	महाएसवीसी/ 8332/10	स्नेह, 8/396, शाहू हाई स्कूल के पीछे, पाटस रोड, बारामती, तालुक बारामती, जिला पुणे, महाराष्ट्र	बीवीएससीएंडएच / एमएसएंडएफएसयू / 09	01.01.87
885	जमशीर पी., पुत्र श्री अंथी पोथाला	केएसवीसी/ 35 67/09	पोथाला हाउस, थंडुकोडे, वेल्लायूर (डाक), मलपुरम, केरल	बीवीएससीएंडएच / केएयू/09	05.04.85
886	जमुना वलसलान, पुत्री श्री पी.के. वलसलान	केएसवीसी/ 35 96/09	पराकुलम हाउस, परमपुजाह, डाक इरंजल, कोट्टायम- 686032, केरल	बीवीएससीएंडएच / केएयू/09	12.12.85
887	जनक ढकाल, पुत्र श्री महेश्वर ढकाल	पीबीएसवीसी/ 2897/09	होस्टल न. 9, कमरा न. 8, पीएयू कैम्पस, लुधियाना, पंजाब	बीवीएससीएंडएच / जीएडीवीएएसयू / 09	2.1.89
888	जानी विक्रमभाई शिवशंकर	जीवीसी/ 2098	प्लॉट न. 246/1, किसान नगर, सेक्टर-26, गांधीनगर, गुजरात	बीवीएससीएंडएच / जीएयू/98	4.12.74
889	जंखवाला निसार अहमद दोसी मोहम्मद	जीवीसी/ 362	"आबोदाना", मदीना मस्जिद स्ट्रीट, पोलोग्राउंड, हिम्मतनगर, जिला- साबरकंठा- 383001, गुजरात	बीवीएससीएंडएच / जीएयू/75	23.3.50
890	जरसानिया दिनेश कुमार हंसराजभाई	जीवीसी/ 1610/09	सी-43, जाहन्वी बंगला, सरकारी ट्यूबवैल के सामने, बोपल, अहमदाबाद, गुजरात	बीवीएससीएंडएच / जीएयू/93	10.05.71
891	जासानी गज्जल नलिनभाई	जीवीसी/ 3117/10	"मुरलीधर", पटेल चौक, मानवदर, गुजरात	बीवीएससीएंडएच / एएयू/10	02.11.87
892	जसदीप सिंह, पुत्र श्री मनदीप सिंह	पीबीएसवीसी/ 2898/09	537/14, जगजीत पोल्ट्री फार्म, कोर्ट रोड, पट्टी, जिला अमृतसर, पंजाब	बीवीएससीएंडएच / जीएडीवीएएसयू / 09	31.7.85
893	जतिन्दर पाल सिंह, पुत्र श्री हरदेव सिंह	पीबीएसवीसी/ 2859/09	म.न.32, गली न. 2, बिंद्रा कॉलो., गुरुद्वारे के निकट, दुखनिवारण साहिब, पटियाला, पंजाब	बीवीएससीएंडएच / आईजीकेवीवी/05	12.4.82
894	जावेद अहमद, पुत्र श्री यार मोहम्मद	यूपीएसवीसी/ 5043/09	ग्राम एवं डाक- लेहरा बाजार, जिला- महाराजगंज, उ.प्र.	बीवीएससीएंडएच / यूपीपीडी डीयूपीसीवीवी/09	15.01.79
895	जावेद जमीला ए., पुत्र श्री पी.ए. अब्दुल जीमल	केएसवीसी/ 35 86/09	चेम्प्लाकल हाउस, कोट्टांगल डाक, पथानमथिट्टा- 686547, केरल	बीवीएससीएंडएच / केएयू/09	03.05.86
896	जाविया चिराग कुमार बाबूलाल	जीवीसी/ 3118/10	ब्लॉक- 104, ब्लू स्टार अपार्टमेंट, अशोक वाटिका, जंजर्दा रोड, जूनागढ़, गुजरात	बीवीएससीएंडएच / एएयू/10	15.02.88
897	जाविया केतन कुमार प्रेमजीभाई	जीवीसी/ 2071	एटी-केशोद, तालुका पंचायत क्वार्टर, टी.बी. अस्पताल के सामने, जिला जूनागढ़, गुजरात	बीवीएससीएंडएच / जीएयू/ 97	23.3.75
898	जवाद एन., पुत्र श्री नजीब एम.	केएसवीसी/ 35 77/09	शाइन, फारुक कॉलेज (डाक), कोज़ीकोड-673832, केरल	बीवीएससीएंडएच / केएयू/09	28.01.86

899	जवाहर पी. (एस. पचियामनी)	टीएनएसवीसी / 4430/09	25-जी, गोकूलम कॉलोनी, चौथी स्ट्रीट, पी. एन. पुडुर, कोयम्बतूर 641041, तमिलनाडु	बीवीएससी / टीएन यूवीएस / 91	01.06.64
900	जय आनंद सिंह, पुत्र श्री जगदीश सिंह	जेवीसी / 617 / 09	टीवीओ, बांदरकुप्पी पाल्मो, गिरिडीह, झारखंड	बीवीएससीएंडएच / बीएयू / 87	15.05.62
901	जेमिमा पोनराज (एम. सेम्सन जयकुमार)	टीएनएसवीसी / 4472/09	बी-3, सौंदर्यम अपार्टमेंट्स, 370, ई.बी. ऑफिस रोड, मोगाप्पेर ईस्ट, चेन्नई-600037, तमिलनाडु	बीवीएससीएंडएच / ओयूएंड टी / 95	22.11.72
902	जेरीश के.एम., पुत्र श्री मुहम्मद के.टी.	केएसवीसी / 35 34/09	कोल्लन थोडुकायिल हाउस, पुन्नूर चेरूपलम, नारीकुन्नी, कोजकोड- 673585, केरल	बीवीएससीएंडएच / केएयू / 09	29.01.86
903	जेसीहुन नोंगसेइज, पुत्री श्री बी.एस. नोंगकिनरीह	मेघएसवीसी / 2 68/09	मौफलांग, लाडुप्रिसेन, पूर्वी खासी हिल्स, शिलॉंग, मेघालय	बीवीएससीएंडएच / सीएयू / 09	26.11.86
904	जयंत्राबालाजी टी. (एम.एस. थंगाराज)	टीएनएसवीसी / 4669/10	288, मेवानी डाक, कुगालूर वाया, गोबी तालुक, इरोडे- 638313, तमिलनाडु	बीवीएससीएंडएच / टीएनयूवीएस / 09	30.10.84
905	झावेरी हरीश भद्रकांत	जीवीसी / 304	16, त्रिशाला अपार्टमेंट, 12- आनंद नगर, सोसायटी, भद्रा, अहमदाबाद- 07, गुजरात	बीवीएससीएंडएच / केकेवी / 73	14.5.51
906	जीजी जगन्नाथ, पुत्री श्री ओ. जगन्नाथ	केएसवीसी / 35 94/09	शांति भवन, बेकरी स्ट्रीट, कट्टूर डाक, थिसूर- 680702, केरल	बीवीएससीएंडएच / केएयू / 09	14.03.86
907	जीजो वी. थॉमस, पुत्र श्री वी.जे. थॉमस	केएसवीसी / 3528/09	वजावकट्टू हाउस, कोलेरी डाक, केनीचिरा, वायनाड- 673596, केरल	बीवीएससीएंडएच / केएयू / 09	25.04.83
908	जिल्लावर स्वप्निल शरदचंद्र	महाएसवीसी / 8248/09	चिंतामनि निवास, पांडुरंग नगर, धनकी, तालुक उमेरखेड, जिला यवतमाल- 445207, महाराष्ट्र	बीवीएससीएंडएच / एमएंडएफएसयू / 09	15.12.84
909	जिन्सा जॉर्ज, पुत्री श्री सी.वी. जॉर्ज	केएसवीसी / 3509/09	चेट्टीवलापिल हाउस, डाक कुट्टीकाड, चलाकुडी (वाया), थिसूर- 680724, केरल	बीवीएससीएंडएच / केएयू / 09	30.05.80
910	जितपुरे स्वप्निल विजय कुमार	महाएसवीसी / 8250/09	मारवाडी गली, राजेंद्र वॉच कंपनी के निकट, तालुक एवं जिला उस्मानाबाद- 413501, महाराष्ट्र	बीवीएससीएंडएच / एमएंडएफएसयू / 09	07.12.85
911	जिसाना पारीथ, पुत्री श्री के.के. पारीथ	केएसवीसी / 35 22/09	जस निवास, कुथियाथोडे डाक, चेरथला, अलपुजाह- 688533, केरल	बीवीएससीएंडएच / केएयू / 09	06.04.86
912	जिशा राज ए., पुत्री श्री जी. राजप्पन नायर	केएसवीसी / 35 30/09	पोनम्मा भवन, पूरावूर, डाक चिरायिनकीझू, थिरुवनंतपुरम -695304, केरल	बीवीएससीएंडएच / केएयू / 09	18.05.86
913	जीतेंद्र बेघेल, पुत्र श्री बसंत सिंह	एमपीएसवीसी / 2613/09	ग्राम- कुदारी, वाया- खेरा पालारी, सिओनी (म.प्र.) - 480991	बीवीएससीएंडएच / जेएनकेवीवी / 09	10.07.80

914	जीतेंद्र कुमार अग्रवाल, पुत्र श्री गिरराज प्रसाद	राजएसवीसी/ 3595/09	कप्तान कॉलोनी, पुराना रूपबास, अलवर— 301001, राजस्थान	बीवीएससीएंडएच /आरएयू/09	02.10.84
915	जीतेंद्र कुमार, पुत्र श्री शम्भू नाथ	यूकेएसवीसी/ 451/09	ग्राम बकसीरा, डाक घर दिनेशपुर, जिला यू एस. नगर, उत्तराखंड	बीवीएससीएंडएच /जीबीपीयूएण्डटी /09	01.06.86
916	जीतेंद्र कुमार, पुत्र श्री राम कुमार	यूकेएसवीसी/ 490/09	पशु चिकित्सा अधिकारी, पशु चिकित्सा अस्पताल, बनबासा, जिला चम्पावत, उत्तराखंड	बीवीएससीएंडएच /बॉमचआ/98	10.03.71
917	जीतेंद्र सिंह, पुत्र श्री नारायण सिंह	यूपीएसवीसी/ 5014/09	शेक बुलाकी डालीनाई, ताजगंज, जिला— आगरा, उ.प्र.	बीवीएससीएंडएच /जेएनकेवीवी/09	30.04.80
918	जीथेश जे. पूनाट्टु, पुत्र श्री पी.के. जोसेफ	केएसवीसी/34 94/09	पूनाट्टु हाउस, मुवाट्टुपुजाह क्लब रोड, मुवाट्टुपुजाह मार्केट डाक, मराडी अर्नाकुलम— 686673, केरल	बीवीएससीएंडएच /केएयू/09	10.03.79
919	जीवनी केशवजी कांजीभाई	जीवीसी/ 1719	पशु चिकित्सा अधिकारी, पशु चिकित्सा डिस्पेंसरी, द्वारका, जिला— जामनगर, गुजरात	बीवीएससीएंडएच /जीएयू/94	13.2.70
920	जीवनी सुरेश कुमार लिम्बाभाई	जीवीसी/ 1908	एटी एवं डाक— घुंढा (खानपुर), तालुक— टंकारा, राजकोट, गुजरात	बीवीएससीएंडएच /जीएयू/95	30.11.68
921	ज्ञानेश झा, पुत्र श्री विग्नेश झा	जेवीसी/628 /09	भोजपुर कॉलोनी, चेस, बोकारो— 827013, झारखंड	बीवीएससीएंडएच /बीएयू/09	09.01.85
922	जोगनंद नीलेश किशनराव	महाएसवीसी/ 8242/09	ए/पी मांडवा (डाक), तालुक अम्बेजोगई, जिला— बीड— 431517, महाराष्ट्र	बीवीएससीएंडएच /एमएण्डएफएसयू /09	08.07.84
923	जॉनसन पी. जॉन, पुत्री श्री पी.टी. जॉन	केएसवीसी/36 00/09	पोन्नेडुथमकुजी हाउस, डाक पूलाकुट्टी, चित्तारीपरम्बा (वाया), कन्नूर—670650, केरल	बीवीएससीएंडएच /केएयू/09	26.08.85
924	जोशी अमित वल्लभभाई	जीवीसी/ 1178	ए-24, तिरुपति टाउनशिप—1, अरोमा दीसा, हाइवे, पालनपुर, जिला— बनासकंठा, गुजरात	बीवीएससीएंडएच /जीएयू/89	23.1.66
925	जोशी अश्विन कुमार हिम्मतलाल	जीवीसी/ 471	दूधसागर डेरी, मेहसाना— पालनपुर हाइवे, मेहसाना, गुजरात	बीवीएससीएंडएच /जीएयू/78	11.11.57
926	जोशी अतुल भाई बाबू भाई	जीवीसी/ 1315	एटी एवं डाक— नेदरा, तालुक सिद्धापुर, जिला पाटन, गुजरात	बीवीएससीएंडएच /जीएयू/89	1.6.64
927	जोशी अतुल कुमार शांतिलाल	जीवीसी/ 1247	6, हिमालय बंगलो—1, धरती रिसोर्ट के पीछे, हनुमान टेकरी, आबू रोड हाइवे, पालनपुर, जिला बनासकंठा	बीवीएससीएंडएच /जीएयू/90	21.3.68
928	जोशी धीरजलाल हिम्मतलाल	जीवीसी/ 593	18, मारवले टेनामेंट, कोऑप हाउसिंग सोसायटी, आबाद नगर के निकट, बोपल, महाराष्ट्र	बीवीएससीएंडएच /जीएयू/81	11.12.58

929	जोशी जयेंद्र कुमार जयतिलाल	जीवीसी/ 1280	6, महर्षि अरविंद सोसायटी, वेरी हनुमान रोड, एटी, डाक व तालुक— लूनावाड, जिला पंचमहल— 389230	बीवीएससीएंडएच /जीएयू/90	4.4.67
930	जोशी केतन कुमार नवीन चंद्र	जीवीसी/ 3012/09	एफ-28/3, एस.के. नगर, दांतीवाडा कृषि विश्वविद्यालय, तालुक दांतीवाडा, जिला बी. के.गुजरात	बीवीएससीएंडएच /एसडीएयू/09	27.09.86
931	जोशी किशोर कुमार दाहया शंकर	जीवीसी/ 634	'देवहित', 29ए ब्रह्म समाज सोसायटी, शेरी न. 2, रइय्या रोड, राजकोट-7, गुजरात	बीवीएससीएंडएच /जीएयू/78	11.7.53
932	जोशी नीलेश कुमार दिनायक राव	जीवीसी/ 2072	25/सुपर ए, तिरुपति बंगला, आबू हाईवे, पालनपुर-385001, जिला बनासकंठा, गुजरात	बीवीएससीएंडएच /जीएयू/97	31.3.75
933	जोशी प्रफुल्ल चंद्र मोहन लाल	जीवीसी/ 1271	ए/8, प्रमुख स्वामी नगर, एआई एमएस ऑक्सीजन के सामने, पुराना पडारा रोड, वडोडरा, गुजरात	बीवीएससीएंडएच /जीएयू/90	30.5.67
934	जोशी प्रशांत कुमार प्रद्युम्न भाई	जीवीसी/ 1055	7-गायत्री नगर, राजेश्वरी सोसायटी के निकट, चंदोला कैन्स के निकट, मणि नगर, अहमदाबाद -50, गुजरात	बीवीएससीएंडएच /जीएयू/88	17.5.66
935	जोशी प्रवीन कुमार चंदूलाल	जीवीसी/ 542	39, स्वागत बंगला, रामोसाना रोड, मेहसाना, गुजरात	बीवीएससीएंडएच /जीएयू/80	22.7.58
936	जोशी शरद नारायण	जीवीसी/ 71	163, वीर एवेन्यू कॉम्प्लेक्स, मनकराव के अखाड़े के सामने, डांडिया बाजार, वडोडरा- 390001, गुजरात	बीवीएससीएंडएच /विक्रमविवि/61	26.11.38
937	जोशी श्वेता राम राव	महाएसवीसी/ 8228/09	कृष्णा निवास, उदगीर, तालुक उदगीर, जिला लाटूर- 413517, महाराष्ट्र	बीवीएससीएंडएच /एमएएंडएफएसयू /09	06.07.87
938	जोशी सुनील महाशंकर	जीवीसी/ 1631	7/2, सेक्टर- 26, केएच रोड, गांधीनगर- 28, गुजरात	बीवीएससीएंडएच /जीएयू/93	
939	जोशी सुनील कुमार नटवरलाल	जीवीसी/ 973	26, 'गोकुल', गुरुकृपा सोसायटी, अकेसन रोड, अहमदाबाद हाईवे, एटी, डाक, तालुक- पालनपुर, जिला- बी.के., गुजरात	बीवीएससीएंडएच /जीएयू/85	23.9.61
940	जोशी वैभव वेंकटेश	महाएसवीसी/ 8235/09	स्टर्लिंग निसर्ग फेज-1 बी-3, धयारी, सिंहगढ रोड, पुणे- 411401, महाराष्ट्र	बीवीएससीएंडएच /एमएएंडएफएसयू /09	07.06.87
941	जोशी वसंत लाल बापू लाल	जीवीसी/ 1486	एटी- वरधारा, तालुक- वीरपुर, जिला- खेड़ा, गुजरात	बीवीएससीएंडएच /जीएयू/91	13.6.69
942	जोशी विनोद चंद्र कांतिलाल	जीवीसी/ 1117	ए-1/202, कर्णावती अपार्ट.- 111, भैरवनाथ-इशानपुर रोड, मानसी पार्क सोसायटी के निकट, मणि नगर, अहमदाबाद, गुजरात	बीवीएससीएंडएच /जीएयू/85	11.12.62
943	जोशियारा परेश कुमार बाबूभाई	जीवीसी/ 1946	एटी एवं डाक- चूनाखान, तालुक भिलोडा, जिला- साबरकंठा, गुजरात	बीवीएससीएंडएच /जीएयू/96	30.5.71

944	जोतानिया अरविंद कुमार हरजीवन भाई	जीवीसी / 1947	एटी एवं डाक— जूना देवलिया, तालुक हलवड, जिला— सुरेन्द्र नगर, पिन— 363330, गुजरात	बीवीएससीएंडएच / जीएयू / 96	13.10.73
945	ज्योति सचान, पुत्री श्री आर.के. सचान	यूपीएसवीसी / 4998 / 09	94, बसंत विहार, नौबस्ता, कानपुर, उ.प्र.	बीवीएससीएंडएच / एनडीयूएंडटी / 09	08.08.81
946	ज्योति साहू, पुत्री श्री ए.एल. साहू	सीएचएसवीसी / 509 / 10	40 / 150, कोडीखाना रोड, बसंतपुर, राजनदगांव, छत्तीसगढ़	बीवीएससीएंडएच / आईजीकेवीवी / 09	23.03.85
947	ज्योतिका	जीवीसी / 3053 / 09	बी-10, अवकार अपार्टमेंट्स, आईआरएमए के निकट, आनंद, गुजरात	बीवीएससीएंडएच / एएयू / 09	05.11.86
948	के. दस्तगिरि, पुत्र श्री के. हुसैनप्पा	एपीएसवीसी / 04866 / 09	टी.कम्मावारीपल्लै (ग्राम)(डाक), वाड्डीराला (एस.ओ.), कडप्पा जिला— 516432, आंध्र प्रदेश	बीवीएससीएंडएच / एसवीवीयू / 09	10.05.85
949	के. राजा, पुत्र श्री के. वेंकटेश्वर राव	एपीएसवीसी / 04939 / 09	म.न. 11-81, नेताजी नगर, नंदीगाम, कृष्णा जिला— 521185, आंध्र प्रदेश	बीवीएससीएंडएच / एसवीवीयू / 09	01.05.87
950	के. श्याम प्रसाद, पुत्र श्री के. गोपाल	एपीएसवीसी / 04851 / 09	म.न. 6 / 20ए, कारीवेना (ग्राम) (डाक), आत्माकुर (एम), कुर्नूल जिला— 518422, आंध्र प्रदेश	बीवीएससीएंडएच / एसवीवीयू / 09	05.08.85
951	के. श्रीनिवास रेड्डी, पुत्र श्री के. नरसी रेड्डी	एपीएसवीसी / 04930 / 09	पेडावीडू ग्राम, मट्टमपल्ली (एम), नालगोंडा जिला, आंध्र प्रदेश	बीवीएससीएंडएच / एसवीवीयू / 09	14.04.85
952	के. बाला नाइक, पुत्र श्री के. मांगे नाइक	एपीएसवीसी / 04842 / 09	गोरकल टांडा (ग्राम), पोलुरे (डाक), नंदयाल तालुक, कुर्नूल जिला, आंध्र प्रदेश	बीवीएससीएंडएच / एसवीवीयू / 09	06.03.87
953	के.डी. शर्मा, पुत्र श्री सी.डी. शर्मा	यूपीएसवीसी / 5049 / 09	ग्राम— खागुवबास, डाक— सिकंदराबाद, जिला— बुलंदशहर, उ.प्र.	बीवीएससीएंडएच / टीएएनयूवीएस / 09	07.11.83
954	के. गंगाधर राव, पुत्र श्री के. श्रीनिवासुलु	एपीएसवीसी / 04825 / 09	बिल्लुपडु (ग्राम), डाक नागुलावेल्लातुरु, चेजरला(एम), नेल्लोर जिला, आंध्र प्रदेश	बीवीएससीएंडएच / एसवीवीयू / 09	06.08.85
955	के. गीथा, पुत्री श्री के. श्रीकिशन	एपीएसवीसी / 04917 / 09	म.न. 9-27, वड्डेमन रोड, बिजिनीपल्ली (एम), महबूब नगर जिला, आंध्र प्रदेश	बीवीएससीएंडएच / एसवीवीयू / 09	24.06.85
956	के. गोविंद राजू, पुत्र श्री के. थिरुपलइयाह	एपीएसवीसी / 04849 / 09	द्वारा बी. वेंकट कृष्णु, म.न. 19-134, अपस्टेयर्स, गुडीपटीगडा, नंदयाल, कुर्नूल जिला, आंध्र प्रदेश	बीवीएससीएंडएच / एसवीवीयू / 09	29.06.82
957	के. इंदिरा, पुत्री श्री के. हनुमंता रेड्डी	एपीएसवीसी / 04905 / 09	पेगाडापल्ली (ग्राम, डाक व एम), करीमनगर जिला— 505532, आंध्र प्रदेश	बीवीएससीएंडएच / एसवीवीयू / 09	11.10.84
958	के. जगन मोहन्ना राव, पुत्र श्री के. धनंजी नायडू	एपीएसवीसी / 04954 / 09	सुमद्रा डाक, बालिजीपेटा (एम), विजियानगरम जिला— 535558, आंध्र प्रदेश	बीवीएससीएंडएच / एसवीवीयू / 09	01.06.85

959	के.के. मौर्या, पुत्र श्री आर.जे. मौर्या	यूपीएसवीसी / 4936 / 09	ग्राम- पहाड़पुर, डाक- कलाफतेपुर, आजमगढ़, उ.प्र.	बीवीएससीएंडएच / एनडीयूएंडटी / 09	02.02.83
960	के.के. वर्मा, पुत्र श्री करन सिंह	यूपीएसवीसी / 4943 / 09	के-3164, शास्त्री नगर, मेरठ, उ.प्र.	बीवीएससीएंडएच / एनडीयूएंडटी / 09	15.10.84
961	के. किशोर कुमार रेड्डी, पुत्र श्री के. राजेश्वर रेड्डी	एपीएसवीसी / 04828 / 09	म.न. 51, एसबीआई कॉलोनी, नंदयाल- 518502, कुर्नूल जिला, आंध्र प्रदेश	बीवीएससीएंडएच / एसवीवीयू / 09	09.08.84
962	के. माधव रेड्डी, पुत्र श्री के. चंद्र शेखर रेड्डी	एपीएसवीसी / 04877 / 09	माधवरम, सिद्धावतम (एम), कडप्पा जिला, आंध्र प्रदेश	बीवीएससीएंडएच / एसवीवीयू / 09	21.10.82
963	के. मुनि चंद्र रेड्डी, पुत्र श्री के. मुनि रत्नम रेड्डी	एपीएसवीसी / 04897 / 09	गंगुडुपल्ली(ग्राम),दोरनाकम्बाला (डाक), चंद्रागिरि (एम), चित्तूर जिला, आंध्र प्रदेश	बीवीएससीएंडएच / एसवीवीयू / 09	01.06.84
964	के. पद्मावती देवी, पुत्री श्री के. मुरली नायडू	एपीएसवीसी / 04869 / 09	म.न. 4-149-51, टीचर्स कॉलोनी, घोने, कुर्नूल जिला, आंध्र प्रदेश	बीवीएससीएंडएच / एसवीवीयू / 09	06.07.86
965	के. प्रत्यूशा, पुत्री श्री के. सत्य नारायण	एपीएसवीसी / 04945 / 09	6 / 1447-2, शंकरपुरम कडप्पा- 516001, आंध्र प्रदेश	बीवीएससीएंडएच / एसवीवीयू / 09	26.08.87
966	के. प्रवीन, पुत्र श्री के. राजा राव	एपीएसवीसी / 04836 / 09	म.न. 11-8-52, ए-ए स्ट्रीट, कावली, नेल्लोर जिला, आंध्र प्रदेश	बीवीएससीएंडएच / एसवीवीयू / 09	10.11.79
967	के. पुष्पा, पुत्री श्री के. सत्या राव	एपीएसवीसी / 04860 / 09	सेट्टीपलेम, बी.बी. पलेम डाक, मकावरापलेम (एम), विजाग जिला- 531113, आंध्र प्रदेश	बीवीएससीएंडएच / एसवीवीयू / 09	03.07.86
968	के. राजाप्रेम शेट्टी, पुत्र श्री ए.एस. शेट्टी	कर्नाएसवीसी / 4349 / 09	कोठाडी हाउस, बन्नाडी डाक, उडुपी तालुक एवं जिला, कर्नाटक	बीवीएससी / यूएसएसबंगलौर / 82	12.7.55
969	के. रामा कृष्णा, पुत्र श्री के. कृष्णा मूर्ति	एपीएसवीसी / 04839 / 09	म.न. 1-8-893 / 1, श्री राम नगर, नल्लाकुंटा, हैदराबाद- 500044, आंध्र प्रदेश	बीवीएससीएंडएच / एसवीवीयू / 09	28.08.86
970	के. संदीप रेड्डी, पुत्र श्री के. रवीन्द्र रेड्डी	एपीएसवीसी / 04933 / 09	पेड्डासुराराम ग्राम, थिप्पार्थी (एम), नालगोंडा जिला- 508211, आंध्र प्रदेश	बीवीएससीएंडएच / एसवीवीयू / 09	11.01.86
971	के. सरिथा, पुत्री श्री के. रामान्जुला रेड्डी	एपीएसवीसी / 04845 / 09	डी.न. 26-1-315, एन.जी.ओ. कॉलोनी, बी. वी. नगर, नल्लोर, आंध्र प्रदेश	बीवीएससीएंडएच / एसवीवीयू / 09	26.09.85
972	के. सिद्धार्थ, पुत्र श्री के. नामदेव	एपीएसवीसी / 04890 / 09	पिप्पलाधारी (ग्राम एवं डाक), आदिलाबाद (एम एवं डी) - 504002, आंध्र प्रदेश	बीवीएससीएंडएच / एसवीवीयू / 09	05.03.82
973	के. सिरिषा, पुत्री श्री के. रत्नम	एपीएसवीसी / 04971 / 09	डी.न. 61-19-2 / 1, चेल्ला राव स्ट्रीट, रामलिंगेश्वर नगर, विजय वाड़ा, कृष्णा जिला, आंध्र प्रदेश	बीवीएससीएंडएच / एसवीवीयू / 09	17.08.85

474	के. श्रीकांत, पुत्र श्री के. गणेशराव	एपीएसवीसी / 04985 / 09	फ्लैट न. 204, जी.के. एन्कलेव, न्यू बालाजी नगर, कूकटपल्ली, हैदराबाद, आंध्र प्रदेश	बीवीएससीएंडएच / एसवीवीयू / 09	09.08.86
975	के. सुब्बारायुडू, पुत्र श्री के. सुब्बा रायुडू	एपीएसवीसी / 04859 / 09	माइलावरम (ग्राम एवं एम), जम्मालमाडुगु, कडप्पा जिला, आंध्र प्रदेश	बीवीएससीएंडएच / एसवीवीयू / 09	21.02.84
976	के. सुनीथा, पुत्री श्री के. बुचइयाह	एपीएसवीसी / 04987 / 09	राजन्नागुडेम ग्राम, निदामनूर (एम), नालगोंडा जिला, आंध्र प्रदेश	बीवीएससीएंडएच / एसवीवीयू / 09	10.07.85
977	के. सुरेंद्र, पुत्र श्री के. जलपथि रेड्डी	एपीएसवीसी / 04931 / 09	कोनारावपेट ग्राम, जुलापल्ली (एम), करीमनगर जिला— 506525, आंध्र प्रदेश	बीवीएससीएंडएच / एसवीवीयू / 09	06.08.85
978	के. स्वप्ना, पुत्री श्री के. नागेश्वर राव	एपीएसवीसी / 04960 / 09	अग्रहरम स्ट्रीट, बेलगाम, पार्वतीपुरम, विजियानगरम जिला, आंध्र प्रदेश	बीवीएससीएंडएच / एसवीवीयू / 09	01.06.86
979	के.वी.जे.आर. गुप्ता, पुत्र श्री के. भूषण राव	एपीएसवीसी / 04982 / 09	कोरूपरोलू, रामालयम स्ट्रीट, एस.रायावरम (एम), जिला विशाखापटणम— 531083, आंध्र प्रदेश	बीवीएससीएंडएच / एसवीवीयू / 09	15.07.87
980	के. युवाराजन, पुत्र श्री पी. कालीवर्धन	पॉण्डीएसवीसी / 323 / 09	न. 362, कुडालोर रोड, नालनामंडबम, पुडुचेरी— 605004	बीवीएससीएंडएच / पीयू / 09	30.12.86
981	कार्थिक डी.टी. (जी. दामोदरन)	टीएनएसवीसी / 4451 / 09	न. 13 (पुराना न. 7 / 3), सिवन कोली वेस्ट, मदा स्ट्रीट, विल्लीवक्कम, चेन्नई— 600049	बीवीएससीएंडएच / पीयू / 09	12.08.85
982	काचा जयंत भीखालाल	जीवीसी / 863	30, श्रीनाथ सोसायटी, उस्मानपुरा, आश्रम रोड, अहमदाबाद, गुजरात	बीवीएससीएंडएच / जीएयू / 87	29.9.63
983	कचारी जोदुमोनी, पुत्र श्री बुधिन कचारी	एसएसएम / 247 8 / 09	द्वारा बुधिन कचारी, 2 न., बेजेजिया गांव, डाक— पुराना तीताबर, जिला जोरहाट, असम	बीवीएससीएंडएच / एएयू / 09	9.4.85
984	कचोट केसुरभाई वीराभाई	जीवीसी / 2044	एटी ाखोदर (घेड), तालुक— केशोद, जिला— जूनागढ़, पिन— 362229, गुजरात	बीवीएससीएंडएच / जीएयू / 97	15.7.73
985	कदम राहुल गनपतराव	महाएसवीसी / 8229 / 09	उम्बारी (तमाशा गांव के निकट), तालुक हदगांव, जिला नाडेंड— 431602, महाराष्ट्र	बीवीएससीएंडएच / एमएंडएफएसयू / 09	06.12.83
986	कदीपर इम्तियाज फतेमौहम्मद	जीवीसी / 2218	एटी एवं डाक— पिपलिया—राज, तालुक—वानकानेर, जिला— राजकोट— 363621, गुजरात	बीवीएससीएंडएच / जीएयू / 99	7.7.78
987	कहनगारा घनश्याम रावजीभाई	जीवीसी / 894	नवरंग सोसायटी—1, 80 फीट रोड, वधवान, जिला— सुरेंद्र नगर— 363035, गुजरात	बीवीएससीएंडएच / जीएयू / 87	10.8.63
988	काहर भरत कुमार रतनजी भाई	जीवीसी / 1025	“स्नेहाशीष”, 13—गोकुलधाम, अबरामा, धरमपुर रोड, वल्साड— 396001, गुजरात	बीवीएससीएंडएच / केकेवी / 85	30.8.60

989	कैला मिलन नारन भाई	जीवीसी / 2011	8-कृष्णा नगर सोसायटी, भावनगर-राजकोट, एटी एवं डाक- बाबरा, तालुक- बाबरा, जिला अमरेली, गुजरात	बीवीएससीएंडएच / जीएयू/96	29.1.74
990	कैलाश चंद यादव, पुत्र श्री सरदार राम यादव	राजएसवीसी / 3723 / 10	ग्राम- उंछपुर, तहसील- बंसूर, अलवर- 301402, राजस्थान	बीवीएससीएंडएच / एसकेआरएयू/ 10	25.07.80
991	कैलाश चंद्र, पुत्र श्री प्रभु दयाल	यूपीएसवीसी / 4913 / 09	जुगयाना मुहाल रथ, जिला हमीरपुर, उ.प्र.	बीवीएससीएंडएच / यूपीपीडीडीयूपीसी वीवी / 09	01.01.83
992	काकाती निलिम कुमार, पुत्र श्री पवन काकाती	एसएम / 242 6 / 09	ग्राम- दाखीपत चरियाली, डाक- बालीगांव, जिला- नागांव- 782144, असम	बीवीएससीएंडएच / एएयू/08	1.3.81
993	कक्कड़ मधुकर चंदुलाल	जीवीसी / 1221	83, 'स्वप्ना' रूदानगर-1, कलावड रोड, राजकोट-5, गुजरात	बीवीएससीएंडएच / जीएयू/77	11.8.53
994	कलईवानी एस. (ए. सुंदर राजन)	टीएनएसवीसी / 4574 / 09	3/306-ए, वडामलामट्टी, पोचमपल्ली तालुक, कृष्णागिरि जिला- 635206, तमिलनाडु	बीवीएससीएंडएच / टीएनयू जीएस / 09	17.05.86
995	कलारिया अमित कुमार नरभेराम	जीवीसी / 2165	विजय नगर रोड, शारदा विद्यालय के सामने, मोरबी, राजकोट, गुजरात	बीवीएससीएंडएच / जीएयू/99	5.8.77
996	कलारिया वसंत राय लखाभाई	जीवीसी / 439	501, सैफ्रोन टावर, जलदीप पार्क, मेन रोड, लिम्बुडी वाडी के सामने, कलावड रोड, राजकोट-1, गुजरात	बीवीएससीएंडएच / जीएयू/77	15.2.2
997	कलास्कर पंकज सूर्यकांत	महाएसवीसी / 8219 / 09	कलास्कर निवास, म.न. 372, ढोंढकेडा रोड, कुरहे-हरदो, तालुक- बोडवाड, जिला- जलगांव- 425310, महाराष्ट्र	बीवीएससीएंडएच / एमएंडएफएसयू / 09	01.06.85
998	काले पराग अशोक	महाएसवीसी / 8243 / 09	9-10, महर्षि अथर्व अपार्टमेंट, गावांडे लेआउट, स्नेह नगर, खामला नागपुर-44015, महाराष्ट्र	बीवीएससीएंडएच / एमएंडएफएसयू / 09	15.09.85
999	कालोला उत्पल भाई रामजीभाई	जीवीसी / 1564	एटी एवं डाक- डूंगरका, तालुक- पदधारी, जिला- राजकोट- 360110, गुजरात	बीवीएससीएंडएच / जीएयू/92	23.6.68
1000	कल्पना सी. (जी. चिन्नासामी)	टीएनएसवीसी / 4646 / 09	नॉर्थ स्ट्रीट, सोलमादेवी डाक, वाया कोडालीकरूपुर, उदयार पलायम, तालुक, अरियालूर - 612902, तमिलनाडु	बीवीएससीएंडएच / टीएनयूवीएस / 09	07.07.86
1001	कल्पत मालवीय, पुत्र श्री ताराचंद मालवीय	राजएसवीसी / 3749 / 10	जातियो का बास, कबरो की पोल, पीपर सिटी, जोधपुर- 342601, राजस्थान	बीवीएससीएंडएच / एसकेआरएयू/ 10	08.11.83
1002	कमल किशोर, पुत्र श्री बंश गोपाल	यूपीएसवीसी / 4991 / 09	ग्राम- पटखुरी, डाक जरया, जिला हमीरपुर, उ.प्र.	बीवीएससीएंडएच / एनडीयूएंडटी / 09	05.12.83

1003	कमल किशोर, पुत्र श्री दीप चंद सोनी	राजएसवीसी / 3725 / 10	सुनारों का मौहल्ला, ग्राम एवं डाक- रियान बाड़ी, नागौर- 341513, राजस्थान	बीवीएससीएंडएच / एसकेवीआरएयू/ 10	20.09.81
1004	कमला सामंत, पुत्री श्री नरेंद्र सिंह सामंत	यूकेएसवीसी / 481 / 09	जल निगम कॉलोनी, दीदीहाट, जिला पिथौरागढ़, उत्तराखंड	बीवीएससीएंडएच / जीबीपीयूएंडटी / 09	26.04.86
1005	कमलदीप, पुत्र श्री रमेश मनोट	हरिएसवीसी / 2 138	304, राम नगर, अम्बाला सिटी, हरियाणा	बीवीएससीएंडएच / सीसीएचएयू / 04	25.2.81
1006	कमानी गोर्धन परमानंद	जीवीसी / 1203	बी-8, त्रिवेणी पार्क सोसायटी, मंजापुर टाउनशिप न.-2, के पीछे, मंजापुर, वडोदरा, गुजरात	बीवीएससीएंडएच / जीएयू / 89	18.7.65
1007	काम्बले मंगेश शामराव	महाएसवीसी / 8186 / 09	कोश्टी लेन, संगोला जिला, सोलापुर, महाराष्ट्र	बीवीएससीएंडएच / एमएंडएफएएसयू / 09	02.06.86
1008	काम्बले स्वप्निल भजनदास	महाएसवीसी / 8212 / 09	सत्कार्य सोसायटी, सी-8, अम्बड रोड, पुराना जालना, तालुक जिला जालना- 431203, महाराष्ट्र	बीवीएससीएंडएच / एमएंडएफएएसयू / 09	25.05.84
1009	कामदार हसमुख राय अमृतलाल	जीवीसी / 472	द्वारा उत्तम डेरी, सुखराम नगर, गोमतीपुर, अहमदाबाद- 380021, गुजरात	बीवीएससीएंडएच / जीएयू / 78	9.10.57
1010	कामले मौलिक कुमार बाबूलाल	जीवीसी / 3160 / 10	1/ए, आनंद नगर सोसायटी, विसनगर लिक रोड, मेहसाना, गुजरात	बीवीएससीएंडएच / एएयू / 10	27.05.85
1011	कमलेश चंद्र प्रकाश, पुत्र श्री एस.सी. प्रकाश	यूपीएसवीसी / 4962 / 09	ग्राम एवं डाक- खरान, जिला- चंदौली, उ. प्र.	बीवीएससीएंडएच / एनडीयूएंडटी / 09	30.04.80
1012	कमलेश कुमार पिंगले, पुत्र श्री नंदलाल मोहतो	जेवीसी / 608 / 09	मगनपुर गोला, रामगढ़- 825210, झारखंड	बीवीएससीएंडएच / बीएयू / 88	16.01.65
1013	कामू काठीरावन एम.पी. (एम. पॉल कामू)	टीएनएसवीसी / 4552 / 09	11, मारुघुपंडियार नगर, तीसरी स्ट्रीट, वार्ड न. 68, मदुरै- 625003, तमिलनाडु	बीवीएससीएंडएच / टीएनयूवीएस / 09	01.03.86

1014	कनकराज सी. (के. चेलइयाह)	टीएनएसवीसी / 4481 / 09	8-1-190-410, कामराज नगर, पंचायत यूनियन कार्यालय के सामने, नीलाकोटई-624208, डिंडीगल जिला, तमिलनाडु	बीवीएससी/एम.यू. / 68	25.11.44
1015	कनानी अवतार बहादुराली	जीवीसी / 2192	एटी: गडुका, डाक- पीपली, वाया: कनालुश, जिला- जामनगर- 361280, गुजरात	बीवीएससीएंडएच / जीएयू / 99	6.6.78
1016	कंडावेल ई. (ए. ईश्वर उदईयार)	टीएनएसवीसी / 4684 / 10	न. 2 / 174, पुगाजेंडी स्ट्रीट, मुगापेर ईस्ट, चेन्नई- 600037, तमिलनाडु	बीवीएससी/एमयू/ 71	10.05.45
1017	कानेरिया महेश कुमार केशवलाल	जीवीसी / 2270	एटी एवं डाक- पाटनवाव, तालुक -- धोराजी, जिला- राजकोट, गुजरात	बीवीएससीएंडएच / जीएयू / 00	17.12.62
1018	कानिया सुरेशचंद्र रतिलाल	जीवीसी / 950	2 / 1939-4 / सी, किहेसू सदन, नवसर्जन अपार्ट.-3 के सामने, कैलाश नगर के निकट, संग्राम पुर, सूरत- गुजरात-395002	बीवीएससीएंडएच / जीएयू / 87	14.8.65
1019	कांजिया जयंतिलाल कर्मशीभाई	जीवीसी / 331	'जय' पटेल कॉलोनी, तिम्बावाडी, जूनागढ़- 362015, गुजरात	बीवीएससीएंडएच / जीएयू / 74	8.8.49
1020	कन्नन पी. (पी. पलानीसामी)	टीएनएसवीसी / 4538 / 09	पगलपट्टी डाक, मुथुनईकेन पट्टी वाया, ओमलूर तालुक, सलेम- 636304, तमिलनाडु	बीवीएससीएंडएच / टीएनयूवीएस / 09	05.10.84
1021	कन्नन टी.पी. (एल. टी. पोन्नुराज)	टीएनएसवीसी / 4450 / 09	21, तीसरी स्ट्रीट, के.आर.जी. नगर, II, गनपथि, कोयम्बतूर- 641006, तमिलनाडु	बीवीएससी / टीएनयूवीएस / 92	06.01.69
1022	कंसागरा हितेशभाई दयाभाई	जीवीसी / 797	"अनमोल" 16-कैलाश सोसायटी, हिल्टन अपार्ट.के निकट, तिम्बावाडी, जूनागढ़, पिन- 362015, गुजरात	बीवीएससीएंडएच / जीएयू / 84	13.7.61
1023	कनसागरा कनैया लाल जेठाभाई	जीवीसी / 678	ए-203, गंगा अपार्टमेंट, जनजरदा रोड, सिद्धनाथ महादेव मंदिर के निकट, जूनागढ़, गुजरात	बीवीएससीएंडएच / जीएयू / 78	15.5.54
1024	कंटक प्रादन्या आनंद, पुत्र श्री आनंद कंटक	गोआएसवीसी / 150 / 09	मथुरा अपार्टमेंट, दूसरी मंजिल, सिन्क्रो होटल के निकट, फतोरदा	बीवीएससीएंडएच / पीयू / 09	
1025	कंटप्या, पुत्र श्री भीमारे असकी	कर्नाएसवीसी / 4266 / 09	न. 3665 / बी / 29, आदर्श नगर, संकेश्वर- 591313, हुक्करी तालुक, बेलगाम जिला, कर्नाटक	बीवीएससीएंडएच / केवीएफएसयू / 09	1.6.86

1026	कांधाराजा के.जे., पुत्र श्री जावरइयाह	कर्नाएसवीसी/ 4302/09	केरागोडु— 573211, होले नरसीपुरा तालुक, हसन जिला, कर्नाटक	बीवीएससीएंडएच /केवीएफएसयू/ 09	30.7.86
1027	कंवर बीर सिंह, पुत्र श्री निर्मल सिंह	पीबीएसवीसी/ 2896/09	म.न.— एल—13/1230, स्ट्रीट कोट बाबा दीप सिंह, अमृतसर, पंजाब	बीवीएससीएंडएच /जीएडीवीएएसयू /09	5.2.87
1028	कंजारिया प्रवीन कांजी	जीवीसी/1411	वेटरिनरी डिस्पेंसरी, लाठी, तालुक— लाठी, जिला अमरेली, गुजरात	बीवीएससीएंडएच /जीएयू/91	11.3.65
1029	कपाड़िया देवराज भाई लिम्बाभाई	जीवीसी/813	‘भाविन’, 75— श्रीनाथनगर, गिरिराज सोसायटी—3 के पीछे, जोशीपुरा, जूनागढ़, गुजरात	बीवीएससीएंडएच /जीएयू/84	31.5.59
1030	कपाड़िया धीरेंद्र कुमार खीमजीभाई	जीवीसी/ 2299	वेटरिनरी डिस्पेंसरी, सावरकुंडला, तालुक सावरकुंडला, जिला अमरेली, गुजरात	बीवीएससीएंडएच /जीएयू/00	5.3.78
1031	कापसे सचिन उत्तमराव	महाएसवीसी/ 8244/09	सिद्धार्थ नगर, एटी डाक— औंध (नागनाथ), तालुक— औंध (नाग), जिला हिंगोली, महाराष्ट्र	बीवीएससीएंडएच /एमएंडएफएसयू /09	20.12.84
1032	करन बंसल, पुत्र श्री राज कुमार बंसल	पीबीएसवीसी/ 2875/09	म.न. 353, मॉडल टाउन, फेज—1, भटिडा— 151001, पंजाब	बीवीएससीएंडएच /जीएडीवीएएसयू /09	24.2.86
1033	करनदीप सिंह, पुत्र श्री शमशेर सिंह	पीबीएसवीसी/ 2885/09	ग्राम एवं डाक— सकरुली, तहसील— गढ़शकर, जिला— होशियारपुर, पंजाब	बीवीएससीएंडएच /जीएडीवीएएसयू /09	13.7.85
1034	करदानी भगवानजी डाहयालाल	जीवीसी/305	8—76/77, आलाप एवेन्यू, यूनिवर्सिटी रोड, राजकोट— 5, गुजरात	बीवीएससीएंडएच /जीएयू/73	17.7.53
1035	करेथा परबतभाई देवदानभाई	जीवीसी/1089	एटी— हंडाला, तालुक— केशोड, जिला— जूनागढ़, पिन— 362220, गुजरात	बीवीएससीएंडएच /जीएयू/88	1.6.84
1036	कारीकलान एम. (बी. मधेश)	टीएनएसवीसी /4509/09	थलीयूर, बंगामुटलू डाक, कृष्णागिरि जिला— 635106, तमिलनाडु	बीवीएससीएंडएच /टीएनयूवीएएस /09	27.07.86
1037	कार्तिक आर. (एम. रामासाामी)	टीएनएसवीसी /4611/09	166—सी, सथ्या नगर, डाक टी. कैलासमपलायम, तिरुचेनगोडे, नमक्कल— 637209, तमिलनाडु	बीवीएससीएंडएच /टीएनयूवीएएस /09	17.11.85

1038	कार्थिका डी. (ए. विजयानंद)	टीएनएसवीसी / 4653 / 09	मेल स्ट्रीट, पाप्पारेड्डीपट्टी डाक, धर्मापुरी-636905, तमिलनाडु	बीवीएससीएंडएच / टीएनयूवीएस / 09	02.12.84
1039	कार्थिक बी. (जी. बालू)	टीएनएसवीसी / 4638 / 09	1015, सुंदरम इल्लम, भारती नगर, जहीर अम्मपलायम, सलेम -636005, तमिलनाडु	बीवीएससीएंडएच / टीएनयूवीएस / 09	23.10.85
1040	कार्थिका आर. (एन. रामासामी)	टीएनएसवीसी / 4555 / 09	4 / 11, भवानी मेन रोड, डाक ओरीचेरीपुडुर, सक्ति नगर वाया, इरोडे- 638315, तमिलनाडु	बीवीएससीएंडएच / टीएनयूवीएस / 09	16.03.86
1041	कार्थिकेयन टी. (ए. तमिलसेल्वन)	टीएनएसवीसी / 4636 / 09	9 / 76-ई, टेक्स, सक्ति नगर वाया, ब्रम्मादेसम डाक, भवानी तालुक, इरोडे 638315, तमिलनाडु	बीवीएससीएंडएच / टीएनयूवीएस / 09	25.07.85
1042	कार्थिकेयन ई.बी. (एस. बोलियप्पन)	टीएनएसवीसी / 4634 / 09	2 / 33, इक्कानडाहल्ली, गुम्मानूर डाक, पलकोडे तालुक, धर्मापुरी- 635116, तमिलनाडु	बीवीएससीएंडएच / टीएनयूवीएस / 09	15.11.84
1043	कार्थिकेयन एस. (आर. शानमुगम)	टीएनएसवीसी / 4568 / 09	78, कोट्टमपट्टी, अक्कलमपट्टी डाक, तिरुचेनगोडे तालुक, नमक्कल- 637212, तमिलनाडु	बीवीएससीएंडएच / टीएनयूवीएस / 09	19.03.86
1044	कार्थिकेयन वी. (पी. वेंकटेशन)	टीएनएसवीसी / 4541 / 09	थोप्पू स्ट्रीट, ब्रम्मादेसम डाक, टिंडीवनम तालुक, विल्लुपुरम जिला, तमिलनाडु	बीवीएससीएंडएच / टीएनयूवीएस / 09	28.11.84
1045	कार्थियायिनी एन. (ए. नागरथिनम)	टीएनएसवीसी / 4678 / 10	15, रामू देवर स्ट्रीट, अरुप्पुकोट्टई, विरुधुनगर जिला, तमिलनाडु	बीवीएससीएंडएच / टीएनयूवीएस / 09	25.11.79
1046	कसुंद्रा नरभिराम थोबन	जीवीसी / 711	"जय", दिव्यमपार्क-32, खोडियार कॉलोनी के सामने, एयरफोर्स रोड, जामनगर-388225, गुजरात	बीवीएससीएंडएच / जीएयू / 83	5.2.60
1047	कसुंद्रा नरेशकुमार जीवाभाई	जीवीसी / 925	अमीन रोड, पिरामिड टावर वाली शेरी, गुलाब वाटिका शेरी न.-3, राजकोट, गुजरात	बीवीएससीएंडएच / जीएयू / 86	16.2.63
1048	कसुंद्रा शांतिलाल नारनभाई	जीवीसी / 1393	एटी: रामगढ़ (कोयली), वाया लाटीपुर, तालुक- जोडिया, जिला- जामनगर, गुजरात	बीवीएससीएंडएच / जीएयू / 91	
1049	कसुंद्रा वेल्जीभाई मंजीभाई	जीवीसी / 473	102, आलिशान अपार्ट., नेहरू पार्क सोसायटी, द्वारकाधीश मंदिर के पीछे, जूनागढ़- 362001, गुजरात	बीवीएससीएंडएच / जीएयू / 78	2.5.55

1050	कटारा करशनभाई रुदाभाई	जीवीसी/2083	एटी एवं डाक- रानाकोंडराना, तालुक- रानावाव, जिला- पौरबंदर- 360570, गुजरात	बीवीएससीएंडएच /जीएयू/97	1.8.72
1051	कथारपी रूपाली, पुत्र श्री धनु राम कथार	एसएम/245 3/09	द्वारा धनु राम कथार, बाघमारी न.- 1, दीफू, असम	बीवीएससीएंडएच /एएयू/09	8.9.85
1052	कठिरावन पी. (पेरुमल)	टीएनएसवीसी /4490/09	93, पेरुमल इल्लम, बीवर्स कॉलोनी, सिवागिरि, इरोडे- 638109	बीवीएससीएंडएच /टीएनयूवीएस /09	08.06.84
1053	कठीरिया सत्यम वाल्जीभाई	जीवीसी/3119 /10	एटी- गिर गधादा, तालुक- उना जिला, जूनागढ़, गुजरात	बीवीएससीएंडएच /एएयू/10	26.11.87
1054	काठिरवेलू एम. (एस. मनि)	टीएनएसवीसी /4589/09	1-144, कोविलूर, एमएन पट्टी डाक, थोलासमपट्टी वाया, सलेम- 636503, तमिलनाडु	बीवीएससीएंडएच /टीएनयूवीएस /09	15.05.86
1055	कथीरया अमित जादवभाई	जीवीसी/2301	एटी- अलीधरा, तालुक- मेंदारदा, जिला- जूनागढ़, गुजरात	बीवीएससीएंडएच /जीएयू/00	27.7.78
1056	कटकडे जनार्दन कुंडलीक राव	महाएसवीसी/ 8236/09	साई-कृपा निवास, संत जानबाई नगर, गंगाखेड, तालुक गंगाखेड, जिला- परभनी- 431514	बीवीएससीएंडएच /एमएंडएफएसयू /09	09.06.85
1057	कवार रमेशचंद्र जीवराव	जीवीसी/1181	सुभाष नगर, शेरी न.-5, रवापार रोड, मोरबी, जिला- राजकोट, गुजरात	बीवीएससीएंडएच /जीएयू/89	20.6.66
1058	कवार रमेश कुमार मगनलाल	जीवीसी/2261	एटी- नाना भेला, प्राइमरी स्कूल के निकट, डाक- मोटा भेला, तालुक मालिया (मियाना), जिला राजकोट- 363630, गुजरात	बीवीएससीएंडएच /जीएयू/00	22.8.74
1059	कविथा ए. (आर. श्रवनन)	टीएनएसवीसी /4470/09	अलनगडु, करुपूर, सलेम-12	बीवीएससी/टीएन यूवीएस/00	04.09.75
1060	काव्यदीप जोशी, पुत्र श्री केदार दत्त जोशी	यूकेएसवीसी/ 457/09	लीलावती सदन, अंचोली, जिला- पिथौरागढ़, उत्तराखंड	बीवीएससीएंडएच /जीबीपीयूएंडटी /09	22.08.84
1061	काव्यश्री एस., पुत्री श्री शिवन्ना के.वी.	कर्नाएसवीसी/ 4341/09	देवानूर चर्च, सप्तागिरि एक्स., तुमकुर- 572102, कर्नाटक	बीवीएससीएंडएच /केवीएफएसयू/ 09	18.3.86

1062	केवीजेखो कर, पुत्र श्री विल्हौपरा कर	एनएसवीसी/0 247/09	फेसामा गांव, कोहिमा, नागालैंड	बीवीएससीएंडएच /एएयू/09	29.11.83
1063	खाजा निजमुद्दीन एस. शेतासनादी, पुत्र श्री सैयद अहमद	कर्नाएसवीसी/ 4249/09	न. 1294, पहला मेन, विनायक नगर, रानेबेन्नूर- 581115, हावेरी जिला, कर्नाटक	बीवीएससीएंडएच /केवीएएफएसयू/ 09	26.7.86
1064	खालिनी ए.एस.	महाएसवीसी/ 8263/09	बी/60, डब्ल्यू.सी.एल. कॉलोनी, कोट एस्टेट, सिविल लाइंस, जिला नागपुर, महाराष्ट्र	बीवीएससीएंडएच /एमएएंडएफएसयू /09	15.08.86
1065	खम्माला शंकरभाई अम्बुभाई	जीवीसी/543	"गुरु कुंज", अकेसन रोड, पालनपुर जिला- बनासकंठा, गुजरात	बीवीएससीएंडएच /जीएयू/80	1.12.54
1066	खान फिरोज ज़फर खान	महाएसवीसी/ 8169/09	एटी एवं डाक- डी.न. 264, तालुक व जिला- जालना- 431203, महाराष्ट्र	बीवीएससीएंडएच /एमएएंडएफएसयू /01	18.04.78
1067	खानापारा किशोर कुमार उकलाल	जीवीसी/1112	"विहाज", शास्त्रीनगर सोसायटी, जमनावाड रोड, एटी व तालुक: धोराजी, जिला राजकोट, गुजरात	बीवीएससीएंडएच /जीएयू/88	23.5.66
1068	खांडेका रायमल सिदिभाई	जीवीसी/1068	'खोडियार कृपा' यादव रोड, जिरापा प्लॉट, डॉ.धीरूभाई दाबेरिया केबंगले के सामने, एटी, डाक व तालुक: उपलेता, जिला राजकोट- 360490	बीवीएससीएंडएच /जीएयू/88	12.3.64
1069	खानिया भार्गव जगदीशभाई	जीवीसी/3120 /10	गंगनाथ पारा, टी.बी. अस्पताल रोड, घनश्याम मिल के निकट, "भार्गव" केशोड, जिला- जूनागढ़, गुजरात	बीवीएससीएंडएच /एएयू/10	14.09.88
1070	खांत धर्मेंद्र कुमार अशोक कुमार	जीवीसी/3121 /10	बस स्टेशन फालिया, गोथिब, तालुक- संतरामपुर, जिला- पंचमहल, गुजरात	बीवीएससीएंडएच /एएयू/10	09.10.86
1071	खांत प्रकाशभाई जीवाभाई	जीवीसी/3122 /10	डी-डी, जलरामनगर सोसा., जलराम पार्क के पास, एसआरपीएफ ग्रुप के सामने, कपाडवंज रोड, नाडियाड, जिला खेडा, गुजरात	बीवीएससीएंडएच /एएयू/10	01.06.85
1072	खनुशिया आबिदभाई वालीभाई	जीवीसी/474	उपनिदेशक, पशुपालन कार्यालय, पशुधन संघन विकास परियोजना, सेवासदन-1, वलसाड	बीवीएससीएंडएच /जीएयू/78	1.6.55
1073	खनुशिया यासिनभाई इस्माइलभाई	जीवीसी/966	एटी- मंगढ़, तालुक- इदार, जिला- साबरकंठा- 383110, गुजरात	बीवीएससीएंडएच /जीएयू/86	31.5.62

1074	खानविल्कर दिनेश कुमार नारायणराव	जीवीसी/402	7-मानसरोवर, वृंदावन नगर-1, बामरोली रोड, गोधरा- 389001, गुजरात	बीवीएससीएंडएच /जेएनकेवीवी/75	27.8.51
1075	खानज़ोडे दीपक विनायक राव	जीवीसी/1336	वसुधारा डेरी, एटी: अलीपुर, तालुक चिखाली, जिला- नवसारी, 396521, गुजरात	बीवीएससीएंडएच /पीकेवी/87	7.1.63
1076	खरसन वीराभाई दानाभाई	जीवीसी/3013 /09	एटी एवं डाक मोती माहुदी, तालुक दांतीवाड़ा, जिला- बनासकंठा, गुजरात	बीवीएससीएंडएच /एसडीएच/09	05.09.81
1077	खसाटिया चुडुभाई तारशीभाई	जीवीसी/1759	एटी- मेवासा (गायकवाड़ी), वाया - रतनपुर, तालुक- वल्लभीपुर, जिला- भावनगर- 13, गुजरात	बीवीएससीएंडएच /जीएच/94	9.8.70
1078	खत्री अनवर उस्मान	जीवीसी/1185	खत्री चौक, मोटा फालिया, भुज, जिला- कच्छ, गुजरात	बीवीएससीएंडएच /जीएच/89	15.9.66
1079	खेर आशीष नागजीभाई	जीवीसी/2193	"नागबाई कृपा", बस स्टैंड के पीछे, प्लॉट एरिया, माधवपुर (धेड), तालुक एवं जिला- पोरबंदर- 362230, गुजरात	बीवीएससीएंडएच /जीएच/99	26.7.77
1080	खेर हितेश भाई शामीभाई	जीवीसी/3123 /10	टी-भंडारिया, तालुक- गधाला (स्वामी), जिला- भावनगर, गुजरात	बीवीएससीएंडएच /एएच/10	06.09.87
1081	खेरीएनगुओ मेफ्फुहो, पुत्र स्व. श्री के.एस. मेफ्फुहो	एनएसवीसी/0 245/09	अपर नागाबाजार, कोहिमा, नागालैंड	बीवीएससीएंडएच /एएच/09	22.06.85
1082	खिल्लारे गौतम सुदामराव	महाएसवीसी/ 8269/09	गंगा कॉलोनी, पूर्णा रोड, जिला- नांडेड- 431605, महाराष्ट्र	बीवीएससीएंडएच /एमएंडएफएसयू /09	11.03.85
1083	खोडवे संकेत सुरेंद्र	महाएसवीसी/ 8305/09	वार्ड न. 13, एटी एवं डाक- माधवपुर, तालुक- नेर, जिला- यवतमाल, महाराष्ट्र	बीवीएससीएंडएच /एमएंडएफएसयू /09	17.09.84
1084	खोराजिया अब्बासभाई नाथूभाई	जीवीसी/1443	एटी एवं डाक- पुंजपुर, तालुक- दांता, जिला- बनासकंठा, पिन- 385120, गुजरात	बीवीएससीएंडएच /जीएच/91	1.6.67
1085	खुलापे सागर अशोक	महाएसवीसी/ 8272/09	मकान न. 14, वार्ड न. 1, कसाबा, ए/पी- बारामती, जिला- पुणे- 413102, महाराष्ट्र	बीवीएससीएंडएच /एमएंडएफएसयू /09	08.04.87

1086	खुंट जयेश कुमार गोकल	जीवीसी/2257	एटी-डाक-मोविया, गोविंद नगर "श्री सूक्तम", तालुक: गोंडल, जिला - राजकोट-360330, गुजरात	बीवीएससीएंडएएच / जीएयू/00	3.5.75
1087	खुशबू सिंह, पुत्री श्री एन.के. सिंह	यूपीएसवीसी/4976/09	41, पूरबिया टोला, साउथ पंजवाह, जिला-इटावा, उ.प्र.	बीवीएससीएंडएएच / एसकेडीएयू/09	20.08.86
1088	खुशबू चंद्राकर, पुत्री श्री सनत कुमार चंद्राकर	सीएसएसवीसी /505/10	त्रिमूर्ति कॉलोनी, म.न. 79, महासमुंद, छत्तीसगढ़	बीवीएससीएंडएएच / आईजीकेवीवी/09	15.07.86
1089	किनी अमित चंद्रकांत	महाएसवीसी/8295/09	पारिशराम बिल्डिंग, 701, भंडार लेन, माहिम (पश्चिम), तालुक व जिला मुम्बई-400016, महाराष्ट्र	बीवीएससीएंडएएच / एमएंडएफएसयू /09	11.09.85
1090	किरन दास के., पुत्र श्री प्रेमदासन के.एम.	केएसवीसी/3515/09	किजूमनडोडी, पलाथ (डाक), काक्कोडी (वाया), कोजीकोड-673611, केरल	बीवीएससीएंडएएच / केएयू/09	03.03.86
1091	कितकुरलांग सावियान, पुत्र स्व. श्री एफ. स्वर	मेघएसवीसी/269/09	सोहरा, पूर्वी खासी हिल्स जिला, मेघालय	बीवीएससीएंडएएच / एएयू/09	13.08.85
1092	कोडीमलार के. (के. कुलदिवेलु)	टीएनएसवीसी /4603/09	ओरीचेरी, ओरीचेरीपुदुर डाक, सक्तिनगर वाया, भवानी तालुक, इरोडे जिला-तमिलनाडु	बीवीएससीएंडएएच / टीएनयूवीएस /09	25.05.86
1093	कोकिला एस. (पी. शादशराजन)	टीएनएसवीसी /4556/09	5/34, तिरुवेंकट नगर, तिरुवेरुम्बूर, त्रिची-13, तमिलनाडु	बीवीएससीएंडएएच / टीएनयूवीएस /09	31.05.87
1094	कोकिलावानी एस. (एम. शानमुगम)	टीएनएसवीसी /4606/09	4.2, अपार स्ट्रीट, श्री राम नगर, कोट्टईयूर, कराईकुडी, जिला सिवागंगई-630106, तमिलनाडु	बीवीएससीएंडएएच / टीएनयूवीएस /09	18.11.85
1095	कोलेकर ध्यानेश्वर विठ्ठल	महाएसवीसी/8352/10	कोलेकर विठ्ठल केरप्पा, एटी- मानेवाडी, डाक- हुन्नूर, तालुक मंगलवेधा, जिला सोलापुर-413322, महाराष्ट्र	बीवीएससीएंडएएच / एमएंडएफएसयू /09	18.05.87
1096	कोमल प्रसाद राय, पुत्री श्री पुरषोत्तम राय	सीएसएसवीसी /546/10	मुकाम कुम्हारी डाक मरवाही, जिला बिलासपुर, छत्तीसगढ़	बीवीएससीएंडएएच / आईजीकेवीवी/09	21.08.87
1097	कोंवर प्रियंका, पुत्र श्री सुरेन कोंवर	एसएम/2434/09	डाक- चेरकापार, विजोय नगर, सिवसागर-785640, असम	बीवीएससीएंडएएच / एएयू/09	9.12.85

1098	कोरिंगा हितेश रघुनाथ भाई	जीवीसी/20	वेटरिनरी डिस्पेंसरी, फाला, तालुक जामनगर, जिला— जामनगर, गुजरात	बीवीएससीएंडएएच /जीएयू/96	
1099	कोरिंगा उदय कुमार गंगारामभाई	जीवीसी/2046	‘सोहम’, आनंद कॉलोनी न.-1, मेन रोड, डेंटल कॉलेज के पीछे, जामनगर— 361008, गुजरात	बीवीएससीएंडएएच /जीएयू/97	27.9.75
1100	कोसादा इंद्रजीत सिंह अमर सिंह	जीवीसी/852 /09	28, ग्रीन पार्क सोसायटी, पॉलीटेक्नीक कॉलेज के पीछे, भोलाव, भड़ौच, गुजरात	बीवीएससीएंडएएच /जीएयू/86	17.12.62
1101	कोटादिया अश्विन जयंति लाल	जीवीसी/3014 /09	एटी एवं डाक— मदाना (गढ़), तालुक पालनपुर, जिला— बी.के., गुजरात	बीवीएससीएंडएएच /एसडीएयू/09	03.03.87
1102	कोटादिया रमेश कुमार मोतीलाल	जीवीसी/2115	94, पंचवटी सोसायटी, रेलवे क्रॉसिंग के निकट, अहमदाबाद हाईवे, पालनपुर, जिला— बी.के., गुजरात	बीवीएससीएंडएएच /जीएयू/98	2.6.76
1103	कोथाडिया किशोर कुमार बल्लभभाई	जीवीसी/896	बी-202, माई नेस्ट अपार्टमेंट, आईसीआईसीआई बैंक के पीछे, रायाजीनगर के सामने, मेरीगोल्ड सेंटर के निकट, मोतीबाग, जूनागढ़	बीवीएससीएंडएएच /जीएयू/87	22.6.63
1104	कोतवाल रमेशभाई शानाभाई	जीवीसी/595	36, गवर्नमेंट क्वार्टर्स., गोधरा, जिला— पंचमहल, गुजरात	बीवीएससीएंडएएच /जीएयू/81	8.9.59
1105	कोवाची हेमंत कुमार देवराव	महाएसवीसी/ 8211/09	द्वारा घुबादे होम, नेहरू वार्ड-02, ए/पी गड़चिरोली, तालुक/जिला गड़चिरोली— 442605, महाराष्ट्र	बीवीएससीएंडएएच /एमएंडएफएसयू /09	22.03.78
1106	कोयानी अल्पेश कुमार बाबू भाई	जीवीसी/2194	द्वारा बी.बी. कोयानी, डॉ. सुरेजा के घर के सामने, जिन प्लॉट, धोराजी, तालुक धोराजी, जिला राजकोट, गुजरात	बीवीएससीएंडएएच /जीएयू/99	30.9.77
1107	कूपाली पंत, पुत्री श्री विजय कुमार पंत	यूकेएसवीसी/ 479/09	आरोग्य भवन, मुखानी, हल्द्वानी, जिला नैनीताल, उत्तराखंड	बीवीएससीएंडएएच /जीबीपीयूएंडटी /09	29.11.85
1108	कृष्ण कुमार, पुत्र श्री अशरफ़ी पी.डी. सिंह	पीबीएसवीसी/ 2884/09	द्वारा डॉ. अजीत कुमार, म.न. 10/49, पीएयू कैम्पस, लुधियाना, पंजाब	बीवीएससीएंडएएच /जीएडीवीएएसयू /09	1.3.79
1109	कृष्णामूर्ति एस. (जी. सामीनाथन)	टीएनएसवीसी /4670/10	37, अरुणा नगर, वी.ओ.सी. रोड, मन्नारगुडी— 614001, तमिलनाडु	बीवीएससी/टीएनए यू/76	31.07.44

1110	कृथिका पी.आर., पुत्री श्री रुद्रमनि पी.एल.	कर्नाएसवीसी/ 4242/09	द्वारा:विजय कुमार पी.एस. लेक्चरर, त्यागराजा स्ट्रीट, डोड्डापेट्टा- 577501, चित्रदुर्गा तालुक व जिला, कर्नाटक	बीवीएससीएंडएच / केवीएफएसयू/ 09	25.7.86
1111	क्षीर सागर दीपक प्रकाश	महाएसवीसी/ 8245/09	एटी एवं डाक- देवलाली, तालुक उस्मानाबाद, जिला-उस्मानाबाद - 413501, महाराष्ट्र	बीवीएससीएंडएच / एमएएंडएफएसयू / 09	14.07.85
1112	कुबावत प्रभूदास नंदराम	जीवीसी/794	एटी एवं डाक- जिनावरी, वाया वेराद, तालुक- जमजोधपुर, जिला- जामनगर, गुजरात	बीवीएससीएंडएच / जीएयू/84	1.6.61
1113	कुलदीप राय, पुत्र श्री विजय सिंह	राजएसवीसी/ 3732/10	ग्राम एवं डाक- भखरावाली, तहसील- संगारिया, हनुमानगढ़ - 335063, राजस्थान	बीवीएससीएंडएच / एमएएफएसयू/0 9	06.07.84
1114	कुलजोतवीर सिंह, पुत्र श्री हरमीत सिंह	पीवीएसवीसी/ 2876/09	ग्राम- दिवाला, तहसील समराला, जिला लुधियाना, पंजाब	बीवीएससीएंडएच / जीएडीवीएसयू / 09	17.1.86
1115	कुलकर्णी माधव मनोहर	महाएसवीसी/ 8328/10	5ए,सोबत बिल्डिंग,उषा दर्शन (सी एचएस),आगरा रोड,कल्याण तालुक - कल्याण, जिला थाणे, महाराष्ट्र	बीवीएससीएंडएच / पीकेवी/71	10.11.48
1116	कुलकर्णी प्राजक्ता दत्तात्रेय	महाएसवीसी/ 8311/10	गुरुकृपा, गणेश नगर, सेलू, तालुक सेलू, जिला परभनी- 431503, महाराष्ट्र	बीवीएससीएंडएच / एमएएंड एफएसयू/09	30.10.87
1117	कु. ममता जानमेद्रा	जीवीसी/2486 /09	कॉलेज/ओ, डॉ.पी.धोल, विक्रम सिंहजी रोड, पीडब्ल्यूडी जेल चौक के निकट,गोंडल, राजकोट, गुजरात	बीवीएससीएंडएच / एएयू/03	04.03.81
1118	कुमार एस.एस. (एन. सुब्रमन्यन)	टीएनएसवीसी /4461/09	डी.न. 28, संकरपलायम, सुरियम पलायम रोड, तिरुचेनगोडे तालुक, नमक्कल- 637209, तमिलनाडु	बीवीएससी/टीएएन यूवीएस/93	31.07.70
1119	कुमरा ए.एम., पुत्र श्री मुनिस्वामइयाह	कर्नाएसवीसी/ 4304/09	अंक्लाकोप्पा- 572213, सी.एस. पुरा, होबली, गुब्बी तालुक, तुमकुर जिला, कर्नाटक	बीवीएससीएंडएच / केवीएफएसयू/ 09	16.4.86
1120	कुमारस्वामी एस. आर., पुत्र श्री शिवरुद्रप्पा वी.एस.	कर्नाएसवीसी/ 4238/09	उप्पाराकेरी, वडनाल- 577213, चन्नागिरि तालुक, दावणगेरे जिला, कर्नाटक	बीवीएससीएंडएच / केवीएफएसयू/ 09	16.2.87
1121	कुनाडिया शैलेश कुमार भीखाभाई	जीवीसी/1643	वेटरिनरी डिस्पेंसरी, कुंकावाव, तालुक कुंकावाव, जिला- अमरेली, गुजरात	बीवीएससीएंडएच / जीएयू/93	1.2.71

1122	कुंदन सिंह, पुत्र श्री बी.पी. वर्मा	यूपीएसवीसी / 4904 / 09	ग्राम— नौबस्ता, डाक मसौली, नैनामाऊ, बाराबंकी, उ.प्र.	बीवीएससीएंडएच / यूपीपीडीडीयूपीसी वीवी / 09	10.07.80
1123	कुंडरिया प्राणजीवन भीमजी भाई	जीवीसी / 1164	एटी एवं डाक— गाला, तालुक— मोरबी, जिला— राजकोट— 363630, गुजरात	बीवीएससीएंडएच / जीएयू / 89	17.1.65
1124	कुंडरिया हर्षद कुमार चतुर्भाई	जीवीसी / 2283	श्रीमद सोसायटी, "पंचवटी", बडियाड रोड, मोरबी— 363642, जिला राजकोट, गुजरात	बीवीएससीएंडएच / जीएयू / 00	15.4.78
1125	कुरुंदवाडे जीतेंद्र जयकुमार	महाएसवीसी / 8214 / 09	दान—सुंदरा निवास, विद्या नगर कॉलोनी, संगोला, जिला— सोलापुर— 413307, महाराष्ट्र	बीवीएससीएंडएच / एमएंडएफएसयू / 09	25.05.85
1126	कृश श्रीवास्तव, पुत्र श्री ए.के. श्रीवास्तव	एमपीएसवीसी / 2619 / 09	1567, नेपियर टाउन, जबलपुर, म.प्र.— 482001	बीवीएससीएंडएच / जेएनकेवीवी / 09	26.1.86
1127	एल. अनुषा, पुत्री श्री विजय कुमार	एपीएसवीसी / 04831 / 09	प.न. 201, आशा प्लाज़ा अपार्टमेंट, न्यू मारुति नगर, एम.आर. पल्ली, तिरुपति, आंध्र प्रदेश	बीवीएससीएंडएच / एसवीवीयू / 09	23.07.86
1128	एल. नागमनि, पुत्री श्री स्यापला नाइक	एपीएसवीसी / 04910 / 09	डालडा डाक, गुजराला (एम), गुंटूर जिला, आंध्र प्रदेश	बीवीएससीएंडएच / एसवीवीयू / 09	15.06.84
1129	लाडनी हरेश जेठलाल	जीवीसी / 993	बी-501, तीरथ अपार्टमेंट, जंजर्दा रोड, जूनागढ़—362001, गुजरात	बीवीएससीएंडएच / जीएयू / 85	1.10.61
1130	लाडनी नटवरलाल गोविंदजी	जीवीसी / 307	'आशुतोष', शक्तिनगर, मेन रोड, गायत्री मंदिर के निकट, कलावाड रोड, राजकोट— 360005, गुजरात	बीवीएससीएंडएच / जीएयू / 73	17.6.51
1131	लाहादे वृशोली चंद्रसेन	महाएसवीसी / 8239 / 09	पारिजात सोसायटी, प्लॉट न. 17, प्रकाश नगर, तालुक व जिला लातूर— 413531, महाराष्ट्र	बीवीएससीएंडएच / एमएंडएफएसयू / 09	15.03.86
1132	लहरी सूरज सुभाष चंद्र	जीवीसी / 3124 / 10	एटी: देवगढ़ बरिया, जिला— दाहोद, गुजरात	बीवीएससीएंडएच / एएयू / 10	14.10.87
1133	लाहोन स्मिता, पुत्र श्री लोहित च. लोहान	एएसएम / 244 8 / 09	सुकाफा नगर, वार्ड न. 1, धीमाजी, जिला— धीमाजी— 787057, असम	बीवीएससीएंडएच / एएयू / 09	28.12.84

1134	लखन पाल सिंह, पुत्र श्री रूप सिंह झररिया	राजएसवीसी/ 3608/09	ग्राम एवं डाक—बगार, वार्ड न. 14, खेरी मौहल्ला, झुंझुनू— 333023, राजस्थान	बीवीएससीएंडएच /आरएयू/09	15.07.82
1135	लखानी मगनलाल फूलाभाई	जीवीसी/ 1673	एटी एवं डाक— गलथा, तालुक— भेसन, जिला— जूनागढ़, पिन— 362020, गुजरात	बीवीएससीएंडएच /जीएयू/93	1.2.67
1136	लक्ष्मण मरमू, पुत्र स्व. श्री करन मरमू	जेवीसी/623 /09	द्वारा श्री मेघलाल मरमू, ग्राम— बंसिला, डाक— कलिकापुर पोटका, पूर्वी सिंघभूम, झारखंड	बीवीएससीएंडएच /बीएयू/94	10.01.63
1137	लक्ष्मनन एन (ए. नागराजन)	टीएनएसवीसी /4605/09	102/86, पाँचवा वार्ड, डाक पुराना ओयाकुडी, पलानी तालुक, डिंडीगल जिला— 624613, तमिलनाडु	बीवीएससीएंडएच /टीएनयूवीएस /09	13.04.86
1138	लक्ष्मनन टी. (एच. तिरुवरुल)	टीएनएसवीसी /4415/09	5/47, वल्लावर नगर, पेरियार स्ट्रीट, वडलूर— 607303, कुडालोर जिला, तमिलनाडु	बीवीएससी/टीएनए यू/80	27.05.54
1139	लक्ष्मी भाई के., पुत्रो श्री रामचंद्रन पिल्लै	केएसवीसी/35 38/09	पार्वती मंदिरम, थूरुथिकारा डाक, कुन्नाथूर ईस्ट वाया, कोल्लम— 690540, केरल	बीवीएससीएंडएच /केएयू/09	30.05.86
1140	लक्ष्मी ललिता सोंती, पुत्री श्री एस.एन. सोसीनिवास	ओएसवीसी/2 322/09	नीलचक्र अपार्टमेंट, एन/ए 406, एल.बी. रोड, बुधेश्वानी कॉलोनी, भुबनेश्वर— 751006	बीवीएससीएंडएच /ओयूएटी/09	08.03.87
1141	लक्ष्मी आर. (एस. राजेंद्रन)	टीएनएसवीसी /4463/09	पल्लईयार कोली स्ट्रीट, सेन्नाकुनम डाक, मुगडयूर वाया, थिरुकोडलूर तालुक, विल्लुपुरम— 605755, तमिलनाडु	बीवीएससीएंडएच /पीयू/09	31.08.85
1142	लक्ष्मी एस. (आर. सुब्रमनी)	टीएनएसवीसी /4449/09	न. 11, चिन्ना कजई वीधी, थिरुपपुलियूर, कुडालोर— 607002, तमिलनाडु	बीवीएससीएंडएच /पीयू/04	16.04.80
1143	लक्ष्मीपति एस.जे., पुत्र श्री जयप्पा एस.	कर्नाएसवीसी/ 4235/09	न. 198, सप्पारवीडी, देवराहल्ली— 577213, चन्नगिरि तालुक, दावणगेरे जिला, कर्नाटक	बीवीएससीएंडएच /केवीएफएसयू/ 09	1.9.84
1144	लकुम प्रशांत दीनाकराई	जीवीसी/2247	44, नरसिंहराव सोसायटी, स्वाति फ्लैट्स के निकट, राजवड्डा होटल के सामने, मालव तलाव के पीछे, जीवराज पार्क, अहमदाबाद	बीवीएससीएंडएच /जीएयू/00	1.8.78
1145	लालकिया राजेशकुमार जमनादास	जीवीसी/1240	“राजधानी”, 798— एकता कॉलोनी, सेक्टर— 27, गांधीनगर —28, गुजरात	बीवीएससीएंडएच /जीएयू/90	18.7.68

1146	लालानी शांति रामजी	जीवीसी / 1433	एटी- कोडे, तालुक- मंदरी, जिला- कच्छ, गुजरात	बीवीएससीएंडएच / जीएयू / 91	13.8.85
1147	लालचंद प्रजापति, पुत्र श्री आर.एस. प्रजापति	यूपीएसवीसी / 5030 / 09	ग्राम- चुरैला, डाक- जलालपुर, जिला- अम्बेडकर नगर, उ.प्र.	बीवीएससीएंडएच / एसवीवीयू / 09	06.06.83
1148	ललित कुमार गौड़, पुत्र श्री शिवलाहरि गौड़	राजएसवीसी / 3611 / 09	ग्राम- गढ़ हिम्मत सिंह, तहसील- महावा, दौसा- 321609, राजस्थान	बीवीएससीएंडएच / आरएयू / 09	01.07.83
1149	ललित कुमार, पुत्र श्री आर.डी. प्रसाद	यूपीएसवीसी / 5007 / 09	ग्राम- बहोरवा, डाक- मादीपुर, वाया भाटपरेनी, देवरिया, उ.प्र.	बीवीएससीएंडएच / आरएयू / 09	25.09.84
1150	ललित कुमार, पुत्र श्री राम दरश प्रसाद	राजएसवीसी / 3812 / 09	ए-25, कर्णा नगर, पावनपुरी कॉलोनी के निकट, बीकानेर- 334003, राजस्थान	बीवीएससीएंडएच / आरएयू / 09	25.09.84
1151	ललित कुमार, पुत्र श्री टीका राम साहू	सीएसएसवीसी / 493 / 10	ग्राम- झीत, तहसील- पाटन, जिला- दुर्ग, छत्तीसगढ़	बीवीएससीएंडएच / आईजीकेवीवी / 0 9	17.04.86
1152	ललित मोहन शर्मा, पुत्र श्री कृष्ण शर्मा	हरिएसवीसी / 2 093	आईटीआई के निकट, वार्ड न. 4, रानिया जिला, सिरसा, हरियाणा	बीवीएससीएंडएच / सीसीएचएयू / 09	19.11.83
1153	लालधनसांगी मृगखवाल, पुत्री श्री न्सीचुंगा मृगखवाल	त्रिपुराएसवीसी / 181 / 08	द्वारा न्सीचुंगा-हंगकबावल, डाक एवं ग्राम- मिशन कम्पाउंड, ए.डी. नगर, अगरतला, त्रिपुरा (वेस्ट)	बीवीएससीएंडएच / एएयू / 08	12.12.83
1154	लशकरी भूपेंद्र कुमार श्याम कुमार	जीवीसी / 2166	16, शिवांगी रो हाउस, पूना पटिया, मगोब, सूरत, गुजरात	बीवीएससीएंडएच / जीएयू / 99	18.6.76
1155	लता गोयल, पुत्री श्री एन.सी. गोयल	यूकेएसवीसी / 475 / 09	गली न. 03, आदर्श नगर, तल्ली बामोरी, मुखानी, हलद्वानी, जिला- नैनीताल	बीवीएससीएंडएच / जीबीपीयूएंडटी / 09	29.11.83
1156	लवलेश सिंह, पुत्र श्री राम यश सिंह	यूपीएसवीसी / 5013 / 09	ग्राम- मोहारिया, डाक भारत नगर, शंकर गढ़, इलाहाबाद, उ.प्र.	बीवीएससीएंडएच / जेएनकेवीवी / 09	01.05.84
1157	लॉरेंस क्रिस्टोफर सी. (ई. चंद्रा क्रिस्टोफर)	टीएनएसवीसी / 4480 / 09	8 / 88-ई, एडवर्ड कॉटेज, पडुवर, पल्लापल्लम डाक, कन्याकुमारी - 629159, तमिलनाडु	बीवीएससी / टीएन यूवीएस / 96	06.03.73

1158	लक्ष्मीनारायण प्रजापत, पुत्र श्री मोहनलाल प्रजापत	राजएसवीसी/ 3628/09	चम्पा लाल के कुएं के पीछे, भिनसर, बीकानेर— 334403, राजस्थान	बीवीएससीएंडएच /आरएयू/09	03.11.83
1159	लेखराज जाट, पुत्र श्री रामकरन जाट	राजएसवीसी/ 3615/09	ग्राम— महेशपुरा, डाक— गिधानी, वाया डुडु, जयपुर— 303008, राजस्थान	बीवीएससीएंडएच /आरएयू/09	15.08.84
1160	लक्ष्मी एस. राजन, पुत्री श्री के.आर. ससिराजन	केएसवीसी/35 54/09	कट्टूरथरायिल, अलीप्पाकुलम डाक, अलपुजाह— 690503, केरल	बीवीएससीएंडएच /केएयू/09	15.05.86
1161	लिकेश कानूनगो, पुत्र श्री अशीष कानूनगो	ओएसवीसी/2 283/09	एटी— हरिदासपुर, डाक— कुंडईटाट, वाया— काकतपुर, जिला— पुरी, उड़ीसा	बीवीएससीएंडएच /ओयूएटी/09	05.03.87
1162	लिम्बासिया प्रवीन वाल्जीभाई	जीवीसी/676	302, सुदञ्चन अपार्टमेंट गायत्री स्कूल के सामने, जंजर्दा रोड, जूनागढ— 362001, गुजरात	बीवीएससीएंडएच /जीएयू/ 1977	29.12.53
1163	लिनी थॉमस	जीवीसी/ 2264	डी—24, वृंदावन पार्क, पुलिस कॉलोनी के निकट, संगम, हरनी कॉलोनी, डाक वडोदरा, गुजरात	बीवीएससीएंडएच /जीएयू/ 00	12.11.77
1164	लिप्सा मिश्रा, पुत्री श्री राम चंद्र मिश्रा	ओएसवीसी/2 264/09	प्लॉट न. 41, खेलघर के निकट, सत्या नगर, बीबीएसआर, उड़ीसा	बीवीएससीएंडएच /एसवीवीयू/09	04.01.86
1165	लिया अंतो, पुत्री श्री ई.वी. अंतो	केएसवीसी/35 26/09	एरिजेरी हाउस, सरकारी एच.एस. के सामने, मेन रोड, क्रिटोफर नगर, ओलूर, थिसूर— 680306, केरल	बीवीएससीएंडएच /केएयू/09	18.05.85
1166	लियाकत अली, सैयद मुस्ताक अली	सीएसएसवीसी /466/09	एच.आई.जी. 1479, वेटरिनरी कॉलेज, अंजारा, जिला— दुर्ग, छत्तीसगढ़	बीवीएससीएंडएच /जेएलएनकेवीवी/ 84—85	08.03.63
1167	इलविकया बी. (एस. बोम्मया स्वामी)	टीएनएसवीसी /4660/09	37/ए, वार्ड न.—9, इल्लई स्ट्रीट, गुडालूर, थेनी जिला, तमिलनाडु	बीवीएससीएंडएच /टीएनयूवीएस /09	18.05.86
1168	लोडालिया परेश कुमार खोडुभाई	जीवीसी/2148	43, गोवर्धन पार्क, सॉ हाउस, प्रमुख पार्क के निकट, छपरा बाठा रोड, अमरोली, सूरत, गुजरात	बीवीएससीएंडएच /जीएयू/98	11.1.75
1169	लोगानाथन आर. (पी. रामास्वामी)	टीएनएसवीसी /4652/09	वडयामलईपलायम, थरंगमपट्टी डाक, मनापरई तालुक, त्रिची— 621311, तमिलनाडु	बीवीएससीएंडएच /टीएनयूवीएस /09	05.06.85

1170	लागेश्वरी पी. (के. पोन्नुसामी)	टीएनएसवीसी / 4533 / 09	4/39-ए, अलंगनाथम एकस- रोड, अलंगनाथम डाक, नमक्कल जिला- 637013, तमिलनाडु	बीवीएससीएंडएच / टीएनयूवीएस / 09	08.05.86
1171	लोकेन्द्र कुमार, पुत्र श्री वी.पी. सिंह	यूकेएसवीसी / 485 / 09	वेटेरिनरी अधिकारी, वेटेरिनरी अस्पताल, कलिजीखल, जिला पौड़ी गढ़वाल, उत्तराखंड	बीवीएससीएंडएच / जीबीपीयूएंडटी / 01	14.03.78
1172	लोकेश जे.वी., पुत्र श्री वेंकटरावनप्पा जे.	कर्नाएसवीसी / 4315 / 09	बैंक नारायप्पा कंपाउंड, सांथे गेट, मुलबगल- 563131, कोलार जिला, कर्नाटक	बीवीएससीएंडएच / केवीएफएसयू / 09	21.9.86
1173	लोखंडे शैलेश विठ्ठल राव	महाएसवीसी / 8285 / 09	एटी- केलजारा (वारधिल), डाक- साओली(सदोबा), तालुक अर्नी, जिला -यवतमाल-445106, महाराष्ट्र	बीवीएससीएंडएच / एमएंडएफएसयू / 09	10.03.77
1174	लुडारकर संदीप मनोहर	महाएसवीसी / 8303 / 09	रेनूका नगर, बोरेगांव (मंजू), तालुक व जिला अकोला, महाराष्ट्र	बीवीएससीएंडएच / एमएंडएफएसयू / 09	01.06.84
1175	लूनागरिया प्रवीनचंद्र मोहन	जीवीसी / 1887	21, आश्रुति टेनामेंट, जितोदिया रोड, आनंद, गुजरात	बी.वीएससीएंडएच / जीएयू / 95	3.3.72
1176	एम. लक्ष्मी नरसइयाह, पुत्र श्री एम.वेंकट सुबइय्याह	एपीएसवीसी / 04862 / 09	डी.न. 10-4-71, रघुनाथपुरम (ग्राम), गुडेम (डाक), बडवेल (एम), कडप्पा जिला-516227, आंध्र प्रदेश	बीवीएससीएंडएच / एसवीवीयू / 09	10.06.84
1177	एम. पूर्ण चंद्र राव, पुत्र श्री एम. मलइय्या	एपीएसवीसी / 04868 / 09	पोडुगुपडु (ग्राम), जरजांगी डाक, कोटाबोम्माली (एम), श्रीकाकुलम जिला, आंध्र प्रदेश	बीवीएससीएंडएच / एसवीवीयू / 09	02.05.85
1178	एम. वेंकटेश्वर रेड्डी, पुत्र एम. रामना रेड्डी	एपीएसवीसी / 04942 / 09	डी.न. 1-97, यादव बाजार, बोड्डुराई सेंटर, गोरान्टला, गुंटूर, आंध्र प्रदेश	बीवीएससीएंडएच / एसवीवीयू / 09	14.08.87
1179	एम. अनिथा देवी, पुत्री श्री एम. भास्कर राव	एपीएसवीसी / 04963 / 09	म.न. 1-242, सिम्हाद्री नगर, वलसपकाला, काकीनाडा, पूर्वी गोदावरी जिला-533005, आंध्र प्रदेश	बीवीएससीएंडएच / एसवीवीयू / 09	20.06.84
1180	एम. अरुणा, पुत्र श्री एम. रत्ना कुमारी	एपीएसवीसी / 04882 / 09	वेल्लमपल्ली, मड्डीपडु (एम), प्रकासम जिला, आंध्र प्रदेश	बीवीएससीएंडएच / एसवीवीयू / 09	05.10.80
1181	एम. अशोक कुमार, पुत्र श्री टी. मरिअप्पन	पॉण्डीएसवीसी / 328 / 09	312, कडालूर रोड, मूदलियारपेट, पुडुचेरी	बीवीएससीएंडएच / पीयू / 08	2.04.86

1182	एम. बाला कोटेश्वर राव, पुत्र श्री एम. चिन्ना कोटइय्या	एपीएसवीसी / 04932 / 09	कालीगिरि (ग्राम, डाक, एम), नेल्लोर जिला—524224, आंध्र प्रदेश	बीवीएससीएंडएच / एसवीवीयू / 09	01.07.83
1183	एम.डी. सैफुल्लाह सिद्दकी, पुत्र श्री अब्दुल गनी	जेवीसी / 600 / 09	ब्लॉक पशुपालन अधिकारी, चंदन कियारी, डाक—सेक्टर 12 ए, चास, जिला—बोकारो—827012, झारखंड	बीवीएससीएंडएच / आरएयू / 81	30.12.55
1184	एम. नागइय्या, पुत्र श्री एम. नरसइय्या	एपीएसवीसी / 04888 / 09	मघावरैनी गुडेम (ग्राम), हुजूरनगर (एम), नालगोंडा जिला— 508204, आंध्र प्रदेश	बीवीएससीएंडएच / एसवीवीयू / 09	06.01.84
1185	एम. नवीन कुमार, पुत्र श्री एम. लक्ष्मन्ना	एपीएसवीसी / 04850 / 09	थग्गुपारथी (डाक), बेलूडुप्पा (एम), अनंतपुर जिला, आंध्र प्रदेश	बीवीएससीएंडएच / एसवीवीयू / 09	15.06.85
1186	एम. राघवेंद्र रेड्डी, पुत्र श्री एम. हनुमंथा रेड्डी	एपीएसवीसी / 04878 / 09	चिंदुकुर (ग्राम एवं डाक), नंदयाल (तालुक), कुर्नूल जिला, आंध्र प्रदेश	बीवीएससीएंडएच / एसवीवीयू / 09	01.07.82
1187	एम. रजनीकांत, पुत्र श्री एम. सुधाकर राव	एपीएसवीसी / 04818 / 09	403, 5-5 / 21 / 4 / बी एवं सी, साईराम, श्रीनिधि गार्ड्स, संगीत नगर, कूकटपल्ली, हैदराबाद— 500072, आंध्र प्रदेश	बीवीएससीएंडएच / एएनजीआरएयू / 02	13.04.79
1188	एम. रेवथी कुमारी, पुत्री श्री एम. अशोक	एपीएसवीसी / 04984 / 09	शालिगोवरराम (एम) (ग्राम), नालगोंडा जिला— 508210, आंध्र प्रदेश	बीवीएससीएंडएच / एसवीवीयू / 09	02.06.84
1189	एम. संतोष कुमार गौड़, पुत्र श्री एम. पेंटा गौड़	एपीएसवीसी / 04994 / 09	म.न. 4-12, तेरपोल (ग्राम), कौंडापूर (एम), मेडक जिला, आंध्र प्रदेश	बीवीएससीएंडएच / एसवीवीयू / 09	20.05.84
1190	एम. शिवा रामा कृष्णा, पुत्र श्री एम. रंगइयाह	एपीएसवीसी / 04927 / 09	म.न. 1-173, गुंडलागुडेम (ग्राम), अलेयर (एम), नालगोंडा जिला— 508101, आंध्र प्रदेश	बीवीएससीएंडएच / एसवीवीयू / 09	03.07.84
1191	एम. श्रावती, पुत्री श्री बासव शंकर रेड्डी	एपीएसवीसी / 04871 / 09	म.न. 1-10-38, अय्यातूर (ग्राम), नंदयाल (एम), कुर्नूल जिला, आंध्र प्रदेश	बीवीएससीएंडएच / एसवीवीयू / 09	13.06.86
1192	एम. सुकण्या, पुत्री एम. सुब्बाराव	एपीएसवीसी / 04909 / 09	कुरीचेडु रोड, दारसी डाक, प्रकाशम जिला, आंध्र प्रदेश	बीवीएससीएंडएच / एसवीवीयू / 09	20.06.81
1193	एम. वनजा लक्ष्मी, पुत्री श्री एम. वेंकट राव	एपीएसवीसी / 04969 / 09	डी.न. 16-15-202, 1 / 6, यादव स्ट्रीट, गीथामदिरम, पुराना गुंटूर— गुंटूर—522001, आंध्र प्रदेश	बीवीएससीएंडएच / एसवीवीयू / 09	15.05.85

1194	एम. वेनू गोपाल, पुत्र श्री एम. नरसिमुलु	एपीएसवीसी/ 04889/09	म.न.5-116, गांधी रोड, डुबक (डाक व एम), मेडक जिला- 502108, आंध्र प्रदेश	बीवीएससीएंडएच /एसवीवीयू/09	30.08.85
1195	एम. विजय, पुत्र श्री एम. सम्बड्य्या	एपीएसवीसी/ 04923/09	म.न.1-148/1, किस्टेमपेट, चेन्नूर (एम), आदिलाबाद जिला, आंध्र प्रदेश	बीवीएससीएंडएच /एसवीवीयू/09	27.10.83
1196	एम. विजय कुमार, पुत्र श्री एम. सूर्य नारायण	एपीएसवीसी/ 04854/09	नंदवरम (डाक) (एम), येम्मीगनूर (तालुक), कुर्नूल जिला, आंध्र प्रदेश	बीवीएससीएंडएच /एसवीवीयू/09	13.06.83
1197	मडाले धनंजय शेषराव	महाएसवीसी/ 8284/09	सम्भाजी नगर, मुरबद, तालुक मुरबद, जिला- थाणे- 421401, महाराष्ट्र	बीवीएससीएंडएच /एमएंडएफएसयू /09	07.04.87
1198	मधानी नान्जीभाई वश्रामभाई	जीवीसी/1722	एटी एवं डाक- धुदाशिया, वाया जाम वनथली, जिला- जामनगर -361130, गुजरात	बीवीएससीएंडएच /जीएयू/94	17.11.70
1199	मधन कुमार एम. (एम. मेघनाथन)	टीएनएसवीसी /4586/09	25, मेट्टू स्ट्रीट, इञ्जापडी तालुक, सलेम जिला, पिन- 837101, तमिलनाडु	बीवीएससीएंडएच /टीएनयूवीएस /09	27.07.86
1200	माधप्पन जी. (पी. ज्ञानम)	टीएनएसवीसी /4492/09	पी. गोलाहल्ली ग्राम, पलकोडे डाक व तालुक, धर्मापुरी जिला, तमिलनाडु	बीवीएससीएंडएच /टीएनयूवीएस /09	02.06.84
1201	माधव प्रसाद, पुत्र श्री आर.सी. वर्मा	यूपीएसवीसी/ 4935/09	ग्राम- इशापुर, बहोरीचपुर, जिला- अम्बेडकर नगर, उ.प्र.	बीवीएससीएंडएच /एनडीयूएंडटी/ 09	24.04.83
1202	मधेश पी. (एम.सी. पोन्नुसामी)	टीएनएसवीसी /4549/09	यूनियन कार्यालय के सामने, इडापडडी तालुक, वेलांदीवलासू डाक, सलेम जिला- तमिलनाडु	बीवीएससीएंडएच /टीएनयूवीएस /09	07.06.82
1203	मधु सी.एल., पुत्र श्री लिंगराजू	कर्नाएसवीसी/ 4251/09	न. 207, मैसूर रोड, चोलेनाहल्ली - 573116, चन्नारायपटना तालुक, हसन जिला, कर्नाटक	बीवीएससीएंडएच /केवीएफएसयू/ 09	18.5.86
1204	मधु डी.एन., पुत्र श्री नांजप्पा आर.	कर्नाएसवीसी/ 4308/09	डोड्डादसाराहल्ली, सिद्धियाघट्टा 562102, चिककबल्लापुरा जिला, कर्नाटक	बीवीएससीएंडएच /केवीएफएसयू/ 09	14.9.85
1205	मधुरा वाई, पुत्र श्री यादव रेड्डी जे.	कर्नाएसवीसी/ 4284/09	बुद्धा नगर, पाँचवां क्रॉस, स्टेडियम रोड, चित्रदुर्ग- 577501, कर्नाटक	बीवीएससीएंडएच /केवीएफएसयू/ 09	28.5.86

1206	मदनूरकर अर्जुन दुपत राव	महाएसवीसी/ 8270/09	गुरु कृपा निवास, पटेल नगर, धर्माबाद, तालुक धर्माबाद, जिला नांदेड, महाराष्ट्र	बीवीएससीएंडएच /एमएएंडएफएसयू /09	18.04.84
1207	मगन सिंह दुदवे, पुत्र श्री कदम सिंह दुदवे	एमपीएसवीसी /2650/09	ग्राम एवं डाक— खट्टाली, थाना — जोबाट, अलीराजपुर, म.प्र.	बीवीएससीएंडएच /जेएनकेवीवी/09	7.4.78
1208	महादेव लुमानी, पुत्र श्री चिटप्पा	कर्नाएसवीसी/ 4303/09	सिद्दापुर एलटी— 587117, बिलागी तालुक, बगलकोट जिला, कर्नाटक	बीवीएससीएंडएच /केवीएएफएसयू/ 09	1.6.86
1209	महालंकार स्वप्निल सुनील	महाएसवीसी/ 8354/10	“प्रयाग” भागीरथी नगर, विठ्ठल नगर के निकट, गुदाधी, तालुक/ जिला अकोला— 444005, महाराष्ट्र	बीवीएससीएंडएच /एमएएंडएफएसयू /09	20.09.86
1210	महम्मद रियाज़ली	जीवीसी/2479 /09	पुत्र:श्री अब्दुल बकी, टायर रिपेयरिंग शॉप, स्टार टाकीज के निकट, टाटा नगर, जमशेदपुर—2, पिन—831002	बीवीएससीएंडएच /जीएयू/03	22.12.74
1211	नहंतेश, पुत्र श्री वीरभद्रप्पा	कर्नाएसवीसी/ 4257/09	न. 15, मामदापुर, हल्लीसलागर— 585302, अलंद तालुक, गुलबर्गा जिला, कर्नाटक	बीवीएससीएंडएच /केवीएएफएसयू/ 09	15.10.85
1212	महावीर चौधरी, पुत्र श्री गुट्टी राम चौधरी	हरिएसवीसी/2 126	ग्राम एवं डाक— खारी सुरेरन, टी. इलानाबाद जिला, सिरसा, हरियाणा	बीवीएससीएंडएच /सीसीएचएयू/09	12.8.81
1213	महावीर जोशी, पुत्र श्री संतोष कुमार जोशी	एचवीसी/894 /09	ग्राम एवं डाक— बडोली, तहसील व जिला— उना, हि.प्र.	बीवीएससीएंडएच /ओयूएंडटी/09	13.09.86
1214	महावीर प्रसाद करीर, पुत्र श्री सेवा राम	राजएसवीसी/ 3682/09	कृषि उपज मंडी के पीछे, वार्ड न. 18, सीकर विद्यापीठ स्कूल के निकट, सीकर—332001, राजस्थान	बीवीएससीएंडएच /एसवीवीयू/09	28.07.81
1215	महावीर सिंह, पुत्र श्री राजेंद्र कुमार	हरिएसवीसी/2 104	ग्राम एवं डाक— शाहपुर बेघू, थाना व जिला— सिरसा, हरियाणा	बीवीएससीएंडएच /सीसीएचएयू/09	29.1.86
1216	महेंद्र सिंह मील, पुत्र श्री ज्ञान चंद मील	राजएसवीसी/ 3603/09	ग्राम— सोंथालिया, डाक बवारी, वाया— रिंगस, सीकर— 330404, राजस्थान	बीवीएससीएंडएच /आरएयू/09	15.12.84
1217	महेंदिरन एस. (एस. सीथारमन)	टीएनएसवीसी /4445/09	106, कलाथुमेट्टू स्ट्रीट, इदयानचावडी, औरोविल डाक, विल्लुपुरम— 605101, तमिलनाडु	बीवीएससीएंडएच /पीयू/05	20.10.81

1218	महेंद्र नागर, पुत्र श्री सूरज मल नागर	राजएसवीसी/ 3695/09	ग्राम एवं डाक— अटोन, तहसील— अतरू, बाराण— 325223, राजस्थान	बीवीएससीएंडएच /टीवीएंडएसयू/ 09	30.07.84
1219	महेंद्र प्रताप सिंह तोमर, पुत्र श्री एस. एस. तोमर	एमपीएसवीसी /2620/09	कृषि फार्म, मंडल कृषि अनुसंधान केंद्र, ए.बी. रोड, मोरैना, म.प्र.	बीवीएससीएंडएच /जेएनकेवीवी/09	9.08.84
1220	महेंद्र सिंह समील, पुत्र श्री भगवान सिंह	एमपीएसवीसी /2644/09	उत्तमपुरा, मोरैना, म.प्र. — 477445	बीवीएससीएंडएच /जेएनकेवीवी/09	10.7.82
1221	महेंद्र तंवर, पुत्र श्री लक्ष्मी नारायण तंवर	राजएसवीसी/ 3619/09	डी— 15, जवाहर नगर, गजनेर रोड, बीकानेर— 334004, राजस्थान	बीवीएससीएंडएच /आरएसयू/09	21.03.82
1222	महेश अग्रवाल, पुत्र श्री लक्ष्मण अग्रवाल	राजएसवीसी/ 3769/10	म.न. 55, वार्ड नं. 7, काजोरी का नागला खेरली, अलवर— 321606, राजस्थान	बीवीएससीएंडएच /एसकेवीआरएसयू/ 10	05.03.81
1223	महेश गुप्ता, पुत्र श्री बाल चंद गुप्ता	राजएसवीसी/ 3689/09	ग्राम एवं डाक— डुबलिया, तहसील— पिरावा, झालावाड़— 326513, राजस्थान	बीवीएससीएंडएच /एमएफएसयू/0 9	03.07.83
1224	महेश कडगई, पुत्र श्री सिधलिंगप्पा	कर्नाएसवीसी/ 4333/09	मेन रोड, हंसाभात्री— 580009, हीरेकर तालुक, हावेरी जिला, कर्नाटक	बीवीएससीएंडएच /केवीएफएसयू/ 09	23.7.86
1225	महेश कुमार, पुत्र श्री अम्बिका प्रसाद द्विवेदी	जेवीसी/643 /10	अरसनडे आरवीसी, कनके, रांची— 834006, झारखंड	बीवीएससीएंडएच /ओयूएंडटी/09	25.02.82
1226	महेशा एन., पुत्र श्री निंजप्पा	कर्नाएसवीसी/ 4254/09	देवांग कॉलोनी, कलवनघट्टीहल्ली, बी. दुर्गा डाक— 577518, होलाकेरे तालुक, चित्रदुर्ग जिला, कर्नाटक	बीवीएससीएंडएच /केवीएफएसयू/ 09	9.6.86
1227	महिपाल कजला, पुत्र श्री रामदेव सिंह कजला	राजएसवीसी/ 3736/10	तातरवालौ की धानी, ग्राम एवं डाक सिरौही, तहसील— नीम का थाना, सीकर—332714, राजस्थान	बीवीएससीएंडएच /एसकेवीआरएसयू/ 10	10.07.84
1228	महला देवेंद्र भाई रायूम्राई	जीवीसी/1875	एटी एवं डाक— बहेज, तालुक — चिखाली, जिला— नवसारी, गुजरात	बीवीएससीएंडएच /जीएसयू/95	27.11.72
1229	मजीठिया जगदीशचंद्र प्रभुलाल	जीवीसी/1115	7, हिमालय बंगला, आबू रोड हाइवे, पालनपुर जिला — बनासकंठा, गुजरात	बीवीएससीएंडएच /जीएसयू/88	23.9.86

1230	मेजर देवेन्द्र सिंह दलाल, पुत्र श्री कालिया सिंह	ओएसवीसी/2 261/09	मेजर, आरएंडवी इंडिया स्क्वैड्रन, एनसीसी, भुबनेश्वर, न्वालियर	बीवीएससीएंडएच /ओयूएटी/00	19.08.71
1231	मजुमदार अविनाश दत्तात्रेय	जीवीसी/112	23, आनंद बाग सोसायटी, गणेश सर्कल, अमूल डेयरी रोड, आनंद- 388001, गुजरात	बीवीएससीएंडएच /यूपीएयू/66	14.3.41
1232	मकानी रमनीक लाल मगन लाल	जीवीसी/1776	7, श्रुति अपार्टमेंट, गणेश डेयरी के पीछे, आनंद, गुजरात	बीवीएससीएंडएच /जीएयू/78	1.6.52
1233	मकवाना कनुभाई जीवाभाई	जीवीसी/771	38-सी, गायत्री कृपा टेनामेंट, पुराने बापोड जकातनाका के निकट, वाघोडिया रोड, वडोदरा, गुजरात	बीवीएससीएंडएच /जीएयू/83	2.12.55
1234	मकवाना जहेश दिनेशभाई	जीवीसी/2227	वेटेरिनरी डिस्पेंसरी, हाजिरदार, वाया- दामनगर, तालुक- लाठी, जिला- अमरेली, गुजरात	बीवीएससीएंडएच /जीएयू/00	21.11.74
1235	मकवाना मेहुल कुमार जसूजी	जीवीसी/908	एटी- कोइन्तिया, तालुक- देतारोज (रामपुरा), जिला अहमदाबाद, गुजरात	बीवीएससीएंडएच /जीएयू/87	1.6.62
1236	मालम राहुल कुमार सुरेश कुमार	जीवीसी/3055 /09	पांची हटडी चौक, कुटियाना- 362650, जिला- पोरबंदर, गुजरात	बीवीएससीएंडएच /एएयू/09	26.12.86
1237	मलारवन्नन पी. (एस. पान्नेरसेल्वन)	टीएनएसवीसी /4442/09	नीविलक्कू डाक, वेदारान्थम तालुक, नागपट्टिणम- 614808, तमिलनाडु	बीवीएससी/टीएन यूवीएस/02	23.07.77
1238	मलसाना अमृतलाल छगनभाई	जीवीसी/714	4, योगेश्वर नगर, रावापुर रोड, मोरबी- 363341, जिला- राजकोट, गुजरात	बीवीएससीएंडएच /जीएयू/83	6.1.58
1239	मालवीय संजय गोबरभाई	जीवीसी/3056 /09	बागासारा (डेरी पिपरिया), जिला- अमरेली- 365440, गुजरात	बीवीएससीएंडएच /एएयू/09	21.07.86
1240	मलयामन थिरुमुडिककारी एस. (के. सेथुराजेश्वरन)	टीएनएसवीसी /4439/09	न.-3, मैजेस्टिक पार्क, राजेश एवेन्यू, वीरुगामबक्कम पुलिस स्टेशन के निकट, सालिग्रामम, चेन्नई, तमिलनाडु	बीवीएससी/टीएन यू/86	28.05.62
1241	मालचंद कुमावत, पुत्र श्री गोपाल लाल	राजएसवीसी/ 3733/10	वार्ड न. 19, नावा सिटी, नागपुर- 341509, राजस्थान	बीवीएससीएंडएच /एसकेवीआरएयू/ 10	09.06.80

1242	मालगुंडे स्मिता अप्पासाहेब	महाएसवीसी/ 8282/09	सूर्य अस्पताल के पीछे, लोनांड नीरा रोड, लोनांड, तालुक—खंडाला, जिला—सतारा 415521, महाराष्ट्र	बीवीएससीएंडएच /एमएंडएफएसयू /09	30.03.87
1243	मलप्पा माने, पुत्र श्री काकासाब	कर्नाएसवीसी/ 4253/09	न. 52, जैनापुर—591228, चिकोडी, बेलगाम, कर्नाटक	बीवीएससीएंडएच /केवीएफएसयू/ 09	10.12.85
1244	मल्लिकार्जुन, पुत्र श्री बासवराजप्पा के सी.	कर्नाएसवीसी/ 4329/09	कनाबगट्टे, शिवानी—577549, तारीकरे तालुक, चिकमगलूर जिला, कर्नाटक	बीवीएससीएंडएच /केवीएफएसयू/ 09	1.6.87
1245	माल्विका जसवाल, पुत्र कर्नल रूपचंद जसवाल	कर्नाएसवीसी/ 4234/09	न. 6-301, गंगौरवी, दूसरा क्रॉस, श्री निवास लेआउट, एल.आर.बंदे रोड, आरटी नगर, बंगलौर-32, कर्नाटक	बीवीएससीएंडएच /सीएसकेएचपीकेवी /03	15.8.80
1246	ममतानी आत्मा प्रकाश	जीवीसी/853	ए-74, राधा कृष्ण पार्क के निकट, अकोटा गार्डन, अकोटा, वडोदरा, गुजरात	बीवीएससीएंडएच /वीयू/62	2.3.39
1247	मान सिंह बमानिया, पुत्र श्री सिंगला बमानिया	एमपीएसवीसी /2597/09	ग्राम—जबानिया, डाक—सोतीबवोई, अलीराजपुर, म.प्र.	बीवीएससीएंडएच /जेएनकेवीवी/09	8.12.72
1248	मानगुली सुवर्णलता शिवराज	महाएसवीसी/ 8178/09	231, जय कुमार नगर, बीजापुर रोड, तालुक व जिला—सोलापुर—413004, महाराष्ट्र	बीवीएससीएंडएच /एमएंडएफएसयू /09	07.07.86
1249	मानस रंजन पोलाई, पुत्र श्री सुभाष चंद्र पोलाई	ओएसवीसी/2 295/09	एटी: बी मार्ग, ग्राम—अंकोरादा, डाक— हियाजिलीकट, जिला—गंजम—761102, उड़ीसा	बीवीएससीएंडएच /ओयूएटी/09	25.05.83
1250	मानवदारिया सुधीर कुमार ब्रजलाल	जीवीसी/715	वेटेरिनरी डिस्पेंसरी, बागसरा, तालुक बागसरा, जिला अमरेली, गुजरात	बीवीएससीएंडएच /जीएयू/83	3.7.61
1251	मनदीप कौर, पुत्री श्री अमरीक सिंह	पीबीएसवीसी/ 2886/09	कबीर कॉलोनी, वार्ड न. 4, पुजमेटियन के निकट, बुधलादा, जिला—मनसा—151502, पंजाब	बीवीएससीएंडएच /जीएडीवीएसयू /09	10.9.86
1252	मनदीप कुमार, पुत्र श्री लछमन दास	पीबीएसवीसी/ 2879/09	राधा स्वामी कॉलोनी, स्ट्रीट न. 1, म.न. 1367 ए, फाजिल्का, जिला—फिरोजपुर— 152123	बीवीएससीएंडएच /जीएडीवीएसयू /09	20.7.84
1253	मंडेरा भरतकुमार वीरमभाई	जीवीसी/ 2144	इंद्रप्रस्था नगरी, ब्लॉक न. 29, संदीपनी रोड, एयर पोर्ट के सामने, पोरबंदर, गुजरात	बीवीएससीएंडएच /जीएयू/98	28.8.74

1254	मंदिरा रियांग, पुत्री श्री धीरेंद्र कुमार रियांग	त्रिपुराएसवीसी /182/08	द्वारा: धीरेंद्र कुमार रियांग, डाक व ग्राम— लक्ष्मीचारा, धाना बाइखोरा, सब-शांतिर बाजार, त्रिपुरा (दक्षिण)	बीवीएससीएंडएच /एएयू/08	27.5.85
1255	माने अतुल बलभीम	महाएसवीसी/ 8306/09	एटी एवं डाक चिंचोली (माली), तालुक कैज, जिला बीड- 431123, महाराष्ट्र	बीवीएससीएंडएच /एमएएंडएफएसयू /09	28.02.86
1256	मानेर सईद अहमद खुदबुददीन	महाएसवीसी/ 8317/10	लेंगारे, तालुक खानापूर, जिला सांगली— 415309, महाराष्ट्र	बीवीएससीएंडएच /एमएएंडएफएसयू /09	01.08.86
1257	मंगयारकरसी एस. (वी. सेल्वराज)	टीएनएसवीसी /4554/09	33/8, पेरियार स्ट्रीट, पच्छापट्टी मेन रोड, सलेम- 638001, तमिलनाडु	बीवीएससीएंडएच /टीएएनयूवीएस /09	09.01.86
1258	मंगुकिया शम्भुभाई अमरसभाई	जीवीसी/ 1806	एटी: इंगोराला, तालुक— उमराला, जिला भावनगर, गुजरात	बीवीएससीएंडएच /जीएयू/95	15.1.87
1259	मनि एम.एस. (एस. के. मनिक्कम)	टीएनएसवीसी /4432/09	V-98, V ब्लॉक, 5वां मेन राड, अन्ना नगर, चेन्नई- 600040, तमिलनाडु	बीवीएससी/एम.यू. /58	19.10.32
1260	मनिकंदन के. (आर. कुमारवेल)	टीएनएसवीसी /4588/09	362, ईस्ट स्ट्रीट, सोराथूर, पेरपेरियन कुप्पम वाया, वल्लम डाक, पानरुति तालुक, कुडालोर-807805, तमिलनाडु	बीवीएससीएंडएच /टीएएनयूवीएस /09	02.01.86
1261	मणिकांत सी.एल., पुत्र श्री लक्ष्मना	कर्नाएसवीसी/ 4323/09	तीसरा क्रॉस, सावलंगा रोड, नवाले, शिमोगा- 577202, कर्नाटक	बीवीएससीएंडएच /केवीएएफएसयू/ 09	29.12.85
1262	मणिमोहन पी., पुत्र श्री पूनइयाह एस.	केएसवीसी/35 04/09	आरपीएल कॉलोनी, आईए ब्लॉक, कुआथुपुजाह (डाक), पथानमपुरम, कोल्लम, केरल	बीवीएससीएंडएच /केएयू/09	29.09.84
1263	मनीष भाटी, पुत्र श्री महफूज अली भाटी	राजएसवीसी/ 3809/09	मकान न. 34, राम रहीम स्ट्रीट, भुट्टो का चौराहा, बीकानेर- 334001, राजस्थान	बीवीएससीएंडएच /आरएयू/09	01.02.83
1264	मनीष चंद्र, पुत्र श्री दयानंद गुप्ता	यूपीएसवीसी/ 5022/09	ग्राम एवं डाक- चरियावान, बुजुर्ग, जिला- देवरिया, उ.प्र.	बीवीएससीएंडएच /केवीएएफएसयू/ 09	01.01.85
1265	मनीष चंद्र, पुत्र श्री श्याम लाल	यूपीएसवीसी/ 4948/09	मौहल्ला गुलाम, अलीपुरा, जिला- बहराइच, उ.प्र.	बीवीएससीएंडएच /एनडीयूएंडटी/ 09	02.05.81

1266	मनीष चौरसिया, पुत्र श्री भरत चौरसिया	एमपीएसवीसी / 2628 / 09	कृष्णा कॉलोनी, नारायणपुर रोड, छतरपुर, म. प्र.— 471001	बीवीएससीएंडएच / जेएनकेवीवी / 09	21.1.84
1267	मनीष कुमार त्रिपाठी, पुत्र श्री विष्णु कृपाल त्रिपाठी	एमपीएसवीसी / 2609 / 09	बी-31, आर.के. पुरी, धाटीपुर, मोरार, ग्वालियर, मध्य प्रदेश	बीवीएससीएंडएच / जेएनकेवीवी / 09	6.07.72
1268	मनीष मिश्रा, पुत्र श्री बी.एस. मिश्रा	यूपीएसवीसी / 5047 / 09	जी.एल. शर्मा, 16/11/1, जमुना बाज कॉलोनी, सदर बाजार, मथुरा, उ.प्र.	बीवीएससीएंडएच / सीएसएकेईपीवीवी / 09	01.04.67
1269	मनीषा चौहान, पुत्री श्री जे.सी. चौहान	यूपीएसवीसी / 6059 / 09	हाजीपुर बेट्टा लोनी, जिला— गाजियाबाद, उ.प्र.	बीवीएससीएंडएच / जेएनकेवीवी / 09	02.07.83
1270	मनीषा मेहरा, पुत्री श्री सिद्धार्थ मेहरा	राजएसवीसी / 3704 / 10	मवीन स्कूल के निकट, जाट कॉलोनी, नवलगढ़ रोड, सीकर— 332001, राजस्थान	बीवीएससीएंडएच / एसकेवीआरएच / 10	26.02.84
1271	मणिवन्मन एम. (पी. नटेशन)	टीएनएसवीसी / 4864 / 09	21, थोलुवापल्ली स्ट्रीट, डाक पेड्डे नईकेमपलायम, अददूर तालुक, सलेम— 636109, तमिलनाडु	बीवीएससीएंडएच / टीएनयूवीएस / 09	06.06.71
1272	मणिवन्मन वी.एस. (वी. सुब्रमण्यम)	टीएनएसवीसी / 4870 / 09	3/86-1ए, एम.जी. नगर, कोण्डीचेट्टीपट्टी, मोहनूर रोड, ममक्कल— 637001, तमिलनाडु	बीवीएससीएंडएच / टीएनयूवीएस / 09	16.03.86
1273	मंजू नेहरा, पुत्री श्री लक्ष्मी नारायण नेहरा	राजएसवीसी / 3605 / 09	ग्राम— स्वामी की धानी, डाक— सुलियावास, तहसील— वताराम गढ़, सीकर— 332702, राजस्थान	बीवीएससीएंडएच / आरएच / 09	01.08.81
1274	मंजुनाथ बासादेव्डी, पुत्र श्री सांगप्पा	कर्नाएसवीसी / 4268 / 09	टोलानदटी— 587116, बिलागी तालुक, बगलकोट जिला, कर्नाटक	बीवीएससीएंडएच / केवीएफएसयू / 09	1.10.85
1275	मंजुनाथ एन.एल., पुत्र श्री लक्ष्मणप्पा बी.	कर्नाएसवीसी / 4229 / 09	न. 7, श्री कृपा लेआउट, अब्बागेरे एक्स., धिवकाबनवारा रोड, बेंगलुरु, कर्नाटक	बीवीएससी / यूएस बंगलौर / 74	7.8.49
1276	मंजुनाथ एस., पुत्र श्री बाबू राव	कर्नाएसवीसी / 4268 / 09	पुराना कप्पर बाजार, मथापटी लेन, चित्तपुर— 585211, गुलबर्गा जिला, कर्नाटक	बीवीएससीएंडएच / केवीएफएसयू / 09	5.2.87
1277	मनभीत पाल सिंह, पुत्र श्री अमरजीत सिंह औलख	हरिएसवीसी / 2 129	ग्राम एवं डाक— अहेरवम, तालुक— रतिया, जिला— फतेहाबाद, हरियाणा	बीवीएससीएंडएच / सीसीएचयू / 09	9.7.85

1278	मनोहर सी., पुत्र श्री चन्नाकेशव मूर्ति	कर्नाएसवीसी / 4336 / 09	न. 163, चौथा क्रॉस, पीएंडटी कॉलोनी, विनोबा नगर, शिमोगा, कर्नाटक	बीवीएससीएंडएच / केवीएफएसयू / 09	4.11.85
1279	मनोहरन एम. (एम. मनिक्कम)	टीएनएसवीसी / 4476 / 09	13, पोन्नूचामीपुरम स्ट्रीट, थिरुनगरम, अरुप्पुकोट्टई- 626101, तमिलनाडु	बीवीएससी / टीएन यूवीएस / 95	04.03.71
1280	मनोज कुमार अग्रवाल, पुत्र श्री राम कुमार अग्रवाल	सीएसएसवीसी / 534 / 10	डाक- जयराम नगर, जिला- बिलासपुर, छत्तीसगढ़	बीवीएससीएंडएच / जेएलएनकेवीवी / 96-97	21.08.73
1281	मनोज कुमार झा, पुत्र श्री टाटा कांत झा	जेवीसी / 604 / 09	क्वा.न. सीडी / 109 / सेक्टर-2, धुरवा, रांची- 834004, झारखंड	बीवीएससीएंडएच / बीएसयू / 93	25.06.68
1282	मनोज कुमार जोशी, पुत्र श्री देवी दत्त जोशी	यूकेएसवीसी / 487 / 09	ग्राम एवं डाक- बरालू, जिला- पिथौरागढ़, उत्तराखंड	बीवीएससीएंडएच / जीबीपीयूएंडटी / 00	06.03.75
1283	मनोज कुमार, पुत्र श्री अम्बिका यादव	यूपीएसवीसी / 5006 / 09	ग्राम- पचारसी, डाक- रसूलपुर पचारसी (देवकाली), जिला- गाजीपुर, उ.प्र.	बीवीएससीएंडएच / एमएफएसयू / 09	19.07.83
1284	मनोज कुमार उरमालिया, पुत्र श्री चंद्रभान उरमालिया	एमपीएसवीसी / 2618 / 09	शिव नगर बस स्टैंड, कटनी, म.प्र.- 483501	बीवीएससीएंडएच / जेएनकेवीवी / 09	28.6.82
1285	मनोज सिंह, पुत्र श्री देवी दयाल	यूपीएसवीसी / 4924 / 09	ग्राम- काजीपुर फरहत नगर, डाक- मल्लाहवाह, जिला- हरदोई, म.प्र.	बीवीएससीएंडएच / बें / 09	15.07.81
1286	मनोज यादव, पुत्र श्री बीरेंद्र सिंह यादव	हरिएसवीसी / 2118	वार्ड न. 5, ग्राम एवं डाक- कानिना, जिला महेंद्रगढ़, हरियाणा	बीवीएससीएंडएच / सीसीएचएसयू / 09	24.1.84
1287	मनप्रीत सिंह, पुत्र श्री सुरजीत सिंह	पीबीएसवीसी / 2883 / 09	ग्राम एवं डाक- रायपुर पीर बक्स वाला, जिला- कपूरथला, पंजाब	बीवीएससीएंडएच / जीएडीवीएसयू / 09	12.5.86
1288	मन्सूरी अब्बासभाई हाजीभाई	जीवीसी / 365	वेटेरिनरी डिस्पेंसरी, वडगाम, बनासकंठा, गुजरात	बीवीएससीएंडएच / जीएसयू / 75	19.11.51
1289	मन्सूरी अब्दूल कादर गफूरभाई	जीवीसी / 1230	155 / मन्सूरी सोसा., जहीराबाद, महिला कॉलेज के पीछे, सावागढ़, तालुक-हिम्मतनगर, जिला- साबरकंठा, गुजरात	बीवीएससीएंडएच / जीएसयू / 89	5.6.66

1290	मन्सूरी अनवर हुसैन मुस्तफा	जीवीसी/545	सघन कुक्कुट विकास ब्लॉक, पशुपालन कॉम्प्लेक्स, शास्त्री ओवर ब्रिज के नीचे, गेंदा सर्कल, वडोदरा	बीवीएससीएंडएएच / जीएयू/80	18.6.67
1291	मन्सूरी युसुफ भाई वलीभाई	जीवीसी/1900	11/3, सेवक निवास, गुजरात विद्यापीठ, आश्रम रोड, अहमदाबाद, गुजरात	बीवीएससीएंडएएच / जीएयू/95	2.12.72
1292	मन्सूरी फैज अहमद अहमद हुसैन	जीवीसी/1116	मदीना मस्जिद के पीछे, पोलोग्राउंड, हिम्मत नगर, जिला- साबरकंठा, गुजरात	बीवीएससीएंडएएच / जीएयू/88	27.3.65
1293	मनवर अरविंद भाई हनराज भाई	जीवीसी/1525	एटी एवं डाक- नम्रदा, तालुक- वनधली, जिला जूनागढ़, गुजरात	बीवीएससीएंडएएच / जीएयू/92	17.4.70
1294	मनवर देवजीभाई अर्जनभाई	जीवीसी/546	ब्लॉक न.4, श्री निकेत कॉम्प्ले., राम पार्क-मेन रोड पंथायत नगर के पीछे, यूनिवर्सिटी रोड, राजकोट-5	बीवीएससीएंडएएच / जीएयू/80	5.7.54
1295	मनवर प्रफुल्ल कुमार खोडाभाई	जीवीसी/1532	वेटरिनरी डिस्पेंसरी, रेलवे स्टेशन के निकट, एटी एवं तालुक जम- जोधपुर, जिला-जामनगर, गुजरात	बीवीएससीएंडएएच / जीएयू/92	23.6.68
1296	मनवीर सिंह, पुत्र श्री धरमवीर सिंह	यूकेएसवीसी/486/09	उप प्रबंधक (पशु पोषण), यूएलडीबी, श्यामपुर, ऋषिकेश, जिला देहरादून, उत्तराखंड	बीवीएससीएंडएएच / जीबीपीयूएंडएटी / 01	09.08.78
1297	मरादिया मेघाजीभाई गोपालभाई	जीवीसी/403	"अवसर" 3, जलाराम, यूनिवर्सिटी रोड, इंदिरा सर्कल के निकट, गोकुल स्टोर वाली शेरी, राजकोट -5, गुजरात	बीवीएससीएंडएएच / जीएयू/76	12.10.54
1298	मारन वजुथी आर (पी. राजेंद्रन)	टीएनएसवीसी /4444/09	10/243/सी, गांधी नगर, पावूरघटरम, तेनकासी तालुक, तिरुनेलवेली- 627808, तमिलनाडु	बीवीएससी/टीएनए यू/87	23.04.64
1299	मारू लक्ष्मण अर्जनभाई	जीवीसी/808	एटी- बनटावा, पुलिस स्टेशन के सामने, तालुक मनवदर, जिला जूनागढ़, पिन- 362620, गुजरात	बीवीएससीएंडएएच / जीएयू/84	17.2.60
1300	मेरी निशा टिग्गा, पुत्री श्री हरमन टिग्गा	जेवीसी/639 /09	सिरसी पुतरुंगी, दुमरी, गुमला, झारखंड	बीवीएससीएंडएएच / बीएयू/09	28.03.83
1301	मसानी नीलेश हरिवदन	जीवीसी/1114	2/38, लक्ष्मी नारायण सोसायटी, धरमनगर के निकट, भोलाव, जिला भड़ौच, गुजरात	बीवीएससीएंडएएच / जीएयू/88	25.5.64

1302	मसूल अहमद आबिद हुसैन, पुत्र श्री मोहम्मद हयात	कर्नाएसवीसी/ 4342/09	न. 39, दूसरा क्रॉस, नान्जप्पा गार्डन, मंजुनाथ लेआउट, बेंगलुरु- 560032, कर्नाटक	बीवीएससीएंडएच /केवीएफएसयू/ 09	22.8.87
1303	मथियाजगान वी. (वेदी)	टीएनएसवीसी /4487/09	गंगइय्यमन कोइल, गावुलापुरम, गुडीयट्टम, वेल्लोर- 632602, तमिलनाडु	बीवीएससी / टीएन यूवीएस / 95	28.05.59
1304	मौज अहमद खान, पुत्र श्री तारीक हुसैन खान	जेवीसी / 627 / 09	क्वा.न. एच 6 / 55, रोड न. 1, कदमा, करमडीह, धारहुम, झारखंड	बीवीएससीएंडएच / बीएसयू / 09	01.01.80
1305	मवानी हरशद कुमार प्रभात भाई	जीवीसी / 2293	पुराने बस स्टैंड के पीछे, हीरपारा वाडी, एटी एवं डाक- धदराजी, जिला-राजकोट-360410, गुजरात	बीवीएससीएंडएच / जीएसयू / 00	14.8.78
1306	मायतिया दिनेशभाई, शंकरलाल	जीवीसी / 2151	'पितृ दया', एटी एवं डाक- करथ, तालुक झालोद, जिला- दाहोद- 389151, गुजरात	बीवीएससीएंडएच / जीएसयू / 98	23.10.74
1307	माया जियूरिया, पुत्री श्री सहीराम जियूरिया	राजएसवीसी / 3692 / 09	चिरावा रोड, सिंघाना, झुंझुनू- 333516, राजस्थान	बीवीएससीएंडएच / आरएसयू / 09	23.10.83
1308	मायाकृष्णन, पुत्र श्री कथावरायन	पॉण्डीएसवीसी / 325 / 09	न. 42, दूसरा क्रॉस स्ट्रीट, राजी नगर, मदुकरई डाक पुडुचेरी- 605	बीवीएससीएंडएच / पीएसयू / 09	20.3.82
1309	मौह. सेयद, पुत्र स्व. श्री शेख अजीम	जेवीसी / 622 / 09	स्टाफ वेटरिनरी अधिकारी, क्षेत्रीय निदेशक कार्यालय, ए.एच.डी., संधाल परगना धुनानी, दुमका- 814101, झारखंड	बीवीएससीएंडएच / आरएसयू / 73	29.12.48
1310	मेदो-यू-यत्साह, पुत्र श्री फुकु खावेत्साह	एनएसवीसी / 0 246 / 09	लोअर चांदमारी कॉलोनी, कोहिमा, नागालैंड	बीवीएससीएंडएच / एसयू / 09	26.6.83
1311	मीनाक्षी पटेरिया, पुत्री श्री बाबूलाल पटेरिया	एमपीएसवीसी / 2636 / 09	द्वारा श्री जी.डी. नामदेव, वेयरहाउस के पीछे, छतरपुर, म.प्र.	बीवीएससीएंडएच / जेएनकेवीवी / 09	20.6.83
1312	मेघा पांडे, पुत्री श्री एस.सी. पांडे	यूकेएसवीसी / 464 / 09	25-ए, समीर विहार, कुसुम खेरा, हलद्वानी, जिला- नैनीताल, उत्तराखंड	बीवीएससीएंडएच / जीबीपीयूएंडडी / 09	20.07.85
1313	मेघराज पी., पुत्र श्री देवेन्द्रप्पा	कर्नाएसवीसी / 4310 / 09	10वां क्रॉस, दुर्गीगुडी एक्स., होन्नाली- 577217, दावणगेरे जिला, कर्नाटक	बीवीएससीएंडएच / केवीएफएसयू / 09	7.8.86

1314	मेहसारे स्वप्निल सुधाकर	महाएसवीसी / 8322 / 10	"कुब्जा", रामपिस नगर, अकोला, तालुक अकोला, जिला अकोला, महाराष्ट्र	बीवीएससीएंडएच / आईजीकेवीवी / 08	07.07.88
1315	मेहता भरत कुमार विनोद चंद्र	जीवीसी / 737	ए-3 / 405, वैकुंठ-1, अम्बेविद्यालय के निकट, वाघोडिया हाइवे क्रॉस रोड, वडोदरा-390019, गुजरात	बीवीएससीएंडएच / जेएनकेवीवी / 79	9.10.86
1316	मेहता अरुण कुमार जीवनशंकर	जीवीसी / 386	3, नीलकमल सोसायटी, राजकमल पेट्रोल पम्प के पीछे, मेहसाणा, गुजरात	बीवीएससीएंडएच / जेएनकेवीवी / 75	26.6.83
1317	मेहता कमलेश कुमार अरविंद लाल	जीवीसी / 1086	वेटरिनरी डिस्पेंसरी, उडिपी रेस्टोरेंट के सामने, स्टेशन रोड, वलसाड-396001, गुजरात	बीवीएससीएंडएच / जीएयू / 88	4.2.86
1318	मेहता कार्तिक रवीन्द्रनाथ	जीवीसी / 716	प्लॉट न.- 279 / 1, रविपुष्पा, मधुवन फ्लैट्स के सामने, सेक्टर- 29, गांधीनगर-382029, गुजरात	बीवीएससीएंडएच / जीएयू / 83	29.1.81
1319	मेहता मनोज कुमार जयसिभाई	जीवीसी / 1278	द्वारा जेजे मेहता जैन डोरसर के सामने, एटी व डाक सतलासना, तालुक खेरालू, जिला- मेहसाणा	बीवीएससीएंडएच / जीएयू / 90	10.7.87
1320	मेहता नरोत्तमभाई नाथाभाई	जीवीसी / 926	द्वारा एन.के. मेहता, देवाशीपुरा, एटी: दराफा, तालुक जनजोधपुर, वाया: पानेली मोटी, जिला जामनगर, 360520	बीवीएससीएंडएच / जीएयू / 87	24.12.82
1321	मेहयप्पन यू (के. उधीरामूर्ति)	टीएनएसवीसी / 4578 / 09	1 / 1, मान्जप्पा क्रॉस स्ट्रीट-3, अंधियूर भवानी तालुक, इरोडे- पिन-638501, तमिलनाडु	बीवीएससीएंडएच / टीएनयूवीएएस / 09	29.05.86
1322	मेमन इकबाल हुसैन अब्दुल रहमान	जीवीसी / 1272	एटी- सतलासना, तालुक- खेरालू, जिला- मेहसाणा, गुजरात	बीवीएससीएंडएच / जीएयू / 90	3.6.86
1323	मेनागा जी (वी. गोपालकृष्णन)	टीएनएसवीसी / 4580 / 09	270, वेल्लालर स्ट्रीट, पल्लायूर, पदटुकोटई तालुक, थेजायूर- 614803, तमिलनाडु	बीवीएससीएंडएच / टीएनयूवीएएस / 09	16.04.86
1324	मेंदापारा गिरीश कुमार मावजीभाई	जीवीसी / 2197	एटी एवं डाक- सुवारसारा, वाया: शापुर, तालुक- वनधली, जिला जुनागढ़, गुजरात	बीवीएससीएंडएच / जीएयू / 96	29.2.78
1325	मेरजा हरीजीवन चाकूमई	जीवीसी / 275	नकलांक सोसायटी, पटेल कन्या छात्रालय के निकट, हरि जॉन अपार्ट. के सामने, सनादा रोड, मोरबी-363641, जिला राजकोट	बीवीएससीएंडएच / जीएयू / 72	29.6.47

1326	मेरजा राजेश मगनलाल	जीवीसी / 1716	"ममता", पंचावटी सोसायटी, जी.आई.डी.सी. के पीछे, मोरबी, जिला राजकोट, गुजरात	बीवीएससीएंडएच / जीएयू / 94	30.6.73
1327	मेशराम चंद्रप्रकाश दीनानाथ	महाएसवीसी / 8324 / 10	प्लॉट न. 10, रामेश्वरी, रिंग रोड, जोगी नगर, नागपुर- 440027, महाराष्ट्र	बीवीएससीएंडएच / एमएएंडएफएसयू / 09	09.01.82
1328	मेवदा विपुल कुमार केशवलाल	जीवीसी / 3016 / 09	महाकाली सोसायटी, म्युनिसिपल हाई स्कूल, खेरालू, जिला-मेसहाना, जिला-महसाना- 384350, गुजरात	बीवीएससीएंडएच / एसडीएयू / 09	11.08.85
1329	मेवदा महेश कुमार शंकरलाल	जीवीसी / 1416	कोऑपरेटिव बैंक के सामने, वडगाम, तालुक- वडगाम, जिला- बनासकंठा, गुजरात	बीवीएससीएंडएच / जीएयू / 91	23.5.66
1330	म्हात्रे संदीपु दत्तात्रेय	महाएसवीसी / 8160 / 09	अष्ट विनायक, प्लॉट न. 20, विद्या नगर, तालुक अलीबाग, जिला रायगढ़, महाराष्ट्र	बीवीएससीएंडएच / एमएएंडएफएसयू / 08	20.02.86
1331	मीनू सिंह, पुत्री श्री बी.पी. सिंह	जेवीसी / 634 / 09	लंडुपडीह, सोनाहाट्ट, बुंदु, रांची- 835204, झारखंड	बीवीएससीएंडएच / बीएयू / 09	07.06.84
1332	मिर्जा इस्माइल गुलाम	जीवीसी / 441	मिर्जा मंजिल, सिग्नल फालिया, एटी एवं डाक- कोसाम्बा, जिला- सूरत, गुजरात	बीवीएससीएंडएच / जीएयू / 77	1.9.51
1333	मिर्जा रिजवान बेग, मिर्जा अज़मत बेग	महाएसवीसी / 8207 / 09	बेग मंजिल, गुल्जार कॉलोनी, गुल्जार मस्जिद के निकट, धार रोड, परभनी, महाराष्ट्र	बीवीएससीएंडएच / एमएएंडएफएसयू / 09	16.11.85
1334	मिस्त्री प्रकाशचंद्र कांतिलाल	जीवीसी / 1750	बी-308, गोपीवल्लभ, आईआईटी के सामने, मोदासा, मालपुर रोड, साबरकंठा- 383315, गुजरात	बीवीएससीएंडएच / जीएयू / 94	17.11.71
1335	मिथुना के.वी., पुत्र श्री कांधाराजू एच. एन.	कर्नाएसवीसी / 4296 / 09	बी-8, पोस्टल स्टाफ क्वार्टर्स, लक्ष्मीपुरा, अरासीकेरे- 573103, हसन जिला, कर्नाटक	बीवीएससीएंडएच / केवीएफएसयू / 09	29.7.86
1336	मिट्टू टी. कुरियन, पुत्र श्री कुरियन टी.के.	केएसवीसी / 36 01 / 09	थेकेमुरियिल हाउस, किशको नगर के सामने, चेवायूर डाक, कोज़ीकोड - 673017, केरल	बीवीएससीएंडएच / केएयू / 09	08.02.86
1337	मोठ हरशद नटवरलाल	जीवीसी / 886	55, शुभा टेनामेंट, साकर बंगले के सामने, बरना रोड, तालुक- हिम्मत नगर, जिला- साबरकंठा, गुजरात	बीवीएससीएंडएच / जीएयू / 87	28.7.65

1338	मोठ शैलेशकुमार कांतिलाल	जीवीसी/846	एसबीआई सोसायटी के निकट, बेचरपुरा, पालनपुरा- 385001, जिला- बीकानेर, गुजरात	बीवीएससीएंडएच / जीएयू/85	16.5.63
1339	मोघ. अजमल, पुत्र श्री मुमताज अली	यूपीएसवीसी/4972/09	पूर्वी बाजार, भरवारी, जिला कोशम्बी, गुजरात	बीवीएससीएंडएच / एनडीयूएंडटी/09	01.12.84
1340	मोधुकोलिया आयुष्मान, पुत्र श्री तरुण कुमार शर्मा	एएसएम/244 5/09	द्वारा तरुण कुमार शर्मा, घोवा पुखुरी गांव, डाक बहोना, जिला जोरहाट, पिन- 785301, असम	बीवीएससीएंडएच / एएसयू/09	13.2.86
1341	मोधवाडिया वेजूभाई रमाभाई	जीवीसी/807	एटी एवं डाक भाड, तालुक एवं जिला पोरबंदर, गुजरात	बीवीएससीएंडएच / जीएयू/84	1.6.59
1342	मोदी अरविंद कुमार भीखाभाई	जीवीसी/880	103, सीमा नगर-2, सोसायटी पालनपुर पाटिया, रांडेर रोड, सूरत, गुजरात	बीवीएससीएंडएच / जीएयू/88	7.10.63
1343	मोदी भास्कर कुमार अरविंद लाल	जीवीसी/1142	बी/34, जलारामनगर सोसा., दीवा रोड, एटी व डाक:अकलेश्वर, जिला कोलन, भड़ौच, पिन-398001, गुजरात	बीवीएससीएंडएच / जीएयू/89	27.1.88
1344	मोदी कल्पेश कुमार अमृतलाल	जीवीसी/1492	एटी एवं डाक- दिमाई, तालुक- बयाड, जिला साबरकण्ठा, गुजरात	बीवीएससीएंडएच / जीएयू/92	18.6.70
1345	मोदी कमलेश कुमार रसिक लाल	जीवीसी/596	43, राधनपुर सोसायटी, भैरवनाथ रोड, मनि नगर, अहमदाबाद- 380008, गुजरात	बीवीएससीएंडएच / जीएयू/81	30.8.59
1346	मोदी किरीट हीरालाल	जीवीसी/503	27, मिलाप रॉ हाउस, गेल टावर के सामने, एएम रोड, सूरत, गुजरात	बीवीएससीएंडएच / जीएयू/79	9.4.56
1347	मोदी किरीट कुमार शांतिलाल	जीवीसी/1205	75, नेविल पार्क सोसायटी, गायत्री मंदिर के सामने, न्यू सिटी लाइट, उधाना- मगडला रोड, अलथान, सूरत, गुजरात	बीवीएससीएंडएच / जीएयू/89	21.2.67
1348	मोदी नरेशभाई रतिलाल	जीवीसी/815	द्वारा मवेशी प्रजनन फार्म, सिंधवाई फार्म, एटी एवं तालुक- मांडवी, जिला सूरत, गुजरात	बीवीएससीएंडएच / जीएयू/84	24.7.61
1349	मोदी प्रकाशचंद्र गोरधन भाई	जीवीसी/549	"अरुणोदय", अकेसन क्रॉसिंग हाइवे रोड, पालनपुर, बनासकण्ठा, गुजरात	बीवीएससीएंडएच / जीएयू/80	16.3.57

1350	मोदी प्रवीन कुमार कातिलाल	जीवीसी/1067	मोदीवास, कला वासुदेव चौक, एटी एवं डाक— बढनगर, जिला मेहसाना, गुजरात	बीवीएससीएंडएच / जीएयू/88	5.7.85
1351	मोदी विशाल ईश्वर भाई	जीवीसी/3017 /09	सोनीवाडो, अम्बलीवाली फाली, पाटन, जिला पाटन— 684265, गुजरात	बीवीएससीएंडएच / एसडीएयू/09	14.04.86
1352	मोहलिशा सेनापति, पत्नी श्री अधिराज मिश्रा	ओएसवीसी/2 321/09	प्लॉट न. 212/ए, सत्यानगर, भुवनेश्वर— 751007, उड़ीसा	बीवीएससीएंडएच / ओयूएटी/09	18.04.87
1353	मौहम्मद अब्दुल खादर ए. (एन. अब्दुल सलाम)	टीएनएसवीसी /4421/09	3/710, एएवीआईएन नगर, सर्वेयर कॉलोनी, के. पुडुर, मदुरै— 625007, तमिलनाडु	बीवीएससी/टीएन यूवीएस/78	07.05.51
1354	मौहम्मद नूर, पुत्र श्री हाजी मौहम्मद	राजएसवीसी/ 3641/09	जालौर जनरल अस्पताल के निकट, जालौर— 343001, राजस्थान	बीवीएससीएंडएच / एमएएफएसयू/0 9	23.07.82
1355	मौहम्मद तारीक	महाएसवीसी/ 8184/09	द्वारा:मौह. हयाज,म.न. 648 (पुराना) शतरंजी पुरा, छोटी मस्जिद के सामने, नागपुर— 440008, महाराष्ट्र	बीवीएससीएंडएच / एमएएंडएफएसयू /09	17.12.83
1356	मौहम्मद खलीलुल्ला, पुत्र मौहम्मद इनायतुल्ला	कर्नाएसवीसी/ 4255/09	दूसरा क्रॉस, प्रथम मेन, कृषि नगर, शिमोगा— 577201, कर्नाटक	बीवीएससीएंडएच / केवीएएफएसयू/ 09	16.7.86
1357	मोहन लाल चौधरी, पुत्र श्री बुद्धा रामजी	राजएसवीसी/ 3592/09	म.न. 3/272 के सामने, एमपी कॉलोनी, बीकानेर— 334004, राजस्थान	बीवीएससीएंडएच / आरएयू/09	18.11.83
1358	मोहनम जोशी	जीवीसी/1820	सी/56, एनडीडीबी कैम्पस, आनंद गुजरात	बीवीएससीएंडएच / जीबीपीयू/74	20.2.52
1359	मोहनराज एस. (टी. आर. श्रीनिवासन)	टीएनएसवीसी /4674/10	23, मेन रोड, थोट्टीयम, त्रिची जिला— 621215, तमिलनाडु	बीवीएससीएंडएच / टीएनयूवीएस /09	24.03.87
1360	मोहनमबाल के. (आर. कलियन्नन)	टीएनएसवीसी /4534/09	1-187, कोसावनथोट्टम, थिंडमंगलम डाक, नमक्कल जिला— 637207, तमिलनाडु	बीवीएससीएंडएच / टीएनयूवीएस /09	04.09.85
1361	मोहनाप्रिया टी. (वी. थंगराज)	टीएनएसवीसी /4542/09	13/165, 13वां वार्ड, जलकंदपुरम, मेन रोड, थरमंगलम डाक, ओमालूर तालुक, सलेम—636502, तमिलनाडु	बीवीएससीएंडएच / टीएनयूवीएस /09	21.04.86

1362	मोहनावेल एस. (टी. वी. सौंदराराजन)	टीएनएसवीसी / 4544 / 09	5 / 173, थाटचंगकडु, डाक अल्लवईपट्टी, तालु, रासीपुरम नमक्कल- 637505, तमिलनाडु	बीवीएससीएंडएच / टीएनयूवीएस / 09	08.05.87
1363	मौह. मोहसिनुद्दीन मौह. मोहिनउद्दीन	महाएसवीसी / 8196 / 09	5वां बगला कॉलोनी, वकाली रोड कैम्प, अमरावती- 444602, महाराष्ट्र	बीवीएससीएंडएच / एमएंडएफएसयू / 09	12.07.85
1364	मौह. कासिम अली, पुत्र श्री मौह हनीफ	यूपीएसवीसी / 5032 / 09	मौह. रामनगर, गुलावठी, जिला बुलंदशहर, उ.प्र.	बीवीएससीएंडएच / एसवीवीयू / 09	02.02.79
1365	मोहित कुमार, पुत्र श्री होशियार सिंह	एचवीसी / 895 / 09	ग्राम एवं डाक- बासल, थाना व जिला- उना, हि.प्र.	बीवीएससीएंडएच / ओयूएंडटी / 09	05.09.86
1366	मोहित वर्मा, पुत्र श्री ऋषेन्द्र वर्मा	यूपीएसवीसी / 5086 / 10	ई- 1219 / 6, राजेंद्र नगर, बरेली, उ.प्र.	बीवीएससीएंडएच / ओयूएंडटी / 09	30.10.82
1367	मोहिते अजय कुमार सीताराम	जीवीसी / 1346	एफ / 501, रूतवान पलीएस, सहज सुपर स्टोर, छत्रपति शिवाजी मार्ग, अदाजन, सूरत- 395009, गुजरात	बीवीएससीएंडएच / केकेवी / 85	12.1.80
1368	मोहोद संजय राजेंद्र	महाएसवीसी / 8158 / 09	राम नगर, डाकघर के पीछे, चंदूर रेलवे, जिला अमरावती, महाराष्ट्र	बीवीएससीएंडएच / पीकेवीवी / 91	01.07.88
1369	मोनालिसा प्रियदर्शिना, पुत्री श्री धनेश्वर मोहन्ती	ओएसवीसी / 287 / 09	एटी एवं डाक- जराका, जिला- जयपुर- 755050, उड़ीसा	बीवीएससीएंडएच / ओयूएटी / 09	24.07.86
1370	मोनालिसा देबबर्मा पुत्री श्री नरेंद्र च. देबबर्मा	त्रिपुराएसवीसी / 185 / 08	द्वारा नरेंद्र च. देबबर्मा, न्यू बोधजंग रोड, उत्तरी बनमालीपुर, अगरताला, त्रिपुरा (पश्चिम)	बीवीएससीएंडएच / सीएसयू / 08	16.2.83
1371	मनी सिंगला, पुत्र श्री मेघ राज	पीबीएसवीसी / 2899 / 09	दुकान न. 194, पुरानी अनाज मंडी, मनसा, पंजाब	बीवीएससीएंडएच / जीएडीवीएसयू / 09	27.10.86
1372	मोनिका कर्णानी, पुत्री श्री हरि किशन कर्णानी	राजएसवीसी / 3702 / 10	मुन्धरा क्वार्टर्स, गंगा शहर रोड, बीकानेर- 334001, राजस्थान	बीवीएससीएंडएच / एसकेवीआरएसयू / 10	17.05.84
1373	मोरे भूषण दिलीप	महाएसवीसी / 8264 / 09	प्लॉट न. 17, गुरुदत्ता कॉलोनी, शिरपुर तालुक, शिरपुर जिला, धुले- 425405, महाराष्ट्र	बीवीएससीएंडएच / एमएंडएफएसयू / 09	06.03.86

1374	मोरे महेश प्रकाश	महाएसवीसी / 8218 / 09	सुमद्रा निवास, सम्भाजी नगर, उस्मानाबाद, जिला- उस्मानाबाद- 413501, महाराष्ट्र	बीवीएससीएंडएच / एमएएंडएफएसयू / 09	05.06.86
1375	मोरी दिलीप सिंह प्रागजीभाई	जीवीसी / 308	न्यू आई इंडस्ट्रीज़ के सामने, राजेंद्र नगर के निकट, श्याम होटल के पीछे, जीआईडीसी, डेरी रोड, वधवान जिला-सुरेंद्र नगर-363035	बीवीएससीएंडएच / जीएयू / 73	9.6.50
1376	मृदु शर्मा, पुत्री श्री मूल राज शर्मा	एचवीसी / 885 / 09	ग्राम व डाक- खनियारा (माकहाली), तहसील- धर्मशाला, जिला कांगड़ा, हि.प्र.	बीवीएससीएंडएच / सीएसकेएचपीकेवी / 09	10.04.85
1377	मृत्युंजय सिंह, पुत्र श्री के.एन. सिंह	यूपीएसवीसी / 5009 / 09	क्वार्टर न. डी-524, पीपरी, जिला- सोनमद्रा, उ.प्र.	बीवीएससीएंडएच / केवीएएंडएफएसयू / 09	01.07.79
1378	मुगाले माधव नीलकंठ	महाएसवीसी / 8313 / 10	अम्बिकामंदिर के पास, कडोदरा डाक बालसूर, तालुक ओमर्गा, जिला -उस्मानाबाद- 413604, महाराष्ट्र	बीवीएससीएंडएच / एमएएंडएफएसयू / 09	25.11.83
1379	मुहम्मद अफजल ए., पुत्र श्री सी.ई. मुहम्मद अशरफ	केएसवीसी / 35 59 / 09	अफजल मंजिल, पंजायापुरककल चुंगोम वार्ड, अलपुजाह	बीवीएससीएंडएच / केएयू / 09	27.11.85
1380	मुहम्मद शेजिर, पुत्र श्री रशीद	केएसवीसी / 35 05 / 09	हाशिर मंजिल, रेलवे गेट के निकट, मुरुक्कुमपुजा डाक, मंगलापुरम- 695302, केरल	बीवीएससीएंडएच / केएयू / 09	20.07.81
1381	मुहम्मद कुट्टी वी. एच., पुत्र श्री वी.एम. हमीद	केएसवीसी / 35 74 / 09	वारीक्कोटिल हाउस, कनियारकोड डाक, थिसूर- 680594, केरल	बीवीएससीएंडएच / केएयू / 09	15.03.86
1382	मुहासिन आसफ वी. एन., पुत्र श्री वी.एन. मुहम्मद	केएसवीसी / 35 91 / 09	नेचूली हाउस, कुमारानेल्लूर, डाक करामूला, मुक्कन, कोज़ीकोड- 673602, केरल	बीवीएससीएंडएच / केएयू / 09	11.10.84
1383	मुकेश बेरीवाल, पुत्र श्री रामनिवास बेरीवाल	राजएसवीसी / 3631 / 09	वार्ड न. 14, सिनेमा रोड, श्री बिजय नगर, श्रीगंगानगर- 335704, राजस्थान	बीवीएससीएंडएच / सीसीएचएयू / 09	15.06.84
1384	मुकेश गहलोत, पुत्र श्री बुलाकी गहलोत	राजएसवीसी / 3613 / 09	11- ई-273, जय नारायण व्यास नगर, बीकानेर, राजस्थान	बीवीएससीएंडएच / आरएयू / 09	19.11.82
1385	मुकेश कुमार मोची, पुत्र श्री ओम प्रकाश मोची	राजएसवीसी / 3774 / 10	एसएच-06, बस स्टैंड के निकट, ग्राम आदसर, तहसील झूगरगढ़, बीकानेर- 331803, राजस्थान	बीवीएससीएंडएच / एसकेवीआरएयू / 10	02.04.85

1386	मुकेश कुमार, पुत्र श्री गोपाल प्रसाद	राजएसवीसी/ 3625/09	सूरज पोल गेट आउटर, न्यू कॉलोनी, भरतपुर- 321001, राजस्थान	बीवीएससीएंडएच /आरएयू/09	08.02.82
1387	मुकेश कुमार, पुत्र स्व. श्री जोगेश्वर	सीएसएसवीसी /531/10	केंद्रपाड़ा, वार्ड नं- 10, डोंगर गांव, राजनंद गांव, छत्तीसगढ़	बीवीएससीएंडएच /आईजीकेवी/0 9	20.06.84
1388	मुक्तिकांत सेठी, पुत्र श्री हरीश चंद्र सेठी	ओएसवीसी/2 281/09	एटी- बाजीपुर, डाक- गोपालपुर, जिला- बालासोर- 756044, उड़ीसा	बीवीएससीएंडएच /ओयूएटी/09	05.04.82
1389	मुलानी जावीद बशीर	महाएसवीसी/ 8227/09	जिन्जेवस्ती, पिलिव, तालुक मात्सिरास, जिला- सोलापुर- 413310, महाराष्ट्र	बीवीएससीएंडएच /एमएएंडएफएसयू /09	01.06.85
1390	मूलराज देवाभाई ओडेरा	जीवीसी/1715	मवेशी प्रजनन फार्म, जूनागढ़ कृषि विश्वविद्यालय, जूनागढ़- 362001, गुजरात	बीवीएससीएंडएच /जीएयू/94	21.11.71
1391	मुलुक प्रेरणा कांतिलाल	महाएसवीसी/ 8330/10	शिवाजी हाउसिंग सोसायटी, एकता चौक, रूपीनगर, तालुक हवेली, जिला- पुणे- 412114, महाराष्ट्र	बीवीएससीएंडएच /एमएएंडएफएसयू /09	12.12.86
1392	मुनेंद्र कुमार, पुत्र श्री धर्म वीर सिंह	यूपीएसवीसी/ 4942/09	ग्राम- अम्बेरा, डाक- मंडीघनूरा, जिला- जे. पी. नगर, उ.प्र.	बीवीएससीएंडएच /एनडीयूएंडटी/ 09	14.07.82
1393	मुनीश चंदर, पुत्र श्री प्यार चंद	एचवीसी/861 /09	ग्राम रूपा, आर.ओ. धामिरू, सहसील लाड भरोल, जिला मंडी, उना	बीवीएससीएंडएच /सीएसकेएचपीकेवी /09	20.04.87
1394	मुरलीदाराने, पुत्र श्री पाविकरी	पॉण्डीएसवीसी /321/09	नं.- 17, मरियम्मा कोइल स्ट्रीट, बहौर पेट एवं डाक, पुडुचेरी- 607402	बीवीएससीएंडएच /पीयू/09	3.4.82
1395	मुरलीधरन के. (आर. काथिरवेल)	टीएनएसवीसी /4550/09	4/60, अंगल्लम्मन कोइल स्ट्रीट, सौधापुरम डाक, वेन्ननडूर वाया, रासी पुरम तालुक, नमक्कल - 637505, तमिलनाडु	बीवीएससीएंडएच /टीएनयूवीएस /09	16.06.86
1396	मुरनाल हरीश गुरूराज	जीवीसी/933	डी/ 99, वृंदावन टाउनशिप, गोत्री वासना रोड, हरिनगर, वडोदरा- 12, गुजरात	बीवीएससीएंडएच /केकेवी/85	15.12.62
1397	मूर्थि सी.एम., पुत्र श्री नारायणप्पा सी. एम.	कर्नाएसवीसी/ 4344/09	चंदमानाहल्ली- 563101, कोलार तालुक व जिला, कर्नाटक	बीवीएससीएंडएच /केवीएफएसयू/ 09	4.3.85

1398	मुसादिदक खान, पुत्र श्री मुख्तार खान	कनाएसवीसी / 4305 / 09	न. 387, छठा क्रॉस, राजीव नगर, मैसूर— 570019, कर्नाटक	बीवीएससीएंडएएच / केवीएएफएसयू/ 09	10.1.86
1399	मुसाले वसुधा बाबूराव	महाएसवीसी / 8221 / 09	संजीवनी निवास, मिरकाले नगर, तालुक अहमदपुर, जिला लातूर— 413515, महाराष्ट्र	बीवीएससीएंडएएच / एमएएंडएफएसयू / 09	21.05.85
1400	मुशताक अहमद, पुत्र श्री खालिक अहमद	यूपीएसवीसी / 4958 / 09	ग्राम एवं डाक— हफीज गंज (बाई पास), जिला बरेली, उ.प्र.	बीवीएससीएंडएएच / यूपीपीडीडीयूपीसी वीवी / 09	02.07.80
1401	मुरुथु पलानिअप्पन एम. (एस.मरुथपपन)	टीएनएसवीसी / 4639 / 09	11—ए, सरस्वती नगर, मेन रोड, इयप्पन नगर, थिरुमुल्लईवोयल, चेन्नई— 600062, तमिलनाडु	बीवीएससीएंडएएच / टीएनयूवीएएस / 09	07.04.86
1402	मुथुसामी पी. (एम. पेरुमल)	टीएनएसवीसी / 4443 / 09	आट्टोपिदरम डाक व तालुक, द्यूटिकोरिन जिला, पिन— 628401, तमिलनाडु	बीवीएससी / टीएन यूवीएएस / 94	12.04.64
1403	मैथिली आर. (पी.पी. रामासामी)	टीएनएसवीसी / 4641 / 09	29 / 26, मेन रोड, के. पुडुर, काविंडापडी डाक, इरोडे— 638455, तमिलनाडु	बीवीएससीएंडएएच / टीएनयूवीएएस / 09	30.05.84
1404	एन. कृष्णावेनी, पुत्री श्री ए. नागावेलू	पॉण्डीएसवीसी / 327 / 09	ए-1, टाइप सेक्रेटरी क्वार्टर्स, इंद्रा नगर, गोरीमैदू, पुडुचेरी— 6	बीवीएससीएंडएएच / पीयू / 09	05.01.85
1405	एन. लावण्या, पुत्री श्री एन. नारायणा	एपीएसवीसी / 04973 / 09	पी. लेविडी (ग्राम), गुम्मालमीपुरम डाक, कुरुपम (एम), जिला विजियानगरम, आंध्र प्रदेश	बीवीएससीएंडएएच / एसवीवीयू / 09	01.04.85
1406	एन. सरथ कुमार रेड्डी, पुत्र श्री एन. रामा सुब्बा रेड्डी	एपीएसवीसी / 04895 / 09	एम.जी. पुरम (डाक), इसुकापल्ली (ग्राम), राजमपेट (एम), कडप्पा जिला, आंध्र प्रदेश	बीवीएससीएंडएएच / एसवीवीयू / 09	29.07.84
1407	एन.वी. साबरी नाथ एन., पुत्र श्री एन.वी. के.एस.एस. प्रसाद	एपीएसवीसी / 04981 / 09	13 / 147—ए, पतीमीदा, त्रिवेणी स्कूल के सामने, गुडीवाड़ा— 521301, आंध्र प्रदेश	बीवीएससीएंडएएच / एसवीवीयू / 09	23.08.87
1408	एन. वेंकट रवितजा, पुत्र श्री एन. रामा मोहना राव	एपीएसवीसी / 04941 / 09	चिन्ना कुम्बम डाक, पोरुमामिला पल्ली कुम्बम (एम), प्रकासम जिला, आंध्र प्रदेश	बीवीएससीएंडएएच / एसवीवीयू / 09	30.06.86
1409	नबील मुहम्मद टी. एम., पुत्र श्री नूरुद्दीन	केएसवीसी / 35 61 / 09	मलियक्केल, अरामबरम, पदानीलम, कोज़ीकोड— 673571, केरल	बीवीएससीएंडएएच / केएसयू / 09	30.05.85

1410	नाडियावाला हैदरी अमीरुद्दीन	जीवीसी/1773	द्वारा उत्तम डेरी, अहमदाबाद, गुजरात	बीवीएससीएंडएच /जीएयू/95	8.11.51
1411	नोदाधा जलभाई वेलाभाई	जीवीसी/788	16, शिव आशीष सोसायटी, बोपल, कालपुर बैंक के पीछे, अहमदाबाद	बीवीएससीएंडएच /जीएयू/84	1.6.80
1412	नागरे प्रिया आनंदराव	महाएसवीसी/ 8199/09	प्लॉट न. 163, डाक- भगवान नगर, दशरथ लिबर्टी, जोगीनगर, नागपुर-400027, महाराष्ट्र	बीवीएससीएंडएच /एमएएंडएफएसयू /09	11.11.84
1413	नागे प्रवीण रामकृष्णा	महाएसवीसी/ 8174/09	एटी एवं डाक- जठारपेट, गायत्री नगर, मोठी उमरी, तालुक व जिला अकोला- 444005, महाराष्ट्र	बीवीएससीएंडएच /एमएएंडएफएसयू /09	18.07.85
1414	नागमोत्रे स्वप्निल गुनवंत, पुत्र श्री नागमोत्रे गुनवंत	कर्नाएसवीसी/ 4355/09	न. 10/2, 17वां क्रॉस, 24वां मेन, जे.पी. नगर, छठा फेज, बेंगलुरु- 560078, कर्नाटक	बीवीएससीएंडएच /एमएएफएसयू/0 7	16.4.84
1415	नागपुरे प्रसाद सुभाष	महाएसवीसी/ 8215/09	द्वारा सुभाष डी. नागपुरे, वजे कोल डिपो के निकट, बाजोरिया नगरी, हिंमना रोड, कौलखेड रोड के पास, तालुक, जिला, अकोला -444004	बीवीएससीएंडएच /एमएएंडएफएसयू /09	11.07.84
1416	नागरले बुलबुल गजानन	महाएसवीसी/ 8177/09	राजहितगढ़, 2, बाबूपेठ नं. 2, तालुक व जिला चंद्रपुर- 442403, महाराष्ट्र	बीवीएससीएंडएच /एमएएंडएफएसयू /09	23.04.85
1417	नहीफ के., पुत्र श्री असईनर के.	केएसवीसी/35 63/09	कोवकाडथ हाउस, पांयली अंगडी डाक, वेडाकारा (वाया)- 673523, केरल	बीवीएससीएंडएच /केएयू/09	28.05.84
1418	नइमुद्दीन पंवार, पुत्र श्री अलाउद्दीन पंवार	राजएसवीसी/ 3726/10	गली न. 6, घोबी तालाई, बीकानेर- 334001, राजस्थान	बीवीएससीएंडएच /एसकेवीआरएयू/ 10	27.07.82
1419	नायर धान्या वेनुगोपालन	महाएसवीसी/ 8315/10	21/बी/6, इंडियन एयरलाइंस स्टाफ क्वार्ट., कलीना, सांताक्रुज़ (ईस्ट), मुम्बई-400029, महाराष्ट्र	बीवीएससीएंडएच /एमएएंडएफएसयू /09	26.07.86
1420	नकरानी भवन मधाभाई	जीवीसी/828	39- शिव पावर्ती सोसायटी, नाना वरछा रोड, सूरत, गुजरात	बीवीएससीएंडएच /जीएयू/80	7.6.54
1421	नकुम हर्षवर्धन धनजीभाई	जीवीसी/1044	बी-132, मोतीनगर- 2, सुसेन -तारसाली रोड, बडौदा, गुजरात	बीवीएससीएंडएच /जीएयू/88	29.7.85

1422	नकुम डाह्याभाई हीराभाई	जीवीसी/1292	भाग्यलक्ष्मी होटल के सामने, पोरबंदर रोड, चार रास्ता, जाम खम्भालिया, जिला जामनगर, 36130, गुजरात	बीवीएससीएंडएच / जीएयू/90	20.8.66
1423	नलिना रानी पी. (के० पलानीस्वामी)	टीएनएसवीसी /4573/09	226, सम्पत नगर, एलिस नगर डाक, धारापुरम, तिरुपुर- 638657, तमिलनाडु	बीवीएससीएंडएच / टीएनयूवीएएस /09	06.06.86
1424	नलिनी प्रजापति, पुत्री श्री हनुमान प्रसाद	सीएसएसवीसी /513/10	न्यू शांति नगर, रोड न. 6, रायपुर, छत्तीसगढ़	बीवीएससीएंडएच / आईजीकेवीवी/0 9	09.09.83
1425	नलिनी पी. (एम. पलानीवेल)	टीएनएसवीसी /4657/09	वेस्ट स्ट्रीट, पिन्डियूर डाक, कोट्टाईथेरु, थंजावूर जिला, 614902, तमिलनाडु	बीवीएससीएंडएच / टीएनयूवीएएस /09	20.03.84
1426	नम्रता शर्मा, पुत्री डॉ. के.सी. शर्मा	यूकेएसवीसी/ 495/09	गली न. 2, रामपुर रोड, हलद्वानी, जिला नैनीताल, उत्तराखंड	बीवीएससीएंडएच / जीबीपीयूएंडटी /09	24.07.86
1427	नम्रता शर्मा, पुत्री श्री राजेंद्र कुमार शर्मा	एचवीसी/880 /09	ग्राम गौना, डाक करौर, तहसील नदाऊँ, जिला हमीरपुर, हि.प्र.	बीवीएससीएंडएच / सीएसकेएचपीकेवी /09	23.03.85
1428	नंदवाना रामजी भाई लखाभाई	जीवीसी/1432	एटी: कन्सारी, डाक उना, तालुक उना, जिला जूनागढ़, 362560, गुजरात	बीवीएससीएंडएच / जीएयू/91	9.5.67
1429	नरहरि एन. (एस. एल.एन. मूर्ति)	टीएनएसवीसी /4424/09	सी-175, स्मृति अपार्टमेंट्स, चौथी मंजिल, 11 एवेन्यू, अशोक नगर, चेन्नई-600083, तमिलनाडु	बीवीएससी/एम.यू. /60	16.11.34
1430	नरसिमइयाह एन., पुत्र श्री नालप्पा	कर्नाएसवीसी/ 4353/09	अनिलनीलया, 80 फुट रोड, महालक्ष्मी नगर, बाटावाड़ी, 572103, तुमकूर तालुक व जिला, कर्नाटक	बीवीएससी/यूएस बंगलौर/71	13.5.47
1431	नारायणन के. (पी. कृष्णास्वामी)	टीएनएसवीसी /4435/09	128, नॉर्थ स्ट्रीट, थिरुवड्यरु थंजावूर- 613204, तमिलनाडु	बीवीएससी/टीएन यूवीएएस/96	31.07.73
1432	नरेंद्र कुमार नायक, पुत्र श्री बाबू लाल नायक	सीएसएसवीसी /512/10	ग्राम एवं डाक- नौरंगपुर, जिला रायगढ़, छत्तीसगढ़	बीवीएससीएंडएच / आईजीकेवीवी/0 9	25.12.85
1433	नरेंद्र सिंह, पुत्र श्री सतनाम सिंह	हरिएसवीसी/2 105	532/21 गली, हैफेड गेट के सामने, सुखपुरा, रोहतक, हरियाणा	बीवीएससीएंडएच / सीसीएचएयू/09	2.7.85

1434	नरेंद्र सिंह, पुत्र श्री ठाकुर प्रसाद सिंह	सीएसएसवीसी / 464 / 09	201, सागर परिसर, नेहरू नगर, बिलासपुर, छत्तीसगढ़	बीवीएससीएंडएएच / जेएलएनकेवीवी / 93-84	25.09.71
1435	नरेंद्र ठाका, पुत्र श्री गणेश राम	राजएसवीसी / 3698 / 09	ग्राम एवं डाक-डाबरीयानी, वाया रेन, तहसील- मरटा सिटी, नागौर- 341514, राजस्थान	बीवीएससीएंडएएच / केएयू / 09	19.10.85
1436	नरेंद्र सिंह बुंदेला, पुत्र श्री वीर सिंह बुंदेला	एमपीएसवीसी / 2630 / 09	पुलिस कॉलोनी के सामने, अजय गढ़, पन्ना, म.प्र.- 488220	बीवीएससीएंडएएच / जेएनकेवीवी / 09	3.09.82
1437	नरेंद्र सिंह चंद्रावत, पुत्र श्री एस. सिंह चंद्रावत	राजएसवीसी / 3708 / 10	648, महावीर नगर-1, कोटा- 324005, राजस्थान	बीवीएससीएंडएएच / एसकेवीआरएयू / 10	23.11.83
1438	नरेश कुमार मुदगल, पुत्र श्री श्याम मोहन शर्मा	राजएसवीसी / 3770 / 10	ग्राम एवं डाक- समझाया, तहसील- वेङ्कर, भरतपुर- 321408, राजस्थान	बीवीएससीएंडएएच / एसकेवीआरएयू / 10	01.07.84
1439	नरेश कुमार, पुत्र श्री महावीर प्रसाद	हरिएसवीसी / 2 097	दया राम पब्लिक स्कूल, सिरसा रोड, हिसार, हरियाणा	बीवीएससीएंडएएच / सीसीएचएयू / 09	24.12.86
1440	नरेश कुमार श्रीवास्तव	जीवीसी / 1933	1, निधि बंगला, सिद्धराज जयसिंह नगर, सर्किट हाउस के पीछे, आबू रोड हाइवे, एटी- पालनपुर, जिला- बनासकंठा- 385001	बीवीएससीएंडएएच / जेएलएनकेवीवी / 90	17.2.87
1441	नरेश कुमार सी. (सी. रंगनाथन)	टीएनएसवीसी / 4487 / 09	न. 114 (पुराना न. 42), आर्या गौडा रोड, चेन्नई- 800033, तमिलनाडु	बीवीएससी / टीएनएयू / 78	18.07.56
1442	नरेश मिठरवाल, पुत्र श्री ताराचंद	राजएसवीसी / 3601 / 09	वार्ड न. 2, नीम का धाना, सीकर, राजस्थान	बीवीएससीएंडएएच / आरएयू / 09	10.07.84
1443	नरजीत सिंह राजपूत, पुत्र श्री जगराम सिंह	यूपीएसवीसी / 4909 / 09	1413, शिवकुंज कुइया रोड, इंद्रा नगर, ओरई, जिला जलौन, उ.प्र.	बीवीएससीएंडएएच / यूपीपीडीडीयूपीसी वीवी / 09	01.12.83
1444	नरोदिया रमेशचंद्र बाबूलाल	जीवीसी / 718	वेटरिनरी डिस्पेंसरी, धीतल तालुक- अमरेली, जिला- अमरेली, गुजरात	बीवीएससीएंडएएच / जीएयू / 83	1.8.80
1445	नरपत सिंह, पुत्र श्री मफत सिंह	राजएसवीसी / 3647 / 09	ग्राम व डाक- धामसीन, वाया- बरगांव, तहसील- रानीवाड़ा, जालौर- 343048, राजस्थान	बीवीएससीएंडएएच / एमएफएसयू / 09	05.02.84

1446	नरवाडे संदीप नारायण	महाएसवीसी/ 8233/09	चतरी, तालुक उमरखेड, जिला— यवतमाल— 445206, महाराष्ट्र	बीवीएससीएंडएच /एमएंडएफएसयू /09	02.09.83
1447	नसीमा सिदिकी, पुत्री श्री अलउद्दीन सिदिकी	एमपीएसवीसी /2614/09	सीनियर एमआईजी-68, पुराना सुभाष नगर, भोपाल, म.प्र.— 482001	बीवीएससीएंडएच /जेएनकेवीवी/09	12.08.84
1448	नटराज डी., पुत्र श्री डोडा हनुमथप्पा	कर्नाएसवीसी/ 4318/09	कोडूर, पेरेसान्द्रा— 560104, चिक्कबल्लापुरा तालुक व जिला, कर्नाटक	बीवीएससीएंडएच /केवीएफएसयू/ 09	15.6.85
1449	नाथ पिकी मोनी, पुत्र श्री भुवन च. नाथ	एसएम/247 4/10	द्वारा बी.सी. नाथ, ग्राम— बड़पुखरीपार, डाक—मलेश्वर, जिला सोनितपुर, असम	बीवीएससीएंडएच /एसयू/09	20.4.84
1450	नाथ रोबिन चंद्र, पुत्र श्री होमेश्वर नाथ	एसएम/246 8/09	ग्राम दरगियाल गांव, डाक—थाना कामपुर, जिला— नागांव, असम	बीवीएससीएंडएच /एसयू/09	1.5.81
1451	नाथ सपना, पुत्र श्री भुवन च. नाथ	एसएम/247 6/09	द्वारा श्री बी.सी. नाथ, ग्राम— बड़ाखुरीपार, डाक मलेश्वर, जिला— सोनितपुर, असम	बीवीएससीएंडएच /एसयू/09	6.11.85
1452	नवरंगे प्रवीन प्रहलादराव	महाएसवीसी/ 8198/09	रुक्मिणी नगर, जोगलकर प्लॉट, देसाई ड्रॉइंग स्कूल के निकट, अमरावती, महाराष्ट्र	बीवीएससीएंडएच /एमएंडएफएसयू /09	22.02.82
1453	नावासे सुजीत नामदेव	महाएसवीसी/ 8336/10	ए/पी नईगांव, तालुक खंडाला, जिला— सतारा— 412801, महाराष्ट्र	बीवीएससीएंडएच /एमएंडएफएसयू /09	18.05.87
1454	नवाव सिंह, पुत्र श्री अमर सिंह	राजएसवीसी/ 3771/10	129, अनीता कॉलोनी—डी, हाजयावाला, सांगानेर, जयपुर— 303902, राजस्थान	बीवीएससीएंडएच /एसकेवीआरएसयू/ 10	08.08.83
1455	नवीन जी., पुत्र श्री गंगाधर मूर्ति टी.के.	कर्नाएसवीसी/ 4279/09	दूसरा क्रॉस, मारुथिनगर गुब्बी— 572216, तुमकुर जिला, कर्नाटक	बीवीएससीएंडएच /केवीएफएसयू/ 09	25.1.87
1456	नवीन कुमार, पुत्र श्री प्रभाती राम	राजएसवीसी/ 3600/09	ग्राम— भेसवाता खुर्द, बाया— सिंघाना, झुंझुनू— 333516, राजस्थान	बीवीएससीएंडएच /आरएसयू/09	10.05.75
1457	नवीन पांडे, पुत्र श्री शंकर दत्त पांडे	यूकेएसवीसी/ 459/09	तीन ताश, एम.वी.एम. के निकट, हलद्वानी, जिला— नैनीताल, उत्तराखंड	बीवीएससीएंडएच /जीबीपीयूएंडटी /09	05.06.84

1458	नवीवाला रफीक अबुबाकर	जीवीसी/477	602, आयेशा टावर, गोरार रोड, जिलानी अदाजन पटिया के सामने, सूरत- 395009, गुजरात	बीवीएससीएंडएच /जीएयू/78	13.3.54
1459	नवनीत जोशी, पुत्र श्री नवीन चंद्र जोशी	यूकेएसवीसी/ 502/10	द्वारा श्री पी.सी. कंडपाल कपिल कॉलोनी, आदर्श नगर, मुखानी, हलहानी, जिला नैनीताल, उत्तराखंड	बीवीएससीएंडएच /आरएयू/03	26.02.78
1460	नवरत्न चौधरी, पुत्र श्री राम प्रसाद चौधरी	सीएसएसवीसी /532/10	ग्राम- डारामाटा, डाक- बोडा दराईपाली, जिला- महासमुंद, छत्तीसगढ़	बीवीएससीएंडएच /जेएलएनकेवीवी/ 90.91	01.04.86
1461	नायक इंद्रवदन ईश्वरलाल	जीवीसी/3161 /10	नानाधेखला, तालुक तालोड, जिला साबरकंठा, गुजरात	बीवीएससीएंडएच /एएयू/10	10.08.82
1462	नायक रणजीत सिंह हनीरसिंह	जीवीसी/803	11, आम्रपाली सोसायटी, दाहोद, जिला दाहोद, गुजरात	बीवीएससीएंडएच /जीएयू/84	15.12.80
1463	नायी नीलेश कुमार गिरिधर भाई	जीवीसी/2047	डी-9, स्टाफ क्वार्टर्स, साबरमती आश्रम गौशाला, गांधी आश्रम के निकट, अहमदाबाद, गुजरात	बीवीएससीएंडएच /जीएयू/97	4.2.75
1464	नायी रमेशचंद्र नारायणभाई	जीवीसी/935	एटी एवं डाक- कामना, तालुक विशनगर, जिला मेहसाना, गुजरात	बीवीएससीएंडएच /जीएयू/86	29.7.63
1465	नज़ीरुद्दीन एम.डी. (मौह. जमालुद्दीन)	टीएनएसवीसी /4663/09	पुराना न. 23/54, नया न. नायर वरदापिल्ले स्ट्रीट, रोयापेटाह, चेन्नई- 600014, तमिलनाडु	बीवीएससी/एमयू/ 73	15.11.46
1466	नीलू ठाकुर, पुत्री श्री जीतेंद्र सिंह ठाकुर	एमपीएसवीसी /2623/09	एम-35, शारदा कॉलोनी, जबलपुर, म.प्र.- 482002.	बीवीएससीएंडएच /जेएनकेवीवी/09	19.1.83
1467	नीना गुप्ता, पुत्री बाबू लाल गुप्ता	राजएसवीसी/ 3626/09	बाबू लाल विजय कुमार, जीबी -51, नई मंडी यार्ड, दिल्ली रोड, अलवर-301001, राजस्थान	बीवीएससीएंडएच /आरएयू/09	31.08.83
1468	नीरज कुमार शर्मा, पुत्र श्री कैलाश चंद्र शर्मा	राजएसवीसी/ 3633/09	ग्राम एवं डाक- तिवाली, तहसील बामनवास, सवाई माधोपुर- 322211, राजस्थान	बीवीएससीएंडएच /आरएयू/09	10.05.84
1469	नीरज सचान, पुत्र श्री आर.एस. सचान	यूपीएसवीसी/ 5037/09	15/बी-2, सिविल लाइन, फतेहपुर, उ.प्र.	बीवीएससीएंडएच /एनडीयूएंडटी/ 09	26.02.80

1470	नीरज शर्मा, पुत्र श्री ईश्वर दत्त	हरिएसवीसी/2 115	1023, न्यू हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी, पानीपत, हरियाणा	बीवीएससीएंडएच / सीसीएचएयू/09	11.12.85
1471	नीरज यादव, पुत्र श्री एस.एस. यादव	यूपीएसवीसी/ 4938/09	177, बापू नगर, शिकोहाबाद रोड, सुनहरी नगर गेट के निकट, एटा, उ.प्र.	बीवीएससीएंडएच / एनडीयूएंडटी/ 09	26.03.81
1472	नेहा चौधरी, पुत्री श्री खजान चंद्र चौधरी	यूकेएसवीसी/ 465/09	पारसीसाह स्टूडियो बिल्डिंग, पशु चिकित्सा अस्पताल के निकट, मल्लीताल, नैनीताल, उत्तराखंड	बीवीएससीएंडएच / जीबीपीयूएंडटी /09	02.06.85
1473	नेहा मिश्रा, पुत्री श्री जे.पी. मिश्रा	एमपीएसवीसी /2648/09	न्यू कॉलोनी, नौगांव, छतरपुर, म.प्र.	बीवीएससीएंडएच / जेएनकेवीवी/09	30.7.83
1474	नेहा साहू, पुत्री श्री ए.एस. साहू	सीएसएसवीसी /511/10	प्लॉट न. 62/4, स्ट्रीट मैत्री कुंज, रिसाली, भिलई, छत्तीसगढ़	बीवीएससीएंडएच / आईजीकेवीवी/0 9	21.06.86
1475	नेहा सिन्हा, पुत्री श्री के.एन. सिन्हा	यूपीएसवीसी/ 4980/09	खरे ब्रदर्स, गांधी नगर, महोबा, उ.प्र.	बीवीएससीएंडएच / यूपीपीडीडीयूपीसी वीवी/09	24.09.84
1476	नईधोनो कुओत्सु, पुत्र श्री सिऊ कुओत्सु	एनएसवीसी/0 244/09	वार्ड न. 111, मेदजीफेमा टाउन, नागालैंड	बीवीएससीएंडएच / एएयू/09	16.6.84
1477	नेमीचंद, पुत्र श्री हरलाल	राजएसवीसी/ 3638/09	ग्राम-फूलन, डाक देओरा, तहसील सिवाना, बाड़मेर- 343044	बीवीएससीएंडएच / केवीएफएसयू/ 09	19.05.82
1478	नियोग दिव्यज्योति, पुत्र श्री गोबिंद च. नीगो	एएसएम/244 0/09	ग्राम न. 1, मज़गांव, डाक- फुलबाड़ी, बोकानोडी, लखीमपुर, असम	बीवीएससीएंडएच / एएयू/09	1.3.80
1479	नियोग रंजन, पुत्र श्री शिवा नियोग	एएसएम/245 8/09	ग्राम-डिसिअल, डाक-सिलपुरखुरी, जिला- सिवासागर- 785664, असम	बीवीएससीएंडएच / एएयू/09	1.1.85
1480	नेपरम प्रीतम सिंह, पुत्र श्री गोपाल सिंह	एएसएम/247 1/09	ए.एम. रोड, अप्सरा हाक के सामने, म.न. 30, असम	बीवीएससीएंडएच / एएयू/09	23.12.84
1481	नेथाजी कुमार ए. (एस. आसाई थम्बी)	टीएनएसवीसी /4643/09	297, पंडियान नगर, मनिक्कम पलायम, इरोडे- 638004, तमिलनाडु	बीवीएससीएंडएच / टीएनयूवीएस /09	18.10.85

1482	नेथरा आर., पुत्र श्री रामचंद्रा रेड्डी एन.	कर्नाएसवीसी / 4295 / 09	प्रभाकर लेआउट, चिंतामनि- 560125, चिक्कबल्लापुर जिला, कर्नाटक	बीवीएससीएंडएएच / केवीएफएसयू / 09	26.1.87
1483	नेवसे ओमकार प्रकाश	महाएसवीसी / 8355 / 10	1943, रविवार पेठ, वाई, तालुक वाई, जिला- सतारा- 412803, महाराष्ट्र	बीवीएससीएंडएएच / एमएएंडएफएसयू / 09	05.07.84
1484	निधि पांडे, पुत्री श्री जय प्रकाश पांडे	राजएसवीसी / 3758 / 10	ए-73, शांतिलक्ष्मी कुंज, पवनपुरी, बीकानेर- 334001, राजस्थान	बीवीएससीएंडएएच / एसकेवीआरएयू / 10	26.05.83
1485	निधि राजपूत, पुत्री श्री ललित प्रसाद सिंह राजपूत	एमपीएसवीसी / 2647 / 09	14 / 119, विजय चौक, विजय नगर, जबलपुर, म.प्र.- 482002	बीवीएससीएंडएएच / जेएनकेवीवी / 09	20.12.86
1486	निहार रंजन दाश, पुत्र श्री राजेंद्र कुमार दाश	ओएसवीसी / 2 309 / 09	एटी- ईबी-321, बडेगाडा ब्रिट कॉलोनी, भुबनेश्वर- 751018, उड़ीसा	बीवीएससीएंडएएच / ओयूएटी / 09	28.11.85
1487	निकम चंद्रशेखर पांडुरनजी	जीवीसी / 3039 / 09	बनास डेरी कॉलोनी स्टाफ क्वार्टर्स, बनास डेरी, जगना, जिला बी.के., गुजरात	बीवीएससीएंडएएच / पीकेवी / 89	13.09.85
1488	निकम प्रशांत नवल	महाएसवीसी / 8240 / 09	58-ए, फुले नगर, सिनफाने, तालुक शिरपुर, जिला- धुले- 425406, महाराष्ट्र	बीवीएससीएंडएएच / एमएएंडएफएसयू / 09	25.01.86
1489	निकुंज ए. पटेल	जीवीसी / 3084 / 09	एटी एवं डाक- वासना चौधरी, नवग्रह, तालुक- देहगाम, दियात- गांधीनगर, गुजरात	बीवीएससीएंडएएच / एएयू / 09	05.09.87
1490	नीरज कश्यप, पुत्र श्री दिनेश कुमार कश्यप	सीएसएसवीसी / 539 / 10	ठाकुर देव पाड़ा, जरहागांव, बिलासपुर, छत्तीसगढ़	बीवीएससीएंडएएच / आईजीकेवीवी / 09	18.02.85
1491	निरंजन बी.एच., पुत्र श्री हुनप्पा	कर्नाएसवीसी / 4292 / 09	बिलिगेरे- 572114, तिमपुर तालुक, तुमकूर जिला, कर्नाटक	बीवीएससीएंडएएच / केवीएफएसयू / 09	5.2.86
1492	निर्मल कुमार जेफ, पुत्र श्री गौरी शंकर मोना	राजएसवीसी / 3718 / 10	ग्राम राज सिंह की धानी, डाक चीपलाता, तहसील नीम का धाना, सीकर 332705, राजस्थान	बीवीएससीएंडएएच / एसकेवीआरएयू / 10	12.03.86
1493	निर्मल सिंह, पुत्र श्री रामचंद्र	हरिएसवीसी / 2 131	4293, डिफेंस कॉलोनी, जींद, हरियाणा	बीवीएससीएंडएएच / सीसीएचएयू / 09	16.3.86

1494	निर्मला मीना, पुत्री श्री राधे श्याम मीना	राजएसवीसी / 3761 / 10	ग्राम- हठोली, डाक- राजोपा, तहसील पिपलदा, कोटा, राजस्थान	बीवीएससीएंडएच / एसकेवीआरएयू/ 10	05.01.85
1495	निशा सिरिएक, पुत्री श्री सिरिएक पी.ओ.	केएसवीसी / 35 45 / 09	पंथालाट्ट हाउस, थलायोलापरम्बु डाक, थलायोलापरम्बु, कोट्टायम- 686605, केरल	बीवीएससीएंडएच / केएयू / 09	29.04.85
1496	निशा एस.पी., पुत्री श्री एन. प्रभाकरन	केएसवीसी / 36 03 / 09	फॉरेस्ट स्टाफ क्वार्टर्स, फॉरेस्ट रेस्ट हाउस के निकट, कोन्नी, पथानमथिट्टा, केरल	बीवीएससीएंडएच / केएयू / 09	23.04.85
1497	निशा, पुत्री श्री मोहिन्दर सिंह चंडेल	एचवीसी / 879 / 09	ग्राम बड़ीमियां, डाक घेरविन, तहसील जंडुथा, जिला बिलासपुर, हि.प्र.	बीवीएससीएंडएच / सीएसकेएचपीकेवी / 09	28.04.86
1498	निशांत कुमार, पुत्र श्री उपेंद्र ठाकुर	जेवीसी / 631 / 09	क्वा.न. - 2194, सेक्टर-12 एफ, बोकारो स्टील सिटी, बोकारो- 827012, झारखंड	बीवीएससीएंडएच / बीएयू / 09	23.06.81
1499	निशिथा के.ए., पुत्री श्री अब्दुल सलाम के.ए.	केएसवीसी / 35 53 / 09	करप्पन वीट्टिल, वडाकांचेरी (आर.एस.), डाक थिसूर- 680623, केरल	बीवीएससीएंडएच / केएयू / 09	13.04.86
1500	नीता शर्मा, पुत्री श्री ईश्वर प्रसाद शर्मा	सीएसएसवीसी / 495 / 10	ग्राम एवं डाक- बोदला, जिला- कबीरधाम, छत्तीसगढ़	बीवीएससीएंडएच / आईजीकेवीवी / 0 9	31.08.85
1501	नीता सोनी, पुत्र श्री रमेश लाल सोनी	सीएसएसवीसी / 507 / 10	नमन क्लेरिंग हाउस, अम्बिकापुर, जिला सरजूगा, छत्तीसगढ़	बीवीएससीएंडएच / आईजीकेवीवी / 0 9	18.06.82
1502	निधीश अंद्रेया राजा सिंह पी. (के.सी.जे. प्रेम सिंह)	टीएनएसवीसी / 4464 / 09	9-बी.कृष्णापुरम सेकंड स्ट्रीट (एल जीबी नगर), श्रवनमपट्टी डाक, कोयम्बतूर- 641035, तमिलनाडु	बीवीएससी / टीएन यूवीएस / 00	19.11.76
1503	निध्यावानी ए. (ए. अन्नामलई)	टीएनएसवीसी / 4537 / 09	6, गांधी नगर, दूसरी स्ट्रीट, तिरुपट्टूर, वेल्लोर जिला, तमिलनाडु	बीवीएससीएंडएच / टीएनयूवीएस / 09	14.01.86
1504	नितिका काराकोटी, पुत्री श्री एल.एस. काराकोटी	यूकेएसवीसी / 476 / 09	ग्राम- धनोली-टल्ली, डाक सिनोरा, तहसील- भिक्वासेन, जिला- अल्मोडा, उत्तराखंड	बीवीएससीएंडएच / जीबीपीयूएंडटी / 09	04.03.87
1505	नितिन अट्टपुुरम, पुत्र श्री मोहन अट्टपुुरम	केएसवीसी / 35 65 / 09	अट्टपुुरथ, पल्लीपाड (डाक), अलपुजाह- 690512, केरल	बीवीएससीएंडएच / केएयू / 09	13.04.85

1506	नितिन मोहन गुप्ता, पुत्र श्री आर.एम. गुप्ता	एमपीएसवीसी / 2655 / 10	मैसर्स वस्त्रलोक, 476001, म.प्र.	हनुमान चौक, मोरैना—	बीवीएससीएंडएच / जेएनकेवीवी / 09	13.9.83
1507	नोबल राजकुमार टी. (के.एस.के. धंगामनि)	टीएनएसवीसी / 4488 / 09	कुमारापुरी III स्ट्रीट, 638051, तमिलनाडु	चेन्नईमलई, इरोडे—	बीवीएससीएंडएच / टीएनयूवीएस / 09	17.01.85
1508	नोडोलिया मुस्लिम भाई अहमदभाई	जीवीसी / 3018 / 09	एटी एवं डाक— जिला— बी.के.—	वासु, तालुक— वडगाम, 385001, गुजरात	बीवीएससीएंडएच / एसडीएयू / 09	24.07.85
1509	नृपेंद्र सिंह, पुत्र श्री बनस्पति सिंह	सीएसएसवीसी / 528 / 10	रेखांकन कॉलोनी, म.न. 18, अम्बिकापुर, छत्तीसगढ़	मानेंद्रगढ़ रोड,	बीवीएससीएंडएच / आईजीकेवीवी / 0 9	15.10.88
1510	नूतन रामटेके, पुत्री श्री संत राम रामटेके	सीएसएसवीसी / 536 / 10	अम्बागढ़ चौकी, राजमंदन गांव, छत्तीसगढ़		बीवीएससीएंडएच / आईजीकेवीवी / 0 9	04.06.85
1511	ओ. श्रीविवास, पुत्र श्री ओ. राजा रेड्डी	एपीएसवीसी / 04887 / 09	श्रीरामुलापल्ली (ग्राम), करीमनगर, जिला आंध्र प्रदेश	कोडीमियल (एम), आंध्र प्रदेश	बीवीएससीएंडएच / एसवीवीयू / 09	15.01.85
1512	ओडेरा हरदास जीवामाई	जीवीसी / 2254	द्वारा हरिभाई दामजीभाई जोशी, एटी— अदवाना, तालुक व जिला— पोरबंदर, गुजरात		बीवीएससीएंडएच / जीएयू / 00	26.5.77
1513	ओजस्विता, पुत्र श्री सुरिन्दर कुमार	हरिएसवीसी / 2 099	11बी / 15, पुराना कैम्पस, हिसार, हरियाणा	सीसीएस एचएयू	बीवीएससीएंडएच / बर्बॉन / 09	25.11.85
1514	ओम प्रकाश आर्या, पुत्र श्री आनंद राम	यूकेएसवीसी / 470 / 09	ग्राम निरकोट, डाक नौबारा, उत्तराखंड	जिला अल्मोड़ा,	बीवीएससीएंडएच / जीबीपीयूएंडडी / 09	21.08.73
1515	ओम प्रकाश मालव, पुत्र श्री मेघ राज	राजएसवीसी / 3688 / 09	ग्राम— सीतापुरा, डाक— तालैरा, बूंदी— 323001, राजस्थान	आल्फानर, वाया राजस्थान	बीवीएससीएंडएच / एमएफएसयू / 0 9	01.01.84
1516	ओम प्रकाश, पुत्र श्री हरचंद राम	राजएसवीसी / 3618 / 09	ग्राम एवं डाक— भोजपुर, तहसील— फालोदी, जोधपुर— 342311, राजस्थान	वाया एएयू, जोधपुर— 342311, राजस्थान	बीवीएससीएंडएच / आरएयू / 09	03.09.82
1517	ओम सिंह, पुत्र श्री हरकेश सिंह	राजएसवीसी / 3629 / 09	ग्राम एवं डाक— खेराली गुर्जर, वाया— घौंसाला, तहसील हिंडीन सिटी, करौली— 322254, राजस्थान	करौली—	बीवीएससीएंडएच / आरएयू / 09	02.08.82

1518	ओझा गोविंद भाई जीवशाम भाई	जीवीसी/1846	एटी- भटसर, डाक- इलोदा, तालुक चनसामा, जिला- पाटन, गुजरात	बीवीएससीएंडएच /जीएयू/95	1.6.66
1519	ओझा कौशिक कुमार मंगलभाई	जीवीसी/1971	भक्तिकुंज, नगर वानिया वास, एटी एवं डाक लोडरा, तालुक मनसा, जिला गांधीनगर 382835, गुजरात	बीवीएससीएंडएच /जीएयू/96	6.2.71
1520	ओझा राजकुमार शशिकांत	जीवीसी/3057 /09	मकान न.13, ओसा निवास, उन्नति स्टोर के निकट, संजय चौक, अमराईवाड़ी, अहमदाबाद, गुजरात	बीवीएससीएंडएच /एएयू/09	25.07.87
1521	ओझा संजय कुमार केशवलाल	जीवीसी/1948	ए-9, "परिश्रम", शक्तिनगर-2, मानसरोवर रोड के पूर्व में, पालनपुर 385001, जिला बनासकंठा, गुजरात	बीवीएससीएंडएच /जीएयू/96	23.4.74
1522	ओझा वसंतभाई विठ्ठलभाई	जीवीसी/1450	एटी एवं डाक- भटसर, तालुक चानसामा, जिला- पाटन- 384230, गुजरात	बीवीएससीएंडएच /जीएयू/91	1.6.67
1523	ओझा विजय कुमार मफतलाल	जीवीसी/2062	प्रजापतिवास, खत्रीकुवा बस स्टॉप के निकट, एटी: वीजापुर, तालुक वीजापुर, जिला मेहसाना, गुजरात	बीवीएससीएंडएच /जीएयू/97	22.8.73
1524	पी. भानु बाबू पुत्र श्री पी. नागाराजू	एपीएसवीसी/ 04940/09	बी.सी. कॉलोनी, डी.न. 21-84, नरसीपटणम, विजाग, जिला- 531116, आंध्र प्रदेश	बीवीएससीएंडएच /एसवीवीयू/09	27.05.86
1525	पी. गुरु विष्णु पुत्र श्री पी. गुरप्पा	एपीएसवीसी/ 04864/09	2/415-बी. टी.बी. रोड, प्रोडुटूर- 516360, आंध्र प्रदेश	बीवीएससीएंडएच /एसवीवीयू/09	27.07.87
1526	पी.के. मौर्या, पुत्र श्री दाता राम मौर्या	यूपीएसवीसी/ 4930/09	मौह. पाडव, डाक- नवाब गंज, जिला गोंडा, उ.प्र.	बीवीएससीएंडएच /एनडीयूएंडटी/ 09	17.02.83
1527	पी. मेरी वायदुरयम, पुत्री श्री पी. प्रसाद राव	एपीएसवीसी/ 04956/09	आरसीएम चर्च के पिकट, रामनगरम, चल्लापल्ली, कृष्णा जिला, आंध्र प्रदेश	बीवीएससीएंडएच /एसवीवीयू/09	23.01.86
1528	पी. नरेश, पुत्र श्री पी. जगन्नाथ मूर्थि	एपीएसवीसी/ 04948/09	बी.के. पल्ली (डाक), कोटाव्रतला (एम), विजाग जिला, आंध्र प्रदेश	बीवीएससीएंडएच /एसवीवीयू/09	02.03.84
1529	पी. सुनीथा, पुत्री श्री पी. जया राजू	एपीएसवीसी/ 04972/09	डी.न. 1-3-25/2, मेराका वीधी, कोव्वूर, पश्चिमी गोदावरी जिला- 534350, आंध्र प्रदेश	बीवीएससीएंडएच /एसवीवीयू/09	17.05.87

1530	पी. तुलसीदास पटेल, पुत्र श्री पी. तुलसी दास	एपीएसवीसी/ 04937/09	डी.न. 33-21-10, पटेल एंड कंपनी, सीधारामपुरम, इलुरु रोड, विजयवाड़ा- 520002, आंध्र प्रदेश.	बीवीएससीएंडएच /एसवीवीयू/09	03.05.85
1531	पी. अनिल, पुत्र श्री पी. रामा राव	एपीएसवीसी/ 04977/09	म.न. 6/185, पेड़डावीथी, गुडीवाड़ा, कृष्णा जिला, आंध्र प्रदेश	बीवीएससीएंडएच /एसवीवीयू/09	14.07.85
1532	पी. चतुरवादी, पुत्री श्री पी. सथइयाह	एपीएसवीसी/ 04979/09	6-9-271/7, पदमानगर कॉलोनी, विश्वेश्वरा साइजिंग वर्क्स, नालगोंडा डाक, नालगोंडा जिला, आंध्र प्रदेश	बीवीएससीएंडएच /एसवीवीयू/09	10.07.85
1533	पी.के. शिंदे, पुत्र श्री नारायण राव शिंदे	सीएसएसवीसी /459/09	85, सृष्टि गार्डन, रिंग रोड न.-1, तेलीबाघा, रायपुर, छत्तीसगढ़	बीवीएससीएंडएच /जेएलएनकेवीवी/ 88.89	07.03.86
1534	पी.के. स्वर्णकार, पुत्र श्री वी.पी. स्वर्णकार	यूपीएसवीसी/ 4975/09	मियापुरा रथ, जिला हमीरपुर, उ.प्र.	बीवीएससीएंडएच /यूपीपीडीडीयूपीसी वीवी/09	18.08.81
1535	पी. मंजू माधवन, पुत्री श्री पी. माधवन पिल्लै	एपीएसवीसी/ 04847/09	डी.न. 21-71/2, श्री कनक महालक्ष्मी नगर, काकानी नगर, एनएडी डाक, विशाखापटणम- 530009, आंध्र प्रदेश	बीवीएससीएंडएच /एसवीवीयू/09	28.01.85
1536	पी.पी. सिंह, पुत्र श्री के.पी. सिंह	यूपीएसवीसी/ 5020/09	ग्राम- हब्बनपुर, तहसील- शाहगंज, जौनपुर, उ.प्र.	बीवीएससीएंडएच /जेएनकेवीवी/09	09.04.83
1537	पी. पुण्डरी बाबू, पुत्र श्री पी. श्री कृष्णा मूर्ति	एपीएसवीसी/ 04936/09	म.न. 12-42, कोठापेट, वेटापलेम (एम), कोठापेट डाक, प्रकासम, जिला- 523157, आंध्र प्रदेश	बीवीएससीएंडएच /एसवीवीयू/09	15.06.86
1538	पी. रामा रेड्डी, पुत्र श्री लक्ष्मी नरसा रेड्डी	एपीएसवीसी/ 04815/09	म.न. 2-51/बी, संगमेश्वर (डाक- भारतीय पशु चिकित्सा परिषद्), डोमाकोंडा (एम), निज़ामाबाद जिला - 503123, आंध्र प्रदेश	बीवीएससीएंडएच /एसवीवीयू/08	10.04.79
1539	पी. रामया, पुत्री श्री पी. जयचंद्र रेड्डी	एपीएसवीसी/ 04965/09	पाचिकापलेम (डाक), वेधुरुकुप्पम (एम), चित्तूर जिला- 517569, आंध्र प्रदेश	बीवीएससीएंडएच /एसवीवीयू/09	12.07.85
1540	पी.एस. देशमुख, पुत्र श्री डी.एस. देशमुख	सीएसएसवीसी /482/09	रॉबिन्सन फैमिली वार्ड, पैलेस रोड, जगदलपुर, छत्तीसगढ़	बीवीएससीएंडएच /जेएलएनकेवीवी/ 88.89	20.02.62
1541	पी. सारदा, पुत्री श्री पी. गोपीनाथ	एपीएसवीसी/ 04829/09	पत्नी डॉ. सुरेशबाबू द्वारा बी. वेंकटेश्वरलू, पुराने पोस्ट ऑफिस के निकट, जांद्रापेट(डाक), चिराला (एम), प्रकासम जिला, आंध्र प्रदेश	बीवीएससीएंडएच /एसवीवीयू/09	06.08.85

1542	पी. सुरेश कुमार, पुत्र श्री आदी नारायण	एपीएसवीसी/ 04830/09	डी.न.7-42-98/1, सांगीवलासा, चिट्टीवलासा (डाक), भीमुनिपटणम (एम), विशाखापटणम (जिला), आंध्र प्रदेश	बीवीएससीएंडएच /एसवीवीयू/09	22.05.85
1543	पी. वेंकट नरसिम्हा राव, पुत्र श्री पी. मल्हल राव	एपीएसवीसी/ 04900/09	म.न. 3-63,गवर्न. स्कूल के निकट, श्रीरामपुर (ग्राम), मंचरियाल (एम), आदिलाबाद जिला, आंध्र प्रदेश	बीवीएससीएंडएच /एसवीवीयू/09	25.07.84
1544	पदालिया दीपक कुमार केशवजीभाई	जीवीसी/2284	एटी एवं डाक- नवागाम, तालुक- भनवड, जिला- जामनगर, गुजरात	बीवीएससीएंडएच /जीएयू/00	1.10.74
1545	पदालिया नीलेश कुमार रतिलाल	जीवीसी/3128 /10	सताधार सोसायटी, मधुरम सोसायटी के निकट, रवापार रोड, मोराबी, जिला राजकोट, गुजरात	बीवीएससीएंडएच /एएयू/10	18.02.87
1546	पदेरिया योगेश कुमार धरमशीभाई	जीवीसी/3058 /09	न्यू कॉलेज- 37, खेतीवाडी स्टाफ क्वार्टर्स, आनंद कृषि विश्वविद्यालय, आनंद, गुजरात	बीवीएससीएंडएच /एएयू/09	09.09.86
1547	पट्टियार प्रदीप कुमार त्रीकम लाल	जीवीसी/3019 /09	25, लक्ष्मीनगर सोसायटी, बेचरपुरा फाटक के निकट, एटी, डाक- पालन पुर, जिला बी. के. 385001, गुजरात	बीवीएससीएंडएच /एसडीएयू/09	15.05.86
1548	पट्टिया निकुंज बिपिनचंद्र	जीवीसी/3085 /09	कर्मदीप, मोहन नगर, वरसाड रोड, अमरेली, गुजरात	बीवीएससीएंडएच /एएयू/09	30.11.86
1549	पद्मावथी सी. (के. पी. कुमार)	टीएनएसवीसी /4433/09	प्लॉट न. 25, गांधी नगर, वलजापेट, वेल्लोर- 632518, तमिलनाडु	बीवीएससी/टीएनए यू/87	23.11.62
1550	पगदार रमेश पांचा	जीवीसी/1212	द्वारा:पांचाभाई मावाभाई पगदार, एटी अंकोलवाडी (गिर), तालुक तलाला (गिर), जिला-जूनागढ़, गुजरात	बीवीएससीएंडएच /जीएयू/89	1.8.65
1551	पागृत सचिन भालचंद्र	महाएसवीसी/ 8172/09	एटी एवं डाक- कनशिओनी, तालुक व जिला- अकोला- 444005, महाराष्ट्र	बीवीएससीएंडएच /एमएएंडएफएसयू /09	02.06.83
1552	पलाडिया देवराज लालजीभाई	जीवीसी/1639	एटी: लाठी, बगीचा प्लॉट, सिविल अस्पताल के सामने, तालुक लाठी, पिन:365430, जिला:अमरेली, गुजरात	बीवीएससीएंडएच /जीएयू/93	1.6.69
1553	पलानीवेलू ए. (अंगप्पा गौंडेर)	टीएनएसवीसी /4452/09	प्लॉट न. 18, वेंकटचलम स्ट्रीट, मलईयप्पा गौंडेर लेआउट, गांधी नगर, एक्स., उदुमलपेट टाउन, तिरुपुर जिला-642154, तमिलनाडु	बीवीएससी/टीएनए यू/84	13.06.47

1554	पेन रमेशभाई हरजीभाई	जीवीसी / 1871	एटी एवं डाक— वाजडीगढ़, सौराष्ट्र विश्वविद्यालय, तालुक— राजकोट 360005, गुजरात	बीवीएससीएंडएएच / जीएयू / 95	25.3.70
1555	पंचाभाई प्रकाश तुलशीरामजी	जीवीसी / 2103	मारुति चेम्बर्स, ए—5, दूसरी मंजिल, गौहरबाग, बिल्लीमोरा, तालुक गनदेवी, जिला नवसारी	बीवीएससीएंडएएच / पीकेवी / 88	8.10.62
1556	पंचाल अखिलेश जयतिलाल	जीवीसी / 1468	डी—17, वर्धमान बंगला, अहमदाबाद रेलवे क्रॉसिंग के बाहर, पालनपुर, जिला— बी.के., गुजरात	बीवीएससीएंडएएच / जीएयू / 91	3.6.67
1557	पांचाल अल्पेश कुमार घनश्याम भाई	जीवीसी / 1838	एटी एवं डाक— समालया स्टेशन, तालुक— सावली, जिला— वडोदरा— 391520, गुजरात	बीवीएससीएंडएएच / जीएयू / 93	26.10.69
1558	पांचाल अनिल कुमार गोविनभाई	जीवीसी / 808	बी—202, सूर्यलोक फ्लैट्स, सोराबजी कम्पारंड, जूना वडाज, अहमदाबाद— 380013, गुजरात	बीवीएससीएंडएएच / जीएयू / 84	4.8.61
1559	पांचाल अरविंद कुमार कांतिलाल	जीवीसी / 964	एटी एवं डाक— नंदीसर, तालुक गोधरा, जिला— पंचमहल— 388712, गुजरात	बीवीएससीएंडएएच / जीएयू / 86	17.3.64
1560	पांचाल हसमुखभाई मूलाभाई	जीवीसी / 1471	एटी: डोलगढ़, डाक— वटकापुर, तालुक— हिम्मतनगर, जिला— साबरकंठा, गुजरात	बीवीएससीएंडएएच / जीएयू / 91	25.8.67
1561	पांचाल कन्हैया लाल नरसंगभाई	जीवीसी / 1095	महालक्ष्मी सोसायटी, वाव रोड, भाभर, जिला— बनासकंठा, गुजरात	बीवीएससीएंडएएच / जीएयू / 88	1.6.62
1562	पांचाल कांतिभाई आत्माराम	जीवीसी / 960	एटी एवं डाक— मोतीझार, तालुक कपाड़वंज, जिला— एसके, गुजरात	बीवीएससीएंडएएच / जीएयू / 87	3.6.63
1563	पांचाल कांतिलाल ईश्वरलाल	जीवीसी / 1558	एटी एवं डाक— मुनपुर, तालुक— संतरामपुर, जिला— पंचमहल, गुजरात	बीवीएससीएंडएएच / जीएयू / 92	2.5.68
1564	पांचाल नटवरलाल रायाजीभाई	जीवीसी / 568	31, ओम नगर, पायल पार्क के सामने, सुभानपुरा, बड़ौदा, गुजरात	बीवीएससीएंडएएच / जीएयू / 80	6.5.55
1565	पांचाल प्रवीनचंद्र पुंजाभाई	जीवीसी / 1169	हडियोल पुल छपरिया, विश्वकर्मा फ्लोर फैक्ट्री के सामने, हिम्मतनगर —383001, जिला साबरकंठा, गुजरात	बीवीएससीएंडएएच / जीएयू / 89	1.6.66

1566	पांचाल राजेंद्र कुमार कांतिलाल	जीवीसी/1555	एटी एवं डाक- नदीसर, तालुक गोधरा, जिला- पंचमहल- 388710, गुजरात	बीवीएससीएंडएएच / जीएयू/92	2.5.68
1567	पांचाल सुरेशभाई रणछोड़भाई	जीवीसी/700	बंधाला पीपला के निकट, एटी एवं डाक- पिंज, तालुक- नाडियाड, जिला- खेड़ा, गुजरात	बीवीएससीएंडएएच / जीएयू/79	1.5.54
1568	पंचमी गिरधरलाल विट्ठलदास	जीवीसी/333	4/कृष्णा पार्क सोसायटी, आईआर एमए गेट के निकट,कम्युनिटी हॉल के सामने, आनंद-88001, गुजरात	बीवीएससीएंडएएच / जीएयू/74	3.6.49
1569	पंचभाई नितिन दत्तात्रेय	जीवीसी/334	सी/97, कोटियक नगर सोसायटी -4, अजावा रोड, पानी की टंकी के पीछे, वडोदरा, गुजरात	बीवीएससीएंडएएच / बीवीसीकेकेवी/74	22.6.52
1570	पंचलोठिया प्रशांत हंस कुमार	जीवीसी/1047	प्लॉट न. 221, सेक्टर न. 27, गांधीनगर, गुजरात	बीवीएससीएंडएएच / जीएयू/88	16.1.63
1571	पांडे पुष्पकांत राम लक्ष्मण	जीवीसी/816	रामेश्वर एच.बी. पार्क सोसायटी, बारदोली, जिला- सूरत, गुजरात	बीवीएससीएंडएएच / जीएयू/84	3.6.60
1572	पंडियाराज पी. (ए. पलानीचामी)	टीएनएसवीसी /4471/09	पुलक्कापट्टी, देवदानापट्टी डाक, थेनी जिला- 626502	बीवीएससी/टीएन यूवीएस/93	17.03.67
1573	पंडित कमलनयन मोतीलाल	जीवीसी/1087	प्लॉट - 696; सरस्वती विद्या मंदिर के निकट, सेक्टर- 6/बी, गांधीनगर, गुजरात	बीवीएससीएंडएएच / जीएयू/88	12.8.66
1574	पंडोर जीतेंद्र कुमार मणिलाल	जीवीसी/3162 /10	एटी- मालनपुर, तालुक- संतरामपुर, जिला- पंचमहल, गुजरात	बीवीएससीएंडएएच / एएयू/10	29.02.84
1575	पांड्या अमित कुमार सत्येंद्र प्रसाद	जीवीसी/3020 /09	27/ए. नारायण नगर सोसायटी, डाकोर रोड, कपाड़वंज, जिला- खेड़ा, गुजरात	बीवीएससीएंडएएच / एसडीएयू/09	29.01.85
1576	पांड्या बिपिन प्रताप रे	जीवीसी/43	3, बबरीक सोसायटी, मालव तालाव के निकट, जीवराज पार्क, अहमदाबाद, गुजरात	बीएससी(वेट)/ बम्बईविधि/57	2.5.57
1577	पांड्या चंद्रकांत मगनलाल	जीवीसी/117	"ओम शांति", 18-योगी नगर, एटी व तालुक गोंडल, जिला राजकोट, गुजरात	बीवीएससीएंडएएच / नागपुरविधि/66	15.9.43

1578	पंड्या नौतमलाल चूनीलाल	जीवीसी/1051	एटी- कुंदादा, वाया- थलिया, तालुक- तलाजा, जिला भावनगर, गुजरात	बीवीएससीएंडएच /जीएयू/88	25.1.87
1579	पंड्या पराग कुमार रमनचंद्र	जीवीसी/1557	705, शिवम फ्लैट्स, आनंद महल रोड, अदाजान रोड, सूरत, गुजरात	बीवीएससीएंडएच /जीएयू/92	21.2.89
1580	पंड्या सनातन चंद्रकांत	जीवीसी/241	एफ-1, पंचशील अपार्टमेंट, जलाराम मंदिर के सामने, पल्डी रेलवेक्रॉसिंग के निकट, अहमदाबाद-06, गुजरात	बीवीएससीएंडएच /जीएयू/71	4.8.47
1581	पंड्या संकेत कुमार भरत कुमार	जीवीसी/2251	16- 'संकेत', संतरामनगर सोसा., नेहरूनगर के निकट, पिज रोड, नाडियाड- 387003, जिला खेडा, गुजरात	बीवीएससीएंडएच /जीएयू/00	12.5.77
1582	पंड्या उमाकांत वासुदेव भाई	जीवीसी/921	एटी एवं डाक- रुदान, तालुक- माहेमदाबाद, जिला- खेडा, गुजरात	बीवीएससीएंडएच /जीएयू/86	8.9.83
1583	पंड्या विनोद चंद्र मोहनलाल	जीवीसी/66	बी-4, वैभवपार्क सोसा., वल्लभनगर पुलिस चीकी के पीछे, नाडियाड - 687002, जिला- खेडा, गुजरात	बीवीएससी/बम्बईवि वि/60	8.4.35
1584	पानेरा दिलीप कुमार देवायत भाई	जीवीसी/2031	एटी: कायलाना (धेड), तालुक मनावदर, जिला जूनागढ़, पिन- 362630, गुजरात	बीवीएससीएंडएच /जीएयू/95	25.5.71
1585	पानेरी नरेंद्र नर्मदाशंकर	जीवीसी/685	हिल झाइव, प्लॉट न. 2250, सर्किट हाउस के पीछे, भावनगर: 364002, गुजरात	बीवीएससीएंडएच /जीएयू/80	17.8.54
1586	पनिकर स्नेहा सुरेंद्र (पुत्री श्री सुरेंद्र पनिकर पी.के.)	केएसवीसी/34 97/09	पुलिकाल्लुमपुराथू हाउस, चत्लापल्ली डाक, इजमादूर (वाया), पथानमथिट्टा, केरल	बीवीएससीएंडएच /एमएंडएफएसयू /09	05.02.86
1587	पंकज गर्ग, पुत्र श्री विजय कुमार	पीबीएसवीसी/ 2895/09	67, गुप्ता कमीशन एजेंट, अनाज मंडी, सरदुलगढ़, जिला मनसा, पंजाब	बीवीएससीएंडएच /जीएडीवीएसयू /09	11.12.87
1588	पंकज कुमार, पुत्र श्री नरदेव सिंह	यूपीएसवीसी/ 4902/09	ग्राम- जरीफपुर, डाक- नहतौर, जिला- बिजनौर, उ.प्र.	बीवीएससीएंडएच /जीबीपीयूएंडटी, /09	10.02.81
1589	पनसूरिया सतीश गंगदास	जीवीसी/1493	76, अंजलि बंगला, मिनि अम्बिका नगर के पीछे, लक्ष्मी पार्क रेलवे क्रॉसिंग के निकट, पालनपुर- 385001, गुजरात	बीवीएससीएंडएच /जीएयू/92	13.9.88

1590	पंवार कृष्णपाल सिंह जीवीसी / 1356	द्वारा वेटरिनरी सेक्शन, साबर डेरी, एटी एवं डाक— बोरिया, तालुक— हिम्मतनगर, जिला— साबरकंठा, पिन— 383001	बीवीएससीएंडएच / जीबीपीयूएटी / 79	15.9.57
1591	परादवा जयप्रकाश भीमजी भाई जीवीसी / 814	“राधे”, गोकुलधाम सोसायटी, ब्लॉक न. 97, कृष्णानगर मेन रोड, राजकोट—4, गुजरात	बीवीएससीएंडएच / जीएयू / 84	3.4.59
1592	परमसीवन एम. (ए. मदासामी) टीएनएसवीसी / 4479 / 09	93, वानिगर स्ट्रीट, वडासेरी, नगरकोइल, कन्याकुमारी जिला, तमिलनाडु	बीवीएससी / टीएन यूवीएस / 95	23.04.69
1593	परमेश्वर, पुत्र श्री वीरूपाक्षमूर्ति बी.पी. कर्नाएसवीसी / 4282 / 09	अन्नपूर्णा सर्कल, बुक्कमबुधी— 577145, तारीकेरे तालुक, चिक्कमगलूर जिला, कर्नाटक	बीवीएससीएंडएच / केवीएफएसयू / 09	15.5.86
1594	परमेश्वरी एस. (के. शानमुगम) टीएनएसवीसी / 4650 / 09	मन्नावन कोट्टागाम, पिन्नाथूर डाक, थिरुथिरईपूडी तालुक, थिरुवरूर— 614706, तमिलनाडु	बीवीएससीएंडएच / टीएनयूवीएस / 09	29.05.85
1595	परमपाल सिंह, पुत्र श्री जसपाल सिंह पीबीएसवीसी / 2887 / 09	134, मॉडल टाउन, फेज— II, अर्बन एस्टेट, भटिंडा, पंजाब	बीवीएससीएंडएच / जीएडीवीएसयू / 09	30.9.85
1596	परसनी हुसेनभाई रहीमभाई जीवीसी / 1215	अजवा पार्क, जामपुरा प्राइमरी स्कूल के पीछे, जामपुरा, पालनपुरा— 385001, गुजरात	बीवीएससीएंडएच / जीएयू / 89	7.4.65
1597	परदेशी अमित सुभाष महाएसवीसी / 8297 / 09	14 / ए, सरकारी क्वार्टर, शेली मंडी फार्म, गोखले नगर, तालुक व जिला पुणे— 411016, महाराष्ट्र	बीवीएससीएंडएच / एमएएंडएफएसयू / 09	14.02.86
1598	परदेशी रवीन्द्र भगवान महाएसवीसी / 8203 / 09	शिव कॉलोनी, म.न. 24, ए/पी जामनेर जिला— जलगांव— 424206, महाराष्ट्र	बीवीएससीएंडएच / एमएएंडएफएसयू / 09	15.04.87
1599	पारेख भविनाबहन हरेश कुमार जीवीसी / 2199	एटी माली फालिया, एटी एवं डाक— वेजलपुर, तालुक— कलोल, जिला— पंचमहल— 389340, गुजरात	बीवीएससीएंडएच / एएयू / 99	27.7.77
1600	परेल तुलसीबेन दिलीप कुमार जीवीसी / 3137 / 10	18, मंगलम पार्क, जितोदिया रोड, आनंद, गुजरात	बीवीएससीएंडएच / एएयू / 10	22.11.87
1601	पारिख संजय कुमार दिनेशचंद्र जीवीसी / 823	पशु चिकित्सा अधिकारी, सघन मवेशी विकास परियोजना, कृषि भवन, पाल्दी, अहमदाबाद, गुजरात	बीवीएससीएंडएच / जीएयू / 85	23.2.63

1602	परमार अभिषेक विट्ठल भाई	जीवीसी / 3129 / 10	डी-13, अक्षय सोसायटी, रघुवीर एस्टेट, ओधव रोड, अहमदाबाद, गुजरात	बीवीएससीएंडएच / एएयू / 10	15.05.88
1603	परमार अमृतभाई शिवाभाई	जीवीसी / 1422	एटी एवं डाक- रविधाम, राधनपुर, पाटन, गुजरात	बीवीएससीएंडएच / जीएयू / 91	2.5.68
1604	परमार बिपिनचंद्र जीवनलाल	जीवीसी / 809	द्वारा:जेजी परमार, 14/22, मंजुश्री मिल्स न्यू चॉल, बलिया की लिमडी के निकट, नया सिविल रोड, अहमदाबाद- 16	बीवीएससीएंडएच / जीएयू / 84	6.8.61
1605	परमार देवा मसारी	जीवीसी / 1924	एटी- सुखपुर, शेरबाग, तालुक- मलिया हटीना, जिला जूनागढ़, गुजरात	बीवीएससीएंडएच / जीएयू / 96	31.5.67
1606	परमार गिरीश कुमार जशवंतरे	जीवीसी / 1477	14, गायत्री सोसायटी, एटी एवं डाक मधापार, तालुक - भुज, जिला - कच्छ, गुजरात	बीवीएससीएंडएच / जीएयू / 91	4.10.68
1607	परमार गोपालभाई सोमाभाई	जीवीसी / 281	एटी- कनोडा, तालुक- चानस्मा, जिला पाटन, गुजरात	बीवीएससीएंडएच / न / 72	12.3.49
1608	परमार हरेशभाई गोविंदभाई	जीवीसी / 1538	एटी- सिमर, वाया: शेरबाग (गड्ड), तालुक वेरावल, जिला- जूनागढ़, पिन- 362255, गुजरात	बीवीएससीएंडएच / जीएयू / 92	13.6.69
1609	परमार कांजी मावसंगभाई	जीवीसी / 1208	एटी: लानहंका, डाक कल्याणपुर, तालुक वल्लभीपुर, जिला- भावनगर, गुजरात	बीवीएससीएंडएच / जीएयू / 89	1.5.65
1610	परमार महेंद्र कुमार मनजीभाई	जीवीसी / 635	"पितृ-आशीष", सुभाषनगर-9/10, आम्रपाली सिनेमा के निकट, रइया रोड, राजकोट- 363001, गुजरात	बीवीएससीएंडएच / जीएयू / 78	11.1.55
1611	परमार महेश कुमार वजाभाई	जीवीसी / 2271	एटी एवं डाक- कूकाडिया, तालुक इदार, जिला- साबरकंठा- 383410, गुजरात	बीवीएससीएंडएच / जीएयू / 00	21.7.77
1612	परमार प्रताप भूराभाई	जीवीसी / 551	225, अजीत नगर सोसायटी, अकोटा स्टेडियम, बडोदरा, गुजरात	बीवीएससीएंडएच / जीएयू / 80	21.8.55
1613	परमार प्रवीन कुमार हरजीवनदास	जीवीसी / 243	डी-94, वृंदावन टाउनशिप, हरिनगर, इस्कोन मंदिर रोड, गोत्री रोड, बडोदा, गुजरात	बीवीएससीएंडएच / जीएयू / 71	3.2.51

1614	परमार प्रवीन सिंह अमरसिंह	जीवीसी/3059 /09	एटी एवं डाक— बिलपाद, तालुक अंकलाव, जिला आनंद, गुजरात	बीवीएससीएंडएच /एएयू/09	22.08.82
1615	परमार राजेंद्रसिंह पूनमसिंह	जीवीसी/2048	एटी एवं डाक—मुजपुर, तालुक— पडारा, जिला— बड़ौदा— 391440, गुजरात	बीवीएससीएंडएच /जीएयू/97	7.6.71
1616	परमार रोहित कुमार शांतिलाल	जीवीसी/3130 /10	एटी एवं डाक— रायपुरा (वाया— भयाली), जिला— बड़ौदा, गुजरात	बीवीएससीएंडएच /एएयू/10	12.05.87
1617	परमार शशिकांत गिरधरभाई	जीवीसी/2073	एटी एवं डाक— टिटोडा, जिला गांधीनगर, गुजरात	बीवीएससीएंडएच /जीएयू/96	22.6.74
1618	परमार विनोदचंद्र चिमनलाल	जीवीसी/844	ए-34, महाकाली सोसायटी, परिवार विद्यालय के निकट, अजवा रोड, वडोदरा— 390019, गुजरात	बीवीएससीएंडएच /जीएयू/85	11.10.60
1619	परमार विनोद कुमार बालकृष्ण	जीवीसी/1075	अम्बिका सोसायटी, चनसामा रोड, पाटन, गुजरात	बीवीएससीएंडएच /जीएयू/88	10.3.65
1620	परमिंदर सिंह, पुत्र श्री सरूप सिंह	पीबीएसवीसी/ 2881/09	म.न. एफ-11/655, जवाहर नगर चौक, ब्राइट डेज़ स्कूल के निकट, बटाला रोड, अमृतसर— 143001	बीवीएससीएंडएच /जीएडीवीएएसयू /09	7.5.84
1621	प्रसन्न दिपेन खीमजी भाई	जीवीसी/3131 /10	“श्री राम कृपा”, स्ट्रीट-2, भावनाथ पार्क-1, हरिधन मार्ग, कोठरिया मेन रोड के पीछे, राजकोट, गुजरात	बीवीएससीएंडएच /एएयू/10	27.09.88
1622	पार्थसारथी जी. (वी. गोपालम)	टीएनएसवीसी /4418/09	68, वेंकटेश नगर, दूसरी स्ट्रीट, वीरुगामबक्कम, चेन्नई— 600092, तमिलनाडु	बीवीएससी/उ. न/60	31.03.39
1623	प्रवीण कुमार, पुत्र श्री राजेंद्र सिंह बोडवाल	हरिएसवीसी/2 107	म.न. 1, पी.डब्ल्यू.डी., बीएंडआर कॉलोनी, नीलोखेड़ी, जिला करनाल, हरियाणा	बीवीएससीएंडएच /बर्बेन/09	15.12.87
1624	प्रवेश ठाकुर, पुत्र श्री अर्जुन सिंह ठाकुर	एचवीसी/868 /09	ग्राम खटनाल, डाक लुडेर महादेव, तहसील भोराज, जिला हमीरपुर, हि.प्र.	बीवीएससीएंडएच /सीएसकेएचपीकेवी /09	22.09.85
1625	पाशवा हिदायतुल्ला अब्दुर रौफ	जीवीसी/1804	एटी एवं डाक— इलोल, तालुक— हिम्मत नगर, जिला— साबरकंठा, पिन— 383220, गुजरात	बीवीएससीएंडएच /जीएयू/94	1.5.73

1626	पटेल चंदूलाल जोड़िताराम	जीवीसी/408	प्लॉट न. 228/बी, सेक्टर- 28, नवरचना सोसायटी, गांधीनगर, गुजरात	बीवीएससीएंडएच /जीएयू/76	27.6.52
1627	पटेल कल्पेश कुमार शंकरभाई	जीवीसी/1974	27, ऋद्धि सिद्धि सोसायटी, जलाराम मंदिर के निकट, दामोल, जिला बड़ोदा, गुजरात	बीवीएससीएंडएच /जीएयू/98	24.5.74
1628	पटेल कांतिभाई शंकरदास	जीवीसी/511	25/बी, बॉम्बे सोसायटी, महावीर नगर, हिम्मत नगर, गुजरात	बीवीएससीएंडएच /जीएयू/79	1.6.56
1629	पटेल कृष्णा अरविंद बाबलभाई	जीवीसी/1891	सी-5, देवसिटी, सायाना सिटी के पीछे, आरसी टेक्नीकल रोड, घट लोडिया, अहमदाबाद-61, गुजरात	बीवीएससीएंडएच /जीएयू/95	12.6.73
1630	पटेल महेश कुमार डालसंगभाई	जीवीसी/2122	एटी एवं डाक- जलोत्रा (नवा पारा), तालुक वडगाम, जिला- बी.के., गुजरात	बीवीएससीएंडएच /जीएयू/88	28.7.74
1631	पटेल प्रवीण भाई आत्माराम	जीवीसी/1232	एटी व डाक-कलोल, कल्याणपुरा, खोडियार माता के मंदिर के निकट, जिला- गांधीनगर, गुजरात	बीवीएससीएंडएच /जीएयू/90	1.8.67
1632	पटेल शांतिलाल केशवलाल	जीवीसी/103	बी-2/202, मधुवुंद (शिव पार्क), सोसायटी, घटलोडिया, अहमदाबाद, गुजरात	बीवीएससीएंडएच /नागपुरविधि/65	5.5.40
1633	पटेल अल्केश कुमार गोपालभाई	जीवीसी/1745	33, चंद्रलोक सोसा., नवसारीजान स्कूल के निकट, रानिप, अहमदाबाद- 382480, गुजरात	बीवीएससीएंडएच /जीएयू/94	29.11.71
1634	पटेल अल्पेश कुमार नटवरलाल	जीवीसी/3141 /10	एटी- इतदास, तालुक मनसा, जिला- गांधीनगर, गुजरात	बीवीएससीएंडएच /एयू/10	01.05.78
1635	पटेल अल्पेशकुमार जयंतिलाल	जीवीसी/2167	279/ तरंगहिल सोसायटी, अर्जुन आश्रम के निकट, चंडलोडिया, अहमदाबाद- 382481, गुजरात	बीवीएससीएंडएच /जीएयू/99	1.7.76
1636	पटेल अमीचंदभाई शंकरभाई	जीवीसी/504	एटी एवं डाक- कनियोल, तालुक- हिम्मतनगर, जिला- साबरकंठा, गुजरात	बीवीएससीएंडएच /जीएयू/79	13.7.55
1637	पटेल अमित हरीलाल	जीवीसी/2300	'प्रेमदीप', 2-नवल नगर, राजकोट-4, गुजरात	बीवीएससीएंडएच /जीएयू/00	17.7.78

1638	पटेल अमृतभाई भीखामाई	जीवीसी/608	बी-6, अनिल फ्लैट, डफनाला रोड, चंद्रलोक टावर के सामने, शाहीबाग, अहमदाबाद-04, गुजरात	बीवीएससीएंडएच /जीएयू/81	2.10.56
1639	पटेल अमृतभाई मनिलाल	जीवीसी/553	डी-14, अभिश्वेत अपार्टमेंट, केके नगर, चार रास्ता, घटलोडिया, अहमदाबाद- 61, गुजरात	बीवीएससीएंडएच /जीएयू/80	13.9.55
1640	पटेल अमृतलाल बालू भाई	जीवीसी/2290	एटी एवं डाक- कोयडम, तालुक वीरपुर, जिला- खेडा- 388260, गुजरात	बीवीएससीएंडएच /जीएयू/00	26.4.76
1641	पटेल अमृतलाल भीखामाई	जीवीसी/406	एटी एवं डाक- चासा, तालुक- चोखाली, जिला - नवसारी, गुजरात	बीवीएससीएंडएच /जीएयू/76	10.12.51
1642	पटेल अनिल कुमार चेलदास	जीवीसी/1701	एटी- सुनवाला, तालुक- देतरोज, जिला अहमदाबाद, गुजरात	बीवीएससीएंडएच /जीएयू/94	1.10.71
1643	पटेल अनिल कुमार प्रहलादभाई	जीवीसी/1274	द्वारा उत्तम डेयरी, अहमदाबाद, गुजरात	बीवीएससीएंडएच /जीएयू/90	16.7.67
1644	पटेल अरविंद मनिलाल	जीवीसी/368	23, समृद्धि बंगला-1, भाविन स्कूल के निकट, एसजी रोड के सामने, थलताज, अहमदाबाद-380054, गुजरात	बीवीएससीएंडएच /जीएयू/75	1.6.51
1645	पटेल अरविंदभाई मगनलाल	जीवीसी/505	26, सागर बंगला, सोला रोड, गुलाब टावर के निकट, अहमदाबाद, गुजरात	बीवीएससीएंडएच /जीएयू/79	1.6.54
1646	पटेल अरविंदभाई मनिलाल	जीवीसी/1491	एटी एवं डाक- सुंदरपुर, महादेव वास के निकट, तालुक वीजापुर, जिला मेहसाना, गुजरात	बीवीएससीएंडएच /जीएयू/92	1.6.67
1647	पटेल अरविंदकुमार केशवलाल	जीवीसी/1661	एटी एवं डाक- सामेत्रा, तालुक- मेहसाना, जिला- मेहसाना- 384001, गुजरात	बीवीएससीएंडएच /जीएयू/93	12.8.70
1648	पटेल अरविंद कुमार बाबूलाल	जीवीसी/1743	एटी एवं डाक- पाली, तालुक- उन्झा, जिला- मेहसाना, गुजरात	बीवीएससीएंडएच /जीएयू/94	16.4.71
1649	पटेल अरविंदकुमार धुलामाई	जीवीसी/3132 /10	एटी एवं डाक- देभारी, गणेश चौक, पटेलवाड़ा, तालुक वीरपुर, जिला- खेडा, गुजरात	बीवीएससीएंडएच /एयू/10	22.06.87

1650	पटेल आशीष अम्बालाल	जीवीसी / 1767	4, अक्षरधाम बंगला, विसनगर रोड के निकट, एटी- उन्ना, तालुक- उन्ना, जिला- मेहसाना, गुजरात	बीवीएससीएंडएएच / जीएयू/ 89	31.8.66
1651	पटेल आशीष नारनभाई	जीवीसी / 2149	25, एसके बैंक, डी. सोसा., गायत्री मंदिर रोड, महावीरनगर, हिम्मतनगर, जिला- साबरकंठा, गुजरात	बीवीएससीएंडएएच / जीएयू/ 98	27.11.74
1652	पटेल आशीष कुमार चतुरभाई	जीवीसी / 1752	1, गोपी रॉ बंगला, विश्वास सिटी- 2, आरसी टेक्नीकल रोड, घटलोडिया, अहमदाबाद, गुजरात	बीवीएससीएंडएएच / जीएयू/ 94	29.8.72
1653	पटेल अशोक कुमार चतुरभाई	जीवीसी / 2023	एटी: भुनाव, तालुक उन्ना, जिला मेहसाना - 384131, गुजरात	बीवीएससीएंडएएच / जीएयू/ 97	1.6.69
1654	पटेल अशोक कुमार नारनभाई	जीवीसी / 897	सी-303, सूर्योदय- II, पावापुरी बस स्टैंड के सामने, जनता नगर रोड, अहमदाबाद- 61, गुजरात	बीवीएससीएंडएएच / जीएयू/ 88	30.3.64
1655	पटेल अश्विन कुमार रतिलाल	जीवीसी / 1065	जैन डेरासर के निकट, एटी एवं डाक- लंघनाज, तालुक व जिला- मेहसाना, पिन- 382730, गुजरात	बीवीएससीएंडएएच / जीएयू/ 88	9.7.66
1656	पटेल अश्विन कुमार वीरभाई	जीवीसी / 884	ए/8, आकाशगंगा अपार्टमेंट, प्रणव सोसायटी के सामने, मंजलपुर, वडोदरा-4, गुजरात	बीवीएससीएंडएएच / जीएयू/ 87	29.11.63
1657	पटेल अश्विनभाई डाह्याभाई	जीवीसी / 1754	एटी एवं डाक- लालोडा, तालुक इदार, जिला- एसके, पिन- 383430, गुजरात	बीवीएससीएंडएएच / जीएयू/ 94	29.6.72
1658	पटेल अतुल कुमार छगनभाई	जीवीसी / 1521	7-8, मारुति नगर, कामरेज घार रास्ता, तालुक कामरेज, जिला- सूरत 394185, गुजरात	बीवीएससीएंडएएच / जीएयू/ 92	11.6.70
1659	पटेल अविनाश गोरधन भाई	जीवीसी / 1290	एटी एवं डाक- कोठ, तालुक- डोलका, जिला- अहमदाबाद, गुजरात	बीवीएससीएंडएएच / जीएयू/ 90	2.7.67
1660	पटेल बाबू भाई भगवानदास	जीवीसी / 442	7, रत्नाविहार बंगला, सोला, पानी नी टंकी, सूर्यदीप बंगले के सामने, साईं सिटी रोड, सोला, अहमदाबाद, गुजरात	बीवीएससीएंडएएच / जीएयू/ 77	6.1.55
1661	पटेल बाबूभाई जोड़ताराम	जीवीसी / 1248	द्वारा वेटरिनरी सेक्शन, साबर डेरी, एटी एवं डाक- बोरिया, तालुक हिम्मतनगर, जिला- साबरकंठा-1, गुजरात	बीवीएससीएंडएएच / जीएयू/ 90	1.6.67

1662	पटेल बाबूभाई मोतीराम	जीवीसी/554	जे-3, आश्रय ड्यूप्लेक्स, इंदिरा ब्रिज के निकट, हनसोल, अहमदाबाद- 382475, गुजरात	बीवीएससीएंडएच / जीएयू/ 80	1.6.57
1663	पटेल बाबूभाई रामभाई	जीवीसी/284	26, श्रीनाथजी नगर, को-ऑप हाउसिंग सोसायटी, मिल रोड, एटी एवं डाक- कडी, जिला-मेहसाना 382715, गुजरात	बीवीएससीएंडएच / जीएयू/ 72	23.1.46
1664	पटेल बाबूभाई तलासीभाई	जीवीसी/720	72, नंदनवन सोसायटी, आनंद नगर, इदार, तालुक- इदार, जिला- साबरकंठा, गुजरात	बीवीएससीएंडएच / जीएयू/ 83	1.6.58
1665	पटेल बाबूभाई बेचरभाई	जीवीसी/443	एच/16, शेतलवाड़ी सोसायटी, निरण्य नगर रोड, रानिप, अहमदाबाद- 382480, गुजरात	बीवीएससीएंडएच / जीएयू/ 77	5.5.54
1666	पटेल बाबूभाई कांजीभाई	जीवीसी/555	एटी एवं डाक- दामावास, तालुक खेड़ ब्रह्मा, जिला- साबरकंठा, गुजरात	बीवीएससीएंडएच / जीएयू/ 80	21.5.57
1667	पटेल बाबूभाई मगनलाल	जीवीसी/702	6, साबर सोसायटी, गायत्री मंदिर रोड, हिम्मत नगर, साबरकंठा- 383001, गुजरात	बीवीएससीएंडएच / जीएयू/ 80	25.7.57
1668	पटेल बाबूभाई वीरमभाई	जीवीसी/1305	एटी: देविनापुरा, डाक- मिठा, तालुक व जिला- मेहसाना- 384002, गुजरात	बीवीएससीएंडएच / जीएयू/ 90	1.6.66
1669	पटेल बकुल कुमार खेमचंद भाई	जीवीसी/913	5, प्रस्थान बंगला-1, निर्माण कॉम्प्ले, आरसी टेक्नीकल रोड, घटलोडिया, अहमदाबाद- 61, गुजरात	बीवीएससीएंडएच / जीएयू/ 87	6.7.64
1670	पटेल बकुल कुमार वीरचंद भाई	जीवीसी/2116	33, गुरुकृपा सोसायटी, देवती फौब्रिक्स मिल के निकट, जीईबी के सामने, सिद्धपुर, जिला- पाटन, पिन- 384151, गुजरात	बीवीएससीएंडएच / जीएयू/ 98	18.3.75
1671	पटेल बालादेवभाई मंगलभाई	जीवीसी/946	पुष्प कुंज सोसायटी, एटी एवं डाक- रानासन, तालुक- वीजापुर, जिला- मेहसाना, गुजरात	बीवीएससीएंडएच / जीएयू/ 87	1.2.64
1672	पटेल बंकिम चंद्र नरसिंहभाई	जीवीसी/2275	एटी: सूरजपुरा, डाक- गामभाई, तालुक- हिम्मतनगर, जिला साबरकंठा- 383030, गुजरात	बीवीएससीएंडएच / जीएयू/ 00	23.8.78
1673	पटेल भद्रेश कुमार ईश्वरभाई	जीवीसी/871	11, अखरकुंज सोसायटी, गोपी विद्यानगर रोड, जिला- आनंद- 388001, गुजरात	बीवीएससीएंडएच / जीएयू/ 86	2.6.63

1674	पटेल भगीरथ द्वारकादास	जीवीसी/821	वेटरिनरी डिस्पेंसरी, जोदिया रोड, एटी एवं तालुक— धरोल, जिला— जामनगर, गुजरात	बीवीएससीएंडएच /जीएयू/84	23.1.63
1675	पटेल भगवानभाई पुंजाभाई	जीवीसी/929	5, कामेश्वर बंगला, देव सिटी के सामने, गणेश पार्क के सामने, आरसी टेक्नीकल रोड, चाणक्यपुरी, घटलोडिया, अहमदाबाद—61	बीवीएससीएंडएच /जीएयू/87	1.6.62
1676	पटेल भगवान भाई वनमालीदास	जीवीसी/721	बी-8, पारिजात बंगला, प्राइड होटल के सामने, जज बंगला रोड, बोडकदेव, अहमदाबाद—15, गुजरात	बीवीएससीएंडएच /जीएयू/83	1.6.58
1677	पटेल भरतकुमार भीखाभाई	जीवीसी/2255	एटी— शिहोरा, तालुक कपाडवंज, जिला— खेडा, पिन— 387651, गुजरात	बीवीएससीएंडएच /जीएयू/00	21.8.78
1678	पटेल भरत कुमार भूलेश्वर	जीवीसी/1950	एटी— काकधिया, तालुक— लूनावाड़ा, जिला— पीएमएस, गुजरात	बीवीएससीएंडएच /जीएयू/96	27.5.74
1679	पटेल भरत कुमार हीरालाल	जीवीसी/1885	5, गुलाब रेजीडेंसी, एसजी हाईवे, नीरा भंगलदीप पार्टी प्लॉट, सोला, सोलागाम, अहमदाबाद, गुजरात	बीवीएससीएंडएच /जीएयू/95	22.11.71
1680	पटेल भरत कुमार जोइताराम	जीवीसी/1238	बी-119, रंग आशीष सोसायटी, राजेश्वरी सोसायटी के निकट, ईशानपुर रोड, मनिनगर, अहमदाबाद, गुजरात	बीवीएससीएंडएच /जीएयू/90	7.9.67
1681	पटेल भरत कुमार केशवलाल	जीवीसी/1224	राधाकृष्ण मंदिर के निकट, वाडियो, एटी एवं डाक नरदीपुर, रामा जगनोवास, तालुक— कलोल, जिला मेहसाना, गुजरात	बीवीएससीएंडएच /जीएयू/90	20.6.75
1682	पटेल भरत कुमार खोडीदास	जीवीसी/506	21, स्वागत बंगला, रामोसाना, जकातनाका, मेहसाना—2, गुजरात	बीवीएससीएंडएच /जीएयू/79	1.8.55
1683	पटेल भरत कुमार मनिलाल	जीवीसी/1990	“सतियावास”, एटी एवं डाक— सोजा, तालुक कलोल, जिला— गांधीनगर, गुजरात	बीवीएससीएंडएच /जीएयू/96	8.1.68
1684	पटेल भरत कुमार शिवलाल	जीवीसी/507	एटी एवं डाक— कोबा, तालुक व जिला— गांधीनगर, गुजरात	बीवीएससीएंडएच /जीएयू/79	17.3.55
1685	पटेल भरत कुमार सोमाभाई	जीवीसी/1458	46, राजनगर, डलजी पार्क, टिन हनुमान रोड, दीसा— 385535, जिला— बनासकंठा, गुजरात	बीवीएससीएंडएच /जीएयू/91	4.12.67

1686	पटेल भावेश कुमार चंदू भाई	जीवीसी/3086 /09	एटी- उमेदपुर, डाक-दधालिया, तालुक- मोदासा, जिला-एस.के., गुजरात	बीवीएससीएंडएएच /एएयू/09	21.01.87
1687	पटेल भावेश कुमार वसंत भाई	जीवीसी/3087 /09	उमियानगर सोसायटी, शोधियावास, एटी- जामला, तालुक- कलोल, जिला- गांधीनगर, गुजरात	बीवीएससीएंडएएच /एएयू/09	18.02.87
1688	पटेल भाविक कुमार बाबूलाल	जीवीसी/2109	एटी-गोठादा, डेरी के निकट, डाक-सतलासना, तालुक-खेरालू, जिला-मेहसाना-384330, गुजरात	बीवीएससीएंडएएच /जीएयू/98	31.12.75
1689	पटेल भोगीभाई हरजीवन दास	जीवीसी/650	8/ए, मृदूल पार्क सोसायटी, सोला रोड, घटलोडिया, अहमदाबाद- 380061, गुजरात	बीवीएससीएंडएएच /जीएयू/73	4.4.50
1690	पटेल भूपत कुमार भीखाभाई	जीवीसी/1419	एटी एवं डाक-लोडरा, तालुक- वीजापुर, जिला-मेहसाना, गुजरात	बीवीएससीएंडएएच /जीएयू/91	22.5.68
1691	पटेल भूपेंद्र भाई परशोत्तम दास	जीवीसी/246	4, प्रमुख कृषा सोसायटी, टाउन हॉल के निकट, आनंद- 388001, गुजरात	बीवीएससीएंडएएच /जीएयू/76	1.5.55
1692	पटेल बिपिनचंद्र हरिभाई	जीवीसी/1544	एटी: भयासर, डाक-सतलाव, वाया शहेरा, तालुक- लूनावाड़ा, जिला- पंचमहल-38921, गुजरात	बीवीएससीएंडएएच /जीएयू/92	15.2.70
1693	पटेल बिपिनचंद्र मोहनलाल	जीवीसी/892	2, मोधेरा नगर सोसायटी, मोधेरा रोड, मेहसाना, गुजरात	बीवीएससीएंडएएच /जीएयू/87	24.10.64
1694	पटेल बृजेश पोपटलाल	जीवीसी/2282	"भूमि", शास्त्रीनगर, रवापार रोड, तालुक- मोरबी, जिला-राजकोट, गुजरात	बीवीएससीएंडएएच /जीएयू/00	5.8.77
1695	पटेल चमनभाई भूदरभाई	जीवीसी/968	245, संदलवुड़ सोसायटी, मंजलपुर टाउनशिप के सामने, न.-1, वडोदरा-11, गुजरात	बीवीएससीएंडएएच /जीएयू/86	7.9.59
1696	पटेल चंद्रकांत अमृत लाल	जीवीसी/1484	11, कर्मभूमि, एटी व तालुक- विसनगर, जिला- मेहसाना, गुजरात	बीवीएससीएंडएएच /जीएयू/91	1.6.69
1697	पटेल चंद्रकांतभाई रणछोड़भाई	जीवीसी/1550	ए/11, जलरामनगर सोसायटी, जैन डेरासर के पीछे, नाना बाजार, वल्लभ विद्यानगर-388120, गुजरात	बीवीएससीएंडएएच /जीएयू/92	23.1.69

1698	पटेल चंद्रेश कुमार रसिकलाल	जीवीसी/1535	बी-5, सर्वोदय सोसायटी, अमूल डेरी रोड, आनंद-388001, गुजरात	बीवीएससीएंडएएच /जीएयू/92	16.1.67
1699	पटेल छोटाभाई रणछोड़दास	जीवीसी/372	लक्ष्मी नारायण सोसायटी, राधनपुर के निकट, जकातनाका, मेहसाना, गुजरात	बीवीएससीएंडएएच /जीएयू/75	1.6.51
1700	पटेल चिराग गोविंदभाई	जीवीसी/3060 /09	ए/6, इंद्रापुरी अपार्टमेंट, निरप्य नगर गारनरा के निकट, घटलोडिया, अहमदाबाद, गुजरात	बीवीएससीएंडएएच /एएयू/09	22.08.86
1701	पटेल चुनीलाल द्वारकादास	जीवीसी/633	12-ए, कर्मभूमि सोसायटी, एटी: विसनगर, जिला- मेहसाना, गुजरात	बीवीएससीएंडएएच /जीएयू/77	7.4.51
1702	पटेल चुनीलाल वनमालीभाई	जीवीसी/851	सामीनारायण मेदिर के निकट, एटी एवं डाक- वंयारा, पिन- 394650, जिला सूरत, गुजरात	बीवीएससीएंडएएच /जीएयू/77	1.12.54
1703	पटेल डाहयाभाई शंकरभाई	जीवीसी/409	713-एकता कॉलोनी, सेक्टर-27, गांधीनगर, गुजरात	बीवीएससीएंडएएच /जीएयू/76	1.6.51
1704	पटेल दशरथ भाई सैधाभाई	जीवीसी/1289	एटी एवं डाक-इटादरा, तालुक- वीजापुर, जिला- मेहसाना, गुजरात	बीवीएससीएंडएएच /जीएयू/90	1.6.66
1705	पटेल दशरथभाई कालीदास	जीवीसी/509	14, गणेश पार्क-2, विश्वास सिटी-2 के निकट, आर.सी.टेक्नीकल रोड घटलोडिया, अहमदाबाद-61, गुजरात	बीवीएससीएंडएएच /जीएयू/79	6.1.54
1706	पटेल दीपक कुमार मगनभाई	जीवीसी/792	गायत्री कृपा, प्रभुकृपा सोसा., जेएस मेहता हाई स्कूल के सामने, एटी- धनसुरा, जिला-साबरकंठा-383310	बीवीएससीएंडएएच /जीएयू/84	5.12.65
1707	पटेल देवेन विपिनभाई	जीवीसी/2133	एटी-तारवा, डाक- तिम्बरवा, तालुक सिनोर, जिला- वडोदरा, गुजरात	बीवीएससीएंडएएच /जीएयू/97	20.6.76
1708	पटेल देवेन्द्र कुमार डाहयालाल	जीवीसी/1862	12, असोपलाव बंगला, अशोक होटल के पीछे, तिरुपति नागलपुर के निकट, मेहसाना, गुजरात	बीवीएससीएंडएएच /जीएयू/95	3.5.72
1709	पटेल धर्मेन्द्र भगुभाई	जीवीसी/1410	908/1, शिवम बंगला, सेक्टर 4-डी, गांधीनगर, गुजरात	बीवीएससीएंडएएच /जीएयू/91	18.3.65

1710	पटेल धनभाई देवाशीभाई	जीवीसी/1981	एटी एवं डाक-सोनी, तालुक- देवदार, जिला- बनासकंठा, पिन- 385330, गुजरात	बीवीएससीएंडएच / जीएयू/96	1.6.73
1711	पटेल धनंजय जगदीशचंद्र	जीवीसी/3061 /09	26, गुरुकृपा सोसायटी, सिधपुर, जी.ई.बी. के सामने, जिला- पाटन, गुजरात	बीवीएससीएंडएच / एएयू/09	05.05.87
1712	पटेल धनजीभाई जेठीदास	जीवीसी/310 /09	सी/2, देव सिटी, सायोना सिटी के निकट, आर.सी. टेक्नीकल रोड, घटलोडिया, अहमदाबाद, गुजरात	बीवीएससीएंडएच / जीएयू/74	01.06.50
1713	पटेल धर्मेन्द्र कुमार चिमनलाल	जीवीसी/1256	लाठीदाद, तालुक- बोटदाद, जिला- भावनगर- 364710, गुजरात	बीवीएससीएंडएच / जीएयू/90	2.10.65
1714	पटेल धर्मेन्द्र कुमार सोमाभाई	जीवीसी/1730	10, ब्रदीनाथ सोसायटी, विसनगर रोड, गायत्री मंदिर के निकट, मेहसाना- 384001, गुजरात	बीवीएससीएंडएच / जीएयू/94	4.5.72
1715	पटेल धर्मेश चंद्रकांत भाई	जीवीसी/2709 /09	कोटवाडियापुरा, झोला वास, डाक व तालुक- चनासमा, जिला पाटन, गुजरात	बीवीएससीएंडएच / एसडीएयू/06	21.03.84
1716	पटेल धर्मेश कुमार जयंतिभाई	जीवीसी/1707	ए/4, शामविहार बंगला, अक्सर पार्टी प्लॉट के सामने, मोधेरा रोड, मेहसाना- 384002, गुजरात	बीवीएससीएंडएच / जीएयू/94	27.9.71
1717	पटेल धीरूभाई ईश्वरभाई	जीवीसी/1295	बी-17, आरती सोसायटी, अजय टेनामेंट्स विभाग-5, वस्त्राल रोड, महादेवनगर, अहमदाबाद-382418, गुजरात	बीवीएससीएंडएच / जीएयू/90	1.6.67
1718	पटेल दिलीप कुमार अम्बालाल	जीवीसी/1549	एटी-देलवाड़ा, तालुक- खेदब्रह्मा, जिला- साबरकंठा- 383255, गुजरात	बीवीएससीएंडएच / जीएयू/92	22.3.69
1719	पटेल दिलीप कुमार बालूभाई	जीवीसी/701	द्वारा वेटरिनरी सेक्शन, साबर डेरी, एटी व डाक-बोरिया, तालुक हिम्मत नगर, जिला साबरकंठा-1, गुजरात	बीवीएससीएंडएच / जीएयू/80	25.3.59
1720	पटेल दिलीप कुमार चतुरभाई	जीवीसी/2168	सी-4, वर्धमान बंगला, अहमदाबाद हाईवे, रेलवे क्रॉसिंग के निकट, पालनपुर, गुजरात	बीवीएससीएंडएच / जीएयू/99	5.11.76
1721	पटेल दिलीप कुमार जेसंगभाई	जीवीसी/1426	डी-9, सोना टाउनशिप, कांसा चार रास्ता, विसनगर, जिला- मेहसाना, गुजरात	बीवीएससीएंडएच / जीएयू/91	28.6.68

1722	पटेल दिलीप कुमार कनुभाई	जीवीसी/2117	42/ए-2, अयोध्या नगर सोसायटी, गायत्री मंदर के सामने, पाटन- 384285, जिला- पाटन, गुजरात	बीवीएससीएंडएच / जीएयू/98	25.8.75
1723	पटेल दिनेशभाई मोतीभाई	जीवीसी/1149	एटी एवं डाक- पाडेवी, तालुक- लूनावाड़ा, जिला- पंचमहल, गुजरात	बीवीएससीएंडएच / जीएयू/85	5.4.62
1724	पटेल दिनेश कुमार छगनदास	जीवीसी/930	2 बी, अमीकुंज सोसायटी, नारनपुरा डाक घर के निकट, नारनपुरा, अहमदाबाद-13, गुजरात	बीवीएससीएंडएच / जीएयू/87	1.6.64
1725	पटेल दिनेश कुमार मंगलदास	जीवीसी/1448	मगतवती स्ट्रीट, गनजी, व्यासनगर - 384315, जिला मेहसाना, गुजरात	बीवीएससीएंडएच / जीएयू/91	27.03.70
1726	पटेल दिनेश कुमार मंगरदास	जीवीसी/1427	मतानो पाडो, भागीखुन, नागरलिमडी, एटी तालुक व जिला- पाटन, गुजरात	बीवीएससीएंडएच / जीएयू/91	14.3.67
1727	पटेल दिनेश कुमार नारायणदास	जीवीसी/599	28, चंद्रलोक सोसायटी, मोधेरा रोड, मेहसाना-2, गुजरात	बीवीएससीएंडएच / जीएयू/81	26.1.58
1728	पटेल दिनेश कुमार नटवरलाल	जीवीसी/1702	27, लक्ष्मीदीप सोसायटी, रानिप, अहमदाबाद, जिला अहमदाबाद, पिन- 382480, गुजरात	बीवीएससीएंडएच / जीएयू/94	2.12.70
1729	पटेल दिनेश कुमार प्रहलादभाई	जीवीसी/1508	12/बी, पन्ना पार्क, आदर्श नगर, महावीर नगर, तालुक हिम्मत नगर, जिला साबरकंठा-383001, गुजरात	बीवीएससीएंडएच / जीएयू/92	18.6.68
1730	पटेल दिलीप कुमार जीवनभाई	जीवीसी/2189	ब्लॉक न. 47/1, सीएच-टाइप, सेक्टर-28, गांधीनगर, गुजरात	बीवीएससीएंडएच / जीएयू/99	9.11.74
1731	पटेल दिलीप कुमार मानक लाल	जीवीसी/410	सी-एस 2, राजीव कॉम्प्लेक्स, सोनल चार रास्ता, गुरुकुल रोड, मेमनगर, अहमदाबाद, गुजरात	बीवीएससीएंडएच / जीएयू/76	15.12.53
1732	पटेल दीपक कुमार वसंतलाल	जीवीसी/2242	एटी एवं डाक- विरानी (मोती), तालुक: नखतराना, जिला-कच्छ- 370665, गुजरात	बीवीएससीएंडएच / जीएयू/00	1.6.77
1733	पटेल दिव्येश कांतिभाई	जीवीसी/2583 /10	एटी एवं डाक- मसल, तालुक इंदर, जिला साबरकंठा- 383230, गुजरात	बीवीएससीएंडएच / एसडीएयू/05	05.12.81

1734	पटेल दुष्यंत कुमार रणछोड़भाई	जीवीसी/939	10/बी, नटराज बैंकर सोसायटी, खेरालू रोड, विसनगर, जिला- मेहसाना, गुजरात	बीवीएससीएंडएच /जीएयू/87	29.7.84
1735	पटेल फालजीभाई वीरसिंगभाई	जीवीसी/2201	एटी एवं डाक- खेड (चंद्रानी), तालुक- हिम्मतनगर, जिला- एसके, गुजरात	बीवीएससीएंडएच /जीएयू/99	24.6.77
1736	पटेल गणेशभाई डाहयालाल	जीवीसी/1207	2, सुरभी बंगला, मोधेरा रोड, मेहसाना, गुजरात	बीवीएससीएंडएच /जीएयू/89	1.6.65
1737	पटेल गणेशभाई वीरसंगभाई	जीवीसी/928	बी/16ए, वर्धमान बंगला, रेलवे क्रॉसिंग के निकट, अहमदाबाद हाईवे, पालनपुर- 385001, जिला- बनासकंठा, गुजरात	बीवीएससीएंडएच /जीएयू/87	22.2.63
1738	पटेल घनश्यामभाई कांतिलाल	जीवीसी/2202	एटी एवं डाक- बागदाना, तालुक- महुआ, जिला भावनगर- 384145, गुजरात	बीवीएससीएंडएच /जीएयू/99	22.8.76
1739	पटेल घनश्याम अम्बालाल	जीवीसी/1677	38, सान्निध्य बंगला, साइंस सिटी के सामने, सहजानंद स्टेटस के पीछे, अवध बंगले के निकट, सोला, अहमदाबाद	बीवीएससीएंडएच /जीएयू/92	5.3.69
1740	पटेल गिरधरभाई शिवाभाई	जीवीसी/653	19-सागर बंगला, निर्मल टावर के निकट, सोला रोड, गुलाब टावर रोड, अहमदाबाद- 61, गुजरात	बीवीएससीएंडएच /जीएयू/76	6.1.51
1741	पटेल गिरीश कुमार गोपाल भाई	जीवीसी/1872	एटी एवं डाक- बोलाकुवा, तालुक मनसा, जिला गांधीनगर, पिन- 382845, गुजरात	बीवीएससीएंडएच /जीएयू/95	1.6.70
1742	पटेल गिरीश कुमार शिवाभाई	जीवीसी/2150	13, शकुंतल सोसायटी, पोलाग्राउंड, अल्कापुरी, हिम्मतनगर- 383001, जिला- साबरकंठा, गुजरात	बीवीएससीएंडएच /जीएयू/98	16.5.76
1743	पटेल गोविंद रणछोड़भाई	जीवीसी/2119	एसबीआई सोसायटी के पीछे, आनंद फ्लैट्स के निकट, बेचरपुरा, पालनपुर - 385002, गुजरात	बीवीएससीएंडएच /जीएयू/98	15.1.75
1744	पटेल गोविंदभाई धुलाभाई	जीवीसी/617	6ए, साईबाबा सोसायटी, गायत्री मंदिर रोड, महावीर नगर, हिम्मत नगर, जिला- साबरकंठा, गुजरात	बीवीएससीएंडएच /जीएयू/73	26.12.49
1745	पटेल गोविंदभाई ईश्वरभाई	जीवीसी/378	6, केदारनाथ सोसायटी, द्वारकापुरी फ्लैट, राधनपुर रोड, मेहसाना, गुजरात	बीवीएससीएंडएच /जीएयू/75	1.4.52

1746	पटेल हार्दिक कुमार मनुभाई	जीवीसी/3063/09	9-मोती पार्क सोसायटी, राजपुर- सिधपुर, जिला- पाटन, गुजरात	बीवीएससीएंडएच / एएयू/09	21.09.88
1747	पटेल हरगोविंद भाई शंकरभाई	जीवीसी/1905	39, कुबेरनगर, ग्रीन पार्क के पीछे, अहमदाबाद हाईवे, पालनपुर, जिला- बीके, गुजरात	बीवीएससीएंडएच / जीएयू/95	1.6.72
1748	पटेल हरिभाई बेचरभाई	जीवीसी/412	एटी: मसल, तालुक इदार, जिला साबरकंठा, गुजरात	बीवीएससीएंडएच / जीएयू/76	13.11.51
1749	पटेल हरिभाई मावजी भाई	जीवीसी/1454	एटी: धानेरी, तालुक दांतीवाड़ा, जिला- बीके, गुजरात	बीवीएससीएंडएच / जीएयू/91	1.6.87
1750	पटेल हरशद भाई मुल्जीभाई	जीवीसी/850	एटी:सयारा रोड, गोपालक होस्टल के सामने, एटी व तालुक- मोदासा, जिला साबरकंठा, गुजरात	बीवीएससीएंडएच / जीएयू/85	21.10.82
1751	पटेल हर्ष कुमार गोविंद भाई	जीवीसी/1778	14, गीतांजलि सोसायटी, हाईवे रोड, दीसा, जिला- बन्नासकंठा, गुजरात	बीवीएससीएंडएच / जीएयू/95	29.6.72
1752	पटेल हरमुख राय भीष्म लाल	जीवीसी/895	"पितृ-छाया हीरपारा वाड़ी, पुशाने बस स्टैंड के पीछे, एटी व तालुक -धोराजी, जिला राजकोट, गुजरात	बीवीएससीएंडएच / जीएयू/88	5.6.83
1753	पटेल हसमुखभाई अनिषदभाई	जीवीसी/3022/09	कुम्भासन, तालुक- पालनपुर, जिला बी.के.- 385515, गुजरात	बीवीएससीएंडएच / एसडीएयू/09	08.07.85
1754	पटेल हसमुखभाई काथरलाल	जीवीसी/1768	एटी एवं डाक- कामली, तालुक उन्ना, जिला मेहसाना- 384140, गुजरात	बीवीएससीएंडएच / जीएयू/94	1.12.71
1755	पटेल हसमुखभाई काजीभाई	जीवीसी/1283	बी/28, जगत नगर, पार्ट-1, विनेश चेंबर के सामने, इंदिरा कॉलोनी के निकट, टीबीएन रोड, बापूनगर, अहमदाबाद- 24	बीवीएससीएंडएच / जीएयू/90	10.7.87
1756	पटेल हसमुखभाई मनभाई	जीवीसी/2078	साबर चिलिंग सेंटर, बयाद, एटी एवं डाक- अंजनावाव, तालुक बयाद, एस.के., गुजरात	बीवीएससीएंडएच / जीएयू/97	10.8.74
1757	पटेल हसमुखभाई नागरभाई	जीवीसी/373	97-97, साई आशीष नगर-2, तलवाड़ी, रांडेर रोड, सूरत, गुजरात	बीवीएससीएंडएच / जीएयू/75	19.5.53

1758	पटेल हसमुखभाई परशोत्तमदास	जीवीसी/601	84, विद्यानगर सोसायटी, धरोई कॉलोनी के निकट, खेरालू रोड, विसनगर, जिला मेहसाना, गुजरात	बीवीएससीएंडएच /जीएयू/81	26.1.59
1759	पटेल हसमुखभाई रणछोड़दास	जीवीसी/1951	एटी- इजपुरा, डाक- पलाज, तालुक व जिला- मेहसाना, पिन- 384410, गुजरात	बीवीएससीएंडएच /जीएयू/96	12.9.73
1760	पटेल हेमंतभाई बाबूभाई	जीवीसी/1284	33, कामेश्वर पार्क सोसायटी, जोधापुर क्रॉस रोड, सैटेलाइट रोड, अहमदाबाद- 15, गुजरात	बीवीएससीएंडएच /जीएयू/90	22.5.67
1761	पटेल हीराभाई धुलाभाई	जीवीसी/444	वेटरिनरी डिस्पेंसरी, जारोद, तालुक- वाघोडिया, जिला- वडोदरा, गुजरात	बीवीएससीएंडएच /जीएयू/77	13.6.54
1762	पटेल हीराभाई लालजीभाई	जीवीसी/1430	एटी एवं डाक- संखालपुर, तालुक- बेचरजी, जिला- मेहसाना, पिन- 384410, गुजरात	बीवीएससीएंडएच /जीएयू/91	6.8.66
1763	पटेल हीरालाल रघुभाई	जीवीसी/510	15, नंद बंगला, पावापुरी सर्कल, घटलोडिया, अहमदाबाद, गुजरात	बीवीएससीएंडएच /जीएयू/79	1.3.55
1764	पटेल हितेंद्र प्रसाद पुरुषोत्तम दास	जीवीसी/557	शंकरदास कुवा, शानपार्क के सामने, इंदिरा गांधी मार्ग, नाडियाड, जिला- खेडा, गुजरात	बीवीएससीएंडएच /जीएयू/80	1.8.57
1765	पटेल हितेश कुमार बलदेवभाई	जीवीसी/1980	एटी एवं डाक- वनपरदी, तालुक- वीरमगाम, जिला- अहमदाबाद- 382130, गुजरात	बीवीएससीएंडएच /जीएयू/96	12.2.73
1766	पटेल हितेश कुमार बलदेवभाई	जीवीसी/1980 /09	एटी एवं डाक- वनपरदी, तालुक- वीरमगाम, जिला- अहमदाबाद- 382130, गुजरात	बीवीएससीएंडएच /जीएयू/96	12.02.73
1767	पटेल हितेश कुमार लालाभाई	जीवीसी/1952	एटी: गोरना मुवादा, डाक रामपटेल ना मुवादा, तालुक लूनावाड़ा, जिला- पंचमहल, गुजरात	बीवीएससीएंडएच /जीएयू/96	13.8.74
1768	पटेल इकबाल हुसैन इब्राहीमभाई	जीवीसी/374	गायत्री सोसायटी, मोरा रोड, एटी आमलासाड, जिला- नवसारी- 396310, गुजरात	बीवीएससीएंडएच /जीएयू/75	31.10.50
1769	पटेल इस्माइल अहमद	जीवीसी/674	आई.सी.डी.पी., इंद्रा कॉम्प्लेक्स के निकट, मंजलपुर, वडोदरा, गुजरात	बीवीएससीएंडएच /जीएयू/77	4.2.53

1770	पटेल इस्माइल अहमद	जीवीसी/602	वेटरिनरी डिस्पेंसरी, वागरा, जिला भडूच, गुजरात	बीवीएससीएंडएएच /जीएयू/81	30.12.58
1771	पटेल जगदीशभाई ईश्वरभाई.	जीवीसी/1580	एटी एवं डाक- नागर, तालुक- खम्भात, जिला आनंद, गुजरात	बीवीएससीएंडएएच /जीएयू/92	20.7.72
1772	पटेल जगदीश चंद्र वागजीभाई	जीवीसी/1135	ब्लॉक न. 177, शेरी-8/ए, सुभाष नगर, रावापार रोड, मोरबी, जिला राजकोट पिन- 383641, गुजरात	बीवीएससीएंडएएच /जीएयू/89	10.11.67
1773	पटेल जगदीश कुमार रामाभाई	जीवीसी/1732	एटी: लिदोहा, पटेल वास, रामजी मंदिर, तालुक देहगाम, जिला गांधीनगर- 382315, गुजरात	बीवीएससीएंडएएच /जीएयू/94	20.9.71
1774	पटेल जनक कुमार भीखालाल	जीवीसी/1753	एटी: गनठियोल, तालुक इदार, जिला साबरकंठा- 383410, गुजरात	बीवीएससीएंडएएच /जीएयू/94	1.6.72
1775	पटेल जनक कुमार रामजीभाई	जीवीसी/1291	24, चावेलीनगर सोसायटी, ऐरोड्रेम के निकट, ड्रीमलैंड सोसायटी के पीछे, मेहसाना, गुजरात	बीवीएससीएंडएएच /जीएयू/90	28.3.65
1776	पटेल जसवंतलाल कचरालाल	जीवीसी/910	ए-42, शुक्रन बंगला, मेहसाना, चार रास्ता, स्वागत होटल के पीछे, विसनगर, जिला मेहसाना, गुजरात	बीवीएससीएंडएएच /जीएयू/85	1.2.63
1777	पटेल जसवंत कुमार वीरचंदभाई	जीवीसी/1342	मानेकबा सोसायटी-201, स्वामी नारायण नगर, एटी, डाक, तालुक मोदासा, जिला साबरकंठा, गुजरात	बीवीएससीएंडएएच /जीएयू/90	24.9.66
1778	पटेल जतिन कुमार अमृतलाल	जीवीसी/2712 /09	सी/25, तपोवन बंगला, विक्रम, कंसा एन.ए. विसनगर, जिला मेहसाना (एन.जी.), गुजरात	बीवीएससीएंडएएच /एसडीएयू/06	15.07.84
1779	पटेल जतिन कुमार चीनूभाई	जीवीसी/2051	सी-47, हरिशिद्ध पार्क सोसायटी, नवसरजान स्कूल के पास, रानिप, अहमदाबाद 382480, गुजरात	बीवीएससीएंडएएच /जीएयू/97	28.5.75
1780	पटेल जयंत चमनलाल	जीवीसी/2713 /09	20, अम्बिका सोसायटी-2, मनसा, महाकाली मंदिर के निकट, मनसा -382845, जिला:गांधीनगर, गुजरात	बीवीएससीएंडएएच /एसडीएयू/06	16.03.84
1781	पटेल जयंति भाई जोइताराम	जीवीसी/1155	57, वज विहार सोसायटी, चिराग डायमंड के सामने, एल.बी.शास्त्री रोड, बापूनगर, अहमदाबाद, गुजरात	बीवीएससीएंडएएच /जीएयू/89	1.5.64

1782	पटेल जयंतिभाई मगनलाल	जीवीसी / 1102	एटी एवं डाक— सुंदरपुर, तालुक— वीजापुर, जिला— मेहसाना, गुजरात	बीवीएससीएंडएएच / जीएयू / 88	16.5.83
1783	पटेल जयंतिभाई मनिलाल	जीवीसी / 908	60, तिरुपतिनगर, घनास्मा रोड, शांतिनिकेतन हाई स्कूल के निकट, पाटन, गुजरात	बीवीएससीएंडएएच / जीएयू / 87	1.6.62
1784	पटेल जयंतिभाई प्रहलादभाई	जीवीसी / 1874	एटी एवं डाक—वाघोसाना, तालुक— कलोल, जिला—गांधीनगर, पिन— 382845, गुजरात	बीवीएससीएंडएएच / जीएयू / 95	1.6.71
1785	पटेल जयंतिभाई शंकरभाई	जीवीसी / 723	एटी: रंगपुर, डाक— प्रेमपुर, तालुक हिम्मतनगर, जिला साबरकंठा, गुजरात	बीवीएससीएंडएएच / जीएयू / 83	1.6.58
1786	पटेल जयंतिलाल अम्बालाल	जीवीसी / 375	77, अयोध्या नगर सोसायटी, काकोशी फाटक के निकट, सिधपुर, जिला— पाटन, गुजरात	बीवीएससीएंडएएच / जीएयू / 75	1.6.52
1787	पटेल जयंतिलाल डाहयाभाई	जीवीसी / 703	द्वारा वेटरिनरी सेक्शन, साबर डेरी, एटी एवं डाक— बोरिया, तालुक— हिम्मतनगर, जिला— साबरकंठा-1, गुजरात	बीवीएससीएंडएएच / जीएयू / 80	9.10.55
1788	पटेल जयंतिलाल मगनभाई	जीवीसी / 2121	एटी एवं डाक— जूना देवलिया, तालुक हलवड, जिला—सुरेंद्रनगर, पिन— 363330, गुजरात	बीवीएससीएंडएएच / जीएयू / 98	8.6.74
1789	पटेल जयंतिलाल पुरषोत्तमभाई	जीवीसी / 959	एटी एवं डाक— आमुध, तालुक— उन्ना, जिला— मेहसाना, गुजरात	बीवीएससीएंडएएच / जीएयू / 87	13.8.62
1790	पटेल जयेश शंकरलाल	जीवीसी / 2599 / 10	ए / 839, मनिलक्ष्मी सोसायटी, आदिनाथ नगर, ओधव, अहमदाबाद - 382415, गुजरात	बीवीएससीएंडएएच / एएयू / 06	01.02.82
1791	पटेल जयेश शांतिलाल	जीवीसी / 1017	ए-23, तिरुपति टाउनशिप-1, वीसा हाईवे रोड, पालनपुर, जिला बनासकंठा, गुजरात	बीवीएससीएंडएएच / जीएयू / 87	16.10.64
1792	पटेल जयेशकुमार बाबूलाल	जीवीसी / 1277	8, उत्तर गुजरात पटेल सोसायटी, पार्ट-2, बलिया लिम्बडी, नया सिविल अस्पताल रोड, असरवा, अहमदाबाद	बीवीएससीएंडएएच / जीएयू / 90	18.5.68
1793	पटेल जयेश कुमार बैद्यभाई	जीवीसी / 3064 / 09	ए-13, सनसिटी, एसवी कैम्पस के सामने, माथोलाल पार्क के निकट, कडी-382715, जिला / मेहसाना, गुजरात	बीवीएससीएंडएएच / एएयू / 09	05.09.87

1794	पटेल जयेश कुमार कांतिलाल	जीवीसी/2241	बी/7, हरिसिद्धा सोसायटी, गायत्री रोड, महावीरनगर, हिम्मतनगर, जिला—साबरकंठा—383001, गुजरात	बीवीएससीएंडएच / जीएयू/00	7.2.78
1795	पटेल जयेश कुमार मनिलाल	जीवीसी/1899	10, अम्बिका सोसायटी, राजगुरु फौवट्टी के निकट, वटवा, अहमदाबाद—382440, गुजरात	बीवीएससीएंडएच / जीएयू/95	29.3.73
1796	पटेल जयप्रकाश वल्लभभाई	जीवीसी/2052	एटी: रतनपुर, डाक: जनवद, तालुक: संतरामपुर, जिला: पंचमहल—389280, गुजरात	बीवीएससीएंडएच / जीएयू/97	4.11.74
1797	पटेल जिगर कमलेशभाई	जीवीसी/3133 /10	एफ—41, कृष्णा बंगला, पार्ट—1, मोटेरा ग्राम के सामने, मोटेरा, अहमदाबाद, गुजरात	बीवीएससीएंडएच / एएयू/10	21.08.88
1798	पटेल जिग्नेश राजेंद्र कुमार	जीवीसी/3062 /09	एटी— कांजरी कम्पा, तालुक— धनसुरा, जिला— साबरकंठा, गुजरात	बीवीएससीएंडएच / एएयू/09	29.09.82
1799	पटेल जिग्नेशकुमार नाथालाल	जीवीसी/2203	एटी एवं डाक: मेधासर, तालुक: मोदासा, जिला: साबरकंठा, गुजरात	बीवीएससीएंडएच / जीएयू/00	16.2.77
1800	पटेल जिग्नेशकुमार कनुभाई	जीवीसी/1571	एच—85, योगीदर्शन इयूप्लेक्स, टाउनशिप न.—2 के सामने, दरबार चौक, मंजालपुर, वडोदरा—390011, गुजरात	बीवीएससीएंडएच / जीएयू/92	9.10.70
1801	पटेल जितेंद्र कुमार हरिभाई	जीवीसी/2170	“मातृ छाया”, मधुवन सोसायटी, गोरवाडी, रेलवे अस्पताल के सामने, दुंढियावाड़ी, पालनपुर—385001, जिला बी. के., गुजरात	बीवीएससीएंडएच / जीएयू/99	2.1.76
1802	पटेल जितेंद्र कुमार केशुभाई	जीवीसी/1512	11, जय योगेश्वर सोसायटी, महावीर नगर, जीवनधारा स्ट्रीट के निकट, हिम्मतनगर—383001, जिला— साबरकंठा, गुजरात	बीवीएससीएंडएच / जीएयू/92	6.10.70
1803	पटेल जितेंद्र कुमार मफतलाल	जीवीसी/1174	वीरपारा निवास, बागपुरा, एटी एवं डाक— देनाप, तालुक विसनगर, जिला— मेहसाना, गुजरात	बीवीएससीएंडएच / जीएयू/89	13.6.87
1804	पटेल जितेंद्र कुमार रमनलाल	जीवीसी/1774	ए—18, मंगलम सोसायटी—II, घोडासर, अहमदाबाद—50, गुजरात	बीवीएससीएंडएच / जीएयू/94	3.1.68
1805	पटेल कल्पेश कुमार चंद्रकांत	जीवीसी/3088 /09	एटी एवं डाक: कुम्भारवाड़ी, तालुक: वीरपुर, जिला— खेडा, गुजरात	बीवीएससीएंडएच / एएयू/09	01.05.86

1806	पटेल कल्पेश कुमार नटवरलाल	जीवीसी/3023 /09	एटी- खटसाना, डाक माहेरवाड़ा, तालुक- उन्झा, जिला मेहसाना, गुजरात	बीवीएससीएंडएएच /एसडीएयू/09	30.05.87
1807	पटेल कमलेश कुमार केशवलाल	जीवीसी/779	कृष्णा सदन, सज्जनपुरा, रामदेव पीर मंदिर के निकट, एटी एवं डाक- मनसा, जिला- गांधीनगर, 382845, गुजरात	बीवीएससीएंडएएच /जीएयू/83	3.3.59
1808	पटेल कमलेश कुमार मधामाई	जीवीसी/3024 /09	एटी एवं डाक- सासम, तालुक- पालनपुर, जिला-बी.के.- 385515, गुजरात	बीवीएससीएंडएएच /एसडीएयू/09	30.11.85
1809	पटेल कमलेश कुमार मनसुखभाई	जीवीसी/2258	30, मोतीनगर सोसायटी, जीईबी के निकट, कलोल, जिला- गांधीनगर- 382721, गुजरात	बीवीएससीएंडएएच /जीएयू/00	10.8.77
1810	पटेल कमलेश कुमार नारायणभाई	जीवीसी/2021	जी-7, आकाश फ्लैट, निर्माण टावर के निकट, गुलाब टावर रोड, धलतेज-54, अहमदाबाद, गुजरात	बीवीएससीएंडएएच /जीएयू/97	1.6.87
1811	पटेल कंद्राप खोडीदास	जीवीसी/3134 /10	बी-1/11, साई धाम सोसायटी, प्रियदर्शिनी नगर के पीछे, सुसेन सर्कल के निकट, मकरपुरा रोड, बड़ौदा, गुजरात	बीवीएससीएंडएएच /एएयू/10	23.04.88
1812	पटेल कांजीभाई लालजीभाई	जीवीसी/311	प्लॉट न.- 738/ए, सेक्टर- 6/ बी, सरस्वती स्कूल के निकट, गांधीनगर- 382006, गुजरात	बीवीएससीएंडएएच /जीएयू/73	6.9.48
1813	पटेल कांजीभाई परशोत्तमभाई	जीवीसी/2158	आरती ऑटो मोबाइल्स, स्टेशन रोड, तलजा, जिला- भावनगर, गुजरात	बीवीएससीएंडएएच /जीएयू/95	2.7.72
1814	पटेल कांतिलाल भगमलाल	जीवीसी/1517	वेटरिनरी डिस्पेंसरी, गढ़, तालुक- पालनपुर, जिला- बनासकंठा, गुजरात	बीवीएससीएंडएएच /जीएयू/92	1.6.68
1815	पटेल कांतिलाल मोहनलाल	जीवीसी/380	एटी: आनंदपुरा, तालुक: वडनगर, जिला- मेहसाना, गुजरात	बीवीएससीएंडएएच /जीएयू/75	1.6.51
1816	पटेल कनुभाई भगावन भाई	जीवीसी/445	एटी- गोथिब, वाया: सुखसार, तालुक- संतरामपुर, जिला गोधरा, गुजरात	बीवीएससीएंडएएच /जीएयू/77	1.5.53
1817	पटेल कनुभाई नारनदास	जीवीसी/1953	5, उमियानगर सोसायटी, एटी एवं डाक-देवरासन, तालुक व जिला- मेहसाना, पिन- 382710, गुजरात	बीवीएससीएंडएएच /जीएयू/98	1.4.74

1818	पटेल कनुभाई रमनभाई	जीवीसी/1539	"गुरु कृपा" वाड़ी, कसोर- बी, तालुक व जिला- आनंद, गुजरात	बीवीएससीएंडएएच /जीएयू/92	13.6.69
1819	पटेल कनुभाई रमनलाल	जीवीसी/1297	एटी एवं डाक- गोबत, तालुक- बयाद, जिला- साबरकंठा, गुजरात	बीवीएससीएंडएएच /जीएयू/89	1.6.85
1820	पटेल कनुभाई संकालचंद	जीवीसी/1049	बी/5, ग्रीनविला फ्लैट, विश्राम नगर के निकट, एचबीके स्कूल, गुरुकुल रोड, एबीडी, गुजरात.	बीवीएससीएंडएएच /जीएयू/88	16.10.65
1821	पटेल कर्दम जीवाभाई	जीवीसी/1257	द्वारा पंचामृत डेरी, गोधरा, जिला- पंचमहल, गुजरात	बीवीएससीएंडएएच /जीएयू/90	22.7.68
1822	पटेल कौशिक कुमार बाबाभाई	जीवीसी/2001	साबर विलिंग सेंटर, बयाद, एटी एवं डाक- अंजनावाव, तालुक- बयाद, एस.के., गुजरात	बीवीएससीएंडएएच /जीएयू/97	19.7.74
1823	पटेल कवेश कुमार मनिलाल	जीवीसी/900	एटी: अम्बागाम, तालुक- बयाद, जिला- साबरकंठा, गुजरात	बीवीएससीएंडएएच /जीएयू/87	21.2.65
1824	पटेल केशवलाल मनिलाल	जीवीसी/338	58/ए, तुलसी बंगला, राधनपुर रोड, मारुति फ्लैट के सामने, मेहसाना, गुजरात	बीवीएससीएंडएएच /जीएयू/74	1.6.47
1825	पटेल केतन कुमार गोविंदभाई	जीवीसी/1542	प्लॉट न.- 168/1, किशन नगर, सेक्टर-26, गांधीनगर, गुजरात	बीवीएससीएंडएएच /जीएयू/92	24.70
1826	पटेल केतन कुमार शंकरलाल	जीवीसी/3025 /09	एटी एवं डाक- मंदावी, तालुक- पालनपुर, जिला- बनासकंठा, गुजरात	बीवीएससीएंडएएच /एसडीएयू/09	20.04.85
1827	पटेल केयूरकुमार दिनेश कुमार	जीवीसी/3089 /09	177/2119, सूर्य अपार्टमेंट, आकाश गंगा अपार्टमेंट के सामने, पारस नगर, सोला रोड, नारनपुरा, अहमदाबाद, गुजरात	बीवीएससीएंडएएच /एएयू/09	23.08.86
1828	पटेल खुमाभाई कलाजी	जीवीसी/1907	डाक मंडल, तालुक थराड, जिला बनासकंठा, गुजरात	बीवीएससीएंडएएच /जीएयू/95	1.6.71
1829	पटेल किरीत डाहायाभाई	जीवीसी/1285	11-प्रस्थान बंगला, पार्ट-1, निर्माण टावर के पीछे, आईडी पटेल स्कूल के सामने, चाणक्यपुरी, घटलोडिया, अहमदाबाद- 61	बीवीएससीएंडएएच /जीएयू/90	10.10.68

1830	पटेल किरीतभाई अर्जुन भाई	जीवीसी/848	वेटरिनरी डिस्पेंसरी, खड खम्भालिया, तालुक- लालपुर, जिला- जामनगर, गुजरात	बीवीएससीएंडएएच /जीएयू/85	18.1.63
1831	पटेल किरीत कुमार मूलचंदभाई	जीवीसी/1168	45, शामविहार-2 बंगला, परफेक्ट प्लाजा के पीछे, राधनपुर रोड, मेहसाना, गुजरात	बीवीएससीएंडएएच /जीएयू/85	6.7.61
1832	पटेल किरीत कुमार रमनभाई	जीवीसी/1283	द्वारा वेटरिनरी सेक्शन, साबर डेरी, एटी एवं डाक- बोरिया, तालुक- हिम्मतनगर, जिला- साबरकंठ, पिन- 383001	बीवीएससीएंडएएच /जीएयू/90	3.11.66
1833	पटेल किशोर कुमार हरगोविंदभाई	जीवीसी/1294	एटी एवं डाक- विसातपुरा, तालुक- कडी, जिला- मेहसाना, गुजरात	बीवीएससीएंडएएच /जीएयू/90	8.11.67
1834	पटेल लक्ष्मण गंगाराम	जीवीसी/25	ई/5, भास्कर अपार्टमेंट, मिताम्बिका रोड, नारनपुरा, अहमदाबाद- 13, गुजरात	बीएससी (वेट)/बम्बईविवि/ 54	1.3.58
1835	पटेल मधुसूदन कांजीभाई	जीवीसी/1709	13, वसुंधरा सोसायटी, एमएन कॉलेज रोड, विसनगर- 384315, जिला- मेहसाना, गुजरात	बीवीएससीएंडएएच /जीएयू/94	2.12.71
1836	पटेल मफतलाल नागरभाई	जीवीसी/1811	एटी- कुम्भलमेर, तालुक पालनपुर, जिला- बनासकंठा- 385510, गुजरात	बीवीएससीएंडएएच /जीएयू/91	17.7.69
1837	पटेल महेंद्र कुमार अम्बालाल	जीवीसी/1299	एटी एवं डाक- विसोल, तालुक- सिद्धपुर, जिला- मेहसाना, गुजरात	बीवीएससीएंडएएच /जीएयू/90	9.12.67
1838	पटेल महेंद्र कुमार चुनीलाल	जीवीसी/822	एटी एवं डाक- चावेली, तालुक- चनास्मा, जिला- पाटन, गुजरात	बीवीएससीएंडएएच /जीएयू/84	3.11.61
1839	पटेल महेंद्र कुमार गोडाडभाई	जीवीसी/1784	एटी- कुम्भासन, तालुक- पालनपुर, जिला- बनासकंठा- 385515, गुजरात	बीवीएससीएंडएएच /जीएयू/94	1.7.68
1840	पटेल महेंद्र कुमार नारायणभाई	जीवीसी/1559	सी-22, वर्धमान बंगला, अहमदाबाद हाईवे, रेलवे क्रॉसिंग के निकट, पालनपुर, गुजरात	बीवीएससीएंडएएच /जीएयू/92	1.6.68
1841	पटेल महेंद्र प्रसाद मंगलभाई	जीवीसी/1265	एटी- वाडी, डाक- मधवास, तालुक- लूनावाड़ा, जिला- पंचमहल- 380009, गुजरात	बीवीएससीएंडएएच /जीएयू/90	26.7.68

1842	पटेल महेशभाई मगनलाल	जीवीसी/1388	प्लॉट न. 408/2, सेक्टर-2/बी, गांधीनगर-2, गुजरात	बीवीएससीएंडएएच /जीएयू/91	8.1.69
1843	पटेल महेशभाई नारायणभाई	जीवीसी/1786	एटी एवं डाक- अनजोल, तालुक- मनसा, जिला- गांधीनगर- 382811, गुजरात	बीवीएससीएंडएएच /जीएयू/95	1.6.70
1844	पटेल महेश कुमार चंदूलाल	जीवीसी/1584	एटी एवं डाक- खरोड, तालुक वीजापुर, जिला- मेहसाना, गुजरात	बीवीएससीएंडएएच /जीएयू/92	1.6.66
1845	पटेल महेश कुमार चूनीलाल	जीवीसी/1843	एटी- सदावेल, वाव फालिया, तालुक- दिखाली, जिला- नवसारी- 396580, गुजरात	बीवीएससीएंडएएच /जीएयू/95	8.6.70
1846	पटेल महेश कुमार धरमशीभाई	जीवीसी/1963	नया-सी-3, खेतीवाड़ी कैम्पस, एएयू, आनंद, गुजरात	बीवीएससीएंडएएच /जीएयू/98	5.7.73
1847	पटेल महेश कुमार जीवाभाई	जीवीसी/1476	नया वाड़ा, ई-13-148, विश्राम पार्क, भवसार होस्टल के निकट, अहमदाबाद-1, गुजरात	बीवीएससीएंडएएच /जीएयू/91	10.7.67
1848	पटेल महेश कुमार नारायणभाई	जीवीसी/1798	बी-44, सीपी नगर, पार्ट- II, अर्जुन टावर, भुयंगदेव चार रास्ता, घटलोडिया, सोला रोड, अहमदाबाद -61	बीवीएससीएंडएएच /जीएयू/89	29.12.66
1849	पटेल महेश कुमार नटवरलाल	जीवीसी/1993	780, सोमेश्वर सोसायटी, सेक्टर- 27, गांधीनगर, गुजरात	बीवीएससीएंडएएच /जीएयू/96	3.5.73
1850	पटेल महेश कुमार रणछोड़भाई	जीवीसी/482	शिव शक्ति हाउसिंग सोसायटी, देसारा प्राइमरी स्कूल के पीछे, देसारा, बिलीमोरा, जिला नवसारी, गुजरात	बीवीएससीएंडएएच /जीएयू/78	25.9.54
1851	पटेल महेश कुमार रघुनाथभाई	जीवीसी/2028	18, त्रिवेनी सोसायटी, धरम सिनेमा रोड, मेहसाना- 2, गुजरात	बीवीएससीएंडएएच /जीएयू/97	26.9.62
1852	पटेल मनीष कुमार मोरारजीभाई	जीवीसी/1496	बी/17, रवि पार्क सोसायटी, गायत्री मंदिर रोड, महावीर नगर, हिम्मतनगर, साबरकंठा- 383001, गुजरात	बीवीएससीएंडएएच /जीएयू/92	10.6.70
1853	पटेल मनोज नाथूभाई	जीवीसी/1994	ई/6, वर्धमान नगर प्लैट्स, सीपी नगर के पीछे, घटलोडिया, सोला रोड, अहमदाबाद- 61, गुजरात	बीवीएससीएंडएएच /जीएयू/96	18.8.74

1854	पटेल मनोजकुमार अम्बालाल	जीवीसी/2054	एटी एवं डाक- देलवाड़ा, नवा पारा, तालुक मनसा, जिला- गांधीनगर, गुजरात	बीवीएससीएंडएच /जीएयू/97	23.6.74
1855	पटेल मनोज कुमार कांतिलाल	जीवीसी/2077	एटी- पुराना रामपुरा, तालुक उन्झा, जिला- मेहसाना, गुजरात	बीवीएससीएंडएच /जीएयू/97	1.6.74
1856	पटेल मनोज कुमार करशनभाई	जीवीसी/3026 /09	एटी एवं डाक- कोठासना, तसातलासना, जिला- मेहसाना, गुजरात	बीवीएससीएंडएच /एसडीएयू/09	08.08.86
1857	पटेल मनुभाई भगवानदास	जीवीसी/1790	एटी एवं डाक- रणछोड़पुरा, तालुक- उन्झा, जिला- मेहसाना- 384170, गुजरात	बीवीएससीएंडएच /जीएयू/94	21.11.70
1858	पटेल मनुभाई कांजीभाई	जीवीसी/1462	एटी: सेनदारिया गोराडा, डाक वाड़ी ना गोराडा, तालुक: लूनावाडा, जिला पंचमहल- 389230, गुजरात	बीवीएससीएंडएच /जीएयू/91	1.5.68
1859	पटेल मनुभाई माधवलाल	जीवीसी/382	7, शायोना कुंज बंगला, शायोना स्कूल के निकट, शायोना, सिटी कम्पाउंड, घटलोडिया, अहमदाबाद - 380061, गुजरात	बीवीएससीएंडएच /जीएयू/75	1.6.51
1860	पटेल मनुभाई मोहनभाई	जीवीसी/1787	एटी- कुंवरा, पोस्ट ऑफिस के सामने तालुक- सिद्धापुर, जिला पाटन, पिन- 384270, गुजरात	बीवीएससीएंडएच /जीएयू/94	1.6.70
1861	पटेल मनुभाई परशोत्तमदास	जीवीसी/383	एटी एवं डाक- वनोडा, तालुक- थासरा, जिला- खेडा, गुजरात	बीवीएससीएंडएच /जीएयू/75	15.6.55
1862	पटेल मीताबेन वीराभाई	जीवीसी/3027 /09	एटी एवं डाक- वेदांचा, तालुक- पालनपुर, जिला- बी.के.- 385511, गुजरात	बीवीएससीएंडएच /एसडीएयू/09	29.11.86
1863	पटेल मेहुल कुमार छगनभाई	जीवीसी/1445	14, हिमालय बंगला, धरती रिसोर्ट के पीछे, पालनपुर, जिला- बनासकंठा, गुजरात	बीवीएससीएंडएच /जीएयू/91	1.6.69
1864	पटेल मेहुल कुमार डाहयालाल	जीवीसी/3142 /10	एटी- रानेला, डाक जनवद, तालुक संतरामपुर, जिला- गोधरा, गुजरात	बीवीएससीएंडएच /एएयू/10	05.03.85
1865	पटेल मिलन कुमार रसिकलाल	जीवीसी/1228	मांघलो वाड-1, लंघनाज, तालुक व जिला- मेहसाना- 382730, गुजरात	बीवीएससीएंडएच /जीएयू/90	21.9.68

1866	पटेल भितेश कुमार प्राणजीवन	जीवीसी/1842	सोहम सोसायटी, करन नगर रोड, एटी-कडी, तालुक कडी, जिला- मेहसाना, गुजरात	बीवीएससीएंडएएच /जीएयू/93	17.10.70
1867	पटेल मुकेश प्रहलाद भाई	जीवीसी/1630	ए/3, मृदुल पार्क सोसायटी- 11, सोला रोड, घटलोडिया, अहमदाबाद- 380061, गुजरात	बीवीएससीएंडएएच /जीएयू/93	5.8.71
1868	पटेल मुकेशभाई बाबूभाई	जीवीसी/1192	एटी एवं डाक- बालूला, तालुक- थसारा, जिला- खेड़ा, गुजरात	बीवीएससीएंडएएच /जीएयू/89	12.6.68
1869	पटेल मुकेश भाई चिमनलाल	जीवीसी/1106	नारायण नगर बंगला, गोटा, ऑफ एसजी रोड, अहमदाबाद, गुजरात	बीवीएससीएंडएएच /जीएयू/88	15.5.65
1870	पटेल मुकेश भाई डाहयामाई	जीवीसी/1424	एटी: इतदारा, तालुक- वीजापुर, जिला- मेहसाना, गुजरात	बीवीएससीएंडएएच /जीएयू/91	1.6.66
1871	पटेल मुकेश भाई भगमलाल	जीवीसी/1048	प्लॉट न. 880/2, पंचवटी पार्क, सेक्टर- 23, गांधीनगर- 382023, गुजरात	बीवीएससीएंडएएच /जीएयू/88	1.6.62
1872	पटेल मुकेश कुमार अमृतलाल	जीवीसी/2078	ए/30, सारथी नगर सोसायटी, घनास्मा रोड, पाटन, गुजरात	बीवीएससीएंडएएच /जीएयू/97	16.5.75
1873	पटेल मुकेश कुमार जोइताभाई	जीवीसी/1954	एटी- गणेशपुरा (तराम), तालुक- विसनगर, जिला- मेहसाना- 384310, गुजरात	बीवीएससीएंडएएच /जीएयू/96	1.6.71
1874	पटेल मुकेश कुमार प्रभुदास	जीवीसी/1955	बी-10, सज्जन नगर सोसायटी, मनसा, तालुक- मनसा, जिला- गांधीनगर- 382845, गुजरात	बीवीएससीएंडएएच /जीएयू/96	10.9.73
1875	पटेल मूलचंद लालदास	जीवीसी/447	46-रंग महल सोसायटी, कंकरोल रोड, महाकाली मंदिर के निकट, महावीरनगर, हिम्मतनगर 383001, जिला- साबरकंठा, गुजरात	बीवीएससीएंडएएच /जीएयू/77	1.6.53
1876	पटेल नागिनभाई काशीभाई	जीवीसी/384	20, आयुश बंगला, केया मोटर्स स्ट्रीट, छानी जकात नाका के सामने, छानी, वडोदरा, गुजरात	बीवीएससीएंडएएच /जीएयू/75	11.8.55
1877	पटेल नंदलाल विट्ठल (चादमिया)	जीवीसी/1193	द्वारा:रावजी गोविंद दबासिया, घाना भगत, नवावास, मधुपुर, तालुक - भुज, जिला- कच्छ, गुजरात	बीवीएससीएंडएएच /जीएयू/89	15.5.63

1878	पटेल नारनभाई बहेचरभाई	जीवीसी/289	12, जय योगेश्वर सोसायटी, गायत्री मंदिर रोड, रानिप, अहमदाबाद- 382480, गुजरात	बीवीएससीएंडएएच / जीएयू/1972	1.6.49
1879	पटेल नारायण भाई वीरचनदास	जीवीसी/561	एटी एवं डाक- गोजरिया, भक्त चौक, वाटा मा, तालुक व जिला मनसा, गुजरात	बीवीएससीएंडएएच / जीएयू/80	10.6.55
1880	पटेल नारायण लाल डाह्या लाल	जीवीसी/290	25, एस.के. बैंक कॉलोनी, डी-ग्रुप, गायत्री मंदिर रोड, हिम्मतनगर- 383001, जिला-साबरकंठा, गुजरात	बीवीएससीएंडएएच / जीएयू/1972	28.10.48
1881	पटेल नरेंद्र कुमार पुरुषोत्तम दास	जीवीसी/562	ए-9, गोकुल अपार्टमेंट, शिवम अपार्टमेंट के सामने, अखबारनगर सर्कल, नया वडाज, अहमदाबाद- 13, गुजरात	बीवीएससीएंडएएच / जीएयू/80	1.6.54
1882	पटेल नरेंद्र कुमार रेवाभाई	जीवीसी/1358	एटी: गुडिया, डाक नावा, तालुक- तालोड, जिला- साबरकंठा, गुजरात	बीवीएससीएंडएएच / जीएयू/89	16.8.64
1883	पटेल नरेंद्र कुमार उमेदभाई	जीवीसी/879	ई-35, अयोजा नगर सोसायटी, श्रेयस रेलवे क्रॉसिंग के निकट, पलदी, अहमदाबाद-7, गुजरात	बीवीएससीएंडएएच / जीएयू/86	22.6.64
1884	पटेल नरेशभाई चुनीलाल	जीवीसी/817	11, राजलक्ष्मी सोसायटी, जलाराम सोसायटी के निकट, लक्ष्मीदर्शन अपार्टमेंट के सामने, पालनपुर पटिया, रांडेर रोड, सूरत	बीवीएससीएंडएएच / जीएयू/84	8.2.62
1885	पटेल नरसिंहभाई गेंदालाल	जीवीसी/826	1/9, मारुतिनंदन विला-1, सरकारी ट्यूबवेल के निकट, एच.पी. पेट्रोल पम्प, के सामने, बोपल रोड, बोपल, अहमदाबाद- 58, गुजरात	बीवीएससीएंडएएच / जीएयू/84	17.12.60
1886	पटेल नरसिंहभाई बाबूभाई	जीवीसी/1481	एटी एवं डाक- रामगढ़, ताम्बोलिया, तालुक चनसामा, जिला मेहसाना, गुजरात	बीवीएससीएंडएएच / जीएयू/91	22.6.69
1887	पटेल नरसिंहभाई नटवरलाल	जीवीसी/781	5, रौनक पार्क, ग्रीन पार्क के निकट, माली का कुआं, महावीर नगर, हिम्मतनगर, एस.के. गुजरात	बीवीएससीएंडएएच / जीएयू/78	1.6.58
1888	पटेल नटवरभाई जीबरामभाई	जीवीसी/1765	वेटरिनरी डिस्पेंसरी, धानेरा, तालुक- धानेरा, जिला- बनासकंठा, गुजरात	बीवीएससीएंडएएच / जीएयू/94	1.2.71
1889	पटेल नटवरभाई शामलभाई	जीवीसी/1434	एटी एवं डाक- लक्ष्मीपुरा, तालुक- खेदब्रह्मा, जिला- साबरकंठा, गुजरात	बीवीएससीएंडएएच / जीएयू/91	31.5.67

1890	पटेल नटवरभाई शिवराम भाई	जीवीसी/859	37, तिरुपति टाउनशिप, हाइवे रोड, जीईबी के निकट, पाटन, गुजरात	बीवीएससीएंडएच / जीएयू/86	6.1.61
1891	पटेल नटवरलाल छगनलाल	जीवीसी/314	14, सरदार पटेल कॉलोनी, राधनपुर रोड के सामने, जकात नाका, राधनपुर रोड, मेहसाना-2, गुजरात	बीवीएससीएंडएच / जीएयू/73	20.1.49
1892	पटेल नटवरलाल गणेशभाई	जीवीसी/341	14, कवाडवाला सोसायटी, घटलोडिया, अहमदाबाद- 380061, गुजरात	बीवीएससीएंडएच / जीएयू/74	16.2.54
1893	पटेल नटवरलाल कचराभाई	जीवीसी/315	बी-3, रत्ना पैलेस, जज बंगले के सामने, बोडाकदेव, अहमदाबाद - 380015, गुजरात	बीवीएससीएंडएच / जीएयू/73	6.1.51
1894	पटेल नवीनचंद्र अम्बालाल	जीवीसी/1747	एटी-गोविंदपुरा (हलावरूपारु), डाक धानापुरा (घोट्ट), तालुक वीजापुर, जिला मेहसाना- 382870, गुजरात	बीवीएससीएंडएच / जीएयू/94	9.10.70
1895	पटेल नवीनचंद्र डाहयाभाई	जीवीसी/1084	एटी एवं डाक: नदीसर, तालुक गोधरा, जिला- पंचमहल- 388712, गुजरात	बीवीएससीएंडएच / जीएयू/88	12.4.66
1896	पटेल नवीन कुमार कांतिलाल	जीवीसी/1282	एटी एवं डाक: तालोद, तालुक: तालोद, जिला: साबरकंठा, गुजरात	बीवीएससीएंडएच / जीएयू/90	22.6.67
1897	पटेल नयनंद्र अम्बालाल	जीवीसी/1654	एटी- वरधरी, तालुक- लूनावाडा, जिला- पंचमहल, गुजरात	बीवीएससीएंडएच / जीएयू/93	1.8.71
1898	पटेल नीरज कुमार प्रहलादभाई	जीवीसी/1918	35, वृंदावन पार्क, कलापीनगर के निकट, राधनपुर रोड, मेहसाना, गुजरात	बीवीएससीएंडएच / जीएयू/95	1.12.70
1899	पटेल निखिल घनश्यामभाई	जीवीसी/3028 /09	केयर निकिता साड़ी सेंटर, पूर्णिमा हाई स्कूल के सामने, देहगाम, गांधीनगर, गुजरात	बीवीएससीएंडएच / एसडीएयू/09	05.11.86
1900	पटेल निकुंज कुमार अमृतलाल	जीवीसी/1672	एटी: डालपुर, डाक: अगियोल, तालुक: हिम्मतनगर, जिला- साबरकंठा, गुजरात	बीवीएससीएंडएच / जीएयू/93	27.12.70
1901	पटेल नीलेश मनिलाल	जीवीसी/1431	ब्लॉक न. 378/2, सेक्टर-12, "सी", गांधीनगर, गुजरात	बीवीएससीएंडएच / जीएयू/91	28.5.69

1902	पटेल नीलेशभाई शम्भुभाई	जीवीसी/1728	एल-1/4, गायत्री नगर, पत्रकार कॉलोनी-2, आदर्श नगर, नारनपुरा, अहमदाबाद-380013, गुजरात	बीवीएससीएंडएच / जीएयू/94	14.6.72
1903	पटेल निमेश कुमार चिमनलाल	जीवीसी/2055	नवा कछला, स्टेशन रोड, एटी- लोडारा, तालुक- मनसा, जिला- गांधीनगर, गुजरात	बीवीएससीएंडएच / जीएयू/97	22.6.75
1904	पटेल नीरल कुमार रतिलाल	जीवीसी/2262	एटी एवं डाक: रोपड़ीपुरा, पोस्ट ऑफिस के निकट, चनास्मा, तालुक - चनास्मा, जिला पाटन, गुजरात	बीवीएससीएंडएच / जीएयू/00	12.11.77
1905	पटेल निशांत कुमार रजनीकांत	जीवीसी/2002	3, तुलसी श्याम बंगला, श्रृंगार सोसायटी के सामने, कमलापार्क रोड, आनंद, गुजरात	बीवीएससीएंडएच / जीएयू/99	1.2.74
1906	पटेल नीलेश कुमार प्रभुलाल	जीवीसी/2154	"तीर्थ" 27, आशुतोष सोसायटी, राइया रोड, राजकोट-1, गुजरात	बीवीएससीएंडएच / जीएयू/98	15.8.75
1907	पटेल पंकज कुमार ईश्वरलाल	जीवीसी/1956	6, मधुवन सोसायटी, एस.टी. वर्कशॉप के पीछे, बेचरपुरा, पालनपुर- 385001, गुजरात	बीवीएससीएंडएच / जीएयू/96	20.6.74
1908	पटेल पंकज कुमार ईश्वरलाल	जीवीसी/1956 /09	6, मधुवन सोसायटी, एस.टी. वर्कशॉप के पीछे, बेचरपुरा, पालनपुर- 385001, गुजरात	बीवीएससीएंडएच / जीएयू/96	20.06.74
1909	पटेल पंकज कुमार जेठालाल	जीवीसी/2280	एटी एवं डाक: कुम्भरवाड़ी, तालुक: वीरपुर, जिला: खेडा, पिन- 388260, गुजरात	बीवीएससीएंडएच / जीएयू/00	11.6.77
1910	पटेल पंकज कुमार कोदारलाल	जीवीसी/1548	303, शुभ फ्लैट, साई चौक के निकट, मंजलपुर टाउनशिप-2 के निकट, वडोदरा-12, गुजरात	बीवीएससीएंडएच / जीएयू/92	18.11.68
1911	पटेल परेश कुमार बाबूभाई	जीवीसी/2124	ए/11, प्रारंभ टेनामेंट, रेलवे क्रॉसिंग, वाघसी रोड, आनंद, गुजरात	बीवीएससीएंडएच / जीएयू/98	29.7.75
1912	पटेल परेश कुमार सीतारामभाई	जीवीसी/1520	36, साई कृपा सोसायटी, राधनपुर हाईवे क्रॉसिंग, मेहसाना, गुजरात	बीवीएससीएंडएच / जीएयू/92	14.9.70
1913	पटेल पिनाकिनभाई कांतिलाल	जीवीसी/1264	एटी- फारतीकुई, तालुक- दामोई, जिला- वडोदरा, गुजरात	बीवीएससीएंडएच / जीएयू/90	30.7.68

1914	पटेल पोशाक कुमार रामभाई	जीवीसी/1805	बी 303, अर्जुनरत्ना अपार्टमेंट, सीटी नगर के सामने, भुयंगदेव चार रास्ता के निकट, घटलोडिया, अहमदाबाद	बीवीएससीएंडएच / जीएयू/91	17.7.69
1915	पटेल प्रभुभाई पूनाभाई	जीवीसी/2204	एटी एवं डाक: फागदी, मुखीवास के निकट, तालुक सनद, अहमदाबाद- 382110, गुजरात	बीवीएससीएंडएच / जीएयू/99	1.6.74
1916	पटेल प्रदीप कुमार अमृतलाल	जीवीसी/2277	राजेश नगर सोसायटी, मकदुपुर रोड, एटी-तांडव, तालुक- उन्झा, जिला- मेहसाना, गुजरात	बीवीएससीएंडएच / जीएयू/00	8.8.78
1917	पटेल प्रदीप कुमार जगन्नाथभाई	जीवीसी/1877	एटी एवं डाक: वेलदा, तालुक: निज़ार, जिला- सूरत, पिन- 394370, गुजरात	बीवीएससीएंडएच / जीएयू/95	29.10.73
1918	पटेल प्रदीप कुमार कांतिभाई	जीवीसी/3065 /09	18, पंचदेव सोसायटी, सम्मान पार्क के निकट, महावीर नगर, हिम्मत नगर, गुजरात	बीवीएससीएंडएच / एएयू/09	30.11.86
1919	पटेल प्रफुल्ल कुमार परशोत्तमभाई	जीवीसी/2334 /09	15/171, आम्रपाली फ्लैट्स, भक्ति नगर के निकट, बापूनगर चार रास्ता, बापूनगर, अहमदाबाद-04, गुजरात	बीवीएससीएंडएच / जीएयू/01	07.10.78
1920	पटेल प्रमेश कुमार प्रवीण चंद्र	जीवीसी/3066 /09	एटी- काशीपुरा, डाक- विष्णुपुरा, तालुक- कपाड़वंज, जिला- खेडा, गुजरात	बीवीएससीएंडएच / एएयू/09	21.01.87
1921	पटेल प्रहलादभाई चतुरभाई	जीवीसी/1093	एटी- सुनोक, आज़ाद चौक, तालुक- उन्झा, जिला- मेहसाना, गुजरात	बीवीएससीएंडएच / जीएयू/88	25.3.66
1922	पटेल प्रहलादभाई कुबेरदास	जीवीसी/738 /09	ए-15, देवसिटी बंगला, शायोनासिटी के निकट, आर.सी. टेक्नीकल रोड, घटलोडिया, अहमदाबाद, गुजरात	बीवीएससीएंडएच / जीएयू/73	10.06.50
1923	पटेल प्रकाशभाई गिरधरभाई	जीवीसी/1137	18, श्रीजी पार्क सोसायटी, उमिया पलिवार के पीछे, गायत्री मंदिर रोड, कनखोल, महावीर नगर, हिम्मतनगर, साबरकंठा	बीवीएससीएंडएच / जीएयू/89	5.7.66
1924	पटेल प्रकाशभाई हरिभाई	जीवीसी/1077	24, शुभम बंगला, जय अविनाश सोसायटी के सामने, केके नगर रोड, घटलोडिया, अहमदाबाद- 61, गुजरात	बीवीएससीएंडएच / जीएयू/88	1.6.61
1925	पटेल प्रकाशभाई नंदूभाई	जीवीसी/1478	ए.डी.सी. बैंक के निकट, एटी एवं डाक- नंदोल, तालुक: देहगाम, जिला: गांधीनगर-382305, गुजरात	बीवीएससीएंडएच / जीएयू/91	18.8.69

1926	पटेल प्रकाश कुमार मधुसूदन	जीवीसी/901	मधुवन, चैतन्य वृंद के निकट-1, वी.वी. नगर रोड, आनंद, गुजरात	बीवीएससीएंडएच /जीएयू/88	3.6.64
1927	पटेल प्रकाश कुमार संकाभाई	जीवीसी/2171	एटी एवं डाक: बाडोली, तालुक: इदार, जिला: साबरकंठा, गुजरात	बीवीएससीएंडएच /जीएयू/99	6.4.75
1928	पटेल प्रकाश कुमार सैधाभाई	जीवीसी/2273	एटी एवं डाक-रामनगर, तालुक- कलोल, जिला- गांधीनगर- 382721, गुजरात	बीवीएससीएंडएच /जीएयू/00	1.6.76
1929	पटेल प्रकाश कुमार बाबूभाई	जीवीसी/1870	एटी- जगन्नाथपुरा, तालुक- उन्डा, जिला- मेहसाना, गुजरात	बीवीएससीएंडएच /जीएयू/95	20.12.71
1930	पटेल प्रणव प्रवीण कुमार	जीवीसी/3135 /10	51- आनंद नगर सोसायटी, गीता हाई स्कूल के निकट, रानिप, अहमदाबाद, गुजरात	बीवीएससीएंडएच /एएयू/10	09.07.88
1931	पटेल प्रशांत कुमार बिपिनचंद्र	जीवीसी/3029 /09	सी/1, घनश्याम अपार्टमेंट, रामेश्वर चार रास्ता, मेघानी नगर, अहमदाबाद- 380016, गुजरात	बीवीएससीएंडएच /एसडीएयू/09	30.07.87
1932	पटेल प्रवीणभाई परशोत्तम	जीवीसी/824	वेटरिनरी डिस्पेंसरी, बारडोली, तालुक- बारडोली, जिला- सूरत, गुजरात	बीवीएससीएंडएच /जीएयू/84	31.5.59
1933	पटेल प्रवीणभाई प्राणभाई	जीवीसी/951	16/2, संगठन सोसायटी, वस्त्रपुर, ड्राइव-इन-रोड, मेमनगर, अहमदाबाद, गुजरात	बीवीएससीएंडएच /जीएयू/87	1.8.64
1934	पटेल प्रवीणभाई पुंजाभाई	जीवीसी/1847	एटी एवं डाक-हिम्मतपुर (दांत्रोली), वाया-वडाली, तालुक इदार, जिला: साबरकंठा पिन- 383235, गुजरात	बीवीएससीएंडएच /जीएयू/93	1.6.69
1935	पटेल प्रवीणभाई रावजीभाई	जीवीसी/727	171, राधा कृष्णा पार्क, अकोटा गार्डन रोड, वडोदरा- 20, गुजरात	बीवीएससीएंडएच /जीएयू/83	5.2.61
1936	पटेल प्रवीण चंद्र भगवानभाई	जीवीसी/514	4-ए, उमंग सोसायटी, जय जलाराम नगर के निकट, मदर्स स्कूल के पीछे, गोत्री रोड, वडोदरा-390021	बीवीएससीएंडएच /जीएयू/79	19.5.55
1937	पटेल प्रवीण कुमार अम्बालाल	जीवीसी/1245	ए-8, श्रुति अपार्टमेंट, अर्बन बैंक के पीछे, मेहसाना- 384003, गुजरात	बीवीएससीएंडएच /जीएयू/90	2.10.67

1938	पटेल प्रवीण कुमार बेचरभाई	जीवीसी/1099	एटी एवं डाक- रतनपुर, तालुक- इंदर, जिला- साबरकंठा, गुजरात	बीवीएससीएंडएच /जीएयू/88	1.8.84
1939	पटेल प्रवीण कुमार गोरधनभाई	जीवीसी/1884	34, अमीकुंज सोसायटी, ओ/एस बेचरपुरा रेलवे क्रॉसिंग, लक्ष्मीनगर के सामने, पालनपुर, जिला- बीके, गुजरात	बीवीएससीएंडएच /जीएयू/95	20.12.71
1940	पटेल प्रवीण कुमार जोइताराम	जीवीसी/1770	द्वारा पार्थ मेडिकल स्टोर, घनेरा, तालुक- घनेरा- 385310, जिला- बनासकंठा, गुजरात	बीवीएससीएंडएच /जीएयू/94	25.9.71
1941	पटेल प्रवीण कुमार शकरभाई	जीवीसी/2217	34, शिवाजी पार्क सोसा., कुबरेश्वर महादेव के निकट, नरोदा रोड, सैजपुर, अहमदाबाद-45, गुजरात	बीवीएससीएंडएच /जीएयू/99	9.9.75
1942	पटेल पुरुषोत्तम भाई भगवानभाई	जीवीसी/937	एटी- पीलीदारा, तालुक व जिला- मेहसाना, गुजरात	बीवीएससीएंडएच /जीएयू/87	1.5.84
1943	पटेल राहुल कुमार महेंद्रभाई	जीवीसी/3067 /09	बाहेरा मुंगा स्कूल, तालुका पंचायत के निकट, देहगाम, गांधीनगर, गुजरात	बीवीएससीएंडएच /एएयू/09	18.02.87
1944	पटेल राजाभाई मोतीभाई	जीवीसी/804	एटी- फागुदारा, डाक- विरुना, तालुक दीसा, जिला- बनासकंठा, गुजरात	बीवीएससीएंडएच /जीएयू/81	1.9.56
1945	पटेल राजेंद्र कुमार शिवरामभाई	जीवीसी/888	सी-61, सोना टाउनशिप, मिल कम्पाउंड, विसनगर, जिला- मेहसाना, पिन-384315, गुजरात	बीवीएससीएंडएच /जीएयू/87	1.11.82
1946	पटेल राजेंद्र कुमार चतुरभाई	जीवीसी/1791	दारजी वास के निकट, एटी एवं डाक:माहेरवाड़ा, तालुक:उन्ना, जिला मेहसाना, पिन- 384130, गुजरात	बीवीएससीएंडएच /जीएयू/94	20.4.89
1947	पटेल राजेंद्र कुमार द्वारकादास	जीवीसी/1708	एटी एवं डाक- भुनाव, तालुक- सिद्धपुर, जिला मेहसाना- 384130, गुजरात	बीवीएससीएंडएच /जीएयू/94	25.8.71
1948	पटेल राजेंद्र कुमार गोपालभाई	जीवीसी/2141	16/125, कालपीनगर, असर्वा, अहमदाबाद, गुजरात	बीवीएससीएंडएच /जीएयू/98	20.3.76
1949	पटेल राजेंद्र कुमार गोविंदभाई	जीवीसी/1729	31, नंद बंगजा, जनता नगर रोड, घटलोडिया, अहमदाबाद- 13, गुजरात	बीवीएससीएंडएच /जीएयू/94	25.5.72

1950	पटेल राजेंद्र कुमार केशवभाई	जीवीसी/2205	एटी- चित्रोदा, तालुक- इदार, जिला- साबरकंठा- 383422, गुजरात	बीवीएससीएंडएच / जीएयू/ 00	27.5.76
1951	पटेल राजेंद्र कुमार सोमाभाई	जीवीसी/1194	60, कोहिनूर सोसायटी, कोहिनूर कॉम्प्लेक्स के पीछे, खेरालू रोड, विशनगर- 384315, जिला- मेहसाना, गुजरात	बीवीएससीएंडएच / जीएयू/ 89	31.5.66
1952	पटेल राजेश डाहयाभाई	जीवीसी/1721	1, मंगल स्मृति टेनामेंट, वार्ड 10ए, प्लॉट न. 254, गुरुकुल, गांधीधाम, गुजरात	बीवीएससीएंडएच / जीएयू/ 94	10.7.72
1953	पटेल राजेश मोहनलाल	जीवीसी/2079	एटी एवं डाक: ब्राह्मणवाड़ा, तालुक- उन्झा, जिला- मेहसाना, गुजरात	बीवीएससीएंडएच / जीएयू/ 97	29.3.75
1954	पटेल राजेश कुमार अमृतलाल	जीवीसी/1705	एसबी/ 31, तुलसी बंगला, परफेक्ट प्लाजा के पीछे, राधनपुर रोड, मेहसाना, गुजरात	बीवीएससीएंडएच / जीएयू/ 94	10.5.71
1955	पटेल राजेश कुमार आत्माराम	जीवीसी/2125	102, केके कॉम्प्लेक्स, धर्मनगर सोसायटी, अश्विनी कुमार रोड, वरछा, सूरत- 395008, गुजरात	बीवीएससीएंडएच / जीएयू/ 98	14.3.75
1956	पटेल राजेश कुमार डाहयाभाई	जीवीसी/953	24, अमितनगर, अमितनगर सर्कल, वीआईपी रोड, करेलीबाग, वडोदरा-22, गुजरात	बीवीएससीएंडएच / जीएयू/ 86	25.2.62
1957	पटेल राजेश कुमार गंडालाल	जीवीसी/1727	61, श्री गणेश कुंज सोसायटी (पार्ट-1), जीएसटी क्रॉसिंग के निकट, तिरुपति सोसायटी के पीछे, रानिप, अहमदाबाद- 382480	बीवीएससीएंडएच / जीएयू/ 94	20.10.71
1958	पटेल राजेश कुमार कांतिलाल	जीवीसी/2049	सी-मिलाप फ्लैट, सुवास कम्पाउंड, रनकपुर सोसायटी के सामने, शाहीबाग, अहमदाबाद-4, गुजरात	बीवीएससीएंडएच / जीएयू/ 97	1.3.74
1959	पटेल राजेश कुमार रामचंद्रभाई	जीवीसी/1917	एटी- संधिमा चौक, एटी एवं डाक-रायगढ़, तालुक- विसनगर, जिला मेहसाना 384315, गुजरात	बीवीएससीएंडएच / जीएयू/ 95	31.5.73
1960	पटेल राजेश कुमार रणछोड़लाल	जीवीसी/1229	जेटलवासना, तालुक: विसनगर, जिला: मेहसाना, गुजरात	बीवीएससीएंडएच / जीएयू/ 90	4.5.66
1961	पटेल रजनीकांत डाहयालाल	जीवीसी/2019	एटी: इतदारा, अम्बिलीवानोवास, तालुक- मनसा, जिला गांधीनगर, गुजरात	बीवीएससीएंडएच / जीएयू/ 97	20.5.73

1962	पटेल रजनीकांत प्रहलादभाई	जीवीसी / 1560	जवाहर स्ट्रीट, एटी एवं डाक— कामली, तालुक— उन्झा, जिला— मेहसाना, गुजरात	बीवीएससीएंडएच / जीएयू/ 92	14.1.68
1963	पटेल राकेश नंदलाल	जीवीसी / 1863	डी-66, सुंदरम सोसायटी, ब्रजघाम मंदिर के पीछे, मंजलपुर, वडोदरा, गुजरात	बीवीएससीएंडएच / जीएयू/ 95	14.11.68
1964	पटेल राकेशभाई नाथालाल	जीवीसी / 1700	11, चक्रधारी सोसायटी, जलाराम कुटीर, गोधरा, जिला— पंचमहल, गुजरात	बीवीएससीएंडएच / जीएयू/ 94	10.5.72
1965	पटेल राकेश कुमार गणेशभाई	जीवीसी / 2080	11, राधे बंगजा, डेरी रोड, पालनपुर 385001, बीके, गुजरात	बीवीएससीएंडएच / जीएयू/ 97	25.6.75
1966	पटेल राकेश कुमार कांतिलाल	जीवीसी / 2081	एटी— मंदोतरी, डाक— हंसापुर, तालुक व जिला— पाटन, गुजरात	बीवीएससीएंडएच / जीएयू/ 97	13.11.74
1967	पटेल राकेश कुमार रणछोडभाई	जीवीसी / 1680	एटी एवं डाक— सामना, तालुक लूनावाड़ा, जिला— पंचमहल— 389230, गुजरात	बीवीएससीएंडएच / जीएयू/ 93	14.8.71
1968	पटेल राकेश कुमार शिवाभाई	जीवीसी / 2172	एटी एवं डाक— शामना, तालुक— लूनावाड़ा, जिला— पंचमहल— 389230, गुजरात	बीवीएससीएंडएच / जीएयू/ 99	26.4.75
1969	पटेल रामाभाई मोतीभाई	जीवीसी / 1621	एटी एवं डाक— लुनवा, तालुक— पालनपुर, जिला— बीके, पिन— 385001, गुजरात	बीवीएससीएंडएच / जीएयू/ 93	1.6.70
1970	पटेल रमनभाई भीखाभाई	जीवीसी / 1896	सेक्टर-1/59, रंगोली पार्टी प्लॉट के निकट, गायत्री मंदिर रोड, हिम्मतनगर, जिला साबरकंठा— 383001, गुजरात	बीवीएससीएंडएच / जीएयू/ 95	1.6.73
1971	पटेल रमनभाई धुलाभाई, पुत्र श्री पी.डी. जोराभाई	जीवीसी / 955	द्वारा: डीजे पटेल, एटी: वखतपुर, डाक: किडिया, तालुक: लूनावाड़ा, जिला: पंचमहल—388710, गुजरात	बीवीएससीएंडएच / जीएयू/ 87	15.06.64
1972	पटेल रमेशभाई द्वारकादास	जीवीसी / 804	एटी एवं डाक— कुवासना, तालुक— विसनगर, जिला— मेहसाना— 384315, गुजरात	बीवीएससीएंडएच / जीएयू/ 84	1.6.60
1973	पटेल रमेशभाई केशवलाल	जीवीसी / 417	31/1/बी, सुरक्षा सोसायटी, विशनगर, जिला— मेहसाना, गुजरात	बीवीएससीएंडएच / जीएयू/ 76	2.3.52

1974	पटेल रमेशभाई मनिलाल	जीवीसी/565	36, मंगलम सोसायटी, कंसा रोड, विसनगर, जिला- मेहसाना- 384315, गुजरात	बीवीएससीएंडएएच / जीएयू/80	14.8.54
1975	पटेल रमेशभाई प्रभाभाई	जीवीसी/1865	एटी एवं डाक- कावा, तालुक- इंदर, जिला- साबरकंठा- 383434, गुजरात	बीवीएससीएंडएएच / जीएयू/95	15.2.72
1976	पटेल रमेशभाई प्रहलादभाई	जीवीसी/566	ए/11, श्रीजीबापा कॉम्प्लेक्स, बराडगे रोड, स्वामीनारायण मंदिर के निकट, वसना, अहमदाबाद- 380007, गुजरात	बीवीएससीएंडएएच / जीएयू/80	23.9.57
1977	पटेल रमेशभाई सोमाभाई	जीवीसी/1387	एटी एवं डाक- अमुध, तालुक- उन्झा, मेहसाना पिन- 384170, गुजरात	बीवीएससीएंडएएच / जीएयू/91	1.6.68
1978	पटेल रमेशचंद्र भोलीदास	जीवीसी/1209	वावघर के बाहर, सतीवाड़, एटी एवं डाक- मनसा, जिला- गांधीनगर, गुजरात	बीवीएससीएंडएएच / जीएयू/89	13.3.65
1979	पटेल रमेशचंद्र जीवाराजभाई	जीवीसी/1970	26, शिवशांति सोसायटी, वस्त्राल रोड, रिंग रोड, वस्त्राल म्युनिसिपैल्टी, अहमदाबाद- 382418, गुजरात	बीवीएससीएंडएएच / जीएयू/96	29.9.73
1980	पटेल रमेशचंद्र मथुरभाई	जीवीसी/1509	41, गायत्री नगर, भुरावाव, गोधरा, जिला- पंचमहल- 389001, गुजरात	बीवीएससीएंडएएच / जीएयू/92	18.6.69
1981	पटेल रमेश कुमार बेचरभाई	जीवीसी/1746	एटी: महादेवपुरा, तालुक- वीजापुर, जिला- मेहसाना, गुजरात	बीवीएससीएंडएएच / जीएयू/94	28.10.70
1982	पटेल रमनीक लाल त्रिभोवनदास	जीवीसी/1882	एटी एवं डाक- चंद्रनगर, तालुक- वीरमगाम, जिला- अहमदाबाद, पिन- 382150, गुजरात	बीवीएससीएंडएएच / जीएयू/95	27.1.73
1983	पटेल रशिकलाल नरसिंहभाई	जीवीसी/1173	एटी- गगलासन, तालुक- सिद्धपुर, जिला- पाटन- 384151, गुजरात	बीवीएससीएंडएएच / जीएयू/89	1.6.65
1984	पटेल रसिकभाई रेवामाई	जीवीसी/515	3, दर्शन पार्क सोसायटी, चिराग पार्क के निकट, इंदिरा गांधी रोड, नाडियाड-387002, जिला-खेडा, गुजरात	बीवीएससीएंडएएच / जीएयू/79	1.8.55
1985	पटेल रसिक लाल नरोत्तम दास	जीवीसी/916	7, अर्चन पार्क सोसायटी, पूजन पार्क के निकट, बहुचरनगर के सामने, पिज रोड, नाडियाड- 387002, जिला-खेडा, गुजरात	बीवीएससीएंडएएच / जीएयू/87	11.10.63

1986	पटेल रतिलाल सोमजीभाई	जीवीसी / 765	2, साबर सोसायटी, गायत्री मंदिर रोड, हिम्मतनगर, साबरकंठा— 383001, गुजरात	बीवीएससीएंडएच / जीएयू / 79	21.12.54
1987	पटेल रक्षित कुमार रामभाई	जीवीसी / 1498	13, सर्वोदयनगर सोसायटी, गायत्री मंदिर के निकट, विसनगर — 384315, जिला मेहसाना, गुजरात	बीवीएससीएंडएच / जीएयू / 92	13.1.69
1988	पटेल रोहित कुमार ईश्वरभाई	जीवीसी / 1748	साबर वेटरिनरी सेंटर, एटी एवं डाक—तालोड, तालुक—तालोड, जिला एस.के. — 383215, गुजरात	बीवीएससीएंडएच / जीएयू / 94	21.7.70
1989	पटेल रोहित कुमार लक्ष्मीचंद	जीवीसी / 2082	ए / 8, तिरुपति बंगला, चनास्मा रोड, पाटन, गुजरात	बीवीएससीएंडएच / जीएयू / 97	27.7.74
1990	पटेल सज्जन कुमार जीवनलाल	जीवीसी / 2037	सी / 12, नीलकमल अपार्टमेंट, तलाव दरवाजे के निकट, जूनागढ़, गुजरात	बीवीएससीएंडएच / जीएयू / 96	16.5.74
1991	पटेल संदीप चमनभाई	जीवीसी / 3136 / 10	बी-28, पायल पार्क, टी.बी. श्री रोड के निकट, पाटन, गुजरात	बीवीएससीएंडएच / एएयू / 10	25.12.87
1992	पटेल संजय भंजीभाई	जीवीसी / 971	902, प्रार्थना फ्लैट्स, जलाराम-4, यूनिवर्सिटी रोड, राजकोट-5, गुजरात	बीवीएससीएंडएच / जीएयू / 85	14.9.82
1993	पटेल संजय गेंदालाल	जीवीसी / 1840	द्वारा: बी.एम. पटेल हाई स्कूल, एटी: पर्वतपुरा, तालुक— मनसा, जिला— गांधीनगर पिन— 382845, गुजरात	बीवीएससीएंडएच / जीएयू / 93	22.5.70
1994	पटेल संजय कुमार बाबूलाल	जीवीसी / 1710	बी-106, तिरुपति बंगला, राधनपुर रोड के पीछे, मेहसाना, गुजरात	बीवीएससीएंडएच / जीएयू / 94	17.8.70
1995	पटेल संजय कुमार बाबूलाल	जीवीसी / 2233	20, रानुजा नगर सोसायटी, एफ.सी.आई. के सामने, मोधेरा रोड, मेहसाना, गुजरात	बीवीएससीएंडएच / जीएयू / 00	1.6.78
1996	पटेल संजय कुमार चंदूलाल	जीवीसी / 1165	1128, शिवशक्ति सोसायटी, सेक्टर-27, गांधीनगर, गुजरात	बीवीएससीएंडएच / जीएयू / 89	8.3.65
1997	पटेल संजय कुमार ईश्वरलाल	जीवीसी / 1958	एटी एवं डाक— ब्रामनवाड़ा, तालुक— उन्झा, जिला— मेहसाना — 384215, गुजरात	बीवीएससीएंडएच / जीएयू / 96	11.4.74

1998	पटेल संजय कुमार जशुभाई	जीवीसी / 1645	एटी: जलालपुरा, तालुक— ढोलका, जिला— अहमदाबाद, गुजरात	बीवीएससीएंडएच / जीएयू / 93	17.6.69
1999	पटेल संजय कुमार परशोत्तम भाई	जीवीसी / 2253	एटी एवं डाक: लाडवेल, तालुक— लूनावाड़ा, जिला— पंचमहल, गुजरात	बीवीएससीएंडएच / जीएयू / 00	12.8.78
2000	पटेल संजय कुमार सोमाभाई	जीवीसी / 2173	साबर चिलिंग सेंटर, बयाद, एटी एवं डाक: अंजनावाव, तालुक बयाद, जिला:साबरकंठा, गुजरात	बीवीएससीएंडएच / जीएयू / 99	12.11.76
2001	पटेल संजय कुमार उमेदभाई	जीवीसी / 2274	एटी: कनसा, अलाटर नो मध, तालुक: विसनगर, जिला मेहसाना— 384315, गुजरात	बीवीएससीएंडएच / जीएयू / 00	14.3.78
2002	पटेल सरोजबेन केशवलाल	जीवीसी / 2263	द्वारा:महेश एल.पटेल, एटी:कमल पुर (वड), तालुक:वडनगर,जिला: मेहसाना पिन—384355, गुजरात	बीवीएससीएंडएच / जीएयू / 00	25.6.78
2003	पटेल सतीश चंद्र जशभाई	जीवीसी / 450	10,राजेश सोसायटी,अक्षर पुरुषोत्तम छात्रालय के निकट, आनंद, विद्यानगर रोड, आनंद, गुजरात	बीवीएससीएंडएच / जीएयू / 77	16.12.56
2004	पटेल सतीश कुमार डाहयाभाई	जीवीसी / 2005	ई / 302, स्वामीनारायण, एईसी क्रॉस रोड, 132,रिंग रोड,नारायण पुरा, अहमदाबाद—13, गुजरात	बीवीएससीएंडएच / जीएयू / 94	5.2.74
2005	पटेल सतीश कुमार नारनभाई	जीवीसी / 2127	13,स्वामी नारायण सोसायटी, रेलवे क्रॉसिंग के निकट, एटी एवं डाक— जम्बूसार, तालुक—जम्बूसार, जिला — भड़ौच	बीवीएससीएंडएच / जीएयू / 98	13.11.75
2006	पटेल सतीश कुमार नारायण भाई	जीवीसी / 1092	17, पंचवटी सोसायटी, दीसा रोड, एटी एवं डाक— पाटन, पिन— 384265, गुजरात	बीवीएससीएंडएच / जीएयू / 88	10.1.66
2007	पटेल सतीश कुमार रामजीभाई	जीवीसी / 1618	एटी एवं डाक— शमना, तालुक— लूनावाड़ा, जिला— पंचमहल — 389230, गुजरात	बीवीएससीएंडएच / जीएयू / 93	9.5.71
2008	पटेल सतीश कुमार रणछोड़ दास	जीवीसी / 1523	एटी व डाक—कृष्णपुरा, विद्याविहार पोल, तालुक: वडनगर, जिला: मेहसाना, पिन— 384335, गुजरात	बीवीएससीएंडएच / जीएयू / 92	1.6.68
2009	पटेल सतीश कुमार विट्टलभाई	जीवीसी / 940	क्वा.न. बी / 8, बड़ौदा डेरी मकरपुरा रोड, वडोदरा पिन—390009, गुजरात	बीवीएससीएंडएच / जीएयू / 87	2.2.63

2010	पटेल सावजीभाई अजामाई	जीवीसी / 1097	एटी: पिलुदा, तालुक: धरद, जिला— बनासकंठा— 385565, गुजरात	बीवीएससीएंडएएच / जीएयू/ 88	1.6.62
2011	पटेल सेमामाई पुंजामाई	जीवीसी / 1250	एटी एवं डाक: वरसादा, तालुक: कंकरेज, जिला— बी.के., पिन— 385321, गुजरात	बीवीएससीएंडएएच / जीएयू/ 89	1.6.64
2012	पटेल शैलेश कुमार बापूजीभाई	जीवीसी / 1989	एटी: मठ, डाक— विरानिया, तालुक — लूनावाड़ा, जिला पंचमहल — 389210, गुजरात	बीवीएससीएंडएएच / जीएयू/ 97	7.8.74
2013	पटेल शैलेश कुमार दशरथभाई	जीवीसी / 1255	विशालपुरा, एटी एवं डाक— वडु, तालुक— कडी, जिला—मेहसाना, गुजरात	बीवीएससीएंडएएच / जीएयू/ 90	28.1.66
2014	पटेल शैलेश कुमार गोबरभाई	जीवीसी / 1959	एटी एवं डाक— फुदेदा, तालुक: वीजापुर, जिला—मेहसाना, पिन— 382863, गुजरात	बीवीएससीएंडएएच / जीएयू/ 96	1.6.73
2015	पटेल शैलेश कुमार गोविंदभाई	जीवीसी / 1737	प्लॉट न. 338, चर्च के सामने, सेक्टर— 23, गांधीनगर, गुजरात	बीवीएससीएंडएएच / जीएयू/ 94	8.8.70
2016	पटेल शैलेश कुमार जीवनलाल	जीवीसी / 1663	एटी एवं डाक— अम्बासन, एटी: भूतवास, तलपद विभाग, तालुक व जिला— मेहसाना, गुजरात	बीवीएससीएंडएएच / जीएयू/ 93	14.5.89
2017	पटेल शैलेश कुमार पुरुषोत्तमभाई	जीवीसी / 1978	एटी— वलम, मोटोमघ, तालुक— विसनगर, जिला— मेहसाना, गुजरात	बीवीएससीएंडएएच / जीएयू/ 98	17.5.73
2018	पटेल शैलेश कुमार शम्भूभाई	जीवीसी / 1860	एटी— आनंदपुरा, डाक— कूकरवाड़ा, तालुक— वीजापुर, जिला— मेहसाना, गुजरात	बीवीएससीएंडएएच / जीएयू/ 95	4.10.72
2019	पटेल शैलेश कुमार शंकरलाल	जीवीसी / 885	44, योगेश्वर सोसायटी, पंचवटी, आर.के. नेत्र अस्पताल के सामने, कलोल, जिला: गांधीनगर, गुजरात	बीवीएससीएंडएएच / जीएयू/ 87	14.11.64
2020	पटेल शैलेश कुमार जेठालाल	जीवीसी / 2276	8, गोकुलनगर सोसायटी, दीसा रोड, पाटन— 384265, गुजरात	बीवीएससीएंडएएच / जीएयू/ 00	18.2.77
2021	पटेल शंकरभाई हेमंत भाई	जीवीसी / 1362	24, संस्कार बंगला, शधनुपर रोड, मेहसाना, गुजरात	बीवीएससीएंडएएच / जीएयू/ 89	1.3.65

2022	पटेल शंकरभाई हीरामाई	जीवीसी/1518	3, सिद्धराज जयसिंह सोसायटी, आबू रोड हाईवे, सरजन हॉल के पीछे, पालनपुर— 385001, जिला— बनासकंठा, गुजरात	बीवीएससीएंडएच /जीएयू/92	1.6.69
2023	पटेल शंकरभाई शम्भूमाई	जीवीसी/485	105, ग्रीन सिटी, मोधेरा रोड, मेहसाना— 384002, गुजरात	बीवीएससीएंडएच /जीएयू/78	1.11.53
2024	पटेल शांतिलाल गोरधनदास	जीवीसी/672	30/31, सदगुरु नगर, सारू सेक्शन रोड, जामनगर, गुजरात	बीवीएससीएंडएच /जीएयू/72	18.9.48
2025	पटेल शांतिलाल केशवलाल	जीवीसी/103 /09	बी-2/202, मधुवृंद (शिव पार्क) सोसायटी, घाटलोडिया, अहमदाबाद, गुजरात	बीवीएससीएंडएच /दन/65	05.05.40
2026	पटेल शशिकांत चतुरभाई	जीवीसी/2083	एटी एवं डाक— पिम्पल, वाया— धिनोज, तालुक—चनास्मा जिला — पाटन— 384225, गुजरात	बीवीएससीएंडएच /जीएयू/97	9.11.74
2027	पटेल शशिकांत लक्ष्मभाई	जीवीसी/3144 /10	54/ए, सर्वमंगल सोसायटी, जीपीड, नानी चोवीसी, नवस्राष्टी, मुजरांत	बीवीएससीएंडएच /एएयू/10	28.03.87
2028	पटेल शिरीष कुमार कांतिलाल	जीवीसी/1050	123, धनलक्ष्मी सोसायटी, सी.एम.सी. के सामने, ऊधव रोड, अहमदाबाद— 382415, गुजरात	बीवीएससीएंडएच /जीएयू/88	30.3.65
2029	पटेल शिवराम भाई जोड़ताराम	जीवीसी/486	एटी एवं डाक— विसोल, रेवापारू, तालुक उन्ना, जिला — मेहसाना, गुजरात	बीवीएससीएंडएच /जीएयू/78	1.6.55
2030	पटेल शुशील कुमार शिवाभाई	जीवीसी/2174	पटेल फालिया, एटी एवं डाक— लिम्भोई, तालुक—मेहसाना, जिला— साबरकंठा— 383306, गुजरात	बीवीएससीएंडएच /जीएयू/99	16.10.77
2031	पटेल सुमंत भाई खुशालभाई	जीवीसी/344	“श्रीजीनिवास”, केदार पार्क के पास, गणश डेरी के निकट, आनंद —388001, जिला—आनंद, गुजरात	बीवीएससीएंडएच /जीएयू/74	2.6.54
2032	पटेल सुनील कुमार बाबूलाल	जीवीसी/1965	एटी एवं डाक— दाशेला, मधवास, तालुक व जिला— गांधीनगर— 382355, गुजरात	बीवीएससीएंडएच /जीएयू/96	5.2.74
2033	पटेल सुरेशभाई ईश्वरभाई	जीवीसी/1469	12, सोमेश्वर बंगला, ग्रीन पार्क के निकट, मोधेरा रोड, मेहसाना, गुजरात	बीवीएससीएंडएच /जीएयू/91	1.6.68

2034	पटेल सुरेशभाई मोहनभाई	जीवीसी / 1682	एटी एवं डाक— कामलीवाड़ी (देवपुरा), तालुक व जिला— पाटन— 384265, गुजरात	बीवीएससीएंडएच / जीएयू / 93	1.4.69
2035	पटेल सुरेशभाई नरोत्तमभाई	जीवीसी / 1561	14, शक्ति नगर, बेचरपुरा, भाईलाल वकील के सामने, पालनपुर, गुजरात	बीवीएससीएंडएच / जीएयू / 92	5.4.68
2036	पटेल सुरेशभाई किशोरदास	जीवीसी / 1795	बी-4, तिरुपति टाउनशिप-1, दीसा हाईवे, पालनपुर, जिला— बी.के., गुजरात	बीवीएससीएंडएच / जीएयू / 93	30.10.68
2037	पटेल सुरेश कुमार हीराभाई	जीवीसी / 1545	एटी एवं डाक—खेरोली, वल्लभ स्ट्रीट, तालुक बालासिनोर, जिला—खेड़ा—388260, गुजरात	बीवीएससीएंडएच / जीएयू / 92	13.1.69
2038	पटेल सुरेश कुमार ईश्वरभाई	जीवीसी / 1751	40, साजन सोसायटी, मनसा, जिला— गांधीनगर, गुजरात	बीवीएससीएंडएच / जीएयू / 94	1.6.72
2039	पटेल त्रिमोहन दास परशोत्तम दास	जीवीसी / 1612	एटी एवं डाक— अरिठा, तालुक— सामी, जिला— पाटन, गुजरात	बीवीएससीएंडएच / जीएयू / 93	5.2.71
2040	पटेल तुलसीभाई कांतिलाल	जीवीसी / 2084	प्लॉक न. 56 / 1, सीएच—टाइप, सेक्टर—28, गांधीनगर, गुजरात	बीवीएससीएंडएच / जीएयू / 97	22.8.74
2041	पटेल विष्णुभाई गोविंदभाई	जीवीसी / 1382	एटी एवं डाक— रिदरोल, तालुक मनसा, जिला— गांधीनगर, गुजरात	बीवीएससीएंडएच / जीएयू / 89	1.8.63
2042	पटेल उमेशभाई करशनभाई	जीवीसी / 1915	स्ट्रीट न.— 18, जूना लक्ष्मीपुरा, पालनपुर 386002, बनासकंठा गुजरात	बीवीएससीएंडएच / जीएयू / 95	28.12.71
2043	पटेल उमेशकुमार शंकरलाल	जीवीसी / 2020	एटी—डाक—पलसाना, टकालोल (एनजी), पलसाना, ता. कलोल, जिला गांधीनगर, गुजरात	बीवीएससीएंडएच / जीएयू / 97	20.3.72
2044	पटेल उपेंद्र कुमार गोविंद भाई	जीवीसी / 3138 / 10	“ईशरस्याम”, ओस्वाल-2, रोड न. 2, प्लॉट न.—164, एयर फोर्स-2 गेट रोड, जामनगर, गुजरात	बीवीएससीएंडएच / एएयू / 10	03.12.67
2045	पटेल उर्वित प्रकाश कुमार	जीवीसी / 3139 / 10	पॉण्डीचेरीडया शेरी, अटालो, अमतोल गेट, एटी एवं डाक— वडनगर, जिला मेहसाना, गुजरात	बीवीएससीएंडएच / एएयू / 10	25.02.68

2046	पटेल वाहजी भाई रुपाभाई	जीवीसी / 3030 / 09	एटी— सिलसाना, तालुक— धनेरा, डाक— कुमोर, जिला बीकं, गुजरात	बीवीएससीएंडएच / एसडीएयू / 09	01.06.83
2047	पटेल वैभव रामनाथ	महाएसवीसी / 8187 / 09	एटी— उगवा, तालुक— अकोला, जिला— अकोला, महाराष्ट्र	बीवीएससीएंडएच / एमएएंडएफएसयू / 09	16.01.85
2048	पटेल वाजाभाई जेठाभाई	जीवीसी / 1912	एटी— लेलावा, डाक— नेनावा, तालुक:धनेरा,जिला: बनासकंठा -385310, गुजरात	बीवीएससीएंडएच / जीएयू / 95	5.6.70
2049	पटेल वरुण शंकरलाल	जीवीसी / 3140 / 10	25, हरसिद्धनगर सोसायटी, सरस्वती स्कूल के निकट, दीसा हाईवे, एटी एवं डाक— पाटन, गुजरात	बीवीएससीएंडएच / एएयू / 10	11.01.88
2050	पटेल वसंत कुमार कालीदास भाई	जीवीसी / 1634	एटी:चावाडी बैड़ना मुवाडा,डाक शमाना,तालुक:लुनावाडा, जिला: पंचमहल - 38823, गुजरात	बीवीएससीएंडएच / जीएयू / 93	8.8.71
2051	पटेल विजयभाई जीवाभाई	जीवीसी / 2175	एटी एवं डाक— कानीपुर, तालुक— वडनगर, जिला— मेहसाना, गुजरात	बीवीएससीएंडएच / जीएयू / 99	21.9.76
2052	पटेल विजय कुमार अमृत लाल	जीवीसी / 1960	नवा हरसिद्धपुर, गवाडा रोड, एटी: लाडोल, तालुक—बीजापुर, जिला— मेहसाना, गुजरात	बीवीएससीएंडएच / जीएयू / 96	2.3.74
2053	पटेल विजय कुमार भीखालाल	जीवीसी / 1275	द्वारा वेटरिनरी सेक्शन, साबर डेरी, एटी एवं डाक— बोरिया, तालुक— हिम्मतनगर, जिला— साबरकंठा, पिन— 383001	बीवीएससीएंडएच / जीएयू / 90	26.11.66
2054	पटेल विजय कुमार रमनभाई	जीवीसी / 1738	एटी: इकलवेलू, तालुक— थसारा, डाक— रसूलपुरा, जिला— खेडा, गुजरात	बीवीएससीएंडएच / जीएयू / 94	15.5.72
2055	पटेल विजय कुमार शंकरलाल	जीवीसी / 2085	एटी— खटसाना, करोडा, तालुक— उन्डा, जिला— मेहसाना, गुजरात	बीवीएससीएंडएच / जीएयू / 97	7.10.74
2056	पटेल विमल कुमार कांतिलाल	जीवीसी / 2206	एटी व डाक—वरधारा, तालुक— वीरपुर (बालासिनोर), जिला— खेडा—388260, गुजरात	बीवीएससीएंडएच / जीएयू / 99	20.5.78
2057	त	जीवीसी / 1797	11, स्वागत बंगला, रामोसान चुंगी नाका, मेहसाना— 384002, गुजरात	बीवीएससीएंडएच / जीएयू / 92	10.6.69

2058	पटेल विनोद कुमार त्रिभोवन भाई	जीवीसी / 1513	नवरंग पार्क, पटेल सोसायटी के निकट, दीसा, जिला— बनासकंठा—385535, गुजरात	बीवीएससीएंडएच / जीएयू / 82	10.7.69
2059	पटेल वीनूभाई मनिलाल	जीवीसी / 1078	बी— 30, तुलसी बंगला, राधनपुर रोड, मेहसाना, गुजरात	बीवीएससीएंडएच / जीएयू / 88	21.16.65
2060	पटेल वीनूभाई रामदास	जीवीसी / 883	2, हरिहरनगर सोसायटी, भावपुरा, उमिया मंदिर के निकट, कडी, तालुक— कडी, जिला मेहसाना, गुजरात	बीवीएससीएंडएच / जीएयू / 88	1.6.62
2061	पटेल विपुल कुमार अमृतभाई	जीवीसी / 2086	19, काशी- विश्वनाथ सोसायटी, विभाग—2, बालकृष्ण मंदिर के निकट, रानिप, अहमदाबाद	बीवीएससीएंडएच / जीएयू / 97	24.6.75
2062	पटेल विपुल कुमार मनुभाई	जीवीसी / 2309	एटी एवं डाक— दवाड़ा, पटेल वास, तालुक व जिला— मेहसाना, गुजरात	बीवीएससीएंडएच / जीएयू / 01	3.4.75
2063	पटेल विष्णुभाई अम्बाराम	जीवीसी / 729	14, मोहन कुंज सोसायटी, बस स्टैंड के निकट, एटी—डाक— उपेरा, तालुक— उन्ना, जिला मेहसाना— 384170, गुजरात	बीवीएससीएंडएच / जीएयू / 83	1.6.59
2064	पटेल विष्णुभाई सोमाभाई	जीवीसी / 1104	आदर्श महल, महावीर नगर, हिम्मत नगर, जिला— साबरकंठा, गुजरात	बीवीएससीएंडएच / जीएयू / 88	1.6.65
2065	पटेल विष्णु कुमार मगनलाल	जीवीसी / 787	एटी एवं डाक— महादेवपुरा, तालुक— प्रांतिज, साबरकंठा, गुजरात	बीवीएससीएंडएच / जीएयू / 84	20.5.61
2066	पटेल विष्णु प्रसाद बाबाभाई	जीवीसी / 983	एटी व डाक— मोधुका, तालुक — तालोड, जिला साबरकंठा, पिन— 383305, गुजरात	बीवीएससीएंडएच / जीएयू / 85	30.9.63
2067	पटेल विट्ठल भाई गोविंदभाई	जीवीसी / 418	9.राधिका सोसा., गोकुलेश्वर मंदिर, गोकुलनगर, हिम्मत नगर, जिला:साबरकंठा,गुजरात.	बीवीएससीएंडएच / जीएयू / 78	26.7.53
2068	पटेल विट्ठल भाई नारनभाई	जीवीसी / 860	प्लॉट न. 680 / 1, सेक्टर— 3सी, गांधीनगर— 382006, गुजरात	बीवीएससीएंडएच / जीएयू / 87	21.10.62
2069	पटेल विट्ठल भाई रामाभाई	जीवीसी / 1357	एटी एवं डाक— गुंडल, तालुक— खेदब्रह्मा, जिला— साबरकंठा, गुजरात	बीवीएससीएंडएच / जीएयू / 89	1.6.62

2070	पटेल यशवंत भाई जयतिलाल	जीवीसी / 1910	एटी: तोरानिया, डाक- खरोल, तालुक- प्रातिज, जिला- साबरकंठा, गुजरात	बीवीएससीएंडएच / जीएयू / 95	1.6.73
2071	पटेल योगेश कुमार छिबूभाई	जीवीसी / 3090 / 09	ए-19, शास्त्री होस्टल, एटी एवं डाक: कालेडिया, तालुक: संखेडा, जिला- वडोदरा, गुजरात	बीवीएससीएंडएच / एएयू / 09	18.04.87
2072	पटेल योगेश कुमार मनिलाल	जीवीसी / 1866	एटी एवं डाक-केलामुल, तालुक- संतरामपुर, जिला- पंचमहल, गुजरात	बीवीएससीएंडएच / जीएयू / 95	28.1.73
2073	पटेल योगेश कुमार मुकेश भाई	जीवीसी / 3068 / 09	एटी एवं डाक- मसाई, तालुक- इदार, जिला- साबरकंठा, गुजरात	बीवीएससीएंडएच / एएयू / 09	01.05.86
2074	पटेल योगेश कुमार नटवरलाल	जीवीसी / 1880	वेटरिनरी डिस्पेंसरी, डूंगरी, जिला- वलसाड, गुजरात	बीवीएससीएंडएच / जीएयू / 95	13.7.73
2075	पटेल योगेश कुमार रतिलाल	जीवीसी / 2143	एटी-अम्बला, तालुक- बेचरजी, जिला- मेहसाना, गुजरात	बीवीएससीएंडएच / जीएयू / 98	30.6.74
2076	पाठक दिनेश चंद्र अरविंद रे	जीवीसी / 105	"उपनिषद्", 19, सरिता विहार, कलावड रोड, राजकोट-5, गुजरात	बीवीएससी / इवउड ल नदप / 65	18.5.36
2077	पाठक हेंगुली, पुत्र स्व. श्री फणीन्द्र नाथ पाठक	एएसएम / 246 0 / 09	ग्राम एवं डाक- काजीपारा, जिला- नलबारी- 781335, असम	बीवीएससीएंडएच / एएयू / 09	1.11.86
2078	पठान नदीम खा काली महमद खा	महाएसवीसी / 8208 / 09	नावरगांव, तालुक- सिंदेवाही, जिला- चंद्रपुर, महाराष्ट्र	बीवीएससीएंडएच / एमएएंडएफएसयू / 09	08.01.85
2079	पठान वकील माजिद खान	जीवीसी / 1296	एटी एवं डाक- वाढोना, तालुक- नंदगाम (खाडेशॉप), जिला- अमरावती, गुजरात	बीवीएससीएंडएच / पीकेवी / 88	20.4.65
2080	पठारे गणेश तुकाराम	महाएसवीसी / 8165 / 09	ए/पी भांगडेवाडी (धवलपुरी), तालुक पारनेर, जिला- अहमदनगर-414203, महाराष्ट्र	बीवीएससीएंडएच / एमएएंडएफएसयू / 09	18.09.85
2081	पातीदार हितेंद्र भाई मनिलाल	जीवीसी / 1850	एटी- शंकरपुरा कम्पा, डाक- नवाचिबोडा, तालुक- भिलोडा, जिला- साबरकंठा, गुजरात	बीवीएससीएंडएच / जीएयू / 92	12.8.69

2082	पाटिल अभिजीत सुरेश राव	महाएसवीसी / 8309 / 10	ई-टाइप, ई / 23, जीएमएसएस के लि., शंकरनगर, ता.: बिलोली, जिला: नांदेड-431505, महाराष्ट्र	बीवीएससीएंडएच / एमएंडएफएसयू / 09	06.05.85
2083	पाटिल अमित अशोक	महाएसवीसी / 8331 / 10	"अशोविज", प्लॉट न. 16, श्रीकृष्णा कॉलोनी, ख्वाजा मिया रोड, जलगांव, तालुक जिला जलगांव, महाराष्ट्र	बीवीएससीएंडएच / एमएंडएफएसयू / 09	28.08.85
2084	पाटिल चंद्रशेखर संतोष	महाएसवीसी / 8241 / 09	प्लॉट न. 11, विद्याविहार कॉलोनी, गेट न 1430, मुदादा गेट के निकट, अमलनेर, जिला -जलगांव- 425401, महाराष्ट्र	बीवीएससीएंडएच / एमएंडएफएसयू / 09	03.10.84
2085	पाटिल किरन आल्माराम	जीवीसी / 3101 / 10	शिवकृपा, 3-सत्यनारायण सोसायटी, 100 फुट रोड, राठोड चौकडी, बोरसाड, गुजरात	बीवीएससीएंडएच / एमपीकेवी / 01	01.04.77
2086	पाटिल महेंद्र जाधव	महाएसवीसी / 8351 / 10	ए/पी पडाल्दा, तालुक- शहादा, जिला- नंदूरबार- 425409, महाराष्ट्र	बीवीएससीएंडएच / एमएंडएफएसयू / 06	26.07.79
2087	पाटिल रामचंद्र पांडुरंग	महाएसवीसी / 8274 / 09	ए/पी- जमगांव, तालुक- मधा, जिला- सोलापुर- 413209, महाराष्ट्र	बीवीएससीएंडएच / एमएंडएफएसयू / 09	07.11.85
2088	पाटिल सचिन बाबूराव	महाएसवीसी / 8252 / 09	चेम्बर लेन, असुरले, तालुक- पनहाला, जिला- कोल्हापुर- 416229, महाराष्ट्र	बीवीएससीएंडएच / एमएंडएफएसयू / 09	07.12.85
2089	पाटिल शरदचंद्र सुभाष राव	महाएसवीसी / 8257 / 09	एटी- टकाली, डाक वालंदी, तालुक देओनी, जिला- लातूर- 413519, महाराष्ट्र	बीवीएससीएंडएच / एमएंडएफएसयू / 09	10.06.85
2090	पाटिल शिवाली राजासाहेब	महाएसवीसी / 8238 / 09	महालंगी, तालुक- चकूर, जिला- लातूर- 413529, महाराष्ट्र	बीवीएससीएंडएच / एमएंडएफएसयू / 09	02.08.84
2091	पाटकर रूपाली प्रकाश	महाएसवीसी / 8347 / 10	जॉय प्रगति कोऑप. हाउ.सो., फ्लैट न. 14, पहली मंजिल, बी- विंग, डॉ. करंजिया रोड, तरुण भारत, अंधेरी (ईस्ट), मुम्बई- 99, महाराष्ट्र	बीवीएससीएंडएच / एमएंडएफएसयू / 09	29.04.86
2092	पट्टात गोविंद भाई नारन भाई	जीवीसी / 1397	एटी: मल जिंजवा, तालुक- तलाला, जिला- जूनागढ़, पिन- 362150, गुजरात	बीवीएससीएंडएच / जीएसयू / 91	15.9.67
2093	पवित्रा बी.एस., पुत्री श्री शिवन्ना बी.वी.	कर्नाएसवीसी / 4325 / 09	न. 20, मर्गदा लैम्प, बिरूर- 577116, कादुर तालुक, चिकमगलूर जिला, कर्नाटक	बीवीएससीएंडएच / केवीएफएसयू / 09	22.9.86

2094	पवन दीक्षित, पुत्र श्री डी. दीक्षित	यूपीएसवीसी/ 5045/09	म.न. 54, करागावन, रथ, जिला— हमीरपुर, उ.प्र.	बीवीएससीएंडएच /जेएनकेवीवी/09	01.01.84
2095	पवन कुमार सिंह, पुत्र श्री कदम सिंह	एमपीएसवीसी /2600/09	म.न. 72, भोला चौक, नई बस्ती, तिकोनिया, मोहार, ग्वालियर, म.प्र.	बीवीएससीएंडएच /जेएनकेवीवी/09	9.4.81
2096	पवन कुमार गुप्ता, पुत्र श्री सतीश चंद गुप्ता	सीएचएसवीसी /481/09	प्लॉट न. 2, विवेकानंद नगर, दुर्ग, छत्तीसगढ़	बीवीएससीएंडएच /आईजीकेवीवी/9 6.97	01.06.73
2097	पवन कुमार कुरे, पुत्र श्री टीका राम छवि लाल	सीएसएसएसव ीसी/496/10	मनोज टेलरिंग स्टोर्स, स्ट्रीट-2, शक्ति विहार, रिसाली, भिलई, जिला— दुर्ग	बीवीएससीएंडएच /आईजीकेवीवी/0 9	27.04.80
2098	पवार अविनाश जयवंत	महाएसवीसी/ 8329/10	पवार बस्ती, एटी— बिरदावाड़ी, डाक— अम्बेथान, तालुक खेड, जिला— पुणे, महाराष्ट्र	बीवीएससीएंडएच /एमएंडएफएसयू /09	24.06.88
2099	पवार सुप्रिया	महाएसवीसी/ 8237/09	सूरज निवास, 1-7-2390-1, नंदीग्राम सोसायटी, जिला फिरोजाबाद, उ.प्र.	बीवीएससीएंडएच /एमएंडएफएसयू /09	22.03.86
2100	पीयूष कुमार सिंह, पुत्र श्री बलबीर सिंह	यूपीएसवीसी/ 4961/09	म.न. 1157, शम्भू नगर, शिकोहाबाद, जिला— फिरोजाबाद, उ.प्र.	बीवीएससीएंडएच /यूपीपीडीडीयूपीसी वीवी/09	08.12.79
2101	पेडनेकर ऋद्धि प्रभाकर	महाएसवीसी/ 8164/09	16, लक्ष्मी निवास, काकडवाडी, आर्यसमाज के सामने, गिरगांव, मुम्बई— 400004, महाराष्ट्र	बीवीएससीएंडएच /एमएंडएफएसयू /05	11.12.82
2102	पीर मौहम्मद एस. (के.एम. शाहुल हमीद)	टीएनएसवीसी /4429/09	37/7-ए, त्रिची रोड, वाई.एम.आर. पट्टी, डिंडीगल— 824001, तमिलनाडु	बीवीएससी/टीएन यूवीएस/81	10.06.55
2103	पेरियासामी एम. (माइलागौंडेर)	टीएनएसवीसी /4426/09	माइलागौंडेर थोट्टम, नडुवल्लूर डाक, गंगूवल्ली तालुक, सलेम— 636005, तमिलनाडु	बीवीएससी/एमयू/ 67	01.05.41
2104	पेरुमल एस. (एम. सुब्रमण्यम)	टीएनएसवीसी /4420/09	53, सेनगुंधूर बिग स्ट्रीट, शोलिंघूर, वेल्लोर जिला, तमिलनाडु	बीवीएससी/टीएन यूवीएस/96	01.12.72
2105	पेठानी कमलेश जमनादास	जीवीसी/ 2236	एटी: वडोदरा, तालुक धोराजी, जिला— राजकोट, गुजरात	बीवीएससीएंडएच /जीएस/00	4.6.78

2106	फूकन मानश ज्योति, पुत्र स्व. श्री हिरेम्बा फूकन	एसएम/ 2466/09	ग्राम एवं डाक—कालीपानी, जिला डिब्रूगढ़—786610, असम	बीवीएससीएंडएच /एएयू/09	7.5.85
2107	फुकोन जयश्री चिरिंग, पुत्र श्रीकुला चिरिंग फुकोन	एसएम/247 7/10	चिरिंग गांव डाक, धिताल पुरखुरी, जिला— शिवसागर, असम	बीवीएससीएंडएच /एएयू/09	31.8.85
2108	पिचई ए.के. (कासीराजन)	टीएनएसवीसी /4422/09	218/3, एस.आर. नगर, थिरुमनूर, अरियालूर जिला— 621715, तमिलनाडु	बीवीएससी/एमयू/ 68	08.01.40
2109	पिचइयाह यू. (पी. उलंगनाथन)	टीएनएसवीसी /4431/09	379/162, कन्नीमार अम्मान कोइल स्ट्रीट, तेनकासी— 627811, तमिलनाडु	बीवीएससी/टीएनए यू/74	03.12.49
2110	पीयूष दूबे, पुत्र श्री प्रेम प्रकाश दूबे	सीएसीएचएसव सी/506/10	सी-34, अजय नगर, बिलासपुर, छत्तीसगढ़	बीवीएससीएंडएच /आईजीकेवीवी/0 9	11.05.84
2111	पीयूष कुमार सिंह, पुत्र स्व. श्री प्रेम नारायण सिंह	जेवीसी/625 /09	टीवीओ, तलीझारी तलीझारी, राजमहल, साहिबगंज, झारखंड	बीवीएससीएंडएच /आरएयू/00	23.10.73
2112	पीयूषा शालिना डोना मिंज, पत्नी श्री एल्बर्ट मिंज	जेवीसी/633 /09	द्वारा: एल्बर्ट मिंज, कोकर टंकी टोली, बरियातु, रांची— 834009, झारखंड	बीवीएससीएंडएच /बीएयू/09	30.04.85
2113	पोडचालवर कुंदन सुरेश	महाएसवीसी/ 8182/09	ददमहलं वार्ड, हनुमान खिड़की के निकट, तालुक एवं जिला— चंद्रपुर— 442402, महाराष्ट्र	बीवीएससीएंडएच /एमएंडएफएसयू /09	20.11.84
2114	पूजा भारद्वाज, पुत्री श्री उत्तम भारद्वाज	एमपीएसवीसी /2624/09	साकेत नगर कॉलोनी, करेली नरसिंहपुर, म. प्र.— 487221	बीवीएससीएंडएच /जेएनकेवीवी/09	24.6.83
2115	पूंगोथई आर. (ए. रंगासामी)	टीएनएसवीसी /4547/09	68/40, पप्पाकट्टू थोट्टम, चिन्नियमपलायम, कांचीकोविल, इरोड— 638116, तमिलनाडु	बीवीएससीएंडएच /टीएनयूवीएस /09	01.08.87
2116	पोर्चोझियान एस. (आर. सेल्वम)	टीएनएसवीसी /4491/09	4/1070, वेस्ट स्ट्रीट, चिंतामनि डाक, विल्लुपुरम तालुक व जिला— 605601, तमिलनाडु	बीवीएससीएंडएच /टीएनयूवीएस /09	10.04.86
2117	पोरगोवन एस. (एस. सुब्रामनियन)	टीएनएसवीसी /4610/09	121, कल्लार स्ट्रीट, नम्बीवयाल डाक, पट्टूकोट्टई तालुक, थंजावुर— 614615, तमिलनाडु	बीवीएससीएंडएच /टीएनयूवीएस /09	20.06.85

2118	पोरमन्न पी. (के. पलानीसामी)	टीएनएसवीसी / 4649 / 09	सेम्बुलिचमपलायम डाक, भवानी तालुक, इरोडे- 638501, तमिलनाडु	बीवीएससीएंडएच / टीएनयूवीएस / 09	30.11.82
2119	पोथीराज पी. (पी. पोथी नईकर)	टीएनएसवीसी / 4436 / 09	राज निवास, 68, अयप्पा नगर, पेरुमलपुरम डाक, तिरुनेलवेली - 627007	बीवीएससी / एमयू / 70	28.04.46
2120	प्रभाकर डी. (पी. दुराईसामी)	टीएनएसवीसी / 4496 / 09	कुप्पनवलासु, के.टी.पलायम डाक, कल्लीमण्ढयम वाया, ओड्डानचटरम तालुक, डिंडीगल जिला, तमिलनाडु	बीवीएससीएंडएच / टीएनयूवीएस / 09	21.05.85
2121	प्रभाकर हेगडे बी., पुत्र श्री नारायण हेगडे बी.	कर्नाएसवीसी / 4357 / 09	न. 154, दूसरा क्रॉस, लियास लेआउट, आर. एम.वी. एक्सटेंशन, दूसरी स्टेज, बेंगलुरु-4, बेंगलुरु अर्बन, कर्नाटक	बीवीएससी / उलेवत म नदप / 64	5.8.41
2122	प्रभाकर आर. (जी. रामाकृष्णन)	टीएनएसवीसी / 4529 / 09	329, भद्राकलियम्मन कोविल वेस्ट स्ट्रीट, सथ्यामंगलम-1, इरोडे जिला, तमिलनाडु	बीवीएससीएंडएच / टीएनयूवीएस / 09	27.06.87
2123	प्रभाकरन डी. (टी. दुराईसामी)	टीएनएसवीसी / 4644 / 09	44, डॉ. अम्बेडकर स्ट्रीट, थाविट्टुपलायम, अथियूर-638 501, इरोडे जिला, तमिलनाडु	बीवीएससीएंडएच / टीएनयूवीएस / 09	23.07.85
2124	प्रभात गुप्ता, पुत्र श्री आर.पी. गुप्ता	यूपीएसवीसी / 5018 / 09	254, नजई बाजार, बरुवा सागर, जिला- झांसी, उ.प्र.	बीवीएससीएंडएच / जेएनकेवीवी / 09	06.03.84
2125	प्रभजीत सिंह, पुत्र श्री डी.एस. कुलार	पीबीएसवीसी / 2913 / 09	240, सेक्टर-35 ए, चंडीगढ़ - 160022, पंजाब	बीवीएससीएंडएच / पीएयू / 87	27.5.64
2126	प्रभु बिरादर पाटिल, पुत्र श्री आदिवेप्पा	कर्नाएसवीसी / 4286 / 09	पहली मंजिल, सिंडिकेट बैंक किल्लाबाग, टेरडाल- 587315, जामखंडी तालुक, बगलकोट जिला, कर्नाटक	बीवीएससीएंडएच / केवीएफएसयू / 09	31.7.84
2127	प्रभु कल्लूर, पुत्र श्री बासप्पा	कर्नाएसवीसी / 4258 / 09	न. 234, नीलखेड- 586115, सिंदागी तालुक, बीजापुर जिला, कर्नाटक	बीवीएससीएंडएच / केवीएफएसयू / 09	6.4.86
2128	प्रभु के.पी. (एम.के. पेरुमल)	टीएनएसवीसी / 4515 / 09	डी-42, रामलिंगा नगर, पुराना सुरामंगलम डाक, सलेम- 636005, तमिलनाडु	बीवीएससीएंडएच / टीएनयूवीएस / 09	03.04.84
2129	प्रभु आर. (एस.के. रामासामी)	टीएनएसवीसी / 4566 / 09	6-51, उत्तरी सेलीपलायम, कोयमपल्ली डाक, करूर- 639114, तमिलनाडु	बीवीएससीएंडएच / टीएनयूवीएस / 09	30.06.86

2130	प्रभु एस. (ए.के. सक्तिवेल)	टीएनएसवीसी / 4629 / 09	18, मरियम्मन कोविल स्ट्रीट, अराचलूर, इरोडे जिला— 638101, तमिलनाडु	बीवीएससीएंडएएच / टीएनयूवीएस / 09	30.06.85
2131	प्रभु एस. (के. सोलई)	टीएनएसवीसी / 4494 / 09	112/1, कार्थिकेयन रोड, सइदापेट, अर्नी, थिरुवन्नामलई (जिला)— 632301, तमिलनाडु	बीवीएससीएंडएएच / टीएनयूवीएस / 09	24.06.85
2132	प्रदीप सी., पुत्र श्री चिक्कानाइक बी.सी.	कर्नाएसवीसी / 4321 / 09	न. 1183, मेटीकुप्पा रोड, एच.डी. कोटे— 571114, मैसूर जिला, कर्नाटक	बीवीएससीएंडएएच / केवीएफएसयू / 09	26.7.86
2133	प्रदीप कुमार धोवी, पुत्र श्री जुलाल	यूपीएसवीसी / 4952 / 09	ग्राम— सौथना, डाक— खड़गपुर, गरया जिला, इटावा उ.प्र.	बीवीएससीएंडएएच / यूपीपीडीडीयूपीसी वीवी / 09	07.07.79
2134	प्रदीप कुमार तिवारी, पुत्र श्री दरोगा प्रसाद तिवारी	सीएसीएचएसवीसी / 474 / 09	म.न. 367, गली न. 02, वार्ड न. 17, ममता नगर, राजनंद ग्राम	बीवीएससीएंडएएच / आईजीकेवीवी / 07-08	10.10.80
2135	प्रदीप कुमार, पुत्र श्री धरनी धर राम	जेवीसी / 613 / 09	नागरीकला, सिजुआ, टेदुलमारी, बाघमारा, धनबाद, झारखंड	बीवीएससीएंडएएच / बीएयू / 93	20.12.66
2136	प्रदीप कुमार, पुत्र श्री सहदेव कुमार नायक	जेवीसी / 612 / 09	पिरगुल, कासमार, तेनुघाट, बोकारो— 829115, झारखंड	बीवीएससीएंडएएच / बीएयू / 97	30.01.73
2137	प्रगति बी.एस., पुत्र श्री श्रीधर के.	कर्नाएसवीसी / 4328 / 09	न. 224, बेलगोला— 571606, श्रीरंगपटना तालुक, माण्ड्या जिला, कर्नाटक	बीवीएससीएंडएएच / केवीएफएसयू / 09	27.11.86
2138	प्रहलाद मंगल, पुत्र श्री श्याम सुंदर मंगल	राजएसवीसी / 3724 / 10	रवि प्रसाद मंगल, गोविंदजी के मंदिर के निकट, उपाला बाजार, सिरमथुरा, धौलपुर— 328026, राजस्थान	बीवीएससीएंडएएच / एसकेआरएयू / 10	28.04.86
2139	प्रहलाद सहाय यादव, पुत्र श्री मंगल चंद यादव	राजएसवीसी / 3731 / 10	ग्राम— ब्लाखन, डाक— गोविंदगढ़, तहसील— चोमू, जयपुर— 303807, राजस्थान	बीवीएससीएंडएएच / एसकेआरएयू / 10	24.01.85
2140	प्रहलाद गुप्ता, पुत्र श्री अमृत लाल गुप्ता	यूपीएसवीसी / 4977 / 09	ग्राम— सुल्तानपुर, डाक— मरीकपुर, जिला— जौनपुर, उ.प्र.	बीवीएससीएंडएएच / एनडीयूएएंडटी / 09	20.08.84
2141	प्रजापति अल्पेश जेठालाल	जीवीसी / 3031 / 09	पलासार, तालुक चानसमा, जिला पाटन, गुजरात	बीवीएससीएंडएएच / एसडीएयू / 09	14.03.86

2142	प्रजापति अनिल कालीदास	जीवीसी / 1967 / 10	109 / 2598, गुजरात हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी, मेघानीनगर,, अहमदाबाद- 16, गुजरात	बीवीएससीएंडएच / जीएयू / 96	31.01.74
2143	प्रजापति अरविंद भाई आत्माराम	जीवीसी / 1684	एटी व डाक-वागोसाना, तालुक-कलोल, जिला- मेहसाना-382845, गुजरात	बीवीएससीएंडएच / जीएयू / 93	1.6.69
2144	प्रजापति अशोक कुमार लावजीभाई	जीवीसी / 1460	उमियानगर, एटी एवं डाक- बोरु, तालुक-मनसा, जिला- गांधीनगर, गुजरात	बीवीएससीएंडएच / जीएयू / 91	6.1.66
2145	प्रजापति अश्विन कुमार शंकरलाल	जीवीसी / 1510	11, गायत्री कृपा सोसायटी, एसटी डिवीजन के पीछे, बेचरपुर-385001, जिला- बनासकंठा, गुजरात	बीवीएससीएंडएच / जीएयू / 92	6.6.70
2146	प्रजापति बाबूभाई ईश्वरभाई	जीवीसी / 775	एफ / 56, उमियानगर, ड्यूप्लेक्स पार्ट-1, चाणक्यपुरी, नया समता रोड, बड़ौदा, गुजरात	बीवीएससीएंडएच / जीएयू / 81	1.8.55
2147	प्रजापति बैजनाथ श्यामलाल	महाएसवीसी / 8201 / 09	देशपांडे प्लॉट, बडनेरा रोड, अमरावती, महाराष्ट्र	बीवीएससीएंडएच / एमएएंडएफएसयू / 09	09.01.84
2148	प्रजापति भावेश कुमार ईश्वरभाई	जीवीसी / 3143 / 10	एटी एवं डाक- गम्भु, तालुक- बेचरजी, जिला- मेहसाना, गुजरात	बीवीएससीएंडएच / एएयू / 10	10.06.88
2149	प्रजापति बिपिनचंद्र पुरुषोत्तम दास	जीवीसी / 1415	17, प्रमुख वंदना टेनामेंट्स, मंजलपुर टाउनशिप-2 के पीछे, मंजलपुर, वडोदरा-11, गुजरात	बीवीएससीएंडएच / जीएयू / 91	5.11.67
2150	प्रजापति चंद्रकांत कुमार रामजी भाई	जीवीसी / 1196	सी-51, रत्नामणि सोसायटी, कनाल रोड, टेलीफोन एक्स. के निकट, पाटन, गुजरात	बीवीएससीएंडएच / जीएयू / 89	11.10.65
2151	प्रजापति चेलाभाई बेचरभाई	जीवीसी / 316	21, केदारनाथ सोसायटी, राधनपुर रोड, ऐरोड्रोम के निकट, मेहसाना- 2, गुजरात	बीवीएससीएंडएच / जीएयू / 73	1.8.48
2152	प्रजापति दक्षित कुमार प्रहलादभाई	जीवीसी / 3069 / 09	ग्राम- बोरियावी, तालुक व जिला- मेहसाना, प्रजापतिवास, गुजरात	बीवीएससीएंडएच / एएयू / 09	23.08.86
2153	प्रजापति धर्मेन्द्र कुमार हरगोवनभाई	जीवीसी / 1975	एफ-16, ऋतुराज फ्लैट्स, टी.बी. अस्पताल रोड, मेहसाना, गुजरात	बीवीएससीएंडएच / जीएयू / 96	25.12.73

2154	प्रजापति दिलीप भाई ईश्वरभाई	जीवीसी / 1992	एटी:विशवागा, जबरेश्वर महादेव मंदिर के निकट, तालुक - राजपीपला- नाडोड, जिला- नर्मदा, गुजरात	बीवीएससीएंडएच / जीएयू/ 96	22.5.74
2155	प्रजापति गोविंद भाई नानालाल	जीवीसी / 1225	एटी एवं डाक-वडनगर, अर्जुन भाई गेट, तालुक-खेरालू, जिला-एस.के., गुजरात	बीवीएससीएंडएच / जीएयू/ 90	1.6.62
2156	प्रजापति हर्षद कुमार माधरलाल	जीवीसी / 1438	एटी: उदापुर, तालुक- विसनगर, जिला- मेहसाना, गुजरात	बीवीएससीएंडएच / जीएयू/ 91	25.6.66
2157	प्रजापति ईश्वरभाई हरगोविंद भाई	जीवीसी / 1082	बी-29, कृष्णा बंगला-III, गर्वनमेंट इंजीनियरिंग कॉलेज, मोटेरा, साबरमती, जिला- गांधीनगर	बीवीएससीएंडएच / जीएयू/ 88	1.6.64
2158	प्रजापति जगदीश द्वारकादास	जीवीसी / 3038 / 09	वीजापुर, विश्वाग्य लक्ष्मी सोसायटी, तालुक-वीजापुर, टी.बी. अस्पताल, जिला- मेहसाना, गुजरात	बीवीएससीएंडएच / एसडीएयू/ 09	23.04.84
2159	प्रजापति जयंति भाई विठ्ठल भाई	जीवीसी / 1527	एटी एवं डाक- डेथाली, तालुक: चनास्मा, जिला- मेहसाना, गुजरात	बीवीएससीएंडएच / जीएयू/ 92	25.8.69
2160	प्रजापति कल्पेश कुमार डाहयाभाई	जीवीसी / 3032 / 09	एटी एवं डाक-खेरालू, जिला- मेहसाना- 384325, गुजरात	बीवीएससीएंडएच / एसडीएयू/ 09	29.01.86
2161	प्रजापति कमलेश भाई हीरालाल	जीवीसी / 1226	बी / 105, तिरुपति बंगला, दूध सागर डेरी के पीछे, राधनपुर रोड, मेहसाना, गुजरात	बीवीएससीएंडएच / जीएयू/ 90	16.7.67
2162	प्रजापति कांतिभाई कोहयाभाई	जीवीसी / 1829	साबर चिलिंग सेंटर, बयाद, एटी एवं डाक- अंजनाववाव, तालुक-बयाद, एस.के., गुजरात	बीवीएससीएंडएच / जीएयू/ 93	1.6.70
2163	प्रजापति करशन भाई बागाभाई	जीवीसी / 517	एसोसिएट प्रोफेसर (एलपीएम), कॉलेज ऑफ वेटरिनरी साइंस एंड एच, एसडीएयू एसके नगर, दांतीवाड़ा - 385506, जिला- बनासकंठा	बीवीएससीएंडएच / जीएयू/ 79	2.5.58
2164	प्रजापति केशव लाल वीरचंद भाई	जीवीसी / 847	वाहोरवाड शेरी, प्रजापति वास, धिनोज, तालुक- चनास्मा, जिला- पाटन, गुजरात	बीवीएससीएंडएच / जीएयू/ 85	16.8.61
2165	प्रजापति लालजी भाई हरजीभाई	जीवीसी / 1505	एटी- नरदीपुर, सरधाव रोड के निकट, तालुक- कलोल, जिला- गांधीनगर, गुजरात	बीवीएससीएंडएच / जीएयू/ 92	1.6.67

2166	प्रजापति महेंद्र कुमार नारायण दास	जीवीसी / 1916	प्रजापतिवास, एटी एवं डाक—काकोशी, तालुक सिद्धपुर, जिला—पाटन, पिन—384290, गुजरात	बीवीएससीएंडएच / जीएयू / 95	15.10.72
2167	प्रजापति महेंद्र कुमार वीराभाई	जीवीसी / 2087	15, शिवम नगर, डेरी रोड, आईटीआई के निकट, पालनपुर, गुजरात	बीवीएससीएंडएच / जीएयू / 97	8.11.74
2168	प्रजापति महेश कुमार नाथालाल	जीवीसी / 2025	एटी—खेरपुर, डाक—सरसाव, तालुक—कडी, जिला—मेहसाना, गुजरात	बीवीएससीएंडएच / जीएयू / 97	5.3.70
2169	प्रजापति महेश कुमार रामाभाई	जीवीसी / 1423	73, रंगमहल बंगला, महाकाली के मंदिर के निकट, कंकरोल रोड, हिम्मतनगर— 388001, जिला— साबरकंठा	बीवीएससीएंडएच / जीएयू / 91	26.11.68
2170	प्रजापति मुकेश कुमार नानालाल	जीवीसी / 1473	बी / 90, तिरूपति बंगला, राधनपुर रोड के पीछे, मेहसा, गुजरात	बीवीएससीएंडएच / जीएयू / 91	1.6.67
2171	प्रजापति मुल्जी भाई भीखाभाई	जीवीसी / 969	एटी: शिका, तालुक— मोदासा, जिला— साबरकंठा, गुजरात	बीवीएससीएंडएच / जीएयू / 82	15.3.55
2172	प्रजापति नरेंद्र कुमार भगवानदास	जीवीसी / 1768	64 / 2, किसान नगर, सेक्टर— 26, गांधीनगर, गुजरात	बीवीएससीएंडएच / जीएयू / 94	9.8.74
2173	प्रजापति नरेशभाई भीखाभाई	जीवीसी / 1640	वेटरिनरी डिस्पेंसरी के सामने, प्रजापतिवास, एटी व तालुक— मनसा, जिला—गांधीनगर, गुजरात	बीवीएससीएंडएच / जीएयू / 93	1.6.70
2174	प्रजापति नटवरभाई धुलाभाई	जीवीसी / 1281	एटी— देतरोज, डाक— लखावाड, तालुक व जिला— मेहसाना, गुजरात	बीवीएससीएंडएच / जीएयू / 90	1.5.64
2175	प्रजापति नीरव कुमार कनुभाई	जीवीसी / 3145 / 10	शिवम सिनेमा के सामने, दाहोद रोड, तालुक— जालोड, जिला— दाहोद, गुजरात	बीवीएससीएंडएच / एएयू / 10	01.12.87
2176	प्रजापति नितेश कुमार सोमाभाई	जीवीसी / 2130	1—सूर्य नगर सोसायटी, मालगोदाम के पीछे, चंद्रा कॉलोनी, मेहसाना—2, गुजरात	बीवीएससीएंडएच / जीएयू / 98	19.4.75
2177	प्रजापति प्रहलादभाई पुरुषोत्तम	जीवीसी / 569	एटी एवं डाक— आमजा, तालुक कलोल, जिला— गांधीनगर, गुजरात	बीवीएससीएंडएच / जीएयू / 80	9.8.57

2178	प्रजापति रमेशचंद्र वरवाभाई	जीवीसी / 1027	136—सहकार कॉलोनी, सेक्टर— 25, गांधीनगर, गुजरात	बीवीएससीएंडएएच / जीएयू / 85	21.2.62
2179	प्रजापति संदीप कुमार सेंधाभाई	जीवीसी / 1657	एटी— टिंटोडन, तालुक— वीजापुर, जिला— मेहसाना— 382865, गुजरात	बीवीएससीएंडएएच / जीएयू / 93	1.6.70
2180	प्रजापति सेवंतीलाल मूलचंद भाई	जीवीसी / 731	सी / 8, खुशबू अपार्टमेंट, बिलाडी बाग के निकट, विसनगर रोड, मेहसाना, गुजरात	बीवीएससीएंडएएच / जीएयू / 83	1.6.60
2181	प्रजापति विजय सुरेशभाई	जीवीसी / 3070 / 09	मोटो प्रजापतिवास, लाडोल, तालुक— विकापार, जिला— मेहसाना, गुजरात	बीवीएससीएंडएएच / एएयू / 09	18.04.87
2182	प्रजापति विपुल कुमार गोविंदभाई	जीवीसी / 3146 / 10	नर्मदा वसाहाट, थसरा, तालुक —थसरा, जिला— खेडा, गुजरात	बीवीएससीएंडएएच / एएयू / 10	16.05.88
2183	प्रजापति विष्णु प्रशाद भीखालाल	जीवीसी / 1227	हरि ओम डॉंग क्लिनिक, 41, साईबाबा कॉम्प्लेक्स, हटकेश्वर बस स्टॉप के पीछे, अहमदाबाद, गुजरात	बीवीएससीएंडएएच / जीएयू / 90	16.6.68
2184	प्रजापति शिवाभाई हीराभाई	जीवीसी / 730	बी—9, मेघदूत अपार्टमेंट, राम पार्क सोसायटी के निकट, मोदासा, जिला— साबरकंठा— 383315, गुजरात	बीवीएससीएंडएएच / जीएयू / 83	1.6.58
2185	प्रजना मोहपात्रा, पुत्री श्री प्रबोध कुमार मोहपात्रा	ओएसवीसी / 2 286 / 09	एटी: बाघरा रोड, डाक— बड़ीपदा, जिला— मयूरभंज, उड़ीसा	बीवीएससीएंडएएच / ओयूएटी / 09	01.05.84
2186	प्रकाश चंद्र पंडित, पुत्र श्री श्रीधर पंडित	ओएसवीसी / 2 318 / 09	एटी एवं डाक— नुआपटना, थाना— टिगिरिया, जिला— कटक— 754035, उड़ीसा	बीवीएससीएंडएएच / ओयूएटी / 09	20.11.80
2187	प्रमोद कुमार, पुत्र श्री दुली चंद	राजएसवीसी / 3719 / 10	ग्राम एवं डाक— यलसार, वाया— कुदान, सीकर, राजस्थान	बीवीएससीएंडएएच / एसकेआरएयू / 10	28.08.82
2188	प्रमोद कुमार, पुत्र श्री नंद कुमार	राजएसवीसी / 3710 / 10	डी—238, बसंत विहार, झुंझुनू— 333001, राजस्थान	बीवीएससीएंडएएच / एसकेआरएयू / 10	17.11.83
2189	प्रणब के. रामा, पुत्र श्री डी. रामा	उमहीअब / 272 / 09	ग्राम— अपर मानिक गंज, पूर्वी गारो हिल्स, मेघालय	बीवीएससीएंडएएच / एएयू / 09	20.9.80

2190	प्रांजल सिंह, पुत्र श्री के.पी. सिंह	यूकेएसवीसी/ 452/09	द्वारा श्री के.पी. सिंह, एस.एम. (ओएमआई), अलकनंदा भवन, टीएचडीसी, ऋषिकेश, जिला देहरादून, उत्तराखंड	बीवीएससीएंडएच / जीबीआईएच; डब्ल्यूएंडटी/09	22.02.85
2191	प्रसन्ना टी.एस., पुत्र श्री थिमइय्याह टी.सी.	कर्नाएसवीसी/ 4230/09	न. 1641, तीसरा क्रॉस, विद्यानगर, माण्डया— 571401, कर्नाटक	बीवीएससी/यूएस बंगलौर/80	2.4.57
2192	प्रसांत कुमार सिंह, पुत्र श्री नरहनी सिंह	ओएसवीसी/2 260/09	एटी—उमर, डाक— झाड़ेशवासपुर, जिला— कटक, उड़ीसा— 754291	बीवीएससीएंडएच /ओयूएटी/85	14.05.61
2193	प्रसांथ विस्वनाथ, पुत्र श्री पी.के. विस्वनाथन	केएसवीसी/35 72/09	पुथुपरम्बिल हाउस, मदापल्ली डाक, चंगनाचेरी, कोट्टायम— 686546, केरल	बीवीएससीएंडएच /केएयू/09	18.12.84
2194	प्रशांत चौधरी, पुत्र श्री मदन दास चौधरी	एचवीसी/870 /09	मकान न. 118, वाई. पॉइंट, साहनी निवास के निकट, पौंटा साहिब, जिला सिरमौर, हि. प्र.	बीवीएससीएंडएच /सीएसकेएचपीकेवी /09	19.06.86
2195	प्रशांत देवांगन, पुत्र श्री आई.एल. देवांगन	सीएसएचएसव ीसी/503/10	कश्यप कॉलोनी, बिलासपुर, छत्तीसगढ़	बीवीएससीएंडएच /आईजीकेवीवी/0 9	09.06.84
2196	प्रशांत कुमार नायक, पुत्र श्री भरत लाल नायक	एमपीएसवीसी /2643/09	ग्राम एवं डाक— बिल्हारा राजा सागर, म.प्र. — 470051	बीवीएससीएंडएच /जेएनकेवीवी/09	1.07.81
2197	प्रताप टिग्गा, पुत्र श्री पलासिदीयुस टिग्गा	सीएसएसवीसी /541/10	ग्राम— सूखा पोखारे, डाक— जंचुआ, जिला— जशपुर, छत्तीसगढ़	बीवीएससीएंडएच /आईजीकेवीवी/0 9	10.03.10
2198	प्रताप रूद्र साहू, पुत्र श्री जादू मनि साहू	ओएसवीसी/2 319/09	एटी एवं डाक— बांकी घिरडी, वाया— एस. रामपुर, जिला— स्नेपुर— 767045, उड़ीसा	बीवीएससीएंडएच /ओयूएटी/09	14.06.84
2199	प्रतीक गोदरा, पुत्र श्री मोदू राम गोदरा	पीबीएसवीसी/ 2893/09	3/105, हाउसिंग बोर्ड, श्रीगंगा नगर, पंजाब	बीवीएससीएंडएच /जीएडीवीएसयू /09	15.9.85
2200	प्रताप कुमार के., पुत्र श्री कुप्पा स्वामी नायडू	कर्नाएसवीसी/ 4350/09	न. 22, दूसरी मंजिल, पहला बी मेन, विवेकानंद नगर, बीएसके, तीसरी स्टेज, बंगलुरु— 560085, कर्नाटक	बीवीएससीएंडएच /केवीएफएसयू/ 09	27.2.86
2201	प्रवास रंजन साहू, पुत्र श्री बैकुंठ नाथ साहू	ओएसवीसी/2 304/09	एटी—कमलाडीह, डाक— कमलाडीह, वाया नरोसिंगापुर, सब—अथागढ़, जिला कटक— 754032, उड़ीसा	बीवीएससीएंडएच /ओयूएटी/09	02.07.86

2202	प्रवीन अग्रवाल, पुत्र श्री महावीर प्रसाद	हरिएसवीसी/2 142	पुरानी मंडी, तालाब के निकट, नारनौल, हरियाणा	बीवीएससीएंडएच /सीसीएसएचएयू/ 06	19.12.81
2203	प्रवीन कुमार जी. आर., पुत्र श्री रामचंद्रप्पा डी.के.	कर्नाएसवीसी/ 4326/09	गौडनाहल्ली- 577511, हिरियूर तालुक, चित्रदुर्ग जिला, कर्नाटक	बीवीएससीएंडएच /केवीएफएसयू/ 09	21.12.85
2204	प्रवीन कुमार रोहिल्ला, पुत्र श्री सुरेंदर	हरिएसवीसी/2 098	ग्राम एवं डाक- बुवाना, तालुक जुलाना जिला जींद, हरियाणा	बीवीएससीएंडएच /सीसीएसएचएयू/ 09	29.9.85
2205	प्रवीन कुमार रोहिल्ला, पुत्र श्री जय देव कुमार	हरिएसवीसी/2 121	ग्राम एवं डाक- भली आनंदपुर, रोहतक, हरियाणा	बीवीएससीएंडएच /सीसीएसएचएयू/ 09	25.10.86
2206	प्रवीन रंजन, पुत्र श्री राजेंद्र प्रसाद	जेवीसी/605 /09	द्वारा श्री राजेंद्र प्रसाद, गोसाईंडीह, सियातंद, जमुआ, गिरिडीह, झारखंड	बीवीएससीएंडएच /बीएयू/03	09.04.75
2207	प्रवीन डी.एस. (डी. सुधिंदर)	टीएनएसवीसी /4571/09	61/बी- 37,रानी अन्नानगर, चिन्ना तिरुपति, सलेम- 636008, तमिलनाडु	बीवीएससीएंडएच /टीएनयूवीएस /09	22.01.86
2208	प्रवीना, पुत्र श्री भीम सेन राव कुलकर्णी	कर्नाएसवीसी/ 4240//09	होंगुटा रोड, शाहबाद डाक- 585228, चित्तापुर तालुक, गुलबर्गा जिला, कर्नाटक	बीवीएससीएंडएच /केवीएफएसयू/ 09	1.5.87
2209	प्रीथी उन्नीथन, पुत्री श्री के. गोविंदन उन्नीथन	केएसवीसी/35 31/09	लक्ष्मी प्रीथी, टीसी 2/3261, जीपीपी एलआईसी, थिरुवनंतपुरम, केरल	बीवीएससीएंडएच /केएयू/09	19.06.85
2210	प्रीति बिष्ट, पुत्री श्री एम.एस. बिष्ट	यूकेएसवीसी/ 482/09	ग्राम- छानाखास परजा, डाक अल्मोड़ा, जिला- अल्मोड़ा, उत्तराखंड	बीवीएससीएंडएच /जीबीआईएच; डब्ल्यूएंडटी/09	12.04.84
2211	प्रीति पांडे, पुत्री श्री ए.पी. पांडे	यूपीएसवीसी/ 4957/09	117/पी/807, काकादेव, कानपुर, उ.प्र.	बीवीएससीएंडएच /यूपीपीडीडीयूपीसी वीवी/09	01.01.86
2212	प्रीतिन्दर राना, पुत्री श्री जनक सिंह राना	पीबीएसवीसी/ 2679/10	ग्राम -बरनाला, डाक एवं जिला- गुरदासपुर, पंजाब	बीवीएससीएंडएच /जीएडीवीएसयू /06	1.3.83
2213	प्रीतितोष मोहापात्रा, पुत्र श्री रघुनाथ मोहापात्रा	ओएसवीसी/2 266/09	एटी एवं डाक- नरेंद्रकोना सुभद्रा लेन, जिला- पुरी- 751002, उड़ीसा	बीवीएससीएंडएच /ओयूएटी/09	02.07.86

2214	प्रेम कुमार जी., पुत्र श्री गोविंदप्पा एन	कर्नाएसवीसी / 4313 / 09	मरसांद्रा— 561203, बेंगलुरु अर्बन, गुजरात	बीवीएससीएंडएच / केवीएएफएसयू / 09	13.11.84
2215	प्रेम प्रकाश वर्मा, पुत्र श्री एन.बी. वर्मा	यूपीएसवीसी / 4949 / 09	ग्राम— मुहम्मदपुर, डाक— खेरिया पाटी कारा, फिरोजाबाद, उ.प्र.	बीवीएससीएंडएच / यूपीपीडीडीयूपीसी वीवी / 09	25.03.84
2216	प्रेमप्रकाश श्रीवास्तव, पुत्र श्री आर.एस. श्रीवास्तव	सीएचएसवीसी / 486 / 09	36 / 302, विकास नगर, कोलरा रोड, रायगढ़, छत्तीसगढ़	बीवीएससीएंडएच / जेएलएनकेवीवी / 91.92	25.06.65
2217	प्रेम सिंह, पुत्र श्री बुद्ध रामजी	राजएसवीसी / 3720 / 10	ग्राम एवं डाक— बडनगांव, तहसील— मेरटा सिटी, नागौर— 341510, राजस्थान	बीवीएससीएंडएच / एसकेआरएयू / 10	25.07.85
2218	प्रेम नाथन आर. (ए. रामनाथन)	टीएनएसवीसी / 4675 / 10	10 / एफ, धानिकाचलम नगर, 50, पांचवी स्ट्रीट, पोणियम्मनमेडु, चेन्नई— 600110, तमिलनाडु	बीवीएससीएंडएच / टीएनयूवीएएस / 09	06.10.87
2219	प्रेम कृष्णन जी. एन., पुत्र श्री गोपाल कृष्णन बी.एन.	केएसवीसी / 70 / 09	थेयाटिटल, विष्णु भवनम, पुथुकुडु, डाक, चावेरा, कोल्लम— 691585, केरल	बीवीएससीएंडएच / केएयू / 09	15.05.84
2220	प्रेम कुमार ए. (आर. आयोथी)	टीएनएसवीसी / 4580 / 09	3—132, वार्ड 3, 4, साउथ स्ट्रीट, मेन रोड, अनइय्यम पट्टी डाक, सलेम— 636105, तमिलनाडु	बीवीएससीएंडएच / टीएनयूवीएएस / 09	24.11.86
2221	प्रेम कुमार सी. (एस. चिन्नामुथु)	टीएनएसवीसी / 4677 / 10	सेक्कारापट्टी, मरप्परई डाक, थिरुचेंगोडू तालुक, नमक्कल— 637410, तमिलनाडु	बीवीएससीएंडएच / टीएनयूवीएएस / 09	20.07.83
2222	प्रेम कुमार एस. (जी. सांथना कृष्णन)	टीएनएसवीसी / 4623 / 09	866—ए, चेदिटयार स्ट्रीट, मानमेल कुडी डाक व तालुक, पुडुक्कोट्टई जिला— 614620	बीवीएससीएंडएच / टीएनयूवीएएस / 09	17.05.85
2223	प्रेम राज एच.डी., पुत्र श्री देसवप्पा एच.वी.	कर्नाएसवीसी / 4228 / 09	ई—118, गोपालागौडा एक्सटेंशन, द्रौपदाम्मा का मंदिर, शिमोगा, कर्नाटक	बीवीएससी / यूएएस बंगलौर / 96	23.2.74
2224	प्रतीक कश्यप, पुत्र श्री भगत राज	एचवीसी / 871 / 09	मकान न. 44 / 9, मंडी, जिला मंडी, हि.प्र.	बीवीएससीएंडएच / सीएसकेएचपीकेवी / 09	07.08.85
2225	प्रीटी वी. पीटर, पुत्री श्री पीटर वी. एम.	केएसवीसी / 56 / 09	वडाक्कूट हाउस, स्टार डेल, कनियम्बल रोड, कुन्नमकुल्लम डाक, थिसूर— 680503, केरल	बीवीएससीएंडएच / केएयू / 09	16.01.86

2226	प्रीति इक्का, पुत्री श्री जयसिंह इक्का	सीएचएसवीसी / 529 / 10	ग्राम एवं डाक-पाखेर, बाका पाथल गांव, जिला-जशपुर, छत्तीसगढ़	बीवीएससीएंडएच / आईजीकेवीवी / 0 9	03.07.86
2227	प्रीति गुप्ता, पुत्री श्री प्रेम चंद गुप्ता	राजएसवीसी / 3705 / 10	द्वारा: बंसल ट्रेडिंग कं., सदूल शहर, श्रीगंगानगर-335062, राजस्थान	बीवीएससीएंडएच / एसकेआरएयू / 10	30.04.84
2228	प्रिया रंजन कुमार, पुत्र श्री शिओधारी प्रसाद	जेवीसी / 637 / 09	कुरा, लाटेहर-839206, झारखंड	बीवीएससीएंडएच / बीएयू / 09	11.09.78
2229	प्रियंक यादव, पुत्र श्री सतवीर सिंह यादव	हरिएसवीसी / 2 127	एस.पी.एस. खोला, ग्राम एवं डाक-दारौली टी., जातुसाना जिला, रिवाड़ी, हरियाणा	बीवीएससीएंडएच / सीसीएसएचएयू / 09	19.8.86
2230	प्रियंका, पुत्र श्री राम कुमार सिंह	राजएसवीसी / 3593 / 09	डी-27, बसंत विहार, झुंझुनू- 333001, राजस्थान	बीवीएससीएंडएच / आरएयू / 09	14.03.84
2231	पुनीत कुमार त्रिपाठी, पुत्र श्री श्रीकांत त्रिपाठी	यूपीएसवीसी / 5028 / 09	7, चेतनपुरी कॉलोनी, झांसी, इलाहबाद, उ. प्र.	बीवीएससीएंडएच / एसवीवीयू / 09	08.01.81
2232	पुनीथ एस.के., पुत्र श्री महबला गौडा एस.के.	कर्नाएसवीसी / 4248 / 09	V-49, सोनागेरी, जलसूर ग्राम, सुलिया 574149, दक्षिण कन्नड़ जिला, कर्नाटक	बीवीएससीएंडएच / केवीएफएसयू / 09	23.4.86
2233	पुरोहित राजेश भाई चम्पक लाल	जीवीसी / 419	गायत्री सोसायटी, एटी- अमलासाड, जिला-नवसारी- 396310, गुजरात	बीवीएससीएंडएच / जीएयू / 76	23.2.54
2234	पुष्पा, पुत्री श्री नौरंग राम बहादुर	राजएसवीसी / 3763 / 10	ग्राम एवं डाक-थंडी, तहसील रायसिंह नगर, श्रीगंगानगर - 335706, राजस्थान	बीवीएससीएंडएच / एसकेआरएयू / 10	07.09.81
2235	पुष्पराज एन. (जी. नारायणसामी)	टीएनएसवीसी / 4469 / 09	1-13, सारथ स्ट्रीट, ग्राम / डाक, गोपालपुरम कीलाराजाकुलारम वाया, विरूधुनगर- 626136, तमिलनाडु	बीवीएससी / टीएन यूवीएस / 97	12.05.74
2236	पुष्पेंद्र सिंह, पुत्र श्री मल्खान सिंह	यूपीएसवीसी / 5052 / 09	ग्राम एवं डाक-सरीला, जिला हमीरपुर, उ.प्र.	बीवीएससीएंडएच / केयू / 09	01.07.82
2237	प्यारे लाल सरल, पुत्र श्री सी.एल. सरल	सीएचएसवीसी / 479 / 09	अल्बेलापारा, साहू पाड़ा, कांडेर, छत्तीसगढ़	बीवीएससीएंडएच / जेएलएनकेवीवी / 97-98	16.04.74

2238	आर. महेश, पुत्र श्री आर. अप्पाराव	एपीएसवीसी/ 04949/09	डी.न. 39-22-55/3, माधव धारा, दिशाखापटनम, आंध्र प्रदेश	बीवीएससीएंडएच /एसवीवीयू/09	27.11.86
2239	आर.ए. अंसारी, पुत्र श्री मौहम्मद आई. अंसारी	यूपीएसवीसी/ 4974/09	मौणहल्ला काजी टोला, डाक मलवान, जिला- हरदोई, उ.प्र.	बीवीएससीएंडएच /यूपीपीडीडीयूपी, सीवीवी/09	10.09.81
2240	आर. चित्रा, पुत्री श्री आर. जयराज	एपीएसवीसी/ 04999/09	द्वारा: रघुनंदन, डी.न. 3-405, रोड न.-1, प्रशांति नगर, तपोवनम, अनंतपुर जिला- 515004, आंध्र प्रदेश	बीवीएससीएंडएच /एसवीवीयू/09	10.02.85
2241	आर.के. चौधरी, पुत्र श्री डी.आर. चौधरी	यूपीएसवीसी/ 4933/09	बंजारिया रोड, संत कबीर नगर, उ.प्र.	बीवीएससीएंडएच /एनडीयूएंडटी/ 09	09.09.87
2242	आर. के. यादव, पुत्र श्री बी.आर. यादव	यूपीएसवीसी/ 5035/09	ग्राम- विसोखेर, डाक बछाऊ, जिला- वाराणसी, उ.प्र.	बीवीएससीएंडएच /एनडीयूएंडटी/ 09	23.12.78
2243	आर.के. वर्मा, पुत्र श्री एस.एन. वर्मा	यूपीएसवीसी/ 5048/09	म.न. 5ए, जंगले मातादीन, डाक-पादरी बाजार, जिला गोरखपुर, हि.प्र.	बीवीएससीएंडएच /टीएनवीएसयू/ 09	26.12.84
2244	आर. नागा प्रसन्ना, पुत्री श्री आर. नागेंद्र	एपीएसवीसी/ 04846/09	म.न. 2-9-64, आश्रम स्ट्रीट, गंगम्मा के मंदिर के पीछे, अल्लागड्डा, कुर्नूल जिला- 518543, आंध्र प्रदेश	बीवीएससीएंडएच /एसवीवीयू/09	01.06.85
2245	आर. रामा देवी, पुत्री श्री आर. विजयुडु	एपीएसवीसी/ 04823/09	म.न.57/64 ए, पुराने म्युनि. ऑफिस के निकट, रंगारेड्डी गेट, फोर्ट, पुराना शहर, कुर्नूल, आंध्र प्रदेश	बीवीएससीएंडएच /एसवीवीयू/09	27.07.85
2246	आर.एस. द्विवेदी, पुत्र श्री ए.पी. द्विवेदी	यूपीएसवीसी/ 4995/09	शिवपुरी, क्रोण्डिया, जिला- सुल्तानपुर, उ.प्र.	बीवीएससीएंडएच /एनडीयूएंडटी/ 09	04.01.82
2247	राबडी कनुभाई चेलाभाई	जीवीसी/1735	सी-78, इंद्र विहार सोसायटी, निकोल रोड, उक्करबापा नगर -14, अहमदाबाद- 382350, गुजरात	बीवीएससीएंडएच /जीएयू/94	23.10.71
2248	राबडी महेश कुमार लालजीभाई	जीवीसी/3147 /10	राबडी वास, अम्बिका चौक, लोटिया भगोल, आनंद, गुजरात	बीवीएससीएंडएच /एएयू/10	25.05.88
2249	राधा श्रीवल्लभ कामत, पुत्री श्री श्रीवल्लभ कामत	गोआएसवीसी /153/09	सुहावास, 523-ई, वोडलेम भाट, तालेगांव, गोवा	बीवीएससीएंडएच /एमएंडएफएसयू /09	

2250	राधाकृष्णन एन. (एस. नारायणन)	टीएनएसवीसी /4474/09	थंडगौडेमपलायम डाक, मंगलपुरम वाया, नमक्कल— 636202, तमिलनाडु	बीवीएससी/टीएएन यूवीएस/93	06.06.70
2251	रागेश एस. जयन, पुत्र श्री के.के. सुभा जयन	केएसवीसी/35 24/09	कदाविल हाउस, इडाकोची, कोचीन— 682006, केरल	बीवीएससीएंडएच /केएयू/09	18.03.83
2252	राघव रमेशचंद्र	जीवीसी/487	6, सुरभी टेनामेंट्स, उन्ना रोड, पाटन, गुजरात	बीवीएससीएंडएच /जेएनकेवीवी/78	1.6.53
2253	राघव शर्मा, पुत्र श्री दिग्विजय शर्मा	पीबीएसवीसी/ 2890/09	650, मलेरकोटला हाउस, पुराना डीएमसी सिविल लाइंस, लुधियाना, पंजाब	बीवीएससीएंडएच /जीएडीवीएसयू /09	29.9.86
2254	राघवेंद्र आर., पुत्र श्री रंगप्पा एन.	कर्नाएसवीसी/ 4276/09	मस्थम्मा स्ट्रीट, विनायक एक्सटें., होसादुर्ग— 577527, चित्रदुर्गा जिला, कर्नाटक	बीवीएससीएंडएच /केवीएफएसयू/ 09	18.2.87
2255	राघवेंद्रन वी.बी. (वी. बाला सुब्रमण्यन)	टीएनएसवीसी /4564/09	6/बी, पुलिस रंगासामी नायडू स्ट्रीट, पुथुर, त्रिची— 620017, तमिलनाडु	बीवीएससीएंडएच /टीएएनयूवीएस /09	30.05.86
2256	रघुबीर सिंह भदोरिया, पुत्र श्री देशराज सिंह भदोरिया	एमपीएसवीसी /2639/09	1094, न्यू दर्पण कॉलोनी, थाटीपुर, ग्वालियर, म.प्र.	बीवीएससीएंडएच /जेएनकेवीवी/09	05.5.83
2257	रागिनी पांडे, पुत्र श्री एस.सी. त्रिपाठी	यूपीएसवीसी/ 5068/10	ग्राम— फरीदाबाद, तहसील— मछली सहर, जौनपुर, उ.प्र.	बीवीएससीएंडएच /आईजीकेवी/09	20.05.85
2258	राहुल के., पुत्र श्री वी. राधाकृष्णन	केएसवीसी/35 08/09	21/483, सौपर्णिका, डाक कल्लई, कालीकट— 673003, केरल	बीवीएससीएंडएच /केएयू/09	24.03.86
2259	राहुल खन्ना, पुत्र श्री अशोक कुमार खन्ना	राजएसवीसी/ 3775/10	विजय कुमार वाटिका, जेल वैल, त्यागी वाटिका, बीकानेर— 334001, राजस्थान	बीवीएससीएंडएच /आरएयू/06	15.12.80
2260	राहुल रवि, पुत्र श्री रवि कुमार के.	केएसवीसी/35 42/09	वझापल्लिल हाउस, कडुवुंगल, वल्लीकुन्नम डाक, मावेलीकारा, अलपुज़ाह, केरल	बीवीएससीएंडएच /केएयू/09	27.05.85
2261	राज कुमार अग्रवाल, पुत्र श्री शम्भू दयाल अग्रवाल	राजएसवीसी/ 3645/09	मोती कुएं के निकट, कोटा रोड, इटावा, कोटा— 325004, राजस्थान	बीवीएससीएंडएच /केवीएफएसयू/ 09	05.07.83

2262	राज कुमार जायसवाल, पुत्र श्री आर.डी. जायसवाल	सीएचएसवीसी / 543 / 10	मुंगली जिला, बिलासपुर, छत्तीसगढ़	बीवीएससीएंडएच / आईजीकेवीवी / 09	01.08.82
2263	राज कुमार खरे, पुत्र श्री पी.एल. खरे	एमपीएसवीसी / 2652 / 10	एफ 88 / 15, तुलसी नगर, भोपाल-462003	बीवीएससीएंडएच / जेएनकेवीवी / 80	1.07.53
2264	राज कुमार जी.बी. (के. बलराम)	टीएनएसवीसी / 4682 / 10	श्रीनिवास, प्लॉट न. 40, बालामुरगन गार्डन्स, थुरईपक्कम, चेन्नई-600097	बीवीएससी / एमयू / 70	03.01.49
2265	राजा आर. (वी. रंगासामी)	टीएनएसवीसी / 4581 / 09	दूसरा वार्ड, वेस्ट स्ट्रीट, वैथिया गौडेनपुडुर डाक, अट्टूर तालुक, सलेम-636115, तमिलनाडु	बीवीएससीएंडएच / टीएएनयूवीएएस / 09	18.05.86
2266	राजा आर. (आर. राजेदिरन)	टीएनएसवीसी / 4504 / 09	2 / 34, सथ्या नगर, नेडयानम, सेंदुरई, अरियालूर जिला-621714, तमिलनाडु	बीवीएससीएंडएच / टीएएनयूवीएएस / 09	15.04.85
2267	राजा एस. (सेकर)	टीएनएसवीसी / 4617 / 09	12-ई, चिन्ना मनाली ईस्ट स्ट्रीट, इडापडडी तालुक, सलेम-637101, तमिलनाडु	बीवीएससीएंडएच / टीएएनयूवीएएस / 09	07.06.85
2268	राजा वी. (वी. वैरप्पन)	टीएनएसवीसी / 4508 / 09	वेस्ट कुरावापुलम, वेथारण्यम, नगाई-614808, तमिलनाडु	बीवीएससीएंडएच / टीएएनयूवीएएस / 09	05.04.87
2269	राजलक्ष्मी वी. (एस. एम. वेंकटेशन)	टीएनएसवीसी / 4559 / 09	3-101-1, वा.यू.सी. नगर, वार्ड 3, कोसावमपट्टी डाक, नमक्कल-637001, तमिलनाडु	बीवीएससीएंडएच / टीएएनयूवीएएस / 09	27.02.87
2270	राजालिंगम वी. (एम. वीरइय्यन)	टीएनएसवीसी / 4438 / 09	64, रक्काच गार्डन, मनिया करम पलायमगनपथि डाक, कोयम्बतूर - 641006, तमिलनाडु	बीवीएससी / एमयू / 72	05.12.47
2271	राजन टी. (आर. थिरुमूर्ति)	टीएनएसवीसी / 4565 / 09	2 / 241, के.अय्यमपलायम डाक, के.एन.पुरम वाया, पल्लडम तालुक तिरुपुर-641662, तमिलनाडु	बीवीएससीएंडएच / टीएएनयूवीएएस / 09	30.05.86
2272	राजापंडी एम. (पी. मुरुगेशन)	टीएनएसवीसी / 4423 / 09	54, पोरकई पंडियान स्ट्रीट, नेहरू बाजार, शिवगंगा-630561, तमिलनाडु	बीवीएससी / टीएएनयूवीएएस / 00	10.05.75
2273	राजापारा जयंतिलाल अमरशीभाई	जीवीसी / 1428	एटी एवं डाक-सारा, तालुक- मल्ली, जिला-सुरेंद्र नगर-363310, गुजरात	बीवीएससीएंडएच / जीएयू / 91	15.9.67

2274	राजासोककम्पन एस. (एस. शानमुगम)	टीएनएसवीसी /4567/09	न. 118 (पुराना न. 9/61), पटेल स्ट्रीट, पल्लडम, तिरुपुर- 641664, तमिलनाडु	बीवीएससीएंडएच /टीएनयूवीएस /09	07.05.86
2275	राजदीप कौर, पुत्री श्री परमजीत सिंह	पीबीएसवीसी/ 2892/09	सिटी एन्क्लेव के सामने, नरिन्दर मार्ग, कच्चा मालक रोड, जगरांव, पंजाब	बीवीएससीएंडएच /जीएडीवीएसयू /09	12.9.86
2276	राजे अविराज दिनकर	महाएसवीसी/ 8154/09	एटी डाक- आसु, तालुक फाल्टन, जिला- सतारा- 415523, महाराष्ट्र	बीवीएससीएंडएच /एमएएंडएफएसयू /08	02.06.85
2277	राजेंद्र सिंह गढ़वाल, पुत्र श्री हेमराज गढ़वाल	राजएसवीसी/ 3591/09	डाक- भोरकी पीपल की धानी, थाना-उदयपुरवटी, झुंझुनू- 333032, राजस्थान	बीवीएससीएंडएच /आरएयू/09	07.07.83
2278	राजेश चोर्डिया, पुत्र श्री भवंर लाल चोर्डिया	राजएसवीसी/ 3643/09	फौजी कॉलोनी, नोखा, बीकानेर, राजस्थान	बीवीएससीएंडएच /आरएयू/09	04.06.82
2279	राजेश कुमार दूबे, पुत्र श्री शंकर लाल दूबे	यूकेएसवीसी/ 504/10	द्वारा:डॉ.एस.के. तिवारी,सरकारी पशुचिकित्सा अस्पताल, पुरोला, उत्तरकाशी, उत्तराखंड	बीवीएससीएंडएच /जेएनकेवीवी/01	02.04.75
2280	राजेशकुमार मोहंती,पुत्र श्री ईआर. निरंजन मोहंती	ओएसवीसी/2 316/09	एटी: मोतीपटना, डाक- रहामा- 754140, जिला- जगतसिंहपुर, उड़ीसा	बीवीएससीएंडएच /ओयूएटी/09	02.07.83
2281	राजेश कुमार, पुत्र श्री भगेलू राम	यूपीएसवीसी/ 4922/09	ग्राम- धानापुर, डाक- कारोबंकज, जौनपुर, उ.प्र.	बीवीएससीएंडएच /यूपीपीडीडीयूपीसी वीवी/09	15.07.77
2282	राजेश कुमार, पुत्र श्री माला राम	हरिएसवीसी/2 112	ग्राम एवं डाक- गंगवा, जिला हिसार, हरियाणा	बीवीएससीएंडएच /सीसीएसएचएयू/ 09	10.6.85
2283	राजेश यादव, पुत्र श्री देवेंद्र यादव	हरिएसवीसी/2 116	वार्ड न.1, ग्राम एवं डाक- कनीना, जिला- महेंद्रगढ़, हरियाणा	बीवीएससीएंडएच /सीसीएसएचएयू/ 09	9.10.85
2284	राजेश यू.एम.(बी. मदास्वामी पिल्लै)	टीएनएसवीसी /4457/09	14/32, स्कूल स्ट्रीट, भूथापंडी डाक, कन्याकुमारी जिला- 629852, तमिलनाडु	बीवीएससी/टीएन यूवीएस/96	30.07.73
2285	राजेश्वर एस. सज्जन, पुत्र श्री सिदरामप्पासज्जन	कर्नाएसवीसी/ 4346/09	बसावा नगर पार्ट- II, हलियाल रोड, घारवाड़- 580008, कर्नाटक	बीवीएससीएंडएच /केवीएएफएसयू/ 09	1.8.85

2286	राजेश्वरी आर., पुत्री श्री शंकर जे.	कर्नाएसवीसी / 4221/09	न. 2/42, प्रूडेंस कोर्ट, 18वां क्रॉस, मल्लेश्वरम, बंगलौर, कर्नाटक	बीवीएससी / टीएनए यू/86	2.6.63
2287	राजेश्वरी के. (एस. के. करुप्पुसामी)	टीएनएसवीसी / 4563/09	25/3, थावासिनादर स्ट्रीट, पुदुसूरीपलायम, नम्बियार डाक, नमक्कल- 638458, तमिलनाडु	बीवीएससीएंडएच / टीएनयूवीएस / 09	23.08.85
2288	राजिंदर सिंह, पुत्र श्री सुरजीत चंद	पीबीएसवीसी / 2909/09	ग्राम पीर बख्शा चौहान, डाक व तहसील- जलालाबाद (प.), जिला- फिरोजपुर, पंजाब	बीवीएससीएंडएच / जीएडीवीएसयू / 09	10.2.81
2289	रजित शर्मा, पुत्र श्री दिग्विजय कुमार शर्मा	पीबीएसवीसी / 2888/09	205, वड्डी मंडी, पट्टी, जिला तरन तारन, पंजाब	बीवीएससीएंडएच / जीएडीवीएसयू / 09	5.9.85
2290	राजीव देवर्ष, पुत्र स्व. श्री गंगाधर माधव देवर्ष	सीएएसवीसी / 469/09	पशु चिकित्सालय, तिलडा, जिला- रायपुर, छत्तीसगढ़	बीवीएससीएंडएच / जेएलएनकेवीवी83 .84	30.06.60
2291	राजीव कुमार मिश्रा, पुत्र श्री चित्रसेन	सीएएसवीसी / 468/09	पशु चिकित्सालय परिसर, रायगढ़, छत्तीसगढ़	बीवीएससीएंडएच / जेएलएनकेवीवी / 96.97	27.02.70
2292	राजीव सिंह, पुत्र स्व. श्री टेकचंद राजपूत	यूकेएसवीसी / 488/09	पशु चिकित्सा अधिकारी, पशु चिकित्सा अस्पताल, जिला उधम सिंह नगर, उत्तराखंड	बीवीएससीएंडएच / जीबीआईएच; डब्ल्यूएंडटी / 96	01.07.71
2293	राजकुमारी, पुत्री श्री छेदी प्रसाद विश्वकर्मा	यूकेएसवीसी / 478/09	क्वा.न. 1138, सेक्टर-6, झा कॉलोनी, पंतनगर, जिला नैनीताल, उत्तराखंड	बीवीएससीएंडएच / जीबीआईएच; डब्ल्यूएंडटी / 09	15.05.86
2294	राजमोहन जी. (ए. गोपाल)	टीएनएसवीसी / 4620/09	234/4, मेलाकडु, सिंगीपुरम डाक, सलेम- 636115, तमिलनाडु	बीवीएससीएंडएच / टीएनयूवीएस / 09	10.03.84
2295	राजनंदन सिंह, पुत्र स्व. श्री महावीर सिंह	जेवीसी / 607 / 09	द्वारा श्री अरविंद कुमार इंदु सूर्यपुरी, एसबीआई ऑफिसर्स बैंक कॉलोनी के पीछे, सुखदेव नगर, रांची, झारखंड	बीवीएससीएंडएच / बीएयू / 96	10.09.66
2296	राजपुरा जावेद भाई महम्मदभाई	जीवीसी / 3034 / 09	एटी एवं डाक- मुमनवास, तालुक- वडगाम, जिला- बनासकंठा- 385120, गुजरात	बीवीएससीएंडएच / एसडीएयू / 09	25.10.86
2297	राजपूत अरुण राम लाल	महाएसवीसी / 8156/09	101, एटी-जंगीपुरा, डाक- शेनदूरनी, तालुक जामनेर, जिला जलगांव-424204, महाराष्ट्र	बीवीएससीएंडएच / एमएंडएफएसयू / 08	10.08.83

2298	राजपूत जयसिंह शंकरसिंह	जीवीसी / 1565	वसुधारा डेरी, एटी: अलीपुर, तालुक— चिखाली, जिला— नवसारी: 396521, गुजरात	बीवीएससीएंडएएच / पीकेवी / 90	3.10.72
2299	राकेश कुमार पाती, पुत्र श्री रवीन्द्र नाथ पाती	ओएसवीसी / 2 290 / 09	एटी एवं डाक—कलापदा, वाया —वेंतकर, थाना सदर, कटक, जिला—कटक—754112, उड़ीसा	बीवीएससीएंडएएच / ओयूएटी / 09	22.11.81
2300	राकेश कुमार, पुत्र श्री नाथू सिंह	राजएसवीसी / 3634 / 09	ग्राम— सिंगनोर गोदारा का बास, तहसील उदयपुर वाड़ी, झुंझुनू, राजस्थान	बीवीएससीएंडएएच / एमएफएसयू / 0 9	01.06.85
2301	राकेश कुमार सोनी, पुत्र श्री बृज मोहन सोनी	सीएचएसवीसी / 452 / 09	ईसाई पारा, ऑटो कॉलोनी, रेलवे कॉलोनी, वार्ड न. 07, छत्तीसगढ़	बीवीएससीएंडएएच / आईजीकेवीवी / 0 7-08	18.05.83
2302	राकेश शील, पुत्र श्री गौरांग चंद्र शील	सीएचएसवीसी / 524 / 10	ग्राम एवं डाक— फरासगांव, जिला— बस्तर, छत्तीसगढ़	बीवीएससीएंडएएच / आईजीकेवीवी / 0 9	25.11.86
2303	राकेश वर्मा, पुत्र श्री श्रीनगर वर्मा	यूपीएसवीसी / 4963 / 09	ग्राम— अमौली, डाक हजालापुर, जिला अम्बेडकर नगर, उ.प्र.	बीवीएससीएंडएएच / एनडीयूएंडटी / 09	06.06.82
2304	राखी वर्मा, पुत्री श्री रघुवीर सिंह वर्मा	राजएसवीसी / 3614 / 09	आर.एस. वर्मा, प्रौढ शिक्षा भवन के सामने, पुरानी गिन्नानी, बीकानेर— 334001, राजस्थान	बीवीएससीएंडएएच / आरएयू / 09	25.12.80
2305	राखोलिया धीरजलाल बावालाल	जीवीसी / 936	एटी— मोविया, तालुक गोंडल, जिला— राजकोट, पिन— 360330, गुजरात	बीवीएससीएंडएएच / जीएयू / 87	28.11.87
2306	राम गोविंद, पुत्र श्री सीता राम	एमपीएसवीसी / 2607 / 09	राम नगर कॉलोनी, गली न. 3, डाक जुआरा, मोरैना, म.प्र. 476221	बीवीएससीएंडएएच / जेएनकेवीवी / 09	8.9.83
2307	राम कृष्ण ठाकुर, पुत्र स्व. श्री जानकी ठाकुर	जेवीसी / 626 / 09	डी.ए.एच.ओ.पलामू, जेल हाटा, डाल्टनगंज, पलामू— 822101, झारखंड	बीवीएससीएंडएएच / आरएयू / 72	15.02.48
2308	राम नारायण सिंह, पुत्र स्व. श्री राम इत्र सिंह	जेवीसी / 619 / 09	आदर्श पुरी (वीआईपी कॉलोनी), अरसनडे, कनक— 834006, झारखंड	बीवीएससीएंडएएच / आरएयू / 72	05.08.48
2309	राम सहाय यादव, पुत्र श्री राम सुमेर यादव	यूपीएसवीसी / 4984 / 09	ग्राम— दावनाडीह, डाक पांडी कोरार, जिला— गोरखपुर, उ.प्र.	बीवीएससीएंडएएच / एमएफएसयू / 0 9	25.06.80

2310	राम सेवक राम, पुत्र स्व. श्री राम सुंदर राम	जेवीसी/620 /09	अखौरी दीदारी, लेसलीगंज, डाल्टनगुज, पलामू झारखंड	बीवीएससीएंडएच / बीएयू/90	08.08.60
2311	राम स्वरूप सिंह चंद, पुत्र श्री बाला शाहेब	सीएचएसवीसी /467/09	ग्राम एवं डाक- बडसारा, तहसील सूरजपुर, जिला- सरगुजा, छत्तीसगढ़	बीवीएससीएंडएच / आईजीकेवीवी/07-08	27.03.81
2312	रामचंद्रन ए. (ए. अलगप्पन)	टीएनएसवीसी /4600/09	पूलोगथुकडु, थंजावुर डाक, इडापडी तालुक, सलेम- 637102, तमिलनाडु	बीवीएससीएंडएच / टीएनयूवीएएस /09	27.07.85
2313	रामगोपालन एम. (जी. मथुरा नायगम)	टीएनएसवीसी /4667/10	75 ए/5, प्रथम क्रॉस, नॉर्थ- ईस्ट ऐक्सटेंशन, थिलई नगर, त्रिची- 8, तमिलनाडु	बीवीएससी/एमयू/71	30.12.45
2314	रमाकांत, पुत्र श्री रामेश्वर सिंह	यूपीएसवीसी/5041/09	23/8, मुगलान मोहल्ला, डाक- काकोरी, जिला- लखनऊ, उ.प्र.	बीवीएससीएंडएच / एएयू/09	13.01.81
2315	रामाकृष्णन के.एस. (एम.एस. स्वामीनाथन)	टीएनएसवीसी /4656/09	नया न. 41, मेट्टुकडई, थेवूर डाक, संकरी तालुक, सलेम जिला- 637104, तमिलनाडु	बीवीएससीएंडएच / टीएनयूवीएएस /09	01.06.89
2316	रामनाथन एस. (वी. सुब्रमण्यन)	टीएनएसवीसी /4628/09	24/ए, वाल्मीकि स्ट्रीट, गांधी नगर, सालिग्रामम, चेन्नई- 93, तमिलनाडु	बीवीएससीएंडएच / टीएनयूवीएएस /09	19.12.83
2317	रामाने संग्राम पंडित	महाएसवीसी/8189/09	एटी- सतारदे, डाक- पडाल, तालुक- पनहाला, जिला- कोल्हापुर 416205, महाराष्ट्र	बीवीएससीएंडएच / एमएंडएफएसयू /08	22.06.85
2318	रामानी वसंत कुमार धानाजी	जीवीसी/1536	एटी- पदमपुर, डाक- बयाथ, तालुक माण्डवी, जिला- कच्छ, गुजरात	बीवीएससीएंडएच / जीएयू/92	4.4.68
2319	रमारज के. (के. कोट्टामलई)	टीएनएसवीसी /4459/09	पंचमपट्टी, पोदटलापट्टी डाक, राजापलायम तालुक, विरुधुनगर जिला, तमिलनाडु	बीवीएससी/टीएनयू/80	25.08.55
2320	रमेश चंद्र बराला, पुत्र श्री मंगल चंद बराला	राजएसवीसी/3717/10	ग्राम: कचोलिया, तहसील- चोमू, जयपुर- 303704, राजस्थान	बीवीएससीएंडएच / एसकेआरएयू/10	03.10.76
2321	रमेश चंद्र साहू, पुत्र श्री लखोदर साहू	ओएसवीसी/2314/09	नेहरू नगर-1, डाक- गोसानानुआगांव, बरहामपुर, गंजम, उड़ीसा	बीवीएससीएंडएच / ओयूएटी/09	25.02.84

2322	रमेश कुमार, पुत्र श्री राधे श्याम	राजएसवीसी/ 3760/10	ग्राम एवं डाक- कजरा, तहसील - चिरावा, झुंझुनू- 333030, राजस्थान	बीवीएससीएंडएच / एएयू/09	01.05.84
2323	रमेश ओरांव, पुत्र स्व. श्री सुंदर ओरांव	जेवीसी/618 /09	अरसनडे, बोरेया, कनके, रांची-7, झारखंड	बीवीएससीएंडएच / बीएयू/93	16.09.66
2324	रमेश पी.एन., पुत्र श्री पी.के. नारायण सरमा	केएसवीसी/35 12/09	परम्बूर इल्लम, थिरुथिकडु, डाक मल्लापल्ली, पथानमथिट्टा - 689597, केरल	बीवीएससीएंडएच / केएयू/09	11.11.85
2325	रमेश रेड्डी, पुत्र श्री भास्कर राव	एपीएसवीसी/ 04896/09	द्वारा श्री जे.अप्पला नायडू, डाक वेंकमपेटा, पार्वथीपुरम (एम), विजियानगरम जिला, आंध्र प्रदेश	बीवीएससीएंडएच / एसवीवीयू/09	12.06.86
2326	रमेश के. (पी. कंडासामी)	टीएनएसवीसी /4514/09	सी.एन.जी.वलासू, करियमपट्टी डाक, ओड्डानघटरम तालुक, डिंडीगल- 624619, तमिलनाडु	बीवीएससीएंडएच / टीएनयूवीएस /09	20.10.85
2327	रमेश पी. (पी. पंचाटचरम)	टीएनएसवीसी /4468/09	न. 2-19 डी, थिरुवल्लूर स्ट्रीट, ओथावंदनगुडी, पी.पी. नल्लुरे, सिरकाली- 609104	बीवीएससीएंडएच / पीयू/01	16.12.76
2328	राम कुमार पी.के. (एन. प्रेम कुमार)	टीएनएसवीसी /4569/09	शक्ति विनयगर सोसायटी, थिरू, विलांघई, अंडीमदम डाक, पेराम्बलूर- 612801, तमिलनाडु	बीवीएससीएंडएच / टीएनयूवीएस /09	21.05.86
2329	रमोलिया प्रकाश कुमार माधवजी भाई	जीवीसी/1961	एटी- सूर्या (गिर), तालुक- तलाला, जिला- जूनागढ़, पिन- 362140, गुजरात	बीवीएससीएंडएच / जीएयू/96	5.5.73
2330	रामसेना महेंद्रजी शांतिजी	जीवीसी/1664	धनेरा चिलिंग सेंटर, बनास डेरी, धनेरा, जिला- बीके, पिन- 385311, गुजरात	बीवीएससीएंडएच / जीएयू/93	3.5.70
2331	रामस्वरूप, पुत्र श्री ओम प्रकाश वर्मा	राजएसवीसी/ 3623/09	वार्ड न. 1, सरस्वती विहार, रायसिंह नगर, श्रीगंगा नगर- 335051, राजस्थान	बीवीएससीएंडएच / आरएयू/09	06.06.82
2332	रामया आर., पुत्री श्री रवीन्द्रन आर.	केएसवीसी/35 87/09	थिरुवोनम, पल्लीसेरीक्कल, सास्थमकोटा डाक, कोल्लम- 690521	बीवीएससीएंडएच / केएयू/09	27.11.85
2333	रनबीर सिंह जाटव, पुत्र श्री मोहर सिंह	एमपीएसवीसी /2629/09	63, हिजोनिया सदन, सिद्धार्थ नगर, थाटीपुर, ग्वालियर, म.प्र.- 474011	बीवीएससीएंडएच / जेएनकेवीवी/09	6.07.82

2334	रणदीप कुमार, पुत्र श्री अमृत लाल	पीबीएसवीसी / 2863 / 09	ग्राम—बाहमन वाला, डाक कोटकापुरा, जिला—फरीदकोट, पंजाब	बीवीएससीएंडएच / सीसीएसएचएयू/ 09	30.12.80
2335	रंगनाथ गुडीसागर, पुत्र श्री विष्णु	कर्नाएसवीसी / 4250 / 09	न. 31 / 538, 10वां क्रॉस, विद्यानगर, रेनेबन्नूर— 581115, हावेरी जिला, कर्नाटक	बीवीएससीएंडएच / केवीएफएसयू/ 09	24.5.86
2336	रंगनाथ एस., पुत्र श्री शकुनी गौडा ए. बी.	कर्नाएसवीसी / 4337 / 09	न. सी—26, अंतरिक्ष नगर, हसन— 573201, कर्नाटक	बीवीएससीएंडएच / केवीएफएसयू/ 09	6.11.86
2337	रानी जे. (वी. जयरमन)	टीएनएसवीसी / 4614 / 09	92 / 51, टी.के. मुदाली स्ट्रीट, चूलई, चेन्नई— 600112, तमिलनाडु	बीवीएससीएंडएच / टीएनयूवीएस / 09	24.06.86
2338	रंजन कुमार झा, पुत्र स्व. श्री गंगा नाथ झा	जेवीसी / 650 / 10	टीवीओ कारोन, मधुपुर, देवघर— 815357, झारखंड	बीवीएससीएंडएच / आरएयू / 92	02.08.67
2339	रंजना राठौड़, पुत्री श्री एम.एल. राठौड़	सीएएसवीसी / 456 / 09	एल.आई.जी. 53, नेहरू नगर, बिलासपुर, छत्तीसगढ़	बीवीएससीएंडएच / आईजीकेवीवी / 0 7—08	03.03.86
2340	रणप्रिया जयेंद्र कुमार जयंतिलाल	जीवीसी / 3071 / 09	20, गोदाम क्षेत्र, सजदियाली—2, सजदिया, तालुक: जाम कंडोराना, जिला— राजकोट, गुजरात	बीवीएससीएंडएच / एएयू / 09	30.01.87
2341	रणविजय सिंह, पुत्र श्री बीरपाल सिंह	यूपीएसवीसी / 4944 / 09	पठानपुरा (नई बस्ती), रथ हमीरपुर, उ.प्र.	बीवीएससीएंडएच / एनडीयूएएडटी / 09	01.01.79
2342	रणविजय सिंह, पुत्र श्री दलविंदर सिंह	पीबीएसवीसी / 2874 / 09	म.न. 34 / 10, मास्टर कॉलोनी, गुरदासपुर, पंजाब	बीवीएससीएंडएच / जीएडीवीएसयू / 09	1.3.85
2343	राओल दिलीप कुमार भीखू सिंह	जीवीसी / 1110	1303 / 1, सेक्टर— 7 डी, गांधीनगर, गुजरात	बीवीएससीएंडएच / जीएयू / 88	25.6.66
2344	रतनपारा अश्विन कुमार केशवभाई	जीवीसी / 1648	सत्यजीत सोसायटी, एटी एवं डाक—विछिया, तालुक—जसदान, जिला—राजकोट, गुजरात	बीवीएससीएंडएच / जीएयू / 93	7.6.71
2345	राठौड़. अशोक कुमार भीखू सिंह	जीवीसी / 2137	ब्लॉक न. 103 / 2, सीएच— टाइप, सेक्टर—21, गांधीनगर, गुजरात	बीवीएससीएंडएच / जीएयू / 98	14.6.76

2346	राठौड़ बिपिन कुमार वेलजीभाई	जीवीसी / 1080	एम/87, सेक्टर-2, के.के. नगर, रान्ना पार्क, अहमदाबाद - 6, गुजरात	बीवीएससीएंडएएच / जीएयू/88	15.7.66
2347	राठौड़ कार्तिकेय कुमार भूपेंद्र सिंह	जीवीसी / 1659	45, शिवनगर सोसायटी, कॉलेज के पीछे, मनसा, तालुक वीजापुर, जिला मेहसाना 382845, गुजरात	बीवीएससीएंडएएच / जीएयू/93	27.5.71
2348	राठौड़ प्रवीन भाई गिरीश भाई	जीवीसी / 2223	एटी: बिलमाना, तालुक देहगाम, जिला- गांधीनगर, गुजरात	बीवीएससीएंडएएच / जीएयू/99	1.2.75
2349	राठौड़ संगीता बलिराम	महाएसवीसी / 8253 / 09	द्वारा:शुक्ला सर, पार्वतीनगर, जी.एन. आजाद कॉलेज के निकट, पुसाद, तालुक पुसाद, जिला यवतमाल- 445204, महाराष्ट्र	बीवीएससीएंडएएच / एमएएंडएफएसयू / 09	07.09.86
2350	राठौड़ संजय उत्तम	महाएसवीसी / 8280 / 09	एटी- आनंद नगर, डाक- लिम्बा, तालुक-पाथरी, जिला परभनी - 431506, महाराष्ट्र	बीवीएससीएंडएएच / एमएएंडएफएसयू / 09	13.07.84
2351	राठौड़ सुनील कुमार दशरथलाल	जीवीसी / 1558	दीवानजी की खड़की केसामने, पुराने डाकघर के निकट, एटी एवं डाक: राधनपुर, जिला: बनासकंठा, गुजरात	बीवीएससीएंडएएच / जीएयू/92	20.3.68
2352	राठौड़ विशाल कुमार रोहितभाई	जीवीसी / 3149 / 10	तालुका पंचायत कार्यालय के पीछे, चिखाली, सिद्धनाथ नगर, तालुक चिखाली, जिला: नवसारी, गुजरात	बीवीएससीएंडएएच / एएयू/10	24.05.86
2353	राठवा बिपिनभाई तरसिंह भाई	जीवीसी / 2252	एटी एवं डाक-वाघरा, तालुक -जेतपुर पावी, जिला-वडोदरा 391161, गुजरात	बीवीएससीएंडएएच / जीएयू/00	1.6.76
2354	रतकी हर्षद सुधीर	महाएसवीसी / 8162 / 09	बी-9, भाग्यश्री छाया, तम्बी नाका, थाणे-400601, महाराष्ट्र	बीवीएससीएंडएएच / एमएएंडएफएसयू / 08	08.01.85
2355	रौफुआलिउल्लाह नूरभाई अगालोडिया	जीवीसी / 2996 / 09	एटी-नागेल, डाक-मोरिया, तालुक-दांता, जिला- बनासकंठा, गुजरात	बीवीएससीएंडएएच / एसडीएयू/09	22.08.86
2356	राउत सुभाष शामराव	महाएसवीसी / 8256 / 09	मोतोश्री निवास, 446, नाथ नगर, तालुक व जिला परभनी- 461401, महाराष्ट्र	बीवीएससीएंडएएच / एमएएंडएफएसयू / 09	23.01.84
2357	रावल अर्चना हरेंद्रभाई	जीवीसी / 1925	4, निकुंज बंगला, शगुन अपार्टमेंट के सामने, सहकारी जिन रोड, हिम्मत नगर, जिला-साबरकंठा, गुजरात	बीवीएससीएंडएएच / जीएयू/96	17.6.71

2358	रावल दिलीप कुमार चुनीलाल	जीवीसी/420	पशुपालन विभाग के उप-निदेशक का कार्यालय, जिला पंचायत, जामनगर, गुजरात	बीवीएससीएंडएच / जीएयू/76	16.6.54
2359	रावल कन्हैया लाल लाभशंकर	जीवीसी/346	9, दिव्य पार्क सोसायटी, जय सोसायटी के निकट, रतनपुर, तालुक वघवान, जिला-सुरेंद्र नगर-363020	बीवीएससीएंडएच / जीएयू/74	3.10.50
2360	रावल किरीत कुमार कामेश कुमार	जीवीसी/996	7, वैशाली पार्क सोसायटी, गुरुद्वारा के पीछे, जेल रोड, मेहसाना-384002, गुजरात	बीवीएससीएंडएच / जीएयू/85	15.6.61
2361	रावल राकेश कुमार गनपतलाल	जीवीसी/1836	साबर चिलिंग सेंटर, एटी एवं डाक एवं तालुक- धानसुरा, एसके, गुजरात	बीवीएससीएंडएच / जीएयू/90	25.8.68
2362	रावल विष्णु प्रसाद भोलानाथ	जीवीसी/1792	अमूल डेयरी, अमूल पार्क, डी-9, एसवीपी रोड, आनंद, गुजरात	बीवीएससीएंडएच / जीएयू/94	15.5.68
2363	रावलजी दिग्विजय सिंह खुमान सिंह	जीवीसी/1629	67, श्रीमंतधर सोसायटी, बोरसाड क्रॉसिंग के निकट, आनंद, जिला- खेडा, गुजरात	बीवीएससीएंडएच / जीएयू/93	7.5.70
2364	रवि कांत अग्रवाल, पुत्र श्री राम बाबू अग्रवाल	पीबीएसवीसी/2915/09	38/100, जे-ब्लॉक, बीआरएस नगर, लुधियाना, पंजाब	बीवीएससीएंडएच / जीबीआईएच; डब्ल्यूएंडटी/01	21.9.76
2365	रवि कुमार नायर, पुत्र श्री राघवन नायर	केएसवीसी/3491/09	पुथेनमदाम, वीपी 5/1576, कुलाधिकारे लेन, मनिक्डेशवरम, वट्टियूरकावू थिरुवनंतपुरम-695013, केरल	बीवीएससीएंडएच / जीयू/66	07.06.44
2366	रवि कुमार जी. (सी. ज्ञान सेखरन)	टीएनएसवीसी/4673/10	मकान न. 1, अन्नामलाई स्ट्रीट, अरुप्पुकोट्टई-626101, विरुधुनगर जिला, तमिलनाडु	बीवीएससी/टीएएन यूवीएस/94	20.06.71
2367	रवि शंकर ए., पुत्र श्री अंजनेयुलु	कर्नाएसवीसी/4348/09	द्वारा एमजीएनआर कम्पाउंड, कल्लाहल्ली रोड, मापल्ली-563125, चिंतामनि तालुक, चिकबल्लापुरा जिला, कर्नाटक	बीवीएससीएंडएच / केवीएफएसयू/09	3.2.84
2368	रवि चंद्रन ए. (वी. आरुमुगम)	टीएनएसवीसी/4427/09	वेंडंगूट्टम, कोम्बूथी डाक, कामुथी तालुक, रामनाथपुरम-623603, तमिलनाडु	बीवीएससी/टीएएन यूवीएस/93	06.06.68
2369	रवि कुमार के.पी., पुत्र श्री कुमार गौडा एस.	कर्नाएसवीसी/4338/09	हिरदे स्ट्रीट, पांडवपुरा-571434, माण्ड्या जिला, कर्नाटक	बीवीएससीएंडएच / केवीएफएसयू/09	31.1.87

2370	रवि कुमार एस. (के. सेल्लामुथु)	टीएनएसवीसी / 4596 / 09	वी.पी. पुपुर, कावलपट्टी डाक, पलानी तालुक, डिंडीगल जिला, तमिलनाडु	बीवीएससीएंडएच / टीएनयूवीएस / 09	07.05.86
2371	रावलकर मीरा गंगाधर राव	महाएसवीसी / 8275 / 09	'कृष्णा निवास' भवसार चौक, ताल, मालेगांव रोड, जिला— नांदेड— 431209, महाराष्ट्र	बीवीएससीएंडएच / एमएंडएफएसयू / 09	01.01.85
2372	रीति तिवारी, पुत्री डॉ. नंद बल्लभ	यूकेएसवीसी / 472 / 09	नई भट्ट कॉलोनी, टल्ली बामोरी हलद्वानी, जिला नैनीताल, उत्तराखंड	बीवीएससीएंडएच / जीबीआईएच; डब्ल्यूएंडटी / 09	11.11.84
2373	रितु, पुत्री स्व. श्री नंदू टिके	जेवीसी / 640 / 09	हेहाल, पावाटोली, सुखदेव नगर, रांची— 834005, झारखंड	बीवीएससीएंडएच / बीएयू / 09	17.02.86
2374	रेखा कुमारी शर्मा, पुत्री श्री भीखाराम शर्मा	राजएसवीसी / 3706 / 10	इमर्तिया बेड़ा पाओटा, 'सी' रोड, जोधपुर, राजस्थान	बीवीएससीएंडएच / एसकेआरएयू / 10	15.08.82
2375	रेखा मीरे, पुत्री श्री एस.आर. मीरे	सीएचएसवीसी / 455 / 09	क्वार्टर न. 865 / 2ए, बालको नगर, कोरबा, छत्तीसगढ़	बीवीएससीएंडएच / आईजीकेवीवी / 07-08	30.10.83
2376	रेम्या रंजन डी., पुत्र श्री डी. राजन	केएसवीसी / 35 79 / 09	कार्तिका, चेरुथझाम, डाक— मंडूर, कन्नूर— 670501, केरल	बीवीएससीएंडएच / केएयू / 09	30.05.86
2377	रेम्या वासुदेवन, पुत्री श्री एन. वासुदेवन	केएसवीसी / 35 18 / 09	शेंगमविला वीडू, अगस्थ्याकोडे, अंचल डाक, कोल्लम— 691306, केरल	बीवीएससीएंडएच / केएयू / 09	04.05.86
2378	रेम्या के. वासु, पुत्री श्री के.एन. वासु	केएसवीसी / 35 10 / 09	क्रेचुमलायिल हाउस, करिम्बा डाक, पलक्कड— 678597, केरल	बीवीएससीएंडएच / केएयू / 09	20.05.86
2379	रेम्या पी. रवीन्द्रन, पुत्री श्री पी. रवीन्द्रन	केएसवीसी / 35 95 / 09	फैक्ट.क्या.न. बी-1, 13वीं मंजिल, अर्नाकुलम— 683501, केरल	बीवीएससीएंडएच / केएयू / 09	03.01.85
2380	रेम्या वी., पुत्री श्री के. मुकुंदन	केएसवीसी / 35 69 / 09	मा निवास, कन्हीरा ब्याल, डाक— वेंगेरी, कोजीकोड— 673010, केरल	बीवीएससीएंडएच / केएयू / 09	03.02.86
2381	रेंगन के., पुत्र श्री कृष्णन	कर्नाएसवीसी / 4232 / 09	न. 7, ब्लॉक 26, कुवेम्पु नगर, मैसूर, कर्नाटक	बीवीएससी / टीएनयू / 75	22.3.50

2382	रंजिथ बी.एल., पुत्र श्री के.जे. बालचंद्रन नायर	केएसवीसी/35 98/09	ओंकारम, पीपी 12/914, भगवतीनाद, डाक थिरुवनंतपुरम - 695501, केरल	बीवीएससीएंडएच /केएयू/09	09.06.85
2383	रंजिथसिबेस्टियन, पुत्र श्री सेबेस्टियन के.जे.	केएसवीसी/35 39/09	कट्टाकायथ हाउस, उलीकल डाक, कन्नूर- 670705, केरल	बीवीएससीएंडएच /केएयू/09	30.01.86
2384	रेशमी एस. नायर, पुत्री श्री शशीन्द्रन नायर पी.एन.	केएसवीसी/35 71/09	पुथेनपरांबिल हाउस, डाक सचिवोथमपुरम, चंगनाचेरी, कोट्टायम- 686532, केरल	बीवीएससीएंडएच /केएयू/09	20.05.85
2385	रेवथी पी. (के. पलानीसामी)	टीएनएसवीसी /4557/09	थोटियापट्टी वेस्ट, कन्नोरपट्टी डाक, नमक्कल जिला- 637014	बीवीएससीएंडएच /टीएनयूवीएस /09	07.05.85
2386	रेवथी पी. (के.एस. पलानीसामी)	टीएनएसवीसी /4531/09	रेवथी एजेंसी, 20/432, केएफ रोड, रामचंद, कोटागिरि, नीलगिरि- 643217, तमिलनाडु	बीवीएससीएंडएच /टीएनयूवीएस /09	15.07.86
2387	रेवथी आर. (वी. रवीन्द्रन)	टीएनएसवीसी /4419/09	609, एमआईजी, टीएनएचबी, आवडी, चेन्नई- 600054, तमिलनाडु	बीवीएससी/टीएन यूवीएस/02	25.01.77
2388	रेवात्कर स्वप्निल गजानन	महाएसवीसी/ 8190/09	द्वारा:सी.एम. बेलखेडे, प्लॉट नं. 30, इंदिरा नगर, दर्शना सोसायटी, नया नरसाला रोड, नागपुर, महाराष्ट्र	बीवीएससीएंडएच /एमएंडएफएसयू /09	03.03.85
2389	रिबाडिया नाथालाल भगवानजी	जीवीसी/647	सी/5800, के.के. कुवा के सामने, योगेश्वर नगर, करिया बिड, भावनगर, गुजरात	बीवीएससीएंडएच /जीएयू/69	28.8.45
2390	ऋचा, पुत्री श्री चमन लाल डोगरा	एचवीसी/886 /09	ग्राम एवं डाक- श्याम नगर, तहसील धर्मशाला, जिला- कांगड़ा, हि.प्र.	बीवीएससीएंडएच /सीएसकेएचपीकेवी /09	17.07.85
2391	ऋचा राठौड़, पुत्री श्री आर.के. राठौड़	यूपीएसवीसी/ 4956/09	ग्राम भिडासिन, डाक- बहरीन, जिला कन्नौज, उ.प्र.	बीवीएससीएंडएच /यूपीपीडीडीयूपीसी वीवी/09	29.05.84
2392	ऋचा शुक्ला, पुत्री श्री यू.सी. शुक्ला	यूपीएसवीसी/ 5039/09	ग्राम एवं डाक-खपीथा कलां, जिला- बांदा, उ.प्र.	बीवीएससीएंडएच /केवीएफएसयू/ 09	17.05.83
2393	रिकी झाम्ब, पुत्र श्री महेंदर सिंह	हरिएसवीसी/2 109	301/8, शिव चौक, फतेहाबाद, हरियाणा	बीवीएससीएंडएच /सीसीएसएचएयू/ 09	21.12.86

2394	ऋद्धिशंकर पटेल, पुत्र श्री तालेश्वर प्रसाद पटेल	सीएचएसवीसी /517/10	ग्राम— धिमानी, डाक— बंडोरा, जिला— जाजीीर, चम्पा, छत्तीसगढ़	बीवीएससीएंडएच /आईजीकेवीवी/0 9	01.10.83
2395	ऋषि दीपिका देव	जीवीसी/3003 /09	15, स्नो पर्ल बंगला, वसना जकातनाका के निकट, वसना रोड, वडोदरा, गुजरात	बीवीएससीएंडएच /एसडीएयू/09	13.04.89
2396	ऋषि कुमार पडोती, पुत्र श्री तेजराम पडोती	सीएचएसवीसी /487/09	पशु चिकित्सा अस्पताल, जयजयपुर, जिला— रायगढ़, छत्तीसगढ़	बीवीएससीएंडएच /जेएलएनकेवीवी/ 94	03.11.64
2397	ऋषिका चदोकर, पुत्री श्री बी.आर. चदोकर	सीएचएसवीसी /462/09	बी-3, बसंत कॉर्नर, अवंती बिहार, रायपुर, छत्तीसगढ़	बीवीएससीएंडएच /आईजीकेवीवी/0 7-08	09.11.83
2398	ऋतु पालीवाल, पुत्री श्री महेश कुमार पालीवाल	एमपीएसवीसी /2633/09	कटरा बाजार, सागर, म.प्र.— 470002	बीवीएससीएंडएच /जेएनकेवीवी/09	30.8.84
2399	रितुनपात्रा, पुत्री श्री प्रहलाद पात्रा	ओएसवीसी/2 269/09	ईबी-89, स्टेज-5, लक्ष्मी सागर (महावीर नगर), डाक— बुद्धेश्वरी, भुवनेश्वर-6, उड़ीसा	बीवीएससीएंडएच /ओयूएटी/09	26.05.86
2400	रोडगे स्वप्निल छगन लालजी	महाएसवीसी/ 8197/09	एटी— फुलामेगरा, डाक— शाहपुर, तालुक व जिला— भंडारा, महाराष्ट्र	बीवीएससीएंडएच /एमएंडएफएसयू /09	06.06.87
2401	रोहिन शर्मा, पुत्र श्री राकेश शर्मा	पीबीएसवीसी/ 2920/10	ओबेराय सर्विस स्टेशन के निकट, मनवाल बाग, पठानकोट, पंजाब	बीवीएससीएंडएच /आरएयू/10	6.12.85
2402	रोहिनी एम.सी., पुत्र श्री चंद्रशेखर एम.वी.	कर्नाएसवीसी/ 4306/09	न. 10/131ए, न्यू स्ट्रीट, कोल्लेगल— 571440, चामराजनगर जिला, कर्नाटक	बीवीएससीएंडएच /केवीएफएसयू/ 09	27.12.86
2403	रोहिनी सचदेवा, पुत्री श्री मोहिन्दर प्रताप सचदेवा	पीबीएसवीसी/ 2903/09	4, आदर्श नगर, म.न. 1111, फाजिल्का— 152123, जिला— फिरोज़पुर, पंजाब	बीवीएससीएंडएच /जीएडीवीएसयू /09	15.5.86
2404	राहित गुप्ता, पुत्र श्री आर.बी. गुप्ता	एमपीएसवीसी /2654/10	जी/46, विकरेकर आवास, पुराना हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी, मोरैना— 476001	बीवीएससीएंडएच /जेएनकेवीवी/09	20.10.84
2405	रोहित कुमार, पुत्र श्री नेता नंद	हरिएसवीसी/2 095	गली बाल भारती स्कूल, अग्रवाल कॉलोनी, फतेहाबाद, हरियाणा	बीवीएससीएंडएच /सीसीएसएचएयू/ 09	12.1.86

2406	रोहित शर्मा, पुत्र श्री देशराज शर्मा	एचवीसी/881/09	ग्राम—कंगू घाटी, डाक—जाहू, तहसील—भोराज, जिला—हमीरपुर, हि.प्र.	बीवीएससीएंडएच/सीएसकेएचपीकेवी/09	31.10.83
2407	रोभियो सन्नी, पुत्र श्री सन्नी चेरियान	केएसवीसी/3513/09	पंचारा पुथेनपुरा, वेलियानाडु डाक, अलपुजाह, केरल	बीवीएससीएंडएच/केएयू/09	05.04.86
2408	रूबावाहिनी आर. (एस. राजेंद्रन)	टीएनएसवीसी/4599/09	कासनकडु, मलियाकडु डाक, पट्टूकोट्टई तालुक, थंजावूर—614602, तमिलनाडु	बीवीएससीएंडएच/टीएनयूवीएस/09	26.07.84
2409	रूपा कदासनी, पुत्री श्री मालप्पा	कर्नाएसवीसी/4243/09	जयनगर, एस जामदार के साथ, मलम्मा मंदिर के निकट, बगलकोट जिला, कर्नाटक	बीवीएससीएंडएच/केवीएएफएसयू/09	29.8.85
2410	रोशन लाल बैरवा, पुत्र श्री कल्याण लाल बैरवा	एमपीएसवीसी/2627/09	ग्राम एवं डाक—तुलसेक, शिओपुर, म.प्र.	बीवीएससीएंडएच/जेएनकेवीवी/09	6.7.81
2411	रोशिनी एस. (आर. सत्यासीलन)	टीएनएसवीसी/4615/09	5, मंथा कराल स्ट्रीट, सांदरोकुप्पम, अम्बूर, वेल्लोर—635814, तमिलनाडु	बीवीएससीएंडएच/टीएनयूवीएस/09	27.05.86
2412	रोशना रशीद कुट्टी, पुत्री श्री एम. रशीद कुट्टी	केएसवीसी/3525/09	पोन्नुशेरिल, पल्लीसेरिकल, सास्थमकोट्टा—690521, केरल	बीवीएससीएंडएच/केएयू/09	30.01.85
2413	रॉय लतीश चंद्र	महाएसवीसी/8209/09	बी-3, एस-3, गोविंदा गौरखेडे कॉम्प्लेक्स, सेमिनरी हिल्स, तालुक व जिला नागर—440006, महाराष्ट्र	बीवीएससीएंडएच/एमएंडएफएसयू/09	15.12.83
2414	रुचि स्वर्णकार, पुत्री श्री आर.के. स्वर्णकार	यूपीएसवीसी/5016/09	ग्राम—धामना, तहसील—रथ, जिला—हमीरपुर, उ.प्र.	बीवीएससीएंडएच/जेएनकेवीवी/09	17.12.85
2415	रुक्मनगधान एस. (ए. सेथुपति)	टीएनएसवीसी/4484/09	बी 2, सिल्वन एनेक्सी, पार्सन नानजुंडापुरम रोड, कोयम्बतूर, तमिलनाडु	बीवीएससी/टीएनयू/82	03.05.59
2416	रूपल शुक्ला, पुत्री श्री ए.एस. शुक्ला	यूपीएसवीसी/4987/09	554 के/86, अर्जुन नगर, आलमबाग, लखनऊ, उ.प्र.	बीवीएससीएंडएच/यूपीपीडीडीयूपीसीवीवी/09	23.12.83
2417	रूपाला अमृतलाल शामजीभाई	जीवीसी/1211	एटी: नानीवावडी तालुक: मोरबी, जिला—राजकोट, गुजरात	बीवीएससीएंडएच/जीएयू/89	8.10.65

2418	रूपारेलिया राजेश विठ्ठल	जीवीसी/2056	एटी: सप्तपार, वाया- मोधिया, तालुक कोटदा सौमानी, जिला राजकोट, गुजरात	बीवीएससीएंडएच /जीएयू/97	10.6.72
2419	रूपेश पटेल, पुत्र श्री मनमोहन पटेल	सीएचएसवीसी /520/10	द्वारा: एम.एम. पटेल, सीएमपीडीआई कॉलोनी, धर्मजयगढ़, रायगढ़, छत्तीसगढ़	बीवीएससीएंडएच /आईजीकेवीवी/0 9	21.07.81
2420	आर.वाई. चिदाम्बरम (सीटी रायम्पन)	टीएनएसवीसी /4659/09	प्लॉट न. 15, रायप्पा हाउस, कन्नडासन नगर, चौथी स्ट्रीट, नॉर्थ एक्सटेंशन, कराईकुडी- 630003, तमिलनाडु	बीवीएससी/टीएन यूवीएस/90	07.05.68
2421	एस. महेश, पुत्र श्री एस. साम्बड्याह	एपीएसवीसी/ 04902/09	म.न. 5-5-27/61/1ए, गांधीनगर, निर्मल, आदिलाबाद - 504106, आंध्र प्रदेश	बीवीएससीएंडएच /एसवीवीयू/09	09.04.86
2422	एस. भास्कर रामाराजू सागी, पुत्र श्री एस.वी.एस. नारायण राजू	एपीएसवीसी/ 04935/09	म.न. 2/6, गोगन्नामटम, मामिदीकुडुरु (एम), पूर्वी गोदवरी जिला- 533248, आंध्र प्रदेश	बीवीएससीएंडएच /एसवीवीयू/09	23.02.87
2423	एस. बिंदु, पुत्री श्री एस. नागन्ना	एपीएसवीसी/ 04843/09	डी.न. 41/101 सी-18, विनायक स्ट्रीट, बोसीनगर, रायाचोटी, कडप्पा जिला, आंध्र प्रदेश	बीवीएससीएंडएच /एसवीवीयू/09	15.06.82
2424	एस. चोनबेनथुंग किकोन, पुत्र श्री सोरेन किकोन	एनएसवीसी/0 243/09	माउंट तियी कॉलोनी, वोखा, नागालैंड	बीवीएससीएंडएच /एएयू/09	13.11.84
2425	एस. साइटा अरासन, पुत्र श्री सेत्वरराज	पॉण्डीएसवीसी /326/09	न. 33, मेन रोड, धेन्ननगुडी, कराईकल- 609607	बीवीएससीएंडएच /पीयू/08	21.10.83
2426	एस. गंगा प्रसाद, पुत्र श्री एस. गंगाधर	एपीएसवीसी/ 04840/09	म.न. 4-91/2, बस्सापुर डाक, बालकोंडा (एम), निजामाबाद	बीवीएससीएंडएच /एसवीवीयू/09	10.10.84
2427	एस.गुना सेखर, पुत्र श्री एस. चलपथि	एपीएसवीसी/ 04841/09	51/98-37, कोठापेट, रायाचोटी, कडप्पा जिला- आंध्र प्रदेश	बीवीएससीएंडएच /एसवीवीयू/09	14.06.85
2428	एस.के. गुप्ता, पुत्र श्री आर.पी. गुप्ता	यूपीएसवीसी/ 5024/09	ग्राम- मुकरा, डाक- गूमन गंज, नारायनी, बांदा, उ.प्र.	बीवीएससीएंडएच /जेएनकेवीवी/09	16.07.84
2429	एस. कृष्णा वेनी, पुत्री श्री एस. वेंकट मदन मोहन राव	एपीएसवीसी/ 04827/09	डी.न.3-1-12(6), अंजनेया स्वामी मंदिर, गड्डालागुंटा, ऑगोल, प्रकासम जिला, आंध्र प्रदेश	बीवीएससीएंडएच /एसवीवीयू/09	05.06.85

2430	एस. लावाकुमार, पुत्र श्री एस. अनंत राव	एपीएसवीसी/ 04953/09	गोकर्णपल्ली (ग्राम एवं डाक), पोंडुरु (एम), श्रीकाकुलम जिला, आंध्र प्रदेश	बीवीएससीएंडएच /एसवीवीयू/09	20.08.84
2431	एस.पी. मिश्रा, पुत्र श्री जे.पी. मिश्रा	सीएचएसवीसी /460/09	वेटरिनरी कॉलेज के सामने, अंजोरा, दुर्ग, छत्तीसगढ़	बीवीएससीएंडएच /जेएलएनकेवीवी/ 69.70	07.12.44
2432	एस. प्रताप, पुत्र श्री प्रफुल्ल चंद	एपीएसवीसी/ 04820/09	डी.न. 14-62, वेलमपेटा, कडकालुर, कृष्णा जिला, 521333, आंध्र प्रदेश	बीवीएससीएंडएच /ओयूएंडटी/08	24.07.86
2433	एस.एस. चौहान, पुत्र श्री जी.एस. चौहान	यूपीएसवीसी/ 5019/09	ग्राम- गनियावार, तहसील- चखार नगर, उ.प्र.	बीवीएससीएंडएच /जेएनकेवीवी/09	17.09.83
2434	एस.एस. यादव, पुत्र श्री एस.डी. यादव	यूपीएसवीसी/ 5051/09	ग्राम एवं डाक- डीहघाट, जिला गोरखपुर, उ.प्र.	बीवीएससीएंडएच /टीएनयूवीएएस /09	10.07.85
2435	एस.एस.एल. गणेश्वर राव, पुत्र श्री एस. रामचंद्र राव	एपीएसवीसी/ 04874/09	सागर (ग्राम व डाक) डुम्बरीगुडा, (एम), अराकू (आर.एस.), जिला विशाखापटणम, आंध्र प्रदेश	बीवीएससीएंडएच /एसवीवीयू/09	19.06.78
2436	एस. संदीप रेड्डी, पुत्र श्री एस.कृष्णा मोहन रेड्डी	एपीएसवीसी/ 04944/09	डी.न. 5-153, चार मंदिर स्ट्रीट, कंसावरम, मंडापेट (एम), कंसावरम, पूर्वी गोदावरी जिला, आंध्र प्रदेश	बीवीएससीएंडएच /एसवीवीयू/09	04.02.86
2437	एस. सुजान श्री, पुत्री श्री एस. गुरवइयाह	एपीएसवीसी/ 04865/09	111-241-ई-4, गोलापल्ले, मदनापल्लै- 517325, चित्तूर जिला, आंध्र प्रदेश	बीवीएससीएंडएच /एसवीवीयू/09	02.06.85
2438	एस. सुजाथा, पुत्री श्री एस. अप्पाराव	एपीएसवीसी/ 04961/09	म.न. 15-143/बी, कापू स्ट्रीट, ऋंगारवापु कोटा, विजियानगरम जिला, आंध्र प्रदेश	बीवीएससीएंडएच /एसवीवीयू/09	13.08.85
2439	एस. स्वेथा, पुत्री श्री एस. सत्य नारायण	एपीएसवीसी/ 04978/09	द्वारा सिलेक्शन टेलर्स, मूसी रोड, नकरेकल, नालगोंडा जिला -508211, आंध्र प्रदेश	बीवीएससीएंडएच /एसवीवीयू/09	06.06.85
2440	सबपरा घनश्याम प्रभुलाल	जीवीसी/1660	140, एवेन्यू पार्क, रवापार रोड, मोरबी, जिला- राजकोट - 363641, गुजरात	बीवीएससीएंडएच /जीएयू/93	9.8.69
2441	सबपरा मनीष कुमार दुर्लभजी भाई	जीवीसी/1413	द्वारा बी.के. जलारिया, अमृतनगर सोसायटी, अनुपम सोसायटी के पीछे, रवापार रोड, मोरबी-363642, गुजरात	बीवीएससीएंडएच /जीएयू/91	1.12.68

2442	सबरीश बाबू एम. एस. (एम.एस. सदासिवन)	टीएनएसवीसी / 4507 / 09	5/550, श्रवण ऑफसेट कम्पाउंड, मुट्टामिलपुरम कॉलोनी, सिवाकासी-626189, तमिलनाडु	बीवीएससीएंडएच / टीएनयूवीएस / 09	15.12.86
2443	सबिता लाकरा, पुत्री श्री जॉन कामिल लाकरा	ओएसवीसी / 288 / 09	एटी:कुसुमडेगी (सी.आर.टोली), डाक कुसुमडेगी, जिला सुंदरगढ़, उड़ीसा	बीवीएससीएंडएच / ओयूएटी / 09	30.05.85
2444	सबिथा एस.एस. (एन. स्वामीदास)	टीएनएसवीसी / 4607 / 09	ऐरमपल्ली हाउस, वावरई, एस.टी. मंगडू डाक, कन्याकुमारी जिला- 639172, तमिलनाडु	बीवीएससीएंडएच / टीएनयूवीएस / 09	27.10.85
2445	सचिन चोपड़ा, पुत्र श्री अशोक चोपड़ा	हरिएसवीसी / 2143	479, ग्राम एवं डाक- तलवंडी राना, जिला-हिसार, हरियाणा	बीवीएससीएंडएच / स्वामीकेशवानंद, आरएयू / 10	24.6.86
2446	सचिन कुमार, पुत्र श्री ब्रजेश कुमार	यूपीएसवीसी / 5000 / 09	हाजीपुर शामली, मुजफ्फर नगर, उ.प्र.	बीवीएससीएंडएच / एमएफएसयू / 09	08.07.83
2447	सचिन कुमार शाडिल्य, पुत्र श्री एस.के. शाडिल्य	यूकेएसवीसी / 467 / 09	मकान न. 62, मौहल्ला शिवपुरी, लकसार, जिला हरिद्वार, उत्तराखंड	बीवीएससीएंडएच / जीबीआईएच; डब्ल्यूएंडटी / 09	09.10.85
2448	सचिन शमा, पुत्र श्री सुभाष चंद शमा	एचवीसी / 872 / 09	ग्राम एवं डाक- माझोग सुल्तानी, तहसील व जिला- हमीरपुर, हि.प्र.	बीवीएससीएंडएच / सीएसकेएचपीकेवी / 09	30.03.85
2449	सदानंद महतो, द्वारा श्री जगरनाथ महतो	जेवीसी / 616 / 09	ब्लॉक पशु पालन कार्यालय, गोडडा, झारखंड	बीवीएससीएंडएच / आरएयू / 82	10.01.59
2450	सदासिवम पी. (एम. पलानीअप्पन)	टीएनएसवीसी / 4618 / 09	2-123, मोदामंगलम डाक, तिरुचेनगोडे तालुक, नमक्कल - 637304, तमिलनाडु	बीवीएससीएंडएच / टीएनयूवीएस / 09	07.06.84
2451	सदासिवन ए.एस. (ए. सबापथी)	टीएनएसवीसी / 4458 / 09	125, सम्पथ नगर, इरोडे- 638011, तमिलनाडु	बीवीएससी / एमयू / 1968	16.01.46
2452	सागर चंद, पुत्र श्री ईश्वर दास	एचवीसी / 878 / 09	ग्राम एवं डाक-चामनेड, तहसील व जिला- हमीरपुर, हि.प्र.	बीवीएससीएंडएच / सीएसकेएचपीकेवी / 09	10.09.85
2453	साहू राजेंद्र कुमार	जीवीसी / 1603	चिडियाघर के सुपरिटेण्डेंट का क्वार्टर, कंकरिया जू, कंकरिया, अहमदाबाद, गुजरात	बीवीएससीएंडएच / जेएनकेवीवी / 89	6.1.63

2454	सैकिया मानश ज्योति, पुत्र श्री रुपेश्वर सैकिया	एसएम/247 5/09	द्वारा:श्री आर.सैकिया, टोकोबारी ग्राम,डाक,थाना सिस्सीबोरगांव, जिला- धीमाजी, असम	बीवीएससीएंडएच /एचयू/09	16.12.79
2455	सैकिया उत्पल, पुत्र श्री उमा कांत सैकिया	एसएम/243 7/09	ग्राम- हातीगांव, डाक- बालीगांव, जिला- नागांव- 782144, असम	बीवीएससीएंडएच /एचयू/09	1.3.85
2456	सैयद तौफीक हुसैन इमदाद हुसैन	जीवीसी/571	शाथ बाजार,मस्जिद के निकट, एटी एवं तालुक-वीजापुर, जिला-मेहसाना, गुजरात	बीवीएससीएंडएच /जीएच/80	23.7.56
2457	सकट श्रीवास्तव, पुत्र श्री आर.सी. श्रीवास्तव	यूपीएसवीसी/ 5027/09	ग्राम एवं डाक- 198सी, भाग 1, बिंडवाल, आज़मगढ़, उ.प्र.	बीवीएससीएंडएच /एसवीवीयू/09	15.06.84
2458	सक्ति देवी आर. (एस. राजेश)	टीएनएसवीसी /4454/09	न. 8/1959-एफ (पुराना न. 8/139-एफ), सूर्यनायकन पट्टी, पंडलगुडी,अरुप्पुकोट्टई विरुधुनगर-626113,तमिलनाडु	बीवीएससी/टीएन यूवीएस/95	11.03.72
2459	सलई गुनालन जे. (एम.जे. आनंदन)	टीएनएसवीसी /4486/09	342,15वां क्रॉस स्ट्रीट, सीएल आरआई नगर, नीलनकरई, चेन्नई- 600041, तमिलनाडु	बीवीएससी/एमयू/ 69	05.10.43
2460	समर राही, पुत्र श्री फसीउद्दीन	यूपीएसवीसी/ 4920/09	ग्राम- सबरालपुर, जिला- बुलंदशहर, उ.प्र.	बीवीएससीएंडएच /जीबीआईएच; डब्ल्यूएंडटी/09	01.07.86
2461	समय सिंह मीना, पुत्र श्री घमंडी राम मीना	राजएसवीसी/ 3616/09	ग्राम-खोहरा मुल्ला, डाक-बड़ा बुजुर्ग, तहसील-महवादीसा- 322240, राजस्थान	बीवीएससीएंडएच /आरएच/09	12.06.80
2462	सम्बित कुमार सेठी, पुत्र श्री चितामनि सेठी	ओएसवीसी/2 294/09	एटी/डाक: रिमली, थाना: चामपुर, जिला- कैओन्झर- 758047, उड़ीसा	बीवीएससीएंडएच /ओयूएटी/09	10.07.85
2463	समीर कुमार दास, पुत्र श्री एस.के. दास	गोआएसवीसी /152/09	पीआर साइंटिस्ट, आईसीएआर, इला, ओल्ड गोवा	बीवीएससीएंडएच /बीसीकेवीवी/90	
2464	समीरा मुदुली, पुत्र श्री सौरी मुदुली	ओएसवीसी/2 313/09	रामदास बिहार, डाक- भवानी पटना, जिला- कालाहंडी, उड़ीसा	बीवीएससीएंडएच /ओयूएटी/09	19.11.84
2465	स्मिता प्रसाद, पुत्री श्री सुनील कुमार साहू	सीएचएसवीसी /497/10	सी.एस.ई.बी. कॉलोनी, टिफरा, जिला- बिलासपुर, छत्तीसगढ़	बीवीएससीएंडएच /आईजीकेवीवी/0 9	15.11.83

2466	सम्पूक्ता सिंह, पुत्री श्री विनोद कुमार सिंह	सीएचएसवीसी / 454 / 09	एच-09, गुलाब कॉलोनी, अम्बिकापुर, छत्तीसगढ़	बीवीएससीएंडएच / जेएलएनकेवीवी / 07-08	11.01.85
2467	सनान्दिया विमल कुमार रावजीभाई	जीवीसी / 2281	एटी- बिलिया, तालुक- मोरबी, जिला- राजकोट, गुजरात	बीवीएससीएंडएच / जीएयू / 00	1.8.78
2468	सनप प्रीतम शिवाजी	महाएसवीसी / 8310 / 10	मातृ छाया, 598, विठ्ठल नगर, शिरूर, तालुक शियर, जिला-पुणे-412210, महाराष्ट्र	बीवीएससीएंडएच / एमएंडएफएसयू / 09	28.10.86
2469	सनत कुमार पंडित, पुत्र श्री रघुनंदन पंडित	जेवीसी / 599 / 09	दूरिंग वेटरिनरी अधिकारी, फतेहपुर, कुंछित जमतारा- 814186, झारखंड	बीवीएससीएंडएच / आरएयू / 88	24.08.65
2470	संदीप इंदुरकर, पुत्र श्री गेंदा लाल इंदुरकर	सीएचएसवीसी / 530 / 10	भीमनगर, वार्ड न. 7, मिसिया प्लांट, डोंगर गढ़, राजनंद गांव, छत्तीसगढ़	बीवीएससीएंडएच / आईजीकेवीवी / 0 9	27.03.76
2471	संदीप कुमार मुनदोतिया, पुत्र श्री मोहन लाल	राजएसवीसी / 3622 / 09	ग्राम- मंधा मदानी, वाया- पलसाना, सीकर- 332402, राजस्थान	बीवीएससीएंडएच / आरएयू / 09	01.10.84
2472	संदीप कुमार, पुत्र श्री किशन लाल	राजएसवीसी / 3693 / 09	प्लॉट न. 69, कैलाश नगर, मार्ग न. ए-14, झोतवाड़ा, जयपुर- 302012, राजस्थान	बीवीएससीएंडएच / आरएयू / 09	10.11.83
2473	संदीप कुमार, पुत्र श्री अजमेर सिंह	हरिएसवीसी / 2 117	535 / 27, चिरंजीव कॉलोनी, कैथल, हरियाणा	बीवीएससीएंडएच / सीसीएसएसएयू / 09	30.9.84
2474	संदीप कुमार शर्मा, पुत्र श्री किशन लाल शर्मा	राजएसवीसी / 3721 / 10	15, संगम कॉलोनी, बजरंग नगर, रोड न. 14, जयपुर- 302013, राजस्थान	बीवीएससीएंडएच / एसकेआरएयू / 10	10.01.85
2475	संदीप एम., पुत्र श्री महादेवू एम.	कर्नाएसवीसी / 4311 / 09	न. 55, प्रथम स्टेज, जे.पी. नगर, मैसूर- 560008, कर्नाटक	बीवीएससीएंडएच / केवीएएफएसयू / 09	14.12.86
2476	संदीप सिंह, पुत्र श्री गुरदीप सिंह	पीबीएसवीसी / 2912 / 09	4677, स्ट्रीट न. 3, एसएस नगर, अबोहर रोड, मुक्तसर, पंजाब	बीवीएससीएंडएच / आरएयू / 09	10.10.85
2477	संदीपा भान, पुत्री श्री सुरिंदर भान	पीबीएसवीसी / 2918 / 09	3 / 10, सीनियर मैनेजर फ्लैट्स, ओसीएम मिल्स, छरहटा, अमृतसर, पंजाब	बीवीएससीएंडएच / एमएंडएफएसयू / 04	19.10.81

2478	सांघी लतीफ छोदू भाई	जीवीसी / 3035 / 09	टीओ-नानीवाड़ा, तालुक खेरालू, जिला-मेहसाना, गुजरात	बीवीएससीएंडएच / एसडीएयू / 09	17.09.86
2479	संध्या मोरवाल, पुत्री श्री भाग चंद मोरवाल	राजएसवीसी / 3640 / 09	ग्राम-साईवास, डाक- फूसकानी, झुंझुनू-333701, राजस्थान	बीवीएससीएंडएच / आरएयू / 09	07.02.84
2480	संदीप चक्रबोर्ती, पुत्र श्री पारितोष चक्रबोर्ती	त्रिपुराएसवीसी / 176 / 08	द्वारा: पारितोष चक्रबोर्ती, उत्तरी जॉय नगर, अगरतला त्रिपुरा (वेस्ट)	बीवीएससीएंडएच / सीएयू / 08	5.6.85
2481	संगमेश्वरन आर. (के. राजेंद्रन)	टीएनएसवीसी / 4582 / 09	5 / 3, ईस्ट पेरियार स्ट्रीट, पुडुपेट डाक, अट्टूर तालुक, सलेम जिला, तमिलनाडु	बीवीएससीएंडएच / टीएनयूवीएस / 09	29.04.86
2482	संगीथा राजकमल (पी.बाला सुब्रमण्यन)	टीएनएसवीसी / 4475 / 09	23 / 318, राघवेंद्र स्ट्रीट, चिन्नुसामी नगर, सीलानाडकेन पट्टी, सलेम-636201, तमिलनाडु	बीवीएससी / टीएनयूवीएस / 00	22.06.75
2483	संघमित्रा प्रमानिक, पुत्री श्रीविस्वरंजन प्रमानिक	ओएसवीसी / 2 311 / 09	एटी / डाक: सहदेव खुमटा, जिला-बालासौर- 756001, उड़ीसा	बीवीएससीएंडएच / ओयूएटी / 09	10.06.84
2484	संघनी बावल ठाकरशी	जीवीसी / 684	"सुमन", 2, बॉम्बे हाउसिंग सोसायटी, यूनिवर्सिटी रोड, गुजरात	बीवीएससीएंडएच / जीएयू / 75	26.9.51
2485	संघनी तल्सीभाई खीमजीभाई	जीवीसी / 318	25, अक्विन पार्क, पीजी क्लॉक के सामने, सनादा रोड, नहर के पास, एटी, डाक, तालुक-मोरबी-363641, जिला:राजकोट, गुजरात	बीवीएससीएंडएच / जीएयू / 73	28.11.48
2486	सनी नंदी, पुत्र श्री किरन संकर नंदी	त्रिपुराएसवीसी / 180 / 08	द्वारा श्री किरन संकर नंदी, रमेश हायर सेकेंडरी स्कूल के निकट, डाक- आर.के. पुर, उदयपुर, त्रिपुरा (साउथ)	बीवीएससीएंडएच / सीएयू / 08	3.3.84
2487	संजय कुमार वर्मा, पुत्र श्री जयराम वर्मा	यूपीएसवीसी / 5002 / 09	ग्राम एवं डाक- खरौनी, जिला- बलिया, उ.प्र.	बीवीएससीएंडएच / एनडीयूएंडटी / 09	01.07.79
2488	संजय कुमार पांडे, पुत्र श्री मदन गोपाल पांडे	सीएसवीसी / 470 / 09	सी-313, शैलेन्द्र नगर, रायपुर, छत्तीसगढ़	बीवीएससीएंडएच / जेएलएनकेवीवी / 91.92	20.08.68
2489	संजय कुमार, पुत्र श्री राम नाथ	यूपीएसवीसी / 4932 / 09	ग्राम- धर्मा मुबारक पट्टी डाक, पाहितीपुर, जिला अम्बेडकर नगर, उ.प्र.	बीवीएससीएंडएच / एनडीयूएंडटी / 09	03.05.79

2490	संजय सिंह, पुत्र श्री बनमाली अहीरवार	यूपीएसवीसी / 5060 / 09	ग्राम एवं डाक- करारी, जिला- झांसी, उ.प्र.	बीवीएससीएंडएच / जेएनकेवीवी / 09	22.11.79
2491	संजय सोनकेशरिया, पुत्र श्री के.सी. सोनकेशरिया	एमपीएसवीसी / 2634 / 09	बजरंग चौक, बर्धा सिओनी, म.प्र.- 480667	बीवीएससीएंडएच / जेएनकेवीवी / 09	25.9.81
2492	संजीव कुमार कश्यप, पुत्र श्री नंद कुमार	यूकेएसवीसी / 492 / 09	47- वन विहार, बल्लूपुर, देहरादून, उत्तराखंड	बीवीएससीएंडएच / एमएयू / 94	17.06.72
2493	संजीव कुमार, पुत्र श्री दुखहरन प्रसाद	जेवीसी / 649 / 10	बी.ए.एच.ओ., मनोहरपुर, चक्रधरपुर, पश्चिमी सिंघभूम, झारखंड	बीवीएससीएंडएच / बीएयू / 96	27.12.67
2494	संजीव कुमार सिरमौर, पुत्र श्री राम कुमार सिरमौर	सीएचएसवीसी / 476 / 09	एफ / 21 / 03, सिविल लाइन, कंकर, छत्तीसगढ़	बीवीएससी.एंड एच / जेएलएनकेवी वी / 95-96	14.02.70
2495	संजीव कुमार	जीवीसी / 3099 / 10	आईएबीएमआई, आनंद कृषि विश्वविद्यालय, आनंद, गुजरात	बीवीएससीएंडएच / बीएयू / 06	13.05.81
2496	संजय कुमार पांडे, पुत्र श्री एच.एस. पांडे	यूपीएसवीसी / 4915 / 09	ग्राम एवं डाक- श्रीकांतपुर, वाया चौबेपुर, जिला- वाराणसी, उ.प्र.	बीवीएससीएंडएच / यूपीपीडीडीयूपीसी वीवी / 09	01.07.80
2497	सांखे राहुल अशोक	महाएसवीसी / 8350 / 10	2/ए.केशवम, बोईसर पलघार रोड, बोईसर(प.), तालुक पलघार, जिला थाणे- 401501, महाराष्ट्र	बीवीएससीएंडएच / एमएएंडएफएसयू / 09	25.05.87
2498	संकिली कुमार एस. (आर. सेल्वारासू)	टीएनएसवीसी / 4676 / 10	33/ए, थोप्पुकडफ स्टए, वेंगरई डाक, परमाथीवेलूर तालुक, नमक्कल- 637208, तमिलनाडु	बीवीएससीएंडएच / टीएनयूपीएस / 09	17.10.85
2499	संत प्रसाद त्यागी, पुत्र श्री अशोक कुमार त्यागी	यूपीएसवीसी / 5033 / 09	ग्राम नागला धीर, डाक बरहान, जिला आगरा, उ.प्र.	बीवीएससीएंडएच / यूपीपीडीडीयूपीसी वीवी / 09	11.06.85
2500	संतोष कुमार सी. एन. पुत्र श्री नागे गौडा सी.एन.	कर्नाएसवीसी / 4320 / 09	न. 8, हन्सूर रोड, सबजेल क्वार्टर्स, के.आर. नगर- 571602, मैसूर जिला, कर्नाटक	बीवीएससीएंडएच / केवीएफएसयू / 09	10.3.87
2501	संतोष कुमार एस. (जी. सम्पत कुमार)	टीएनएसवीसी / 4527 / 09	826, बजनाई कोइल स्ट्रीट, कांगे नेल्लोर, वेल्लोर- 632006, तमिलनाडु	बीवीएससीएंडएच / टीएनयूपीएस / 09	22.11.86

2502	संतोकी रमेशचंद्र नान्जीभाई	जीवीसी/1414	वेटरिनरी डिस्पेंसरी, लाटीपुर, तालुक: धरोल, जिला- जामनगर, गुजरात	बीवीएससीएंडएच / जीएयू/91	15.10.68
2503	संतोष कुमार, पुत्र श्री कुंवर सेन	यूपीएसवीसी/ 4925/09	म.न. 5/295, न्यू अशोक नगर कॉलोनी, अलीगढ़, उ.प्र.	बीवीएससीएंडएच / यूपीपीडीडीयूपीसी वीवी/09	05.05.80
2504	संतोष कुमार साहू, पुत्र श्री द्वारका प्रसाद साहू	सीएचएसवीसी /492/10	द्वारा लक्ष्मी देसेस, हसर्वा, छत्तीसगढ़	बीवीएससीएंडएच /आईजीकेवीवी/0 9	01.06.73
2505	संतोष, पुत्र श्री भीमारे हीरेगौडेर	कर्नाएसवीसी/ 4269/09	शरण बासवेश्वर स्ट्रीट, अरालुगुडिगे- 583310, जेवार्गी तालुक, गुलबर्गा जिला, कर्नाटक	बीवीएससीएंडएच /केवीएएफएसयू/ 09	6.4.85
2506	सपना मिश्रा, पत्नी डॉ. अनादि मिश्रा	यूकेएसवीसी/ 493/09	वेटरिनरी अधिकारी, रूद्रपुर लैब, पंतनगर, जिला यू.एस. नगर, उत्तराखंड	बीवीएससीएंडएच /जीबीआईएच; डब्ल्यूएंडटी/89	18.09.66
2507	श्रवणन एम. (पी. मुथुपुरारी)	टीएनएसवीसी /4583/09	न. 43 (पुराना न. 34-ए), मिडल स्ट्रीट, डाक कोनंगीपट्टी, जिला नमक्कल -637013, तमिलनाडु	बीवीएससीएंडएच /टीएनयूवीएस /09	27.06.85
2508	श्रवणन एस. (के. सेल्वराज)	टीएनएसवीसी /4551/09	1/7-सी, पेरियापट्टी रोड, पेरियापट्टी डाक, नमक्कल तालुक, नमक्कल- 637001, तमिलनाडु	बीवीएससीएंडएच /टीएनयूवीएस /09	28.10.85
2509	सरयू प्रसाद सिंह, पुत्र श्री बासुदेव	यूपीएसवीसी/ 4912/09	ग्राम- संकरपुर, बंकटी जिला, बस्ती, उ.प्र.	बीवीएससीएंडएच /यूपीपीडीडीयूपीसी वीवी/09	15.04.81
2510	सरफराज आलम, पुत्र श्री कलीम अंसारी	यूपीएसवीसी/ 5023/09	ग्राम- कोइरीपुर, शास्त्री नगर, सुल्तानपुर, उ.प्र.	बीवीएससीएंडएच /एमएफएसयू/0 9	20.10.81
2511	सरगर किशोर केरू	महाएसवीसी/ 8318/10	श्री सिद्धनाथ अपार्टमेंट, कमरा न. 102, सेक्टर-10, प्लॉट न. 09, कामोथी तालुक, पैनल, जिला रायगढ़- 09, महाराष्ट्र	बीवीएससीएंडएच /एमएंडएफएसयू /09	16.01.86
2512	सरगरा भोगीलाल मोतीबाई	जीवीसी/1706	एटी व डाक- पुंजपुर, तालुक दांता, जिला बनासकंठा, पिन- 385120, गुजरात	बीवीएससीएंडएच /जीएयू/94	1.6.70
2513	स्त्रीन के. कुन्थ, पुत्र श्री के. कार्थिकेयन	एपीएसवीसी/ 04991/09	टीआरटी-71, एसपीएम न्यू कॉलोनी, सिरपुर, कागज नगर, आदिलाबाद -504296, आंध्रप्रदेश	बीवीएससीएंडएच /एसवीवीयू/09	27.03.86

2514	सरमा दिव्या ज्योति, पुत्र श्री सरत सरमा	एसएम/244 1/09	ग्राम न.-2, सेनसुका गांव, बारमेटा, जिला- जोरहाट, असम	बीवीएससीएंडएच /एएयू/09	15.7.85
2515	सरोदे इरावती पोलेश्वर	महाएसवीसी/ 8193/09	सिंधी कॉलोनी, खामला नागपुर, महाराष्ट्र	बीवीएससीएंडएच /एमएंडएफएसयू /09	17.11.86
2516	सरोदिया विनोदरे केशवजी भाई	जीवीसी/941	बी-77, आलाप सेंक्युरी, यूनिवर्सिटी रोड, राजकोट- 5, गुजरात	बीवीएससीएंडएच /जीएयू/87	16.7.62
2517	सरोज कुमार साहू, पुत्र श्री ऋषिकेश साहू	ओएसवीसी/2 298/09	एटी-दुदुगांव, डाक- तरतारा, वाया आनंदपुर, जिला- केओझर --758021, उड़ीसा	बीवीएससीएंडएच /ओयूएटी/09	01.07.85
2518	ससिकुमार यू. (के. उथिराकुमारन)	टीएनएसवीसी /4540/09	2-100, रायालूर, सरलईकडु, चिन्नागौडलनूर डाक, संकरी- 637303, सलेम जिला, तमिलनाडु	बीवीएससीएंडएच /टीएनयूवीएस /09	27.12.85
2519	सस्मिता बारिक, पुत्री श्री अजय कुमार बारिक	ओएसवीसी/2 288/09	एससीओ, पाम्पोश, राउरकेला-4, सुंदरगढ़, उड़ीसा	बीवीएससीएंडएच /ओयूएटी/09	03.04.84
2520	सत पाल, पुत्र श्री बल राम	हरिएसवीसी/2 119	वार्ड न. 5, डाबवाली रोड, इलेंदबाद, हरियाणा	बीवीएससीएंडएच /सीसीएसएचएयू/ 09	20.12.82
2521	सतबीर शर्मा, पुत्र श्री महिपाल शर्मा	हरिएसवीसी/2 100	947/12, विष्णु नगर, गोहाना जिला सोनीप, हरियाणा	बीवीएससीएंडएच /सीसीएसएचएयू/ 09	5.9.84
2522	सतेंदर कुमार, पुत्र श्री बलबीर सिंह	हरिएसवीसी/2 122	4290, डिफेंस कॉलोनी, जौंद, हरियाणा	बीवीएससीएंडएच /सीसीएसएचएयू/ 09	27.11.86
2523	सथीश राजा एस. (डी. सेल्वाराजू)	टीएनएसवीसी /4582/09	3/25, डी.एस.पी. इल्लम, डाक अनायमपट्टी, तालुक गंगावल्ली, सलेम- 636105, तमिलनाडु	बीवीएससीएंडएच /टीएनयूवीएस /09	27.07.86
2524	साथिया प्रिया डी. (पी. दुरईसामी)	टीएनएसवीसी /4658/09	393-ए, साउथ रेलवे कॉलोनी, विल्लुपुरम- 605602, तमिलनाडु	बीवीएससीएंडएच /टीएनयूवीएस /09	28.10.85
2525	साथियाराज एस. (एन.एम. सम्पथ)	टीएनएसवीसी /4637/09	नल्लारीकई डाक, थुंगापुरम वाया, कुन्नम तालुक, पेराम्बलूर -621716, तमिलनाडु	बीवीएससीएंडएच /टीएनयूवीएस /09	09.02.86

2526	साथियाराज वी. (वेटरीवेल्)	टीएनएसवीसी /4558/09	1-181, नाडुपलायम, कट्टू कोर्टई वार्ड-1, नगरपलायम एस.पी., नमक्कल जिला 637410, तमिलनाडु	बीवीएससीएंडएच /टीएनयूवीएस /09	29.09.85
2527	सथ्या ए. (पी. अन्नादुरई)	टीएनएसवीसी /4584/09	अम्बेडकर नगर (होस्टल के निकट), सेंदुरई डाक व तालुक, अरियालूर जिला, पिन- 621714, तमिलनाडु	बीवीएससीएंडएच /टीएनयूवीएस0 9	15.05.86
2528	सतीश बिरादर, पुत्र श्री शरणप्पा बिरादर	कर्नाएसवीसी/ 4267/09	न. 8-10-84, गणेश मैदान रोड, पुराने बस स्टैंड के निकट, बिदर- 585401, कर्नाटक	बीवीएससीएंडएच /केवीएफएसयू/ 09	24.4.86
2529	सतीश चंद, पुत्र श्री विरेंद्र सिंह	राजएसवीसी/ 3646/09	ग्राम-नागलाखडइया, डाक भोट, वाया- सेवर, भरतपुर- 321303, राजस्थान	बीवीएससीएंडएच /आरएसयू/09	10.05.82
2530	सतीश जांगरा, पुत्र श्री कृष्ण जांगरा	हरिएसवीसी/2 137	873, सेक्टर-14 पी, हिसार, हरियाणा	बीवीएससीएंडएच /सीसीएसएसयू/ 09	30.12.85
2531	सतीश करयईगोल, पुत्र श्री सम्भाजी	कर्नाएसवीसी/ 4278/09	बेलवी, शंलापुर डाक- 591309, हुक्केरी तालुक, बेलगाम जिला, कर्नाटक	बीवीएससीएंडएच /केवीएफएसयू/ 09	1.9.85
2532	सतीश कुमार, पुत्र श्री देवेश चंद्र	यूकेएसवीसी/ 458/09	ग्राम गैराखान कुलकुरी, डाक- मुनियालेख, जिला- नैनीताल, उत्तराखंड	बीवीएससीएंडएच /जीबीआईएच; डब्ल्यूएंडटी/09	22.08.81
2533	सतीश पाटिल, पुत्र श्री रावा साब	कर्नाएसवीसी/ 4259/09	सती-591240, अथानी तालुक, बेलगाम जिला, कर्नाटक	बीवीएससीएंडएच /केवीएफएसयू/ 09	23.6.86
2534	सतपुते अशलेषा कृष्ण कुमार	महाएसवीसी/ 8200/09	बी- वंदना अपार्टमेंट, पावनभूमि, वर्धा रोड नगर- 440025, महाराष्ट्र	बीवीएससीएंडएच /एमएंडएफएसयू /09	07.01.87
2535	सत्य प्रकाश, पुत्र श्री सभापति सिंह	यूपीएसवीसी/ 5063/10	एस्टेट ऑफ गवर्नमेंट प्राइमरी स्कूल, बकवाल, डाक पुमराव, जिला- मऊ, उ.प्र.	बीवीएससीएंडएच /एसयू/09	29.11.83
2536	सत्य विकास, पुत्र श्री वीरेंद्र सिंह	यूकेएसवीसी/ 499/10	424, गीतांजलि विहार, रेलपे रोड, गनेशपुर, रूडकी, हरिद्वार, उत्तराखंड	बीवीएससीएंडएच /जीबीआईएच; डब्ल्यूएंडटी/03	18.01.78
2537	सत्यजीत पांडा, पुत्र श्री दीनबंधु पांडा	ओएसवीसी/2 282/09	एटी/डाक: ज्योति विहार- 768019, जिला- सम्बलपुर, उड़ीसा	बीवीएससीएंडएच /ओयूएटी/09	25.06.83

2538	सत्यवीर सिंह डांगी, पुत्र श्री मूलचंद डांगी	राजएसवीसी/ 3606/09	ग्राम— जयसिंघपुरा, डाक— बरवासी, वाया— नवलगढ़, झुंझुनू— 333045, राजस्थान	बीवीएससीएंडएच /आरएयू/09	10.07.83
2539	सत्यवीर सिंह, पुत्र श्री मुरारी लाल	राजएसवीसी/ 3642/09	ग्राम एवं डाक: हथेनी, भरतपुर— 321021, राजस्थान	बीवीएससीएंडएच /केवीएफएसयू/ 09	13.01.83
2540	सौभाग्य रंजन दाश, पुत्र श्री सुदर्शन दाश	ओएसवीसी/2 315/09	एटी—बोधेई, डाक— डागरपदा, वाया तिरतोल, जगतसिंघपुर जगतसिंघपुर—754139, उड़ीसा	बीवीएससीएंडएच /ओयूएटी/09	20.07.86
2541	सौरभ गुप्ता, पुत्र श्री देव प्रकाश गुप्ता	यूपीएसवीसी/ 4918/09	1/89 ए, सुरेंद्र नगर, जिला अलीगढ़, उ.प्र.	बीवीएससीएंडएच /यूपीपीडीडीयूपीसी वीवी/09	27.11.84
2542	सौरभ शर्मा, पुत्र श्री नरिन्दर कुमार शर्मा	एचवीसी/892 /09	941, सिनेमा रोड, वार्ड न. 7, पालमपर, डाक पालमपुर जिला कांगड़ा, हि.प्र.	बीवीएससीएंडएच /सीएसकेएचपीकेवी /09	20.06.86
2543	सवालिया केतन कुमार कांजीभाई	जीवीसी/3151 /10	टीओ— सरदारपुर, तालुक— जेतपुर, जिला राजकोट, गुजरात	बीवीएससीएंडएच /एएयू/10	02.05.87
2544	सवालिया भगवानजी दयाभाई	जीवीसी/1123	द्वारा: रिसर्च साइंटिस्ट, मवेशी प्रजनन फार्म, जूनागढ़ कृषि विश्वविद्यालय, जूनागढ़, गुजरात	बीवीएससीएंडएच /जीएयू/88	15.4.65
2545	सवालिया प्रवीन रावजीभाई	जीवीसी/2088	एटी एवं डाक— बराडिया (गिर), तालुक विरूवादार, जिला जूनागढ़ 362210, गुजरात	बीवीएससीएंडएच /जीएयू/97	19.4.75
2546	सवालिया रमेशचंद्र भीमाजीभाई	जीवीसी/800	20— भक्तिनगर, रणछोड़नगर के पीछे, जूनागढ़, गुजरात	बीवीएससीएंडएच /जीएयू/84	1.1.62
2547	सावनी भावेश कुमार वल्लाभाई	जीवीसी/2146	एटी—36, सुरभि रॉ हाउस, भुलखा भवन स्कूल के पीछे, अदाजान, सूरत, गुजरात	बीवीएससीएंडएच /जीएयू/98	5.9.75
2548	सक्धारिया नागाजी करसनभाई	जीवीसी/733	कलक्टर का बंगला, आर्मी अपार्टमेंट के निकट, सरस्वती स्कूल एवेन्यू, मनिनगर, अहमदाबाद, गुजरात	बीवीएससीएंडएच /जीएयू/83	24.10.60
2549	सविता कुमारी मीना, पत्नी श्री दीनदयाल मीना	राजएसवीसी/ 3696/09	मकान न. 7/151, मुक्त प्रसाद कॉलोनी, बीकानेर, राजस्थान	बीवीएससीएंडएच /आरएयू/09	22.07.84

2550	सवसानी नरेश कुमार सोमनाथ	जीवीसी/1466	एटी- भौरवनाथ वाड़ी, तालुक पंढरपुर, जिला- सोलापुर- 413304, महाराष्ट्र	बीवीएससीएंडएच /जीएयू/91	27.3.69
2551	सावलकर राजेंद्र नाथ सोमनाथ	महाएसवीसी/ 8205/09	एटी-सेक्टर के भौरवनाथ वाड़ी, तालुक पंढरपुर, जिला सोलापुर- 413304, महाराष्ट्र	बीवीएससीएंडएच /एमएएंडएफएसयू /09	01.06.85
2552	सावनी अम्बा लाल वीरामाई	जीवीसी/1764	ए/12, अमूल पार्क, कलक्टर के कार्यालय के सामने, अमूल डेयरी रोड, आनंद- 388001, गुजरात	बीवीएससीएंडएच /जीएयू/94	8.3.53
2553	सिमरन सिंह, पुत्री श्री राम सुमिरन पाल	यूपीएसवीसी/ 4954/09	म.न. 1027, आवास विकास न. 1, बगिया रोड, कल्याणपुर, कानपुर, उ.प्र.	बीवीएससीएंडएच /यूपीपीडीडीयूपीसी वीवी/09	05.11.83
2554	सेजालिया महेश विश्रामभाई	जीवीसी/2089	एटी-खरचिया (संजालिया), तालुक-जैतपुर, जिला- राजकोट, गुजरात	बीवीएससीएंडएच /जीएयू/97	25.9.73
2555	सेजनी रतिलाल भवनभाई	जीवीसी/347	ए/36, आलाप हेरिटेज, सत्य साई हार्ट हॉस्पिटल, कलवाड रोड, राजकोट, गुजरात	बीवीएससीएंडएच /जीएयू/74	20.6.51
2556	सेल्वाकुमारन डी. (जी. दुरईराज)	टीएनएसवीसी /4473/09	35/31-ए, वनकारा स्ट्रीट, एम. चावाडी, थंजावुर- 613001, तमिलनाडु	बीवीएससी/टीएन यूवीएस/97	30.05.71
2557	सेल्वाप्रिया जे. (एम. के. जगन्नाथन)	टीएनएसवीसी /4545/09	मदगासमपटी, के. पुधुपलाम डाक, पी.वेलूर तालुक, नमक्कल - 637017, तमिलनाडु	बीवीएससीएंडएच /टीएनयूवीएस /09	26.07.85
2558	सेल्वराज आर. (संगासामी)	टीएनएसवीसी /4525/09	23/1, मुनिनाथपुरम, सेमांगी डाक, करूर जिला- 639117, तमिलनाडु	बीवीएससीएंडएच /टीएनयूवीएस /09	08.07.87
2559	सेल्वराजू पी. (के. आर. पलानीसामी)	टीएनएसवीसी /4633/09	अरुवनकट्टूर, कूथमपलायम डाक, संकरी तालुक, सलेम- 637102, तमिलनाडु	बीवीएससीएंडएच /टीएनयूवीएस /09	28.01.85
2560	सेल्वरानी आर. (आर. रामासामी)	टीएनएसवीसी /4497/09	कलियम्मन कोविल मेला थेरु, एम.के.पी. नगर, पलायम कोट्टई, तिरुनेलवेली- 627002, तमिलनाडु	बीवीएससीएंडएच /टीएनयूवीएस /09	12.06.87
2561	सेल्वरानी वी. (एस. वेथामुथु)	टीएनएसवीसी /4626/09	6/56, मेलाथूरु, वेंकटेश्वरपुरम, तिरुनेलवेली- 627867, तमिलनाडु	बीवीएससीएंडएच /टीएनयूवीएस /09	25.05.86

2562	सेम्मा अमीना, पुत्री श्री जीतेंद्र वर्मा	कर्नाएसवीसी / 4227 / 09	जी-1 / 404, श्रीराम श्रेयस अपार्टमेंट, सहकार नगर, कोडिगेहल्ली, बेंगलुरु- 92, कर्नाटक	बीवीएससीएंडएच / जेएनकेवीवी / 90	5.1.66
2563	सेंगकन के. मार्क, पुत्र स्व. श्री जे.एम. मोमिन	मेघएसवीसी / 2 74 / 09	द्वारा ग्रेसिल डाक मारक, डक्कोपो, न्यू तुरा, वेस्ट गारो हिल्स, मेघालय	बीवीएससीएंडएच / एएयू / 09	19.12.83
2564	सेंता महेश कुमार नाथाभाई	जीवीसी / 1725	एटी- खांडेरा, तालुक- तालजा, जिला- भावनगर, गुजरात	बीवीएससीएंडएच / जीएयू / 94	28.7.70
2565	सेंता राजाभाई काबाभाई	जीवीसी / 1841	प्रथम मंजिल, ब्लॉक न.-1, तुलसी कॉम्प्लेक्स, उदय अपार्टमेंट, के निकट, मोटा जदारा रोड, महुवा-364290, जिला भावनगर	बीवीएससीएंडएच / जीएयू / 93	1.11.70
2566	सेंधिल कुमार, पुत्र श्री राजामनिक्कम ए.	कर्नाएसवीसी / 4356 / 09	न. 311, एफ ब्लॉक, 10वां क्रॉस, 20वां मैन, सहकार नगर, बेंगलुरु-560092, कर्नाटक	बीवीएससीएंडएच / पीयू / 03	27.9.80
2567	सेंधिल आर. (के. रवि)	टीएनएसवीसी / 4523 / 09	11-सी, नचियप्पा रोड, डाक मल्लासमुद्र, तिरुचेनगोडे तालुक, नमक्कल- 637503, तमिलनाडु	बीवीएससीएंडएच / टीएनयूवीएएस / 09	27.03.87
2568	सेंधिल एस. (एस. श्रीनिवासन)	टीएनएसवीसी / 4532 / 09	6 / 1092-4, शैचिनाह इल्लम, के.के. नगर, पहली स्ट्रीट, वासावी कॉलेज डाक, भवानी, इरोडे-638316, त.ना.	बीवीएससीएंडएच / टीएनयूवीएएस / 09	28.05.84
2569	सेंधिल कुमार जी. (एम.आर. गुरुसामी)	टीएनएसवीसी / 4513 / 09	16 / 213, करासाकडु, मुथुचेंटी पलायम, अविनाशी, तिरुपुर- 641654, तमिलनाडु	बीवीएससीएंडएच / टीएनयूवीएएस / 09	09.05.86
2570	सेंधिल कुमार एस. (के. सिवालिंगम)	टीएनएसवीसी / 4478 / 09	57, ए.जी.पट्टी रोड, नामागिरिपेट डाक, रासीपुरम तालुक, नमक्कल जिला, तमिलनाडु	बीवीएससी / टीएन यूवीएएस / 98	14.07.72
2571	सेंधिल कुमार टी. (टी. थिरुमलई)	टीएनएसवीसी / 4477 / 09	न. 5, (पुराना न. 3 / 2), मनिकंडा मुताली, 5वीं स्ट्रीट, ओल्डवाशरमैन पेट, चेन्नई- 600021, तमिलनाडु	बीवीएससी / टीएन यूवीएएस / 00	11.04.76
2572	सेंधिल नाथन ई. (आर. इलप्पन)	टीएनएसवीसी / 4480 / 09	8, नलप्पा नाइकेन स्ट्रीट, संकरी- 637301, सलेम जिला, तमिलनाडु	बीवीएससी / टीएन यूवीएएस / 96	01.06.73
2573	शाह औतुर कुमार सतीश कुमार	जीवीसी / 3073 / 09	"राम लक्ष्मन", 40 / ए, पायल पार्क सोसायटी, ब्राइट स्कूल के पीछे, वडोदरा, गुजरात	बीवीएससीएंडएच / एएयू / 09	08.05.86

2574	शाह अक्षय कुमार जयेश कुमार	जीवीसी/1372	एच-24, जयलक्ष्मी ड्यूप्लेक्स, मानव धर्म आश्रम के निकट, विश्वामित्री रोड, मंजलपुर, वडोदरा- 390011, गुजरात	बीवीएससीएंडएच / जीएयू/85	25.12.63
2575	शाह अतुल कुमार हरिवल्लर दास	जीवीसी/1404	4-अंकुर सोसायटी, हाई स्कूल के पास, एटी व तालुक धनसुरा, जिला साबरकंठा, गुजरात	बीवीएससीएंडएच / जीएयू/91	4.3.69
2576	शाह भरत कुमार सुमंत लाल	जीवीसी/857	ए-93, श्रीलाल ड्यूप्लेक्स, त्रिभोवन पार्क के सामने, मकरंद देसाई रोड, वडोदरा -7, गुजरात	बीवीएससीएंडएच / जीएयू/86	26.6.64
2577	शाह बृजेश हीराभाई	जीवीसी/1966	एटी- कोथम्बा, तालुक- लूनावाडा, जिला- पंचमहल, गुजरात	बीवीएससीएंडएच / जीएयू/96	1.1.69
2578	शाह चंद्रकांत मंगूलाल	जीवीसी/1435	सी-204, अम्बिका कॉम्प्लेक्स, बस स्टैंड के निकट, एटी डाक खेडा, तालुक अहमदाबाद, जिला खेडा 387411, गुजरात	बीवीएससीएंडएच / जीएयू/91	31.5.67
2579	शाह दिलीप प्रबोधचंद्र	जीवीसी/607	सी.डी. डिपार्ट., सुमुल डेशी सूरत, गुजरात	बीवीएससीएंडएच / जीएयू/81	1.1.55
2580	शाह हरेश भाई कांतिलाल	जीवीसी/422	"यशोधरा", निष्ठा पार्क, गोपी विद्यानगर रोड, आनंद, गुजरात	बीवीएससीएंडएच / जीएयू/76	12.7.53
2581	शाह जिगर कुमार मनहर भाई	जीवीसी/2235	पुनीत पार्क सोसायटी, डाकोर, तालुक-थसारा, जिला-खेडा - 388225, गुजरात	बीवीएससीएंडएच / जीएयू/00	21.7.78
2582	शाह रजनीकांत डाहयालाल	जीवीसी/521	25, वाहेलाल सोसायटी, विभाग-1, महाप्रभजी नी बैठक के सामने, नरोदा, अहमदाबाद, गुजरात	बीवीएससीएंडएच / जीएयू/79	2.3.56
2583	शाह सुरेश चंद्र वाडीलाल	जीवीसी/573	11- मन मंदिर, बामरोली रोड, गोधरा, गुजरात	बीवीएससीएंडएच / जीएयू/80	5.7.56
2584	शाहपुरे संदीप नागनाथराव	महाएसवीसी/ 8255/09	करकरे निवास, मिल रोड, नांडेड तालुक, जिला नांडेड - 431601, महाराष्ट्र	बीवीएससीएंडएच / एमएएंडएफएसयू /09	31.12.83
2585	शेख खलिशा बेगम, पुत्री श्री एस.के. अली साहेब	एपीएसवीसी/ 04957/09	डी.न. 18-1-30/बी, निम्माथोटा, गुंटूर रोड, नरसारावपेट, गुंटूर जिला, आंध्र प्रदेश	बीवीएससीएंडएच / एसवीवीयू/09	06.01.87

2586	शैलेन्द्र कुमार खरे, पुत्र श्री बी.के. खरे	सीएचएसवीसी /478/09	8/02, गीतांजलि नगर, रायपुर— छत्तीसगढ़	492007, बीवीएससीएंडएच /जेएलएनकेवीवी/ 86.87	01.02.86
2587	शैलेन्द्र कुमार राजक, पुत्र श्री सुरेश बैठा	जेवीसी/629 /09	बालीगढ़, बेलहारा, गढ़वा— झारखंड	822114, बीवीएससीएंडएच /वीएयू/09	16.01.84
2588	शैलेन्द्र मिश्र, पुत्र श्री नागेन्द्र मणि मिश्र	सीएचएसवीसी /485/09	ब्लॉक कॉलोनी, साई मंदिर के निकट, कचारी पार, बैकुंठपुर कोरिया, छत्तीसगढ़	बीवीएससीएंडएच /जेएलएनकेवीवी/ 84.85	15.01.61
2589	शैलेष कुमार गुप्ता, पुत्र स्व. श्री लक्ष्मी प्रसाद गुप्ता	सीएचएसवीसी /514/10	ग्राम— वापसोट, तहसील— सीतापुर, सरगुजा, छत्तीसगढ़	बीवीएससीएंडएच /आईजीकेवीवी/0 9	25.03.83
2590	शालिका शर्मा, पुत्री श्री जे.के. शर्मा	एचवीसी/875 /09	बालाजी विहार, जिला कांगड़ा, हि.प्र.	बीवीएससीएंडएच /सीएसकेएचपीकेवी /09	29.08.87
2591	शालिनी पांडे, पुत्री श्री यू.सी. पांडे	यूकेएसवीसी/ 473/09	ग्राम:गैरवैसाली,बिठोरिया न.1, डाक हरिपुर नायक, हलद्वानी, जिला नैनीताल, उत्तराखंड	बीवीएससीएंडएच /जीबीआईएच; डब्ल्यूएंडटी/09	30.08.85
2592	शालू शेरिया, पुत्री श्री प्रीतम चंद शेरिया	एचवीसी/877 /09	ग्राम व डाक— नैहरन पुखर, तहसील डेहरा, जिला— कांगड़ा, हि.प्र.	बीवीएससीएंडएच /सीएसकेएचपीकेवी /09	15.08.86
2593	शमा खान, पुत्री डॉ. अब्दुल अहद खान	एचवीसी/873 /09	ग्राम— नरवाना बाजार, डाक योल कैंट, तहसील धर्मशाला, जिला कांगड़ा, हि.प्र.	बीवीएससीएंडएच /सीएसकेएचपीकेवी /09	25.02.85
2594	शमन एस. पुत्र श्री सलीम एस.	केएसवीसी/35 58/09	बी.वी. मंजिल, अनद डाक, नेदुमंगड, थिरुवनंतपुरम	बीवीएससीएंडएच /केएयू/09	25.04.86
2595	शंकर एस. (सेल्लामुथु)	टीएनएसवीसी /4680/10	117—सी/1, रायापनूर, डाक मेलनरियप्पानूर, कल्लाकुरिची तालुक, विल्लुपुरम— 606201, तमिलनाडु	बीवीएससीएंडएच /टीएनयूवीएस /09	02.05.84
2596	शंकर टी. (एस. थंगमनि)	टीएनएसवीसी /4642/09	104, कनगापुरम डाक, इरोडे— 638112, तमिलनाडु	बीवीएससीएंडएच /टीएनयूवीएस /09	04.06.84
2597	शानमुगा संदरम ए. (एन. अरुणाचलम)	टीएनएसवीसी /4577/09	1/41, सी-1, इंडियन बैंक कॉलोनी, नरसोथिपट्टी, सलेम— 636004, तमिलनाडु	बीवीएससीएंडएच /टीएनयूवीएस /09	23.06.86

2598	शांतरवीर बिरादर, पुत्र श्री संगनागौडा	कर्नाएसवीसी/ 4277/09	बाजार के निकट, बाबलेश्वर— 586113, बीजापुर तालुक व जिला, कर्नाटक	बीवीएससीएंडएच /केवीएएफएसयू/ 09	25.6.86
2599	शांतिपूसन एस. (जी. सिवरामन)	टीएनएसवीसी /4440/09	न.—31—ई, राजराजन नगर, सी.एन. पलायम,कोमारपलायम, नमक्कल—638183, तमिलनाडु	बीवीएससी/टीएन यूवीएस/02	18.09.77
2600	शरदेंदु कुमार गुप्ता, पुत्र डॉ. राजेंद्र कुमार गुप्ता	जेवीसी/606 /09	अरसनडे, बोराया, कनके रांची— 834006, झारखंड	बीवीएससीएंडएच /बीएयू/84	19.05.60
2601	श्रद्धा श्रीवास्तव, पुत्री श्री जे.के. श्रीवास्तव	एमपीएसवीसी /2631/09	म.न. 700, शाही नाका गढ़ा, जबलपुर, म.प्र.	बीवीएससीएंडएच /जेएनकेवीवी/09	28.8.82
2602	शर्मा गणेश दत्त	जीवीसी/297	क्वा.न. 8—1, सुगम क्वार्टर, वडोदरा डेरी, मकरपुरा रोड, वडोदरा पिन—390009, गुजरात	बीवीएससीएंडएच /जीबीपीयूएटी/72	1.3.51
2603	शर्मा गिरीश कुमार	जीवीसी/1825	15, वृंदावन पार्क—11, आकृति नगर, बोरसाड रोड, आनंद— 380001, गुजरात	बीवीएससीएंडएच /एयू/78	1.3.56
2604	शर्मा केशव प्रसाद, पुत्र स्व. श्री बाबू राम शर्मा	एसएम/246 7/09	दिसपुर, कैपिटल कॉम्प्लेक्स का आखिरी गेट, ब्लॉक—3, टाइप—7, क्वा.न. 5, गुवाहाटी —6, असम	बीवीएससीएंडएच /एसयू/09	16.6.85
2605	शर्मा राकेंद्र कुमार त्रिलोक नाथ	जीवीसी/1270	61, सुंदर वन सोसायटी, भुरावाव, गोधरा, गुजरात	बीवीएससीएंडएच /जीएयू/90	17.12.62
2606	शर्मा उत्तम, पुत्र श्री पदम लाल शर्मा	एसएम/244 3/09	फूकन नगर, सिवास नगर, डाक व ग्राम— फूकन नगर, जिला— सिवसागर, असम	बीवीएससीएंडएच /एसयू/09	1.7.85
2607	शर्मा विनोद कुमार के.	जीवीसी/1749	बी/2, धरती टाउनशिप, अकेशन रोड, पालनपुर जिला— बनासकंठा, गुजरात	बीवीएससीएंडएच /जीएयू/94	18.7.70
2608	शरना अरूण कुमार	जीवीसी/3097 /09	बंगला न. 2188—एफ, राधे श्याम नगर, अब्रामा रोड, नवसारी, गुजरात	बीवीएससीएंडएच /आरएयू/01	04.10.75
2609	शरना किशन कुमार	जीवीसी/3098 /09	फ्लैट न. 3, हरि कृष्ण सैनिटरी स्टोर, विजलपूर रोड, नवसारी, गुजरात	बीवीएससीएंडएच /आरएयू/01	01.08.76

2610	शशि धर राव, पुत्र स्व. श्री बलदेव प्रसाद राव	जेवीसी / 611 / 09	टीवीओ(आरपी)दुमका,रसिकपुर बगान, एस. पी. कॉलेज रोड, दुमका- 814101, झारखंड	बीवीएससीएंडएच / आरएयू/ 86	06.01.61
2611	शत्रुघन सिंह, पुत्र श्री दलजीत सिंह	एमपीएसवीसी / 2594 / 09	सीनियर एचआईजी-11, कान्हा कुंज, कोलार रोड, भोपाल, म.प्र.	बीवीएससीएंडएच / जीबीआईएच; डब्ल्यूएंडटी / 83	1.7.60
2612	शबीबा सी.एस., पुत्री श्री सी.एम. सथार	केएसवीसी / 35 89 / 09	चिराकुजी हाउस, डाक वेलपाड, थिसूर	बीवीएससीएंडएच / केएयू / 09	22.03.86
2613	शीबा सी. (एम. चंद्रा ब्रूस)	टीएनएसवीसी / 4631 / 09	19-161, पुलायन विलर्ड, कल्लनकुजी डाक, कन्चाकुमारी जिला-829166, तमिलनाडु	बीवीएससीएंडएच / टीएनयूवीएस / 09	20.06.86
2614	शीतल भुआर्या, पुत्र श्री देवराज भुआर्या	सीएचएसवीसी / 508 / 10	सेक्शन एजुकेशन ऑफिस, अंतागढ़, छत्तीसगढ़	बीवीएससीएंडएच / आईजीकेवी / 0 9	18.08.85
2615	शीथल जी. मोहन, पुत्री श्री सी.एस. मोहनन	केएसवीसी / 35 49 / 09	थेक्केडाथु पुथेन पुरायिल हाउस, मेमाडांगू डाक, मुवट्टुपुजाह, अर्नाकुलम- 68662, केरल	बीवीएससीएंडएच / केएयू / 09	10.05.86
2616	शेखर बाबू एम.सी., पुत्र श्री डोडामलप्पा एस.एन.	कर्नाएसवीसी / 4358 / 09	न. 506, बी 4, कृष्णा ब्लॉक, नेशनल गोम्स, कोरामंगला, बंगलुरु- 47, कर्नाटक	बीवीएससी / यूएस बंगलौर / 82	14.3.55
2617	शेख मौहम्मद इफतेखार मौहम्मद हुसैन	जीवीसी / 606	503, रॉयल प्लाज़ा, 100 फुट रोड, नए सी. के. हॉल के सामने, आनंद-388001, जिला - आनंद, गुजरात	बीवीएससीएंडएच / जीएयू / 81	15.3.56
2618	शेल्के ध्यानेश्वर दयाराम	महाएसवीसी / 8308 / 09	एटी एवं डाक-भोंगांव, तालुक - शेगांव, जिला-बुलधाना- 444203, महाराष्ट्र	बीवीएससीएंडएच / एमएंडएफएसयू / 09	14.03.86
2619	शेल्के राम प्रसाद नामदेव राव	महाएसवीसी / 8349 / 10	एटी- पाहेगांव, डाक पथरुद, तालुक व जिला- जलगांव, महाराष्ट्र	बीवीएससीएंडएच / एमएयू / 88	01.06.64
2620	शेल्के योगेश बालासाहेब	महाएसवीसी / 8296 / 09	खेल्के बिल्डिंग, त्रिवेणी नगर, डाक-रूपीनगर, तालुक हवेली, जिला- पुणे- 412114, महाराष्ट्र	बीवीएससीएंडएच / एमएंडएफएसयू / 09	03.07.86
2621	शयोमी वी.एस., पुत्र श्री वी.आई. शाहजहां	केएसवीसी / 35 80 / 09	वेट्टुकल हाउस, मट्टाथुरकुन्नु डाक, वासुपुरम, थिसूर- 680684, केरल	बीवीएससीएंडएच / केएयू / 09	18.05.86

2622	शेंडे कविता अजब राव	महाएसवीसी / 8180 / 09	राठी लेआउट, कटोल (मारामय मंदिर के निकट), तालुक कटोल, जिला नागपुर-441302, महाराष्ट्र	बीवीएससीएंडएच / एमएंडएफएसयू / 09	05.07.85
2623	शेनिन पी. मार्सिली, पुत्री श्री पी.एफ. मार्सिली	केएसवीसी / 35 16 / 09	पय्यापिल्ली हाउस, मेले मुरली, इंडस्ट्रियल एस्टेट (डाक), पलक्कड- 678731, केरल	बीवीएससीएंडएच / केएसयू / 09	15.01.86
2624	शिओ जनम सिंह, पुत्र स्व. श्री शिद्धनाथ सिंह	जेवीसी / 656 / 10	डीएचओ साहिबगंज, गोराबादी, साहिबगंज- 816109, झारखंड	बीवीएससीएंडएच / आरएसयू / 75	02.08.52
2625	शिव शंकर पांडे, पुत्र श्री एस.एन. पांडे	यूपीएसवीसी / 4996 / 09	लालपुर, लालगंज, जिला मिर्जापुर, उ.प्र.	बीवीएससीएंडएच / आगरावि / 67	22.11.40
2626	शेरासिया अंजुम वालिमामाड	जीवीसी / 2207	101-सी, पूजा कॉम्प्लेक्स, जीपीओ के निकट, पो.बो. न. 46, राजकोट, गुजरात	बीवीएससीएंडएच / जीएसयू / 99	3.3.77
2627	शेरिन बी. सारनगोम, पुत्र श्री टी. सारनगोम	केएसवीसी / 35 92 / 09	एनजीओ क्वार्टर्स, न.46 / 571, मेलारन्नूर, करुमा डाक, थिरुवनंतपुरम- 695002	बीवीएससीएंडएच / केएसयू / 09	27.12.85
2628	शेष असोपा, पुत्री श्री घन श्याम असोपा	राजएसवीसी / 3729 / 10	6 -सी-107, जे.एन.वी. कॉलोनी, बीकानेर- 334003, राजस्थान	बीवीएससीएंडएच / एसकेवीआरएसयू / 10	29.08.85
2629	शेवलकर अक्षय अनिल	महाएसवीसी / 8273 / 09	अंतजल, 46-गोरे लेआउट, समर्थ नगर, मलकापुर, तालुक व जिला अकोला- 444004, महाराष्ट्र	बीवीएससीएंडएच / एमएंडएफएसयू / 09	24.05.86
2630	शेजना मोहम्मद अली, पुत्र श्री टी. पी. मोहम्मद अली	केएसवीसी / 35 62 / 09	ओएसिस, अथोली, कोजीकोड- 673315, केरल	बीवीएससीएंडएच / केएसयू / 09	27.09.85
2631	शीला एन. राव, पुत्री श्री नारायण राव ए.	कर्नाएसवीसी / 4223 / 09	न. 257, प्रथम क्रॉस, एचएआई दूसरी स्टेज, इंद्रानगर, बैंगलुरु, कर्नाटक	बीवीएससी / यूएस बंगलौर / 79	14.2.56
2632	शिखर सिंगला, पुत्र श्री इंदरजीत सिंगला	पीबीएसवीसी / 2880 / 09	ग्राम- सांगला, डाक हिमंता, जिला संगरूर- 148023, पंजाब	बीवीएससीएंडएच / जीएडीबीएसयू / 09	27.8.85
2633	शिल्पा पी, पुत्री श्री साधन कुमार	केएसवीसी / 35 14 / 09	पानिकका पराम्बिल हाउस, जारिठा नगर, पुनकुन्नम डाक, थिसूर- 680002, केरल	बीवीएससीएंडएच / केएसयू / 09	27.02.86

2634	शिल्पी करकेटा, पुत्री श्री अतुल कुमार करकेटा	जेवीसी/638 /09	नोदी सेनहा, सेनहा, लोहारडागा, झारखंड	बीवीएससीएंडएच /बीएयू/09	27.07.85
2635	शिंदे प्रवीन रामदास	महाएसवीसी/ 8161/09	एटी सुगांव, डाक भोसे, तालुक— पंढरपुर, जिला— सोलापुर— 413315, महाराष्ट्र	बीवीएससीएंडएच /एमएएंडएफएसयू /08	04.06.84
2636	शिंदे राहुल सुरेश	महाएसवीसी/ 8261/09	यशवंत, पुंडी रोड, तालुक तासगांव, जिला सांगली— 416312, महाराष्ट्र	बीवीएससीएंडएच /एमएएंडएफएसयू /09	19.07.87
2637	शाइन एस., पुत्र श्री सुशीलन डी.	केएसवीसी/35 06/09	शिनिवास, कडाविला, डाक वनचियूर, आलमकोड (वाया), अटिंगल, थिरुवनंतपुरम, केरल	बीवीएससीएंडएच /केएयू/09	11.09.84
2638	शिफाटू थूपिटर, पुत्र श्री वाई. त्सेपिचू थूपिटरर्स	एनएसवीसी/0 248/09	फोर गांव, डाक— मेलूरी, जिला — फेक, नागालैंड	बीवीएससीएंडएच /एएयू/09	29.8.83
2639	शितुत मिथिला राजेंद्र	महाएसवीसी/ 8299/09	प्रफुल्ल सोसायटी, 16, गोकुल दास पास्ता रोड, दादर, मुम्बई— 400014, महाराष्ट्र	बीवीएससीएंडएच /एमएएंडएफएसयू /09	06.04.86
2640	शिव कुमार डांगोरे, पुत्र श्री श्रीनानू	एमपीएसवीसी /2602/09	88, सरस्वती नगर, बारवाहा, खारगोन, म.प्र. — 451115	बीवीएससीएंडएच /जेएनकेवीवी/09	21.11.84
2641	शिव कुमार, पुत्र श्री गयारसी लाल	राजएसवीसी/ 3727/10	एसबी—31, बरोडिया बस्ती, स्टेशन रोड, जयपुर— 302006, राजस्थान	बीवीएससीएंडएच /एसकेवीआरएयू/ 10	10.09.84
2642	शिव शंकर सोनी, पुत्र श्री ओम प्रकाश सोनी	राजएसवीसी/ 3596/09	सुनार कॉलोनी, संत आश्रम के निकट, मंडावर, तहसील माहवा, दौसा— 321609, राजस्थान	बीवीएससीएंडएच /आरएयू/09	04.10.82
2643	शिव कुमार, पुत्र श्री आनंद कुमार पंडेश्वर	कर्नाएसवीसी/ 4352/09	न. 153, समृद्धा, दूसरा क्रॉस, एम.एस. रामइय्याह नॉर्थ सिटी, थामसांद्रा मेन रोड, नागवाड़ा, बेंगलुरु—45, कर्नाटक	बीवीएससीएंडएच /जीएयू /97	23.4.74
2644	शिव कुमार एम.यू., पुत्र श्री उमाकांत	कर्नाएसवीसी/ 4307/09	एनएफएस, मलावल्ली— 571430, माण्ड्या जिला, कर्नाटक	बीवीएससीएंडएच /केवीएफएसयू/ 09	8.2.86
2645	शिवानंद, पुत्र श्री शिभूषण	यूपीएसवीसी/ 5042/09	ग्राम— डाकसरीरा, डाक— कुम्हियावान, कौशम्बी, उ.प्र.	बीवीएससीएंडएच /जेएनकेवीवी/09	05.04.82

2646	शिवांगी बवाने, पुत्री श्री राधे श्याम बवाने	एमपीएसवीसी / 2638 / 09	194, गंगानगर, देवास, म.प्र.— 453446	बीवीएससीएंडएच / जेएनकेवीवी / 09	25.06.82
2647	शिवानी साहू, पुत्री श्री धनंजय साहू	यूकेएसवीसी / 460 / 09	वीर गिर वाली, प्रजपुर, जिला देहरादून, उत्तराखंड	बीवीएससीएंडएच / जीवीआईएच; डब्ल्यूएंडटी / 09	06.07.86
2648	शिवराज के. कटकभवी, पुत्र श्री कृष्णप्पा एन. कटकभवी	कर्नाएसवीसी / 4265 / 09	न. 1230 / 8, साउथ शंकर नगर, अथानी— 591304, बेलगाम जिला, कर्नाटक	बीवीएससीएंडएच / केवीएफएसयू / 09	26.1.87
2649	श्रीवास्तव प्रणय कुमार उमा शंकर प्रसाद	जीवीसी / 2571 / 09	बी-406, परमकृष्ण कॉम्प्लेक्स, गणेश डेरी के पीछे, आनंद, गुजरात	बीवीएससीएंडएच / एसडीएयू / 05	11.06.80
2650	शोभिता अग्रवाल, पुत्री श्री के.के. अग्रवाल	यूकेएसवीसी / 462 / 09	9, हरि कुंज, जी.एम.एस. रोड, देहरादून, उत्तराखंड	बीवीएससीएंडएच / जीवीआईएच; डब्ल्यूएंडटी / 09	29.06.84
2651	श्रद्धा वासनिक, पुत्री श्री चंद्रहास वासनिक	सीएचएसवीसी / 521 / 10	क्वार्टर न.—1, बी स्ट्रीट, 31 सेक्टर, 10 भिलई नगर, दुर्ग, छत्तीसगढ़	बीवीएससीएंडएच / आईजीकेवीवी / 0 9	16.12.83
2652	श्रवण सिंह शेखावत, पुत्र श्री उमेद सिंह शेखावत	राजएसवीसी / 3636 / 09	प्लॉट न.194, 6डीरोड, शक्ति नगर, पाओटा 'सी' रोड, जोधपुर— 342010, राजस्थान	बीवीएससीएंडएच / सीएसकेएचपीकेवी वी / 09	01.06.85
2653	श्री राम सिहाग, पुत्र श्री मूगा राम	राजएसवीसी / 3589 / 09	ग्राम एवं डाक— नेधावा, सीकर— 331024, राजस्थान	बीवीएससीएंडएच / आरएयू / 09	10.07.81
2654	श्रीमाली कनड्य्या लाल मोती लाल	जीवीसी / 618	ब्लॉक न. 1181, डीएसपी कार्यालय के निकट, शिवम सोसायटी, सेक्टर— 27, गांधीनगर, गुजरात	बीवीएससीएंडएच / जीएयू / 82	20.3.56
2655	श्रीराम सिंह, पुत्र श्री भूरी सिंह	राजएसवीसी / 3604 / 09	ग्राम एवं डाक— गुडावाली, वाया— सारसेना, तहसील नदवाई, भरतपुर, राजस्थान	बीवीएससीएंडएच / आरएयू / 09	15.10.77
2656	श्रुति चब्बा शर्मा, पुत्री श्री विजय कुमार	एचवीसी / 896 / 09	224 / 5, गवर्न. हाई स्कूल के निकट, कोतवाली बाजार, धर्मशाला, जिला कांगड़ा, हि.प्र.	बीवीएससीएंडएच / आईजीकेवी / 09	30.05.83
2657	शुक्ला धनंजय धीरजलाल	जीवीसी / 574	अनुभाग अधिकारी, समाज कल्याण विभाग, 9वीं मंजिल, ब्लॉक—2, सचिवालय, गांधीनगर, गुजरात	बीवीएससीएंडएच / जीएयू / 80	5.5.57

2658	शुक्ला कौशिक कुमार जयति लाल	जीवीसी/609	जी/57, नंदनवन सोसायटी, मोती नगर के सामने, सुसेन तरसाली रोड, वडोदरा, गुजरात	बीवीएससीएंडएच /जीएयू/81	11.12.57
2659	शुक्ला तेजस भरतभाई	जीवीसी/3036 /09	सी-192, गोकूल टाउनशिप, जी.ई.बी. बस स्टेशन के पीछे, गोतरी रोड, वडोदरा, गुजरात	बीवीएससीएंडएच /एसडीएयू/09	20.02.87
2660	श्वेता आनंद, पुत्री श्री आर.आर. कुमार	यूपीएसवीसी/ 5075/10	म.न. 1, बाकर स्ट्रीट, अर्बीआर आई गेट न. -2 के सामने, इज्जत नगर, बरेली, उ.प्र.	बीवीएससीएंडएच /बीएयू/09	16.07.82
2661	श्वेथा एस., पुत्री श्री सुंदरमूर्ति आई.एच.	कर्नाएसवीसी/ 4340/09	रेलवे स्टेशन के सामने, शांतिनगर, तुमकुर-572102, कर्नाटक	बीवीएससीएंडएच /केवीएफएसयू/ 09	24.8.86
2662	श्याम लाल मरंडी, पुत्र स्व. श्री गोपाल मरंडी	जेवीसी/651 /10	बी.ए.एच.ओ., नीमडीह अदारडीह, सराईकेला, खरसवान, झारखंड	बीवीएससीएंडएच /आरएयू/97	31.12.69
2663	श्याम लाल शर्मा, पुत्र श्री प्रेम चंद्र शर्मा	एचवीसी/867 /09	ग्राम-कहरियां-भरादी, डाक कलोल, तहसील जनधूता, जिला-बिलासपुर, हि.प्र.	बीवीएससीएंडएच /सीएसकेएचपीकेवी /09	20.07.84
2664	श्याम सुंदर त्रिपाठी, पुत्र श्री पूर्व चंद्र त्रिपाठी	ओएसवीसी/2 325/09	नई स्ट्रीट, 5वीं लेन, बाईपास रोड के निकट, एटी/डाक जेपौर, जिला कोरापुट-764001, उड़ीसा	बीवीएससीएंडएच /केएयू/09	05.08.82
2665	सिबा प्रसाद नायक, पुत्र श्री किशोर चंद्र नायक	ओएसवीसी/2 305/09	एटी-अमातपारा, डाक- नीमपारा, जिला-पुरी-752106, उड़ीसा	बीवीएससीएंडएच /ओयूएटी/09	22.03.83
2666	सिदिदकी अल मनोवर, पुत्र मौह. जहूर अली	जेवीसी/615 /09	(मैनाचाक), कसबा दूधीचक, मेहरमा गोड्डा, झारखंड	बीवीएससीएंडएच /आरएयू/97	12.09.71
2667	सिद्धांत कुमार सेठ, पुत्र श्री गौरांग चरन सेठ	ओएसवीसी/2 308/09	एटी/डाक-गढ़पलसुनी, वाया- पारजंग, जिला- ढेंकनाल, उड़ीसा	बीवीएससीएंडएच /ओयूएटी/09	29.06.82
2668	सिदपारा अशोक कुमार रावजीभाई	जीवीसी/1789	एटी: नवी मंगनी, तालुक कोटदा, संगनी, जिला- राजकोट, गुजरात	बीवीएससीएंडएच /जीएयू/95	17.4.69
2669	सिकंदर अब्बास, पुत्र श्री वारिस अली	यूपीएसवीसी/ 4967/09	मौह. मतलूबपुर, डाक नगपुर, जलालपुर, जिला-अम्बेडकर नगर, उ.प्र.	बीवीएससीएंडएच /एनडीयूएंडटी/ 09	15.03.81

2670	सिंधा हरेंद्र सिंह अभेसिंह	जीवीसी/1686	कैटेगरी-3, ब्लॉक 1/1, केवड़िया कॉलोनी, तालुक- राजपीपला, जिला- नर्मदा, गुजरात	बीवीएससीएंडएच /जीएयू/93	3.9.61
2671	सिंधा मेहुल सिंह जीवनभाई	जीवीसी/3127 /10	एटी व डाक-कावी, सलइमा, महा प्रभुजी बैठक के निकट, जम्बूसर, जिला भड़ोच, गुजरात	बीवीएससीएंडएच /एएयू/10	01.01.87
2672	सिंधी तौफीक हुसैन अबुतालिब	जीवीसी/786	39, न्यू अमन पार्क सोसायटी, सुखबाग रोड, पालनपुर- 385001, गुजरात	बीवीएससीएंडएच /जीएयू/84	1.6.61
2673	सिंह अजीत कुमार बलवंत सिंह	जीवीसी/904	कार्यालय, उप निदेशक, पशु पालन, सघन मवेशी विकास परियोजना, तीसरी मंजिल, सेवासदन-1, बलसाड	बीवीएससीएंडएच /जीबीपीयूएटी/84	1.1.62
2674	सिंह सूर्य नारायण	जीवीसी/349	13, शिवम सोसायटी, आनंद- जितोदिया रोड, आनंद, गुजरात	बीवीएससीएंडएच /आरकेवीवी/74	3.2.51
2675	सिंह जबर दुर्गा सिंह	जीवीसी/1931 /09	स्टाफ क्वार्टर, बनास डेरी, पालनपुर, जिला बी.के., गुजरात	बीवीएससीएंडएच /एमएलएसयू/86	01.06.58
2676	सिरंजीवी कुमार एस. (पी. सथ्यामूर्ति)	टीएनएसवीसी /4519/09	27/36, अलगम्पा उदलयार कॉलोनी, पी.के. टी. रोड, पेरावुरानी, थंजावूर- 614804, तमिलनाडु	बीवीएससीएंडएच /टीएनयूवीएस /09	30.05.86
2677	सिवा चरन सिंह, पुत्र श्री सदा सिंह	ओएसवीसी/2 303/09	एटी: हांडीपुहान, डाक- दुरदुरा, वाया-जाशीपुर, जिला मयूरभंज- 757034, उड़ीसा	बीवीएससीएंडएच /ओयूएटी/09	08.05.82
2678	सिवा के. (एम. करुणानिधि)	टीएनएसवीसी /4598/09	3/15, साउथ स्ट्रीट, नेदुमनूर डाक, संकरपुरम तालुक, विल्लुपुरम जिला- 606208, तमिलनाडु	बीवीएससीएंडएच /टीएनयूवीएस /09	13.06.87
2679	सिवागुरुनाथन पी. (आर. पोन्नुसामी)	टीएनएसवीसी /4672/10	पुराना न. 17, रामथेवर मिडल स्ट्रीट, वासुदेवा नल्लूर, तिरुनेलवेली जिला, तमिलनाडु	बीवीएससी/टीएन यूवीएस/92	30.07.69
2680	सिवानारायणन टी. बी., पुत्र श्री टी.एन. बालाकृष्णन	केएसवीसी/35 88/09	थंगलाजी हाउस, कल्लेपडी रोड, मुलमकुन्ना थुकावु डाक, थ्रिसूर- 680581, केरल	बीवीएससीएंडएच /केएयू/09	15.12.86
2681	सिवाप्रकासम ए. (वी. आरुमुगम)	टीएनएसवीसी /4630/09	31/3, स्पिक नगर, वेलाचेरी, चेन्नई- 600042, तमिलनाडु	बीवीएससीएंडएच /टीएनयूवीएस /09	12.12.85

2682	सिवाराम कृष्णन वी. (आर. विल्लई)	टीएनएसवीसी /4579/09	2/423, अन्ना नगर, कावेरीपटणम, कृष्णागिरि तालुक व जिला, पिन- 635112, तमिलनाडु	बीवीएससीएंडएएच /टीएनयूवीएएस /09	02.06.83
2683	सिवानी चौहान, पुत्री श्री जगेश्वर कुमार	यूकेएसवीसी/ 480/09	डी-7, टीडीसी कॉलोनी, डाक हलदी, जिला यू.एस. नगर, उत्तराखंड	बीवीएससीएंडएएच /जीबीआईएच; डब्ल्यूएंडटी/09	01.06.86
2684	स्मृति रंजन मिश्रा, पुत्र श्री अशोक कुमार मिश्रा	ओएसवीसी/2 280/09	एलबी- 204, बडगडा ब्रिट कॉलोनी, मुबनेश्वर- 751018, उड़ीसा	बीवीएससीएंडएएच /ओयूटी/09	16.06.83
2685	सोबना ए.एस. (सेनगुट्टुवन)	टीएनएसवीसी /4530/09	21 ए, साउथ पौंडु स्ट्रीट, इडापडुडी, सलेम जिला, पिन- 637101, तमिलनाडु	बीवीएससीएंडएएच /टीएनयूवीएएस /09	04.01.85
2686	सोहिता ओझा, पुत्री श्री एन.एन. ओझा	यूकेएसवीसी/ 463/09	द्वारा श्री यू.सी. नौदियाल, 99- नेहरू कॉलोनी, देहरादून, उत्तराखंड	बीवीएससीएंडएएच /जीबीआईएच; डब्ल्यूएंडटी/09	13.06.86
2687	सोहराब सिंह, पुत्र श्री परविंदर सिंह	पीबीएसवीसी/ 2919/10	दानेवालिया हाउस, आजिमगढ़, अबोहर, पंजाब	बीवीएससीएंडएएच /आरएयू/10	15.6.85
2688	सोजित्रा वल्लभभाई राघवजी भाई	जीवीसी/748	"त्रज" 28, देसाई नगर, एसटी बस स्टैंड के पीछे, जूनागढ़, गुजरात	बीवीएससीएंडएएच /जीएयू/86	1.2.54
2689	सोलंकी अमृत भाई सावामाई	जीवीसी/620	797, आदर्श नगर, सेक्टर- 24, गांधीनगर, गुजरात	बीवीएससीएंडएएच /जीएयू/80	1.1.53
2690	सोलंकी भरत कुमार अम्बालाल	जीवीसी/2225	1/2, गुजरात हाउसिंग बोर्ड, नंदेसरी, तालुक व जिला- वडोदरा, पिन-391340, गुजरात	बीवीएससीएंडएएच /जीएयू/00	15.8.75
2691	सोलंकी भरत कुमार रणछोड़भाई	जीवीसी/958	पांड्या वाड़, गुर्जरनी पोल के सामने, स्वामीनारायण मंदिर के पास, प्रांतिज, साबरकंठा- 383205, गुजरात	बीवीएससीएंडएएच /जीएयू/87	13.8.62
2692	सोलंकी धीरेंद्र कुमार हीरालाल	जीवीसी/616	एफ/3, जशोदा अपार्टमेंट, वनियावाड सर्कल, कॉलेज रोड, नाडियाड - 387001, जिला- खेडा, गुजरात	बीवीएससीएंडएएच /जीएयू/78	2.4.56
2693	सोलंकी हितेंद्र सिंह विजय सिंह	जीवीसी/523	48, अपनाघर सोसायटी, टेकरावाला स्कूल, पालनपुर पटिया, सूरत, गुजरात	बीवीएससीएंडएएच /जीएयू/79	23.11.23

2694	सोलंकी जयतिलाल वहलजीभाई	जीवीसी/621	ब्लॉक न.-6, कमरा न. 12 (पुराना), ऑफिसर कॉलोनी, सर्कट हाउस, आरसी दत्त रोड, अलकापुरी, बड़ौदा-07, गुजरात	बीवीएससीएंडएच /जीएयू/82	1.6.56
2695	सोलंकी किरित भाई धनजी भाई	जीवीसी/575	9, जाह्नवी बंगला, आईओसी रोड, चांदखेडा, जिला अहमदाबाद - 382424, गुजरात	बीवीएससीएंडएच /जीएयू/80	18.6.57
2696	सोलंकी मनीष रावजीभाई	जीवीसी/3074 /09	माही कनाल कॉलोनी, भद्रान, तालुक बोरसाड, जिला- आनंद, गुजरात	बीवीएससीएंडएच /एएयू/09	15.06.84
2697	सोलंकी प्रवीन सिंह हीरसिंह	जीवीसी/3075 /09	रामजीनामुवाडा डाक- देपोली, तालुक- बयाद, जिला-एस.के., गुजरात	बीवीएससीएंडएच /एएयू/09	01.01.83
2698	सोलंकी विक्रम सिंह गुजाब सिंह	जीवीसी/938	44, सेक्टर-1, श्रीजी पार्क, गायत्री मंदिर राड, हिम्मत नगर- 383001, गुजरात	बीवीएससीएंडएच /जीएयू/86	29.4.62
2699	सोलंकी योगराज सिंह धर्म सिंह	जीवीसी/2017	मोतीसारा, "योग-धर्म", एटी, डाक व जिला- पाटन, पिन- 384265, गुजरात	बीवीएससीएंडएच /जीएयू/97	9.8.73
2700	सोना कटोच, पुत्री श्री कश्मीरा कटोच	एचवीसी/866 /09	वार्ड न. 1, भकान न. 37, हीरा नगर, हमीरपुर, हि.प्र.	बीवीएससीएंडएच /सीएसकेएचपीकेवी /09	02.02.86
2701	सोनल श्रीवास्तव, पुत्री श्री ओम प्रकाश श्रीवास्तव	एमपीएसवीसी /2615/09	1425, सरस्वती कॉलोनी, चेरी तालुक, जबलपुर, म.प्र.	बीवीएससीएंडएच /जेएनकेवीवी/09	23.09.87
2702	सोनार स्वप्निल सुरेश	महाएसवीसी/ 8321/10	सरस्वती निवास, सोनार गली, वार्ड न. 2, जठ, तालुक जठ, जिला- सांगली- 416404, महाराष्ट्र	बीवीएससीएंडएच /एमएएंडएफएसयू /09	13.10.86
2703	सोनी अनिल कृष्णकांत	जीवीसी/1141	50, माधव सोसायटी, निर्णय नगर शॉपिंग सेंटर के सामने, निर्णय नगर, अहमदाबाद, गुजरात	बीवीएससीएंडएच /जीएयू/89	5.12.67
2704	सोनी गौरांग भाई रमणीक लाल	जीवीसी/949	14, नवदीप सोसायटी, गोकल नगर, महावीर नगर, हिम्मत नगर, जिला-साबरकंठा, गुजरात	बीवीएससीएंडएच /जीएयू/86	2.6.84
2705	सोनी गिरीश कुमार दामजी भाई	जीवीसी/1440	24/ए, पटेल सोसायटी, खेद ब्रह्मा, जिला- साबरकंठा, गुजरात	बीवीएससीएंडएच /जीएयू/91	21.1.89

2706	सोनी जितेंद्र डाहया लाल	जीवीसी / 1148	376 / 1, गोकुल, शातिकुंज सोसायटी, सेक्टर-28, गांधीनगर, गुजरात	बीवीएससीएंडएच / जीएयू / 89	7.3.67
2707	सोनी कनइय्या लाल बाबू लाल	जीवीसी / 622	170, राधा कृष्ण पार्क, अकोटा गार्डन रोड, वडोदरा, गुजरात	बीवीएससीएंडएच / जीएयू / 81	1.6.56
2708	सोनी सुधीर कुमार वाडीलाल	जीवीसी / 842	1-डी, क्षितिज अपार्टमेंट, प्लॉट न. 200, सेक्टर- 22, गांधीनगर, गुजरात	बीवीएससीएंडएच / जीएयू / 85	2.12.62
2709	सोनोने प्रमोद वासुदेवराव	महाएसवीसी / 8153 / 09	ए / पी- सुगांव, तालुक- जलगांव (जामोद), जिला- बुलधाना- 443402, महाराष्ट्र	बीवीएससीएंडएच / एमएएंडएफएसयू / 08	06.09.84
2710	सोनटके धीरज अनिल	महाएसवीसी / 8281 / 09	तालगु नगर, वार्ड न. 5, बुलधाना, तालुक व जिला बुलधाना- 443001, महाराष्ट्र	बीवीएससीएंडएच / एमएएंडएफएसयू / 09	22.04.85
2711	सूरज एस., पुत्र श्री जस्टी के.के.	केएसवीसी / 35 20 / 09	कैमलांगरा हाउस, चेरई डाक, अर्नाकुलम- 683514, केरल	बीवीएससीएंडएच / केएयू / 09	22.05.86
2712	सोराठिया ललितचंद्र मंजीभाई	जीवीसी / 1533	एटी एवं डाक: लिम्बुडा, तालुक: जोडिया, वाया: हल्दियाना, जिला: जामनगर- 361011, गुजरात	बीवीएससीएंडएच / जीएयू / 92	15.2.70
2713	सौभाग्य रंजन प्रधान, पुत्र श्री सुरेंद्र नाथ प्रधान	ओएसवीसी / 2 323 / 09	बी-28, रुचिका मार्केट, बारामुंडा, भुवनेश्वर- 751003, उड़ीसा	बीवीएससीएंडएच / ओयूएटी / 09	26.06.85
2714	सौरभ छाबड़ा, पुत्र श्री सदानंद छाबड़ा	हरिएसवीसी / 2 139	# 131, प्रेम नगर, हिसार, हरियाणा	बीवीएससीएंडएच / स्वामीकेशानंद आरएयू / 10	26.7.85
2715	सौरभ कुमार, पुत्र श्री विनोद कुमार	हरिएसवीसी / 2 103	# 409 / 18, रविदास नगर, आर्या नगर रोड, रोहतक, हरियाणा	बीवीएससीएंडएच / सीसीएसएचएयू / 09	4.7.85
2716	सौरभ सुलभ, पुत्र डॉ. उपेंद्र यादव	जेवीसी / 636 / 09	हिल व्यू कॉलोनी, एम.जी.एम., जमशेदपुर, पूर्वी सिंघभूम- 831018, झारखंड	बीवीएससीएंडएच / बीएयू / 09	05.10.83
2717	सौम्या टी.सी., पुत्री श्री टी.जे. चंद्रशेखरन	केएसवीसी / 35 99 / 09	थडाथिलफक्कल हाउस, थेईकट्टूकारा डाक, अलुवा, अर्नाकुलम- 683106, केरल	बीवीएससीएंडएच / केएयू / 09	11.03.86

2718	श्रीकार्तिका थंकप्पन, पुत्री श्री पी.के. थंकप्पन	केएसवीसी / 36 04 / 09	पनाचियिल हाउस, पूलयानूर (डाक), कोट्टायम— 686573, केरल	बीवीएससीएंडएच / केएयू / 09	26.03.85
2719	श्रीला एल., पुत्री श्री वी. श्रीरन पिल्लै	केएसवीसी / 35 44 / 09	श्रीसैलम अलुमोडु, डाक कोल्लम— 691577, केरल	बीवीएससीएंडएच / केएयू / 09	31.05.82
2720	श्रीलक्ष्मी सी.एम., पुत्री श्री सी. मुकुंदन	केएसवीसी / 35 90 / 09	अस्वथी, कोट्टाकट डाक, कासरगोड— 671357	बीवीएससीएंडएच / केएयू / 09	31.05.85
2721	श्रीशिठा एस.जी., पुत्री श्री एन.ए. श्रीधरन नायर	केएसवीसी / 35 81 / 09	ग्रीन व्यू हाउस, नदक्कुथाजा डाक, वटकारा, कोज़कोड— 673112, केरल	बीवीएससीएंडएच / केएयू / 09	29.10.85
2722	श्रीकला आर. (एस. गणेश)	टीएनएसवीसी / 4446 / 09	न. 2 / 85, पल्ला स्ट्रीट, डाक कडापेरीकुप्पम, तालुक वनूर, जिला विल्लुपुरम, पिन— 605502, तमिलनाडु	बीवीएससीएंडएच / पीयू / 04	29.07.80
2723	श्रीनिवास बेहेरा, पुत्र श्री निखेंद्र नाथ बेहेरा	ओएसवीसी / 2 300 / 09	एटी / डाक— भितारा अंधारी, वाया— इरासमा, जिला जगत सिंह पुर— 754139, उड़ीसा	बीवीएससीएंडएच / ओयूएटी / 09	22.04.84
2724	श्रीनिवास एच.एन., पुत्र श्री नरसिमइय्याह एच. एन.	कर्नाएसवीसी / 4231 / 09	न. 827 / 6, 8वां ए मेन, बीईएल लेआउट, विद्यारण्यपुरा, बेंगलुरु, कर्नाटक	बीवीएससी / यूएसएस बंगलोर / 82	20.7.59
2725	श्रीनिवास कावली, पुत्र श्री ओबन्ना एन.	कर्नाएसवीसी / 4224 / 09	दूसरा वार्ड, बापूजी नगर— 586135, कुडलिगी तालुक, बेलारी जिला, कर्नाटक	बीवीएससी / नें कीतूंक / 91	1.6.67
2726	श्रीराम एस.के. (एस. आर. कुमार)	टीएनएसवीसी / 4632 / 09	4, मुडीसाथम्मन कोइल स्ट्रीट, न्यू एमजीआर नगर, सेनीरकुप्पम, चेन्नई—600056, तमिलनाडु	बीवीएससीएंडएच / टीएनयूवीएस / 09	20.12.85
2727	सुभाष चंद्र जेना, पुत्र श्री गौराहरि जेना	ओएसवीसी / 2 271 / 09	एटी / डाक— डागरा, वाया— प्रतापपुर, जिला— बालासौर— 756083, उड़ीसा	बीवीएससीएंडएच / ओयूएटी / 09	17.04.86
2728	सुभाकांता अचार्या, पुत्र श्री प्रसन्ना कुमार आचार्या	ओएसवीसी / 2 274 / 09	एटी: जगननाथन, डाक— चाहली, वाया: माहीपुर, जिला: नयापुर— 752094, उड़ीसा	बीवीएससीएंडएच / ओयूएटी / 09	28.06.86
2729	सुभाराज सामंतारा, पुत्र श्री गोडाबरीश सामंतारा	ओएसवीसी / 2 270 / 09	एटी / डाक: बोरीगुम्मा, जिला— कोरापट— 764056, उड़ीसा	बीवीएससीएंडएच / ओयूएटी / 09	05.07.86

2730	सुभाष चंद, पुत्र श्री शेर सिंह	राजएसवीसी / 3594 / 09	ग्राम—टोहरी, डाक— तरवाला, तहसील— किशनगढ़ बास, अलवर— 301405, राजस्थान	बीवीएससीएंडएच / आरएयू / 09	10.08.81
2731	सुभाष चंदर, पुत्र श्री भूप सिंह	राजएसवीसी / 3684 / 09	ग्राम एवं डाक— निनान, तहसील— भद्रा, हनुमानगढ़— 335511, राजस्थान	बीवीएससीएंडएच / एमएफएसयू / 09	10.08.79
2732	सुभाष परमार, पुत्र श्री सीता राम परमार	एमपीएसवीसी / 2625 / 09	ग्राम— नागपुर, थाना सनवेर, इंदौर, म.प्र.— 453551	बीवीएससीएंडएच / जेएनकेवीवी / 09	12.5.78
2733	सुभाशीष सामंता, पुत्र श्री सरत चंद्र सामंता	ओएसवीसी / 272 / 09	एटी: मृति विहार, डाक/थाना — अथगढ़, जिला कटक— 754019, उड़ीसा	बीवीएससीएंडएच / ओयूएटी / 09	07.07.86
2734	सुभाशीष साहू, पुत्र श्री गोपाल चंद्र साहू	ओएसवीसी / 292 / 09	एटी: नागपाल, डाक— उदाला, वार्ड न. 3, जिला— मयूरभंज— 757041, उड़ीसा	बीवीएससीएंडएच / ओयूएटी / 09	29.05.86
2735	सुभ्रजीत दास, पुत्र श्री सरत कुमार दास	ओएसवीसी / 326 / 09	एटी एवं डाक: बालीचंद्रपुर, जिला: जयपुर, उड़ीसा— 754205, उड़ीसा	बीवीएससीएंडएच / ओयूएटी / 09	22.06.84
2736	सुबोध जितन हंसडाक, पुत्र स्व. श्री भदु हंसडाक	जेवीसी / 647 / 10	द्वारा: श्रीमती सबिन विनिता हंसडाक, पोखोरिया आमगाची, काठीकुंड, दुमका— 814103, झारखंड	बीवीएससीएंडएच / आरएयू / 94	22.01.64
2737	सुबोध कुमार मंडल, पुत्र श्री राम रतन मंडल	जेवीसी / 621 / 09	ब्लॉक पशुपालन अधिकारी, भवनाथपुर, अगृतारी, गड़वा, झारखंड	बीवीएससीएंडएच / बीएयू / 91	15.02.64
2738	सुब्रमण्यम वात्सायन, पिता श्री लीलाधर वात्सायन	एचवीसी / 876 / 09	ग्राम— बहोत, डाक— सुंदर नगर, जिला मंडी, हि.प्र.	बीवीएससीएंडएच / सीएसकेएचपीकेवी / 09	21.01.85
2739	सुब्रत दास, पुत्र श्री नारायण दास	त्रिपुराएसवीसी / 177 / 08	द्वारा कालीपदा दास, डाक— कुंजाबन अगरतला, त्रिपुरा (पश्चिम)	बीवीएससीएंडएच / सीएयू / 08	1.1.86
2740	सुदाम बाग, पुत्र श्री बालिष्ठा बाग	ओएसवीसी / 310 / 09	एटी एवं डाक— जारिंग, वाया— बीजेपुर, जिला— बारगढ़ (ओ.), 768032, उड़ीसा	बीवीएससीएंडएच / ओयूएटी / 09	15.11.81
2741	सुदर्शन पात्रा, पुत्र श्री मंगुली पात्रा	ओएसवीसी / 307 / 09	एटी एवं डाक— नुआपटना, वाया: टिगिरिया, जिला— कटक— 754035, उड़ीसा	बीवीएससीएंडएच / ओयूएटी / 09	01.07.82

2742	सुदर्शन, पुत्र श्री शिवालिंगप्पा सी. गडाड	कर्नाएसवीसी / 4331 / 09	प्लॉट न. 27, डोर न. 6386, सेक्टर -8, अंजनेया नगर, एम.एम.एक्सटें., बेलगाम-590016, कर्नाटक	बीवीएससीएंडएएच / केवीएफएसयू / 09	30.9.86
2743	सुधागर एम. (पी. मुरुगन)	टीएनएसवीसी / 4434 / 09	न.10, मिडल स्ट्रीट, डाक थियागडुरगम, विल्लुपुरम- 606206, तमिलनाडु	बीवीएससी / टीएन यूवीएस / 01	25.05.78
2744	सुधाकर एन.आर., पुत्र श्री राजन्ना एन.एम.	कर्नाएसवीसी / 4312 / 09	प्रथम क्रॉस, इंदिरा नगर, तिपतुर- 573102, तुमकुर जिला, कर्नाटक	बीवीएससीएंडएएच / केवीएफएसयू / 09	28.12.86
2745	सुधांशु सेखर बेहेरा, पुत्र श्री गजेंद्र बेहेरा	ओएसवीसी / 299 / 09	एटी एवं डाक- कुलश्री, कटक- 754104, उड़ीसा	बीवीएससीएंडएएच / ओयूएटी / 09	18.05.85
2746	सुदर्शन ए. (ए. अन्नामलई)	टीएनएसवीसी / 4493 / 09	डोर न. 59, इलावडई डाक, होरुर तालुक, धर्मापुरी जिला- 635305, तमिलनाडु	बीवीएससीएंडएएच / टीएनयूवीएस / 09	07.03.85
2747	सुधीर नाइक, पुत्र श्री धर्म सिंह	कर्नाएसवीसी / 4275 / 09	जगदम्बा स्कूल के पीछे, बीरप्पा नगर, इंडी- 586209, बीजापुर जिला, कर्नाटक	बीवीएससीएंडएएच / केवीएफएसयू / 09	5.6.85
2748	सुधीर सिंह यादव, पुत्र श्री शेर सिंह	हरिएसवीसी / 2135	# 825, सेक्टर-17, गुडगांव, हरियाणा	बीवीएससीएंडएएच / एचएयू / 83	1.09.61
2749	सुहास के., पुत्री श्री करुनाकरन	केएसवीसी / 3517 / 09	हरिओया हाउस, कुलांगरथ, वी.ओ. रोड, वटकारा-1, कोजीकोड, केरल	बीवीएससीएंडएएच / केएयू / 09	28.10.85
2750	सुजा एस., पुत्री श्री जी. सेबस्टियन	केएसवीसी / 3503 / 09	जॉय डेल, थिरुमुल्लवरम, कोल्लम- 691012, केरल	बीवीएससीएंडएएच / केएयू / 09	15.09.85
2751	सुजीत गुडापति, पुत्र श्री सत्य नारायण मूर्ति	पॉण्डीएसवीसी / 320 / 09	1-460-डी, श्रीराम नगर, गोपाल नगरी, यनम- 533464, पॉण्डीचेरी	बीवीएससीएंडएएच / पीयू / 09	8.6.87
2752	सुकांत दास, पुत्र श्री सतीश च. दास	त्रिपुराएसवीसी / 184 / 08	द्वारा:सतीश च.दास, मेलारमठ, गंगोल रोड, अगरतला, पुराने एमएलए होस्टल के निकट, त्रिपुरा (वेस्ट)	बीवीएससीएंडएएच / सीएयू / 08	25.4.85
2753	सुलोचना सेन, पुत्री श्री सुभाष कुमार सेन	एमपीएसवीसी / 2632 / 09	द्वारा श्री ए.पी. सेन, राम वार्ड, बड़ी बजरिया, बीना, सागर, म.प्र.- 470113	बीवीएससीएंडएएच / जेएनकेवीवी / 09	20.9.84

2754	सुमन कुमार एम., पुत्र श्री मूर्ति एन.	कर्नाएसवीसी/ 4335/09	न. 82, 2 बी मेन, प्रथम स्टेज, ईडब्ल्यूएस, येलाहका न्यूटाउन, बंगलुरु- 560064, कर्नाटक	बीवीएससीएंडएच /केवीएफएसयू/ 09	22.6.86
2755	सुमय्या ए., पुत्री श्री अब्दुल सलाम एम.	केएसवीसी/35 37/09	मिथलाज मोहाल, सांति नगर, न. 102, कावानाडु डाक, कोल्लम, केरल	बीवीएससीएंडएच /केएयू/09	31.05.81
2756	सुमित चौधरी, पुत्र श्री शीष राम चौधरी	राजएसवीसी/ 3620/09	द्वारा विद्याधर, जाट कॉलोनी, नवलगढ़ रोड, सीकर- 332001, राजस्थान	बीवीएससीएंडएच /आरएयू/09	03.02.85
2757	सुमित जोशी, पुत्र श्री पी.बी. जोशी	यूकेएसवीसी/ 453/09	एफ.सी.आई. गोदाम के निकट, उत्तरांचल कॉलोनी, किच्छा, जिला यू.एस. नगर, उत्तराखंड	बीवीएससीएंडएच /जीबीआईएच; डब्ल्यूएएंडटी/09	16.12.87
2758	सुमित, पुत्र श्री अभिमन्यु	हरिएसवीसी/2 102	ग्राम एवं डाक- अलखपुरा, बवानी खेरे जिला, भिवानी, हरियाणा	बीवीएससीएंडएच /सीसीएसएचएयू/ 09	4.11.86
2759	सुमित शर्मा, पुत्र श्री दलजीत शर्मा	पीबीएसवीसी/ 2862/09	म.न. 306/1, सेक्टर-45-ए, चंडीगढ़, पंजाब	बीवीएससीएंडएच /सीएसकेएचपीकेवी /09	24.1.86
2760	सुंदर ए. (पी. अन्नादुरई)	टीएनएसवीसी /4505/09	3/739, न्यू मार्केट स्ट्रीट, अलगप्पा नगर, 11 क्रॉस ईस्ट, अरियालूर- 621704, तमिलनाडु	बीवीएससीएंडएच /टीएनयूवीएस /09	26.08.86
2761	सुनील गिरि, पुत्र श्री दीवान गिरि	यूकेएसवीसी/ 469/09	ग्राम- डूंगरी, डाक चामली, जिला पिथौरागढ़, उत्तराखंड	बीवीएससीएंडएच /जीबीआईएच; डब्ल्यूएएंडटी/09	01.03.87
2762	सुनील कुमार बिश्नोई, पुत्र श्री ओम प्रकाश बिश्नोई	राजएसवीसी/ 3610/09	ग्राम: छठा, डाक पटरोरा, तहसील- अनूपगढ़, श्रीगंगा नगर- 335711, राजस्थान	बीवीएससीएंडएच /आरएयू/09	13.04.81
2763	सुनील कुमार चौधरी, पुत्र श्री अशोक कुमार चौधरी	एमपीएसवीसी /2617/09	विनायक कैम्पस, बी-7, करारिया भोपाल, म. प्र.- 462010	बीवीएससीएंडएच /जेएनकेवीवी/09	15.4.84
2764	सुनील कुमार जोलेह, पुत्र श्री राम विलास जोलेह	सीएचएसवीसी /490/09	ग्राम- हिरी, तहसील सारगढ़, जिला- रायगढ़, छत्तीसगढ़	बीवीएससीएंडएच /जेएलएनकेवीवी/ 91.92	31.10.70
2765	सुनील कुमार, पुत्र श्री ओम प्रकाश	पीबीएसवीसी/ 2910/09	ग्राम एवं डाक- मंडी अमीन गंज, तहसील- फाजिल्का, जिला- फिरोजपुर- 152033, पंजाब	बीवीएससीएंडएच /जीएडीवीएसयू /09	6.4.84

2766	सुनील कुमार, पुत्र श्री ओम प्रकाश	राजएसवीसी / 3590 / 09	ग्राम व डाक—चाक भोजासर, तहसील— भद्रा, हनुमानगढ़— 335501, राजस्थान	बीवीएससीएंडएच / आरएयू / 09	07.01.83
2767	सुनील कुमार, पुत्र श्री पन्ना लाल मेघवाल	राजएसवीसी / 3627 / 09	155, पृथ्वीराज नगर, महारानी फार्म, दुर्गापुरा, जयपुर— 302018, राजस्थान	बीवीएससीएंडएच / आरएयू / 09	08.01.84
2768	सुनील कुमार, पुत्र श्री राम हित	यूपीएसवीसी / 4934 / 09	ग्राम— बेहरा, डाक— जमोह, जिला— बस्ती, उ.प्र.	बीवीएससीएंडएच / एनडीयूएंडटी / 09	15.07.85
2769	सुनील कुमार शाक्य, पुत्र श्री लाल जीत शाक्य	एमपीएसवीसी / 2641 / 09	ग्राम— रामपुर कलां, थाना— सब्बलगढ़, मोरैना (म.प्र.)	बीवीएससीएंडएच / जेएनकेवीवी / 09	09.7.82
2770	सुनील नरुला, पुत्र श्री लेख राज	पीबीएसवीसी / 2894 / 09	नई आबादी, स्ट्रीट न. 16, म.न. 1327, बडा पुल, अबोहर, जिला फिरोजपुर, पंजाब	बीवीएससीएंडएच / जीएडीवीएसयू / 09	8.5.85
2771	सुप्रिया स्वर्णकार, पुत्री श्री एन.सी. स्वर्णकार	सीएचएसवीसी / 458 / 09	प्राची विहार, रायगढ़— 496001, छत्तीसगढ़	बीवीएससीएंडएच / आईजीकेवीवी / 0 7-08	20.01.82
2772	सुरादकर बबनराव उन्नुजी	जीवीसी / 1345	एटी: पिम्पलगांव—चम्भारे, डाक— जामकेशोर, तालुक बापशिटाकली, जिला अकोला, गुजरात	बीवीएससीएंडएच / पीकेवी / 89	5.6.80
2773	सूरज कुमार, पुत्र श्री अजुन प्रसाद सिंह	जेवीसी / 603 / 09	टीवीओ चेरई, पलामू— 822113, झारखंड	बीवीएससीएंडएच / जीबीआईएच; डब्ल्यूएंडटी / 05	17.10.78
2774	सूरज कुमार आर., पुत्र श्री ई.के. राजन	केएसवीसी / 35 00 / 09	राजालायम हाउस, डाक थाडीकडु, ऐरम, अनहल (वाया), कोल्लम, केरल	बीवीएससीएंडएच / पीयू / 05	18.09.81
2775	सुरेंद्र कुमार, पुत्र श्री बीरबल राम	राजएसवीसी / 3711 / 10	ग्राम एवं डाक—15—जेड, तहसील श्रीगंगानगर, श्रीगंगा नगर— 335001, राजस्थान	बीवीएससीएंडएच / एसकेवीआरएयू / 10	15.05.83
2776	सुरेंद्र कुमार सैनी, पुत्र श्री काजोरमल सैनी	राजएसवीसी / 3728 / 10	ग्राम— सैनीपुरा, डाक— पारस रामपुरा, झुंझुनू— 333308, राजस्थान	बीवीएससीएंडएच / एसकेवीआरएयू / 10	10.07.83
2777	सुरेन्द्रन एन. (पी. आर. नरसिंहमन)	टीएनएसवीसी / 4501 / 09	4-ए, 7वां क्रॉस, वी. नगर, रासीपुरम, नमक्कल जिला, तमिलनाडु	बीवीएससीएंडएच / टीएनयूवीएस / 09	14.03.86

2778	सुरेश एस. (वी.के. सुब्रमण्यन)	टीएनएसवीसी / 4510 / 09	पेरियाकट्टथोट्टम, वेल्लालापलायम, केंदरई रोड, गोबी तालुक, इरोडे जिला— 638458, तमिलनाडु	बीवीएससीएंडएच / टीएनयूवीएस / 09	15.12.85
2779	सुरेश बाघेल, पुत्र श्री आर.आर. बघेल	एमपीएसवीसी / 2651 / 10	ग्राम— उमरिया, थाना— धरमपुरी, धार, म.प्र.	बीवीएससीएंडएच / जेएनकेवीवी / 09	1.1.80
2780	सुरेश कवर, पुत्र श्री श्याम लाल कवर	सीएचएसवीसी / 519 / 10	ग्राम— महोरा, डाक— कोपारी मस्तूरी कर्टला, बिलासपुर, छत्तीसगढ़	बीवीएससीएंडएच / आईजीकेवीवी / 09	01.07.82
2781	सुरेश कुमार, पुत्र श्री सिमरन लाल यादव	सीएचएसवीसी / 540 / 10	स्ट्रीट नं. 2, म.नं.— 118, सेक्टर— 10, भिलई, छत्तीसगढ़	बीवीएससीएंडएच / जेएनकेवीवी / 89-90	03.03.60
2782	सुरेश कुमार, पुत्र श्री चेत राम	एचवीसी / 890 / 09	श्याम निवास, जे.सी.बी. पब्लिक स्कूल के निकट, सेक्टर— III, नया शिमला, हि.प्र.	बीवीएससीएंडएच / सीएसकेएचपीकेवी / 09	08.04.83
2783	सुरेश प्रसाद सोनी, पुत्र श्री बच्चू लाल सोनी	सीएचएसवीसी / 473 / 09	वेटरिनरी अस्पताल, लोरमी, जिला— बिलासपुर, छत्तीसगढ़	बीवीएससीएंडएच / जेएलएनकेवीवी / 88.89	20.01.63
2784	सुरेश के.आर. (के. राजालिंगम)	टीएनएसवीसी / 4518 / 09	कुट्टिटया गौडन पुडुर, कडुक्कमपलायम डाक, गोबी तालुक, इरोडे— 638476, तमिलनाडु	बीवीएससीएंडएच / टीएनयूवीएस / 09	08.05.86
2785	सुरेश कुमार के. (एस. कुप्पुसामी)	टीएनएसवीसी / 4503 / 09	के.टी. पलायम डाक, ओड्डानचटरम तालुक, डिंडीगल जिला— 624616	बीवीएससीएंडएच / टीएनयूवीएस / 09	18.06.85
2786	सुरजीत सिंह पटेल, पुत्र श्री बी.एल. पटेल	यूपीएसवीसी / 5012 / 09	ग्राम एवं डाक— बिलाती करके (ईएसआईसीएच), जिला— झांसी, उ.प्र.	बीवीएससीएंडएच / जेएनकेवीवी / 09	25.11.85
2787	सरसावंत राखी मोहन	महाएसवीसी / 8298 / 09	मैदा मिल के पीछे, व्यंकटेश कॉलोनी, टाकिया / वार्ड, भंडारा— 441904, महाराष्ट्र	बीवीएससीएंडएच / एमएएंडएफएसयू / 09	19.07.86
2788	सूर्यकांत, पुत्र श्री शंकरप्पा	कर्नाएसवीसी / 4260 / 09	नं. 153, नवाडगोरी, बिदर— 585401, कर्नाटक	बीवीएससीएंडएच / केवीएएफएसयू / 09	30.3.86
2789	सूर्यवंशी अपेक्षा अविनाश	महाएसवीसी / 8283 / 09	शाऊ महाराज नगर, बीएड कॉलेज के पीछे, तालुक मालेगांव, जिला नाशिक, महाराष्ट्र	बीवीएससीएंडएच / एमएएंडएफएसयू / 09	15.11.86

2790	सूर्यवंशी राहुल दिलीप राव	महाएसवीसी/ 8181/09	“सावली” प्लॉट न. 67, वानखेडकर नगर, वाल्वाडी शिवार, तालुक जिला धुले, महाराष्ट्र	बीवीएससीएंडएच /एमएएंडएफएसयू /09	26.04.86
2791	सुशांत वी.एस., पुत्र श्री वी.सी. सुकुमारन	केएसवीसी/35 93/09	वट्टापाराम्बिल हाउस, पोराथिसेरी, इरिंजलकुडा (एन), (डाक), थिरुसूर- 680125, केरल	बीवीएससीएंडएच /केएस/09	23.03.87
2792	सुशांत देबबर्मा, पुत्र स्व. श्री हरेंद्र देब बर्मा	त्रिपुराएसवीसी /186/09	द्वारा: ले. हरेंद्र देबबर्मा, नजीर पुकुर पारा, नाइन बुलेट्स क्लब, कृष्णा नगर, अगरतला, त्रिपुरा (वेस्ट)	बीवीएससीएंडएच /एएस/08	14.12.85
2793	सुषमा टिग्गा, पुत्री स्व. श्री महादेव टिग्गा	जेवीसी/614 /09	मह.- करमटोली, मोरहाबादी रोड, रांची- 834001, झारखंड	बीवीएससीएंडएच /बीएस/99	11.05.69
2794	सुष्मता सेठी, पुत्री श्री विस्वनाथ सेठी	ओएसवीसी/2 289/09	एटी: गोइली, डाक- जशपुर, जिला- मयूरभंज, उड़ीसा	बीवीएससीएंडएच /ओएसटी/09	06.01.85
2795	सुतारिया मोहित कुमार बाबूभाई	जीवीसी/3076 /09	11, कीर्तन टेनामेंट, स्नेहप्लाजा, आईओसी रोड, चांदकेडा, अहमदाबाद, गुजरात	बीवीएससीएंडएच /एएस/09	10.10.86
2796	सुतारिया पुरुषोत्तम भाई कर्मशी भाई	जीवीसी/1064	प्लॉट न.752/6, “प्रमुख योग” विजयराज नगर, आदर्श को- ऑपरेटिव सोसायटी, ज्वेल्स सर्कल के निकट, भावनगर- 364003	बीवीएससीएंडएच /जीएस/88	3.12.61
2797	सुथार राकेश कुमार नटवरलाल	जीवीसी/1926	34, सरदार पटेल नगर, साइंस कॉलेज के पीछे, गोधरा, जिला -पंचमहल-389001, गुजरात	बीवीएससीएंडएच /जीएस/96	14.8.73
2798	सुवेंदु शेखर साहू, पुत्र श्री भोलानाथ साहू	ओएसवीसी/2 324/09	एटी- पदा, डाक- हटूरा, वाया- बालीन, जिला- ढाँकनाल, उड़ीसा	बीवीएससीएंडएच /ओएसटी/09	18.06.85
2799	स्वागत मोहपात्रा, पुत्र श्री लक्ष्मी नारायण मोहपात्रा	ओएसवीसी/2 297/09	बी-1, कल्याणी नगर, पात्रापदा, भुवनेश्वर-- 751019, उड़ीसा	बीवीएससीएंडएच /ओएसटी/09	04.11.85
2800	स्वाति सिंह, पुत्री श्री वीरेंद्र सिंह	यूपीएसवीसी/ 4979/09	12, सिविल लाइंस, जिला उन्नाव, उ.प्र.	बीवीएससीएंडएच /यूपीपीडीडीयूपीसी वीवी/09	15.06.84
2801	स्वेच्छा अखौरी, पत्नी श्री अविशेक कुमार लाला	जेवीसी/632 /09	अखौरी, जेल हाटा, डेल्टन गंज, पलामू- 822101, झारखंड	बीवीएससीएंडएच /बीएस/09	17.02.83

2802	सैयद अबू ताहिर एम.ए. (एम. अबू बाकर)	टीएनएसवीसी /4441/09	नरीपय्यूर डाक, कन्नीराजापुरम वाया, रानद जिला, पिन- 623135, तमिलनाडु	बीवीएससी/टीएएन यूवीएस/94	05.06.71
2803	सैयद जुबेर अहमद अशरफ मिया	जीवीसी/1180	पशुचिकित्सा अधिकारी, पुरानी डेरी, नानी बाजार, फालनपुर, जिला बनासकंठा-385001, गुजरात	बीवीएससीएंडएच /एमएयू/82	23.3.60
2804	टी.बी. सिंह, पुत्र श्री एस.सी. सिंह	यूपीएसवीसी/ 5040/09	ग्राम-सामर्थ पाह, डाक- सोनवासी, जिला-बलिया, म.प्र.	बीवीएससीएंडएच /एएयू/09	23.11.85
2805	टी. चिन्ना पुल्लइयाह, पुत्र श्री टी. प्रदादा राव	एपीएसवीसी/ 04870/09	कृष्तिपट्टु ग्राम एवं डाक, कोइलाकुंटा (टी), कुर्नूल जिला, आंध्र प्रदेश	बीवीएससीएंडएच /एसवीवीयू/09	10.06.83
2806	टी. मंजुला, पुत्र श्री टी. चंद्रन	एपीएसवीसी/ 04921/09	म.न. 6-4-4, राम नगर, सिद्दीपेट, मेडक जिला-- 502103, आंध्र प्रदेश	बीवीएससीएंडएच /एसवीवीयू/09	24.08.85
2807	टी. प्रशांथ कुमार, पुत्र श्री टी. बासवलाल	एपीएसवीसी/ 04879/09	डी.न. 16-2/29, साई निरंजन कॉलोनी, डोंगा वानीपलेम, पेनडुरती, विजाग- 571173, आंध्र प्रदेश	बीवीएससीएंडएच /एसवीवीयू/09	21.05.87
2808	टी. प्रवीना, पुत्री श्री टी. बक्कइयाह	एपीएसवीसी/ 04989/09	म.न. 2-12-3, विद्यारण्य पुरी, भीमारम, हनमकोंडा, वारंगल- 506009, आंध्र प्रदेश	बीवीएससीएंडएच /एसवीवीयू/09	12.08.82
2809	टी. रामा चंद्रा रेड्डी, पुत्र श्री टी. किच्चा रेड्डी	एपीएसवीसी/ 04907/09	कोट्टलापल्ली (ग्राम), डाक वेमुलाकोटा, मरकापुर (एम), प्रकासम जिला, आंध्र प्रदेश	बीवीएससीएंडएच /एसवीवीयू/09	10.06.81
2810	टी. रनजीत कुमार, पुत्र श्री टी. स्वामी	एपीएसवीसी/ 04814/09	8-2-703/4/1, 'अनंतविला', रोड न. 12, बंजारा हिल्स, हैदराबाद-500033, आंध्रप्रदेश	बीवीएससीएंडएच /एएनजीआरएयू/ 96	02.02.74
2811	टी. वेंकट साई कुमार, पुत्र श्री टी. वेंकटेश्वर राव	एपीएसवीसी/ 05000/09	18-1-10/6, के.टी. रोड, रामाचंद्रा नगर, तिरुपति, आंध्र प्रदेश	बीवीएससीएंडएच /एसवीवीयू/09	29.07.84
2812	टी. विजय भास्कर, पुत्र श्री टी. सिद्दी रामुलु	एपीएसवीसी/ 04904/09	म.न. 24-5-317, एनआईटी के पुराने होस्टल गेट के पीछे, दरगाह काजीपेट, वारंगल-506004, आंध्रप्रदेश	बीवीएससीएंडएच /एसवीवीयू/09	01.10.85
2813	तालेकर मासू जगन्नाथ	महाएसवीसी/ 8231/09	फूलसांगवी, तालुक शिरूर (केए), जिला बीड- 431122, महाराष्ट्र	बीवीएससीएंडएच /एमएएंडएफएसयू /09	20.05.83

2814	तालुकदार बनजीत, पुत्र श्री रमेश तालुकदार	एसएम/245 4/09	ग्राम— साधीकुची, डाक गोबराडल, थाना— नलबारी, असम	बीवीएससीएंडएच /एएयू/09	1.8.86
2815	तालुकदार पापोरी, पुत्र श्री रजनी कांत तालुकदार	एसएम/244 7/09	गणेश नगर, बशिष्ट, गुवाहाटी—29, असम	बीवीएससीएंडएच /एएयू/09	26.4.84
2816	तालुकदार पोरी, पुत्र स्व. श्री सुरेन तालुकदार	एसएम/243 3/09	खरगुली, म.न.18, गुवाहाटी— 781004, असम	बीवीएससीएंडएच /एएयू/09	18.7.81
2817	तमीज़ कुमारन, पुत्र श्री एम. जानकीरमन	पॉण्डीएसवीसी /322/09	न. 68, प्रथम क्रॉस, डी.आर. नगर, कुमारन कुडिल, कोसा पलायम, पुडुचेरी— 605013	बीवीएससीएंडएच /पीयू/08	9.5.87
2818	तनुजा कुमारी जी. एम., पुत्री श्री मांजे गौडा	कर्नाएसवीसी/ 4345/09	लक्ष्मी कृपा, पोस्ट ऑफिस के निकट, हेमवतिनगर, हसन— 573320, कर्नाटक	बीवीएससीएंडएच /केवीएफएसयू/ 09	28.4.86
2819	तनवीर, पुत्र श्री गुरनदिता	पीवीएसवीसी/ 2900/09	ढिल्लों कॉलोनी, बाजखाना रोड, कोटकापुरा, पंजाब	बीवीएससीएंडएच /जीएडीवीएसयू /09	5.3.86
2820	तापसी मंडल, पुत्री श्री रमेश चंद्र मंडल	सीएचएसवीसी /544/10	एन.एच.— 08, 79, कैलाश नगर, 1 ई, भिलई, छत्तीसगढ़	बीवीएससीएंडएच /आईजीकेवीवी/0 9	17.09.82
2821	तारकेसा परवेज गफारभाई	जीवीसी/2292	वेटरिनरी डिस्पेंसरी, लिलिया, तालुक लिलिया, जिला अमरेली, गुजरात	बीवीएससीएंडएच /जीएयू/00	7.11.75
2822	टोंक शशिकांत श्यामजी भाई	जीवीसी/490	प्लॉट न. 2/2, सेक्टर—3ए, नया, गांधीनगर, गुजरात	बीवीएससीएंडएच / जीएयू/78	24.11.55
2823	ठाकर अजय प्रवीन चंद्रा	जीवीसी/3077 /09	213/2550, प्रतीक्षा अपार्टमेंट, सोला रोड, नारनपुरा, अहमदाबाद, गुजरात	बीवीएससीएंडएच /एएयू/09	24.05.87
2824	ठाकर हरेश चेतन कुमार	जीवीसी/3155 /10	भाईलाल भाई कॉम्प्लेक्स, पटेल स्ट्रीट, बोरसाड जिला, आनंद, गुजरात	बीवीएससीएंडएच /एएयू/10	12.11.87
2825	ठक्कर भरत कुमार प्रभुदास	जीवीसी/1547	एटी व डाक—बावला, प्रभुभवन, रावजी पारा बाजार, बावला, जिला— अहमदाबाद— 382220, गुजरात	बीवीएससीएंडएच /जीएयू/92	6.5.69

2826	ठाकोर दशरथजी बलदेवजी	जीवीसी/2024	बी/48, हीरावाड़ी सोसायटी, गांधीनगर हाईवे, मनसा- 382845, जिला गांधीनगर	बीवीएससीएंडएच / जीएयू/97	1.6.71
2827	ठाकोर धर्मद्वे सिंह भगवान सिंह	जीवीसी/1127	अवध, 1/ए.स्नेहसागर सोसा., कॉन्वेंट स्कूल के पीछे, गंदेवी रोड, तालुक/जिला नवसारी, नवसारी-396436, गुजरात	बीवीएससीएंडएच / केकेवी/बीयू/89	11.4.66
2828	ठाकोर दिलीप सिंह जबरजी	जीवीसी/2018	22, सी.के. एस्टेट, सिद्धापुर रोड, नूतन सोसायटी के निकट, पाटन, गुजरात	बीवीएससीएंडएच / जीएयू/97	1.6.73
2829	ठाकोर हरशी कुमार रतिलाल	जीवीसी/3156 /10	बी/23, गोपी नगर, एटी: वीजलपुर, डाक-इरयू, तालुक-जलपुर, जिला नवसारी, गुजरात	बीवीएससीएंडएच / एएयू/10	17.06.88
2830	ठाकोर परेश कुमार गोबरजी	जीवीसी/734	392/2, प्रेरणा स्कूल के निकट, सेक्टर-5 ए, गांधीनगर-6, गुजरात	बीवीएससीएंडएच / जीएयू/83	1.1.60
2831	ठाकोर सफी अहमद नबीमिया	जीवीसी/1368	नाना ठाकोर वाड़ा, पुरानी मस्जिद के सामने, एटी: भलेज, तालुक व जिला आनंद, गुजरात	बीवीएससीएंडएच / जीएयू/84	19.12.61
2832	ठाकरे अशोक नामदेवराव	जीवीसी/1337	डैरी कॉलोनी, एटी एवं डाक- माजीगाम, तालुक-चिखाली, जिला- नवसारी-396409, गुजरात	बीवीएससीएंडएच / पीकेवी/76	5.2.57
2833	ठाकुर पूजा जयेंद्र	महाएसवीसी/8348/10	बिल्डिंग.न. 3.सूबेदार क्वार्टर म.न. 3, दहीवलकर बुवा मार्ग, नाईगांव, तालुक दादर (पू.), जिला मुंबई-14, महाराष्ट्र	बीवीएससीएंडएच / एमएंडएफएसयू /09	19.06.86
2834	ठाकुरिया पल्लबी, पुत्र डॉ. जीबेश्वर ठाकुरिया	एसएसएम/246 4/09	द्वारा: डॉ. जीबेश्वर ठाकुरिया, पब-सरानिया चांदमारी, गुवाहाटी- 781003, असम	बीवीएससीएंडएच / एएयू/09	8.3.85
2835	ठाकुरिया प्रांजल, पुत्र श्री अश्विनी ठाकुरिया	एसएसएम/245 1/09	बरबारी, हेंगराबारी, म.न. 355, बरबारी शिव मंदिर के सामने, गुवाहाटी- 36, असम	बीवीएससीएंडएच / एएयू/09	12.1.86
2836	थंगजम कोरडेलिया देवी, पुत्र श्री थंगजम गौराचंद	एसएसएम/246 1/09	द्वारा: टी.जी.सिंह, 5/301, रानी बागान हाउसिंग कॉम्प्लेक्स, तारकेश्वर अपार्टमेंट, बेलटोला तिनियाली, गुवाहाटी, असम	बीवीएससीएंडएच / एएयू/09	18.4.85
2837	थेसिया महेंद्र जादवजी भाई	जीवीसी/1470	नई टेलीफोन एक्सचेंज के सामने, स्टेशन प्लॉट, एटी: धोराजी, राजकोट, गुजरात	बीवीएससीएंडएच / जीएयू/91	22.3.69

2838	शेसिया विजय कुमार जीवाभाई	जीवीसी / 1893	11-बी, मेघदूत सोसायटी, मंगलपुरा रोड, गणेश दुग्धालय के सामने, आनंद-1, गुजरात	बीवीएससीएंडएच / जीएयू / 95	31.8.72
2839	थोराट सचिन गनपत	महाएसवीसी / 8356 / 10	म.न. एफ-21, मुकुंदवाडी स्टेशन रोड, तालुक व जिला औरंगाबाद-431001, महाराष्ट्र	बीवीएससीएंडएच / एमएंडएफएसयू / 09	16.09.82
2840	थोसर सागर रमेश राव	महाएसवीसी / 8251 / 09	गुरुकुंज मोजारी, तालुक तिओसा, जिला अमरावती- 444902, महाराष्ट्र	बीवीएससीएंडएच / एमएंडएफएसयू / 09	29.09.85
2841	थुमार जयंतिलाल मोहनभाई	जीवीसी / 2260	एटी: बलगाम, तालुक केशोद, जिला- जूनागढ़, गुजरात	बीवीएससीएंडएच / जीएयू / 00	14.12.77
2842	थूमार रमणीक लाल नान्जीभाई	जीवीसी / 1649	बी-20, त्रिवेनी पार्क सोसायटी, मंजलपुर टाउनशिप न.2 के पीछे, मंजलपुर, वडोदरा, गुजरात	बीवीएससीएंडएच / जीएयू / 93	1.10.69
2843	टीकम चंद गोयल, पुत्र श्री मोहन लाल गोयल	राजएसवीसी / 3713 / 10	माधो प्रसाद टीकम चंद गोयल, ग्राम एवं डाक-रेनी, तहसील राजगढ़, अलवर -301409, राजस्थान	बीवीएससीएंडएच / एसकेवीआरएयू / 10	15.07.83
2844	टिप्पन्ना, पुत्र श्री मानिकप्पा	कर्नाएसवीसी / 4273 / 09	मुरादनगर, हल्लीखेड- 585414, हुमनाबाद तालुक, जिला कर्नाटक	बीवीएससीएंडएच / केवीएफएसयू / 09	1.1.84
2845	तिवारी ममता, पत्नी श्री विद्युत रंजन गोहेन	एसएसएम / 248 0 / 10	म.न. 1, बाईलेन-6, रुक्मिणी गांव, गुवाहाटी- 22, असम	बीवीएससीएंडएच / एएयू / 89	3.3.64
2846	तोबूढोक वांशनांग, पुत्र श्री सी.एफ. रेवार्ड	मेघएसवीसी / 2 73 / 09	द्वारा श्री सी.एफ.रेवार्ड, मॉलाई, नोंगख्वार, ब्लॉक-8, शिलोंग मेघालय	बीवीएससीएंडएच / एएयू / 09	11.1.82
2847	त्रैलोक्य नाथ नाइक, पुत्र श्री नरेंद्र नाइक	ओएसवीसी / 2 327 / 10	एटी: सांधापुसा, डाक- कुसियापल, वाया: झाकुरपटना, जिला- कैद्रे पाड़ा, उड़ीसा	बीवीएससीएंडएच / ओयूएटी / 71	05.04.47
2848	त्रंगाडिया भावेश कुमार जयंतिलाल	जीवीसी / 2179	एटी: नवगाम, वाया: शाहपुर, तालुक- वनथली, जिला- जूनागढ़, पिन- 362205, गुजरात	बीवीएससीएंडएच / जीएयू / 99	13.3.77
2849	त्रंगाडिया भावेश कुमार जयंतिलाल	जीवीसी / 2179 / 09	एटी: नवगाम, वाया: शाहपुर, तालुक वनथली, जिला जूनागढ़, पिन- 362205, गुजरात	बीवीएससीएंडएच / जीएयू / 99	13.03.77

2850	ट्रांसडिया किशोरभाई पोपट भाई	जीवीसी / 1500	"धारा", दुरवानी सोसायटी, मोनापार्क के निकट, वस्त्रपुर रेलवे रोड, अहमदाबाद, गुजरात	बीवीएससीएंडएएच / जीएयू / 92	7.5.68
2851	त्रिवेदी अजित कुमार ज्योतिष चंद्र	जीवीसी / 1166	एच-163, आकांक्षा ड्यूप्लेक्स, लक्ष्मीपुरा रोड, वडोदरा- 23, गुजरात	बीवीएससीएंडएएच / जीएयू / 89	6.1.66
2852	त्रिवेदी भस्मांग कनकरे	जीवीसी / 2209	"ओम अनिमिष", धर्मनगर सोसायटी, शेरी न.-4, 150 फुट रइया रिंग रोड, राजकोट, गुजरात	बीवीएससीएंडएएच / जीएयू / 69	23.3.48
2853	त्रिवेदी चंद्रवदन शांतिलाल	जीवीसी / 752	35, कृष्णा कॉर्नर, आनंदवाड़ी, इशानपुर, अहमदाबाद- 382443, गुजरात	बीवीएससीएंडएएच / जीएयू / 73	7.5.50
2854	त्रिवेदी कमलेश गुनवंतलाल	जीवीसी / 799	ब्लॉक न. 18 / 4, सीएच- टाइप, सेक्टर -30, गांधीनगर, गुजरात	बीवीएससीएंडएएच / जीएयू / 84	24.11.61
2855	त्रिवेदी प्रकाश कुमार रेवा शंकर	जीवीसी / 1632	एटी: सेमारना मुवादा, डाक: नानावड डोला, तालुक: लूनावाडा, जिला पंचमहल- 38923, गुजरात	बीवीएससीएंडएएच / जीएयू / 93	15.6.71
2856	त्रिवेदी राजेश पुरुषोत्तम दास	जीवीसी / 1273	पगाथिया के निकट, खारा कुवानो कांचू, एटी एवं डाक- देहगाम, गांधीनगर, गुजरात	बीवीएससीएंडएएच / जीएयू / 90	1.8.68
2857	तृप्तिमयी पति, पुत्री श्री चक्रधर पति	ओएसवीसी / 2 312 / 09	श्रीराम नगर, चौथी लेन, पाराबेडा, हयपुर, कोरापुट- 764001, उड़ीसा	बीवीएससीएंडएएच / ओयूएटी / 09	13.07.84
2858	तुशांत कुमार रामटेके, पुत्र श्री रामू लाल रामटेके	सीएचएसवीसी / 498 / 10	कसारीडीह, सुभाष नगर, दुर्ग, छत्तीसगढ़	बीवीएससीएंडएएच / आईजीकेवीवी / 0 9	22.09.82
2859	यू. क्रांति कुमार, पुत्र श्री यू. अंजनइयाह	एपीएसवीसी / 04824 / 09	वोलेटीवारीपलेम (डाक) (एम), प्रकासम जिला, आंध्र प्रदेश	बीवीएससीएंडएएच / एसवीवीयू / 09	21.03.80
2860	यू. प्रशांत, पुत्र श्री यू. शंकर रेड्डी	एपीएसवीसी / 04997 / 09	लक्ष्माजीपल्ली (ग्राम), जम्मीकुंटा (एम), करीम नगर, जिला- 505122, आंध्र प्रदेश	बीवीएससीएंडएएच / एसवीवीयू / 09	02.06.86
2861	यू. हरि श्री, पुत्र श्री यू. वेंकइयाह	एपीएसवीसी / 04903 / 09	म.न. 5-2-228 / 5, मुस्तफा नगर, खम्मम, आंध्र प्रदेश	बीवीएससीएंडएएच / एसवीवीयू / 09	17.06.85

2862	यू. विजय भास्कर, पुत्र श्री यू. मलाकोंडइयाह	एपीएसवीसी/ 04832/09	पेड़डालातरापी (ग्राम), डाक चिन्नालतारापी पेड़डालावनी (वाया), गुडलुरु (एम), प्रकासम जिला, आंध्र प्रदेश	बीवीएससीएंडएच /एसवीवीयू/09	09.06.84
2863	उदय कुमार राजपूत, पुत्र श्री राम गोपाल राजपूत	यूपीएसवीसी/ 5011/09	ग्राम एवं डाक— कुशमिलिया, तहसील ओरई, जिला— जालौन, उ.प्र.	बीवीएससीएंडएच /जेएनकेवीवी/09	24.12.85
2864	उदय कुमार, पुत्र श्री युगल किशोर प्रसाद	जेवीसी/602 /09	टीवीओ, जारमुंडी, दुमका, झारखंड	बीवीएससीएंडएच /आरएयू/97	07.05.73
2865	उदय सीथा, पुत्र श्री ओ.एस. रामचा चंद्रइया	एपीएसवीसी/ 04821/09	4/31, टैपल स्ट्रीट, मिधुकुर, कडप्पा जिला— 516172, आंध्र प्रदेश	बीवीएससीएंडएच /पीयू/09	27.07.86
2866	उधरेजा जयेश प्रभुलाल	जीवीसी/1642	कैलाश सोसायटी, प्लॉट न.-2, नए बस स्टैंड के सामने, सनाला रोड, मोरबी-363641, जिला— राजकोट, गुजरात	बीवीएससीएंडएच /जीएयू/93	30.9.71
2867	उदयावेल एस. (के. के. शानमुगा सुंदरम)	टीएनएसवीसी /4526/09	कोंगुपट्टी डाक, पन्नापट्टी एस.ओ. सलेम जिला— 636305, तमिलनाडु	बीवीएससीएंडएच /टीएनयूवीएस /09	30.10.86
2868	उधरेजा रतिलाल गोविंदभाई	जीवीसी/1343	13, अमित जीवन सोसायटी, राजवाड़ा रोड, जीवरज पार्क, अहमदाबाद, गुजरात	बीवीएससीएंडएच /जीएयू/95	12.6.51
2869	उगेन्दर सिंह, पुत्र श्री वीरेंद्र सिंह	हरिएसवीसी/2 140	1716, वार्ड न.1, चरखी दादरी, जिला भिवानी, हरियाणा	बीवीएससीएंडएच /स्वामीकेशवानंद आरएयू/10	4.9.86
2870	उघड नवनीत मुल्जीभाई	जीवीसी/2210	एटी—डाक:बोरडी समधियाला, तालुक जेतपुर, जिला— राजकोट— 360370, गुजरात	बीवीएससीएंडएच /जीएयू/99	22.2.78
2871	उकानी ब्रजलाल जीवाभाई	जीवीसी/389	एटी एवं डाक: चिखलिया, तालुक उपलेता, जिला राजकोट, गुजरात	बीवीएससीएंडएच /जीएयू/75	24.3.51
2872	उमाकांत जायसवाल, पुत्र श्री ज्ञानन जायसवाल	यूपीएसवीसी/ 4986/09	ग्राम एवं डाक— दौलत गंज, जिला बलरामपुर, उ.प्र.	बीवीएससीएंडएच /यूपीपीडीडीयूपीसी वीवी/09	02.02.82
2873	उमप स्वाति अशोक राव	महाएसवीसी/ 8185/09	दुहितोकुंज, टीघर्स कॉलोनी, तिवसा, तालुक—तिवसा, जिला — अमरावती —444903, महाराष्ट्र	बीवीएससीएंडएच /एमएंडएफएसयू /09	20.11.85

2874	उमेश कुमार गुप्ता, पुत्र श्री जीतेंद्र नाथ	जेवीसी/601 /09	श्री दुर्गा पैलेस अपार्टमेंट, 2-सी, मोदी कम्पाउंड, मारहाबादी बरियातु, रांची— 834008, झारखंड	बीवीएससीएंडएएच /आरएयू/82	11.11.59
2875	उमेश कुमार मौर्या, पुत्र श्री जय प्रकाश मौर्या	यूकेएसवीसी/ 454/09	294, प्रेम पुर माफी, कौलागढ़, जिला देहरादून, उत्तराखंड	बीवीएससीएंडएएच /जीबीआईएच; डब्ल्यूएंडटी/09	20.07.82
2876	उमेश कुमार पजारी, पुत्र श्री पापा पजारी	ओएसवीसी/2 293/09	एटी: खाला स्ट्रीट, डाक जैपोर, जिला— कोरापुट, 764001, उड़ीसा	बीवीएससीएंडएएच /ओयूएटी/09	27.08.86
2877	उमेश राजपूत, पुत्र श्री एच.सी. राजपूत	यूपीएसवीसी/ 5038/09	ग्राम— गुगौरा, डाक किवीहौवा, जिला महोबा, उ.प्र.	बीवीएससीएंडएएच /जेएनकेवीवी/09	15.03.81
2878	उमरेतिया रामजी नाथालाल	जीवीसी/1779	एटी: छोडावाडी, तालुक— भेसन, जिला— जूनागढ़— 362030, गुजरात	बीवीएससीएंडएएच /जीएयू/94	28.5.70
2879	उनादकत भावेश कुमार प्रभुदास	जीवीसी/1741	डी—230, अम्बिका कॉम्प्लेक्स, बस स्टैंड के निकट, खेडा— 387411, गुजरात	बीवीएससीएंडएएच /जीएयू/94	5.5.72
2880	उंधाद विशाल वीरजीभाई	जीवीसी/3157 /10	टीओ— खोराना, तालुक राजकोट, जिला राजकोट, गुजरात	बीवीएससीएंडएएच /एएयू/10	10.07.88
2881	उपाध्याय रजनीकांत देवशंकर	जीवीसी/791	8, शिव बंगला, गौड़ के कुएं के पास, सहजानंद स्कूल के निकट, जसोदा नगर रोड, मनि नगर पूर्व), अहमदाबाद	बीवीएससीएंडएएच /जीएयू/84	24.3.62
2882	उपाध्याय मौलिक राजूभाई	जीवीसी/3126 /10	पुराना बाजार, कनसारा स्ट्रीट, एटी कोडीनार, जिला— जूनागढ़, गुजरात	बीवीएससीएंडएएच /एएयू/10	23.09.88
2883	उपाध्याय सुकेतु कुमार बाबूलाल	जीवीसी/1615	19, सुपर—ए, तिरुपति बंगला, आबू हाईवे, पालनपुर— 385001, जिला बनासकंठा	बीवीएससीएंडएएच /जीएयू/93	13.7.71
2884	उपाध्याय दीक्षित कुमार लालशंकर	जीवीसी/876	14—अक्षरधाम फ्लैट्स, अर्बन बैंक रोड, मेहसाना, गुजरात	बीवीएससीएंडएएच /जीएयू/85	10.2.63
2885	उपेंद्र कुमार, पुत्र श्री राम केवल	यूपीएसवीसी/ 4947/09	ग्राम एवं डाक— उमरपुर दोस्त पुर, जिला— अम्बेडकर नगर, उ.प्र.	बीवीएससीएंडएएच /एनडीयूएंडटी/ 09	16.01.80

2886	उर्वशी वर्मा, पुत्री श्री गिरधर वर्मा	सीएचएसवीसी / 504 / 10	सिविल लाइन, राजमहल कॉलोनी, कबीर धाम, छत्तीसगढ़	बीवीएससीएंडएच / आईजीकेवीवी / 0 9	27.06.86
2887	उस्मानी अबरार अहमद अब्दुल अहमद	जीवीसी / 907	1136 / 7, सिलोडवाद, पानी की नई टंकी के निकट, नवसारी, गुजरात	बीवीएससीएंडएच / जीएयू / 87	7.4.64
2888	वी. श्री हरि, पुत्र श्री वी. रामनइयाह	एपीएसवीसी / 04852 / 09	डी.न. 6-164 / ए, धनलक्ष्मी नगर, अविलाला, आर.सी. रोड, तिरुपति-517501, आंध्र प्रदेश	बीवीएससीएंडएच / एसवीवीयू / 09	08.06.85
2889	वी. श्रीनिवास, पुत्र श्री वी.कोटेश्वर राव	एपीएसवीसी / 04950 / 09	कनमारलापुडी डाक, सावल्यापुरम (एम), गुंटूर जिला, आंध्र प्रदेश	बीवीएससीएंडएच / एसवीवीयू / 09	02.04.85
2890	वी. ज्ञानी चतिथा, पुत्री श्री वी. पुंडारीकचारी	एपीएसवीसी / 04886 / 09	17-465 डी-4-11, विवेकानंद नगर, मदनापल्ली चित्तूर जिला, आंध्र प्रदेश	बीवीएससीएंडएच / एसवीवीयू / 09	02.03.85
2891	वी. हिमानी रेड्डी, पुत्री श्री वी. त्रिपालू रेड्डी	एपीएसवीसी / 04918 / 09	डी.न. 5-3-40, वेस्ट स्ट्रीट, नायुडुपेटा, श्रीपोट्टी श्रीमुलु, नेल्लोर जिला, आंध्र प्रदेश	बीवीएससीएंडएच / एसवीवीयू / 09	08.07.84
2892	वी.के. गुप्ता, पुत्र श्री आर.पी. गुप्ता	यूपीएसवीसी / 5065 / 10	ग्राम एवं डाक-सलेमगढ़ बाजार, जिला-कुशीनगर, उ.प्र.	बीवीएससीएंडएच / केयू / 09	06.12.76
2893	वी.के. तिवारी, पुत्र श्री साजन कुमार तिवारी	यूपीएसवीसी / 5017 / 09	ग्राम- सोनई, डाक आँता मेजा, जिला इलाहबाद, उ.प्र.	बीवीएससीएंडएच / एमएफएसयू / 0 9	25.03.84
2894	वी.एस. किरन कुमार पुट्टी, पुत्र श्री वी.एस.आर.के. गणेश पुट्टी	एपीएसवीसी / 04817 / 09	17 / 109, मंडापडु, गुडीवाडा, कृष्णा जिला- 521301, आंध्र प्रदेश	बीवीएससीएंडएच / एनजीआरएयू / 05	14.01.82
2895	वी. सोमशेखर, पुत्र श्री वी. मलइयाह	एपीएसवीसी / 04838 / 09	जगदेवपेट डाक व ग्राम, वेलगटूर (एम), करीमनगर जिला, आंध्र प्रदेश	बीवीएससीएंडएच / एसवीवीयू / 09	20.06.84
2896	वछानी जिग्नेश कुमार विनय चंद्र	जीवीसी / 2291	एटी: भोला, तालुक: धोराजी, जिला राजकोट- 360040, गुजरात	बीवीएससीएंडएच / जीएयू / 00	26.11.76
2897	वछानी रोहित कुमार वल्लभ दास	जीवीसी / 1837	वेटरिनरी डिस्पेंसरी, सावली, तालुक सावली, जिला बड़ोदरा, गुजरात	बीवीएससीएंडएच / जीएयू / 95	23.9.71

2898	वडालियश जयसुख धीरूभाई	जीवीसी/3094 /09	टीओ- कमालपुर, तालुक जसदान, जिला राजकोट, गुजरात	बीवीएससीएंडएच /एचयू/09	30.01.87
2899	वढेर अनिल कुमार अमृतलाल	जीवीसी/1785	एटी: राधू तालुक- मटार, जिला खेडा, गुजरात	बीवीएससीएंडएच /जीएचयू/95	4.4.70
2900	वढेर भूपत भावजी	जीवीसी/2026	78-नेमानाथ नगर, मॉडल टाउन रोड, उम्भाल, पर्वत पटिया, सूरत, गुजरात	बीवीएससीएंडएच /जीएचयू/97	3.5.69
2901	वढेर गोबरभाई नारनभाई	जीवीसी/1076	एटी- कंटाला, गिरडेवाली, तालुक कोडीनार, जिला जूनागढ़, गुजरात	बीवीएससीएंडएच /जीएचयू/88	1.6.84
2902	वढेर वश्रामभाई रामाभाई	जीवीसी/427	बी-53, राधाकृष्ण नगर सोसायटी, मोती बाग के पास, जूनागढ़- 362001, गुजरात	बीवीएससीएंडएच /जीएचयू/76	15.8.50
2903	वडनागरा नवनीत जेठाभाई	जीवीसी/1552	एटी एवं डाक- बागथाला, तालुक- मोरबी, जिला राजकोट, गुजरात	बीवीएससीएंडएच /जीएचयू/92	8.9.70
2904	वगाडिया रसिक लाल फुल्लाभाई	जीवीसी/1717	एटी एवं डाक- पलास्वा, वाया: टिम्बावाडी, तालुक व जिला- जूनागढ़, गुजरात	बीवीएससीएंडएच /जीएचयू/94	22.6.70
2905	वघासिया बाबूलाल जैरामभाई	जीवीसी/1177	वेटरिनरी डिस्पेंसरी, चलाला, तालुक- धारी, जिला अमरेली, गुजरात	बीवीएससीएंडएच /जीएचयू/89	15.6.65
2906	वघासिया छगन लाल वीराजीभाई	जीवीसी/390	30-श्रीधर नगर, लाल बाग के पीछे, शशि कुंज रोड, जूनागढ़- 362001, गुजरात	बीवीएससीएंडएच /जीएचयू/75	25.2.52
2907	वघासिया प्रकाश कुमार ब्रजलाल	जीवीसी/1881	66, श्रीनाथ नगर, स्ट्रीट न.-2, जूनागढ़- 362002, गुजरात	बीवीएससीएंडएच /जीएचयू/95	15.10.74
2908	वघासिया सावजीभाई नाथूभाई	जीवीसी/1059	"शिव कुंज", 1-शक्ति नगर, शांतेश्वर रोड, जोशीपुरा, जूनागढ़- 362002, गुजरात	बीवीएससीएंडएच /जीएचयू/88	31.5.64
2909	वहोरा गुलमहम्मद इब्राहीम	जीवीसी/491	12/26/58, सरवारिवा मस्जिद रांड, बागडाग नगर, आनंद, जिला-आनंद, गुजरात	बीवीएससीएंडएच /जीएचयू/78	29.12.54

2910	वैष्णव कल्पेश कुमार शंकरलाल	जीवीसी/2180	वेटरिनरी डिस्पेंसरी, बबारा, तालुक बबारा, जिला अमरेली, गुजरात	बीवीएससीएंडएएच / जीएयू/99	5.10.77
2911	वजा घनश्याम नारनजी	जीवीसी/426	10-ए, पंचशील सोसायटी, संस्कार नगर, भुज (कच्छ)- 370001, गुजरात	बीवीएससीएंडएएच / जीएयू/76	2.4.52
2912	वलागोंठ मंजीभाई रामजीभाई	जीवीसी/2101	एटी: परखडी, डाक छनियाना, तालुक वछगाम, जिला बनासकंठा -385410, गुजरात	बीवीएससीएंडएएच / जीएयू/98	1.6.71
2913	वलारमठी एम. (के. मुरुगोसन)	टीएनएसवीसी /4640/09	एम6, 14/19, एस.वी.पी.एन.एस. कॉलोनी, अल्लमपट्टी, पुराना अरुप्पुकोट्टई रोड, विरुधुनगर 626001, तमिलनाडु	बीवीएससीएंडएएच / टीएनयूवीएएस /09	03.07.86
2914	वनथी के. (आर.वी. कृष्णामूर्ति)	टीएनएसवीसी /4522/09	11, मरियमन कोविल स्ट्रीट, थिरुप्पथिरीपूलियूर, कुडालोर-2, तमिलनाडु	बीवीएससीएंडएएच / टीएनयूवीएएस /09	21.12.85
2915	वंदना, पुत्री श्री बंश गोपाल यादव	यूकेएसवीसी/ 494/09	बी-61, बेनी कॉलोनी, डेरी फार्म, नागला, यू. एस. नगर, उत्तराखंड	बीवीएससीएंडएएच / जीबीआईएच; डब्ल्यूएंडटी/09	01.09.85
2916	वानिया जगदीश सम्पतभाई	जीवीसी/3164 /10	एटी- डुंगेर, तालुक राजुला, जिला अमरेली, गुजरात	बीवीएससीएंडएएच / एएयू/10	15.02.82
2917	वनकार बिपिनचंद्र गोरधनभाई	जीवीसी/3078 /09	वनकार वास, "कृष्णा चौक", बंदनी, तालुक पेटलाद, जिला नाडियाड, गुजरात	बीवीएससीएंडएएच / एएयू/09	07.04.84
2918	वनकार मनुभाई नाथा भाई	जीवीसी/1919	एटी मेध, तालुक वाडाली, जिला साबरकंठा, गुजरात	बीवीएससीएंडएएच / जीएयू/96	1.6.69
2919	वनपरिया कमलेश कुमार हिरजी भाई	जीवीसी/965	"सहज" भाकुम भाईजीपुरा- 19, नई टेलीफोन एक्सचेंज के पास, विसि रोड, धोराजी - 360140, जिला: राजकोट, गुजरात	बीवीएससीएंडएएच / जीएयू/86	5.9.62
2920	वर्धराजन टी. (एस. थंगावेलु)	टीएनएसवीसी /4453/09	7, पार्वती नगर, तिरुवन्नामलई पिन- 606603, तमिलनाडु	बीवीएससी/टीएन यूवीएएस/93	31.05.69
2921	वर्धीज़ सेमुअल मथाई, पुत्र श्री सेमुअल मथाई	केएसवीसी/35 41/09	जेओ वेट्टीकोडे डाक, कायमकुलम, अलपुज़ाह- 690503, केरल	बीवीएससीएंडएएच / केएयू/09	01.06.85

2922	वरसानी करसन हरजी	जीवीसी/351	फ्लैट-16/ए, पूनावाड़ी, जीईबी ऑफिस के सामने, नवावास, मधापार, तालुक भुज, जिला कच्छ, पिन-370020, गुजरात	बीवीएससीएंडएच / जीबीपीयूएटी/74	6.3.48
2923	वर्षा सिंह, पुत्री श्री इंदर विजय सिंह	सीएचएसवीसी /465/09	सिंह निवास, सेक्टर-1, पॉइंट न. 9, रिसाली जिला दुर्ग, छत्तीसगढ़	बीवीएससीएंडएच / आईजीकेवी/07.08	25.01.83
2924	वरुण जॉय, पुत्र श्री ई. आई. जॉय	केएसवीसी/3521/09	इडाट्टुकरन हाउस, माला डाक, थिसूर-680732, केरल	बीवीएससीएंडएच / केएयू/09	09.08.85
2925	वरुण कुमार, पुत्र श्री वी.एन. सोनकर	यूपीएसवीसी/5044/09	ग्राम एवं डाक- अम्बारी, जिला आजमगढ़, उ.प्र.	बीवीएससीएंडएच / एनडीयूएंडटी/09	05.03.82
2926	वरुण राना, पुत्र श्री जे.पी. राना	एचवीसी/860/09	ग्रीन वैली कॉलोनी, लोहना, तहसील पालनपुर, जिला कांगड़ा, हि.प्र.	बीवीएससीएंडएच / सीएसकेएचपीकेवी/09	02.05.85
2927	वरुण कुमार एस. (एम. सुब्रमण्यम)	टीएनएसवीसी /4651/09	14/153-ए, वेलावन नगर, दूसरी स्ट्रीट, मदलायम रोड, सिवानंदपुरम, कोयम्बतूर-641006, तमिलनाडु	बीवीएससीएंडएच / टीएनयूवीएस/09	07.10.85
2928	वर्चदिया हर्षद कुमार बेचरभाई	जीवीसी/3037/09	एटी एवं डाक- चंगवाड़ा, तालुक वडगाम, जिला- बीके, 385520, गुजरात	बीवीएससीएंडएच / एसडीएयू/09	27.04.85
2929	वसंथ एस. (ए. सुब्रामनि)	टीएनएसवीसी /4592/09	56/61, थिरुनगर, हस्थम पट्टी, सलेम-636007, तमिलनाडु	बीवीएससीएंडएच / टीएनयूवीएस/09	27.11.84
2930	वसंथ कुमार डी. (के. दोराईस्वामी)	टीएनएसवीसी /4456/09	62, सिम्पसन नगर, इदारपलायम, कोयम्बतूर- 641025, तमिलनाडु	बीवीएससी / टीएनएयू/85	26.05.58
2931	वासव रवीन्द्र कुमार लालजीभाई	जीवीसी/2006	एटी: गालीबा, डाक वल्पार, तालुक: जघादिया, भड़ौच, गुजरात	बीवीएससीएंडएच / जीएयू/99	1.6.73
2932	वाजिलाबानू एम. (सी. एस. महबूबखान)	टीएनएसवीसी /4625/09	19, कामची अम्मन कोइल स्ट्रीट, मस्जिद के निकट, चेन्नीमलाई-638051, तमिलनाडु	बीवीएससीएंडएच / टीएनयूवीएस/09	21.07.85
2933	वीरामनि डी.एस. (डी. सेल्वनाथन)	टीएनएसवीसी /4428/09	डोर न.23, 6-ए, क्रॉस स्ट्रीट, थेंडरल नगर, एम.सी. रोड, थंजावूर- 613007, तमिलनाडु	बीवीएससी / टीएनयूवीएस/93	24.05.70

2934	वीरापंडियान एस. (एस. सिवासामी)	टीएनएसवीसी /4502/09	प्लॉट नं. 5, एमआईजी, टीएनएस सीबी कॉलोनी, सराह टकर कॉलेज रोड, बी. कॉलोनी एक्सटेंशन, पेरुमलपुरम, तिरुनेलवेली-627007, त.ना.	बीवीएससीएंडएच /टीएनयूवीएस /09	04.05.86
2935	वेलू मरियप्पन टी. (पी. थंडईअप्पन)	टीएनएसवीसी /4416/09	भारती नगर (कल्लूर), डाक थिरुवुडनाई, रामनाथपुरम जिला, पिन-623407, तमिलनाडु	बीवीएससी / टीएन यूवीएस / 98	30.05.73
2936	वेन विभाभाई कर्मशीभाई	जीवीसी / 1962	टीओ: मलसान, डाक: वावाडी, तालुक: वाव, जिला- बनासकंठा, गुजरात	बीवीएससीएंडएच / जीएयू / 96	1.6.69
2937	वेंकटाचलम एस. (वी. सुब्रमण्यन)	टीएनएसवीसी /4681/10	22, कोट्टई किनारु स्ट्रीट, मेलूर डाक, मदुरै- 625106, तमिलनाडु	बीवीएससी / टीएन यू / 77	28.04.53
2938	वेंकीडुसामी पी. (आर. पलानीसामी)	टीएनएसवीसी /4597/09	5/69, मोलापलायम, डाक कुरुमंडूर, गोबी तालुक, इरोडे जिला- 638457, तमिलनाडु	बीवीएससीएंडएच / टीएनयूवीएस / 09	06.05.85
2939	वर्मा श्याम नयाराम	जीवीसी / 585	द्वारा वेटरिनरी सेक्शन, साबर डेरी, एटी एवं डाक- बोरिया, तालुक हिम्मत नगर, जिला साबरकंठा, पिन- 383001	बीवीएससीएंडएच / जीबीपीयूएटी / 80	15.12.56
2940	विभाकर किशोर चंद्र ब्रजलाल	जीवीसी / 525	ए-402, श्री अजीत अपार्टमेंट, 2-रामकृष्ण नगर (पश्चिम), विरानी हाई स्कूल के पीछे, राजकोट-2, गुजरात	बीवीएससीएंडएच / जीएयू / 79	1.1.56
2941	विद्यानंद शर्मा, पुत्र श्री आर.बी. शर्मा	यूपीएसवीसी / 5069/10	44/4, जागृति विहार, सेक्टर -4, जिला- मेरठ, उ.प्र.	बीवीएससीएंडएच / जीबीआईएच; डब्ल्यूएंडटी / 82	01.01.58
2942	विग्नेश वासुदेवन, पुत्र श्री वासुदेवन वी.	कर्नाएसवीसी / 4351/09	ईजेड-703, व्हाइट हाउस, छठा मेन, 15वां क्रॉस, आर.टी. नगर, बेंगलुरु- 560032, कर्नाटक	बीवीएससीएंडएच / केवीएफएसयू / 09	18.7.84
2943	विहोल दिलीप सिंह परखनजी	जीवीसी / 1231	एटी एवं डाक- पिलवई, तालुक वीजापुर, जिला मेहसाना, गुजरात	बीवीएससीएंडएच / जीएयू / 89	28.1.66
2944	विजय कपूर, पुत्र श्री कुमेर चंद	एचवीसी / 862 / 09	ग्राम- भरमत, डाक बनूरी, तहसील पालमपुर, जिला कांगड़ा, हि.प्र.	बीवीएससीएंडएच / सीएसकेएचपीकेवी / 09	02.01.84
2945	विजय कुमार मीना, पुत्र श्री रामेश्वर मीना	राजएसवीसी / 3637/09	ग्राम एवं डाक- तीरथ, तहसील- बूंदी, बूंदी- 323602, राजस्थान	बीवीएससीएंडएच / आरएयू / 09	03.08.83

2946	विजय कुमार, पुत्र श्री आत्मा राम	राजएसवीसी/ 3635/09	चाक 4 पीएचएम, ग्राम व डाक- 61 हैड, थाना- खाजूवाला, बीकानेर - 334023, राजस्थान	बीवीएससीएंडएच /आरएयू/09	03.06.79
2947	विजय मल्ला, पुत्र श्री आर.बी. मल्ला	यूपीएसवीसी/ 4992/09	सी-4/7, उमेश पार्क, मोदी नगर, गाजियाबाद, उ.प्र.	बीवीएससीएंडएच /सीसीएसएचएयू/ 09	11.12.83
2948	विजय कुमार हलकट्टी, पुत्र श्री मल्लिकार्जुन	कर्नाएसवीसी/ 4272/09	छठा क्रॉस, राजेश्वरी नगर, रानेबेन्नूर- 581115, हावेरी जिला, कर्नाटक	बीवीएससीएंडएच /केवीएफएसयू/ 09	5.7.86
2949	विजय क्षी टी.सी., पुत्री श्री चंद्रू टी. एल.	कर्नाएसवीसी/ 4327/09	न. 14, अंचेकेम्पेगौडानेर डोड्डी, रामनगर तालुक व जिला- 571511, कर्नाटक	बीवीएससीएंडएच /केवीएफएसयू/ 09	12.1.87
2950	विजयराज पी. (एम. पलानीसामी)	टीएनएसवीसी /4635/09	81/64, साउथ स्ट्रीट, नईवनम, सेंदुरई डाक, अरियालूर जिला, तमिलनाडु	बीवीएससीएंडएच /टीएनयूवीएस /09	10.05.86
2951	विजी विल्सन, पुत्री श्री एम.सी. विल्सन	केएसवीसी/35 84/09	मंगन हाउस, पोरकुलम (डाक), थिरुथिकड्डा, थिसूर- 680542, केरल	बीवीएससीएंडएच /केएयू/09	21.05.86
2952	विकास कुमार, पुत्र श्री सोमपाल सिंह	यूपीएसवीसी/ 4950/09	ग्राम लालपुर चौहान, डाक सुल्तान पुर, जिला- मुरादाबाद, उ.प्र.	बीवीएससीएंडएच /यूपीपीडीडीयूपीसी वीवी/09	05.07.85
2953	विकास, पुत्र श्री एस.एस. श्रीवास्तव	यूपीएसवीसी/ 4971/09	हरिद्वार पुरम, राप्ती नगर, गोरखपुर, उ.प्र.	बीवीएससीएंडएच /जीबीआईएच; डब्ल्यूएंडटी/09	23.07.83
2954	विकास यादव, पुत्र श्री अनार सिंह यादव	यूपीएसवीसी/ 4917/09	2/96, आवास विकास कॉलोनी, मैनपुरी, उ. प्र.	बीवीएससीएंडएच /यूपीपीडीडीयूपी सीवीवी/09	20.07.83
2955	विकाश चंद्र, पुत्र श्री घासीराम	यूपीएसवीसी/ 4953/09	ग्राम एवं डाक- अटराजपुर सैफई, जिला इटवा, उ.प्र.	बीवीएससीएंडएच /यूपीपीडीडीयूपीसी वीवी/09	03.02.84
2956	विकाश कुमार, पुत्र श्री राम नारायण	यूपीएसवीसी/ 4939/09	ग्राम एवं डाक- साजेत, जिला कानपुर नगर, उ.प्र.	बीवीएससीएंडएच /एनडीयूएंडटी/ 09	10.04.82
2957	विकाश सिंह, पुत्र श्री आर.पी. सिंह	यूपीएसवीसी/ 4997/09	ग्राम एवं डाक-कुंडवाली, डाक लार रोड, जिला देवरिया, उ.प्र.	बीवीएससीएंडएच /एनडीयूएंडटी/ 09	01.01.85

2958	विकाश कुमार, पुत्र श्री अशोक कुमार सिंह	एमपीएसवीसी /2645/09	ग्राम— दैनिहा, डाक व जिला— सिधी, म.प्र.— 486661	बीवीएससीएंडएच /केवीएंडएफएसयू /09	23.4.83
2959	विक्रम फोगट, पुत्र श्री कमल फोगट	हरिएसवीसी/2 132	1248/21, प्रेम नगर, हैफेड चौक, रोहतक, हरियाणा	बीवीएससीएंडएच /जेएनकेवीवी/09	7.7.77
2960	विक्रम, पुत्र श्री पारस नाथ	यूपीएसवीसी/ 4910/09	5/18/212, असिया बचरा, सुल्तानपुर, जिला फैजाबाद, उ.प्र.	बीवीएससीएंडएच /यूपीपीडीडीयूपीसी वीवी/09	20.09.82
2961	विक्रम सिंह, पुत्र श्री रमेश चंदर	पीबीएसवीसी/ 2861/09	मौहल्ला डिबीपुरा, म.न. बी— IV , 327, कोटकापुरा, जिला फरीदकोट, पंजाब	बीवीएससीएंडएच /यूपीपीडीडीयूपी सीवीवीईगोवा/09	26.6.86
2962	विमल एण्टोनी मुट्टाथेट्ट, पुत्र श्री एण्टोनी जोसेफ	केएसवीसी/35 50/09	मुट्टाथेट्ट हाउस, चाजाडी, मंथानम, डाक कुन्मथनम, पथानमथिट्टा—689581, केरल	बीवीएससीएंडएच /केएयू/09	14.02.85
2963	विमल कुमार, पुत्र श्री गंगा राम महतो	जेवीसी/598 /09	चिचहारा, डाक मटिहानी सरैयाहाट, दुमका, झारखंड	बीवीएससीएंडएच /जेएनकेवीवी/09	03.05.81
2964	विनय कुमार अरोड़ा, पुत्र श्री विनोद कुमार अरोड़ा	पीबीएसवीसी/ 2907/09	म.न. 297, स्ट्रीट न. 5, रामगंज रोड, मोगा, पंजाब	बीवीएससीएंडएच /जीएडीवीएसयू /09	12.11.86
2965	विनय कुमार बाबेले, पुत्र श्री जगदीश प्रसाद	एमपीएसवीसी /2621/09	20/106, गुरु नानक वार्ड, कटनी, म.प्र.— 483501	बीवीएससीएंडएच /जेएनकेवीवी/09	8.07.81
2966	विनय कुमार, पुत्र श्री उत्तम चंद	एचवीसी/863 /09	ग्राम— माजेहरा, डाक कछेरा, तहसील जयसिंहपुर, जिला कांगड़ा, हि.प्र.	बीवीएससीएंडएच /सीएसकेएचपीकेवी /09	29.07.83
2967	विनय पुनिया, पुत्र श्री सदा राम	हरिएसवीसी/2 133	616/3, आदर्श नगर गोहाना जिला, सोनीपत, हरियाणा	बीवीएससीएंडएच /आरएयू/09	1.5.87
2968	विनय कुमार, पुत्र श्री जिले सिंह	हरिएसवीसी/2 130	1148, कमला नगर, रोहतक, हरियाणा	बीवीएससीएंडएच /सीसीएसएचएयू/ 09	12.5.83
2969	विनिथा ए. (ई.टी. अलरुलमोजी)	टीएनएसवीसी /4521/09	13/3, वेल्कम अपार्टमेंट्स, अन्ना नगर, वेस्ट एक्सटेंशन, चेन्नई— 600101, तमिलनाडु	बीवीएससीएंडएच /टीएनयूवीएस /09	05.12.85

2970	विनोद किरन सिंह अंडूभाई	जीवीसी / 3158 / 10	एटी एवं डाक— खवाड, तालुक कडी, जिला मेहसाना, गुजरात	बीवीएससीएंडएच / एएयू / 10	20.06.86
2971	विनोद कुमार चिन्ता, पुत्र च. वी. वी. सत्य नारायण	एपीएसवीसी / 04959 / 09	आंध्रा बैंक के पीछे, कपाटी स्ट्रीट, बंडारू लंका, अमलापुरम (एम): 533221, पूर्वी गोदावरी जिला, आंध्र प्रदेश	बीवीएससीएंडएच / एसवीवीयू / 09	13.06.86
2972	विनोद कुमार दिवातर, पुत्र श्री बालप्पा दिवातर	कर्नाएसवीसी / 4264 / 09	हिरेम्यागिरि— 583236, येलबर्गा तालुक, कोप्पल जिला, कर्नाटक	बीवीएससीएंडएच / केवीएएफएसयू / 09	26.1.87
2973	विनोद कुमार के.वी., पुत्र श्री वेंकटेश रेड्डी के.सी.	कर्नाएसवीसी / 4332 / 09	कोठानूर ग्राम व डाक— 562105, सिदलाघट्टा, चिक्कबल्लापुरा जिला, कर्नाटक	बीवीएससीएंडएच / केवीएएफएसयू / 09	24.4.86
2974	विनोद कुमार, पुत्र श्री आत्मा राम	पीबीएसवीसी / 1162 / 10	16, डिसेंट एन्कलेव, बारेल रोड, लुधियाना, पंजाब	बीवीएससी / जीबीअ आईएच; डब्ल्यूएंडटी / 79	7.4.55
2975	विनोथ कुमार एम. (एल. मनोहरन)	टीएनएसवीसी / 4662 / 09	11 / 23, गजराज मुदाली स्ट्रीट, साईनाथपुरम, वेल््लोर— 632001, तमिलनाडु	बीवीएससीएंडएच / टीएनयूवीएस / 09	27.09.86
2976	वीनू एम. नम्बूथिरी, पुत्र श्री एम. माधवन नम्बूथिरी	केएसवीसी / 35 52 / 09	चंद्रामना पैलेस रोड, कोल्जमपुजा, अट्टिंगल, थिरुवनंतपुरम—695101, केरल	बीवीएससीएंडएच / केएयू / 09	10.11.85
2977	विपिन कुमार, पुत्र श्री चंदन सिंह अस्वाल	यूकेएसवीसी / 455 / 09	एम.बी.एन.के. कुटेटी देवी, जिला— उत्तरकाशी, उत्तराखंड	बीवीएससीएंडएच / जीबीआईएच; डब्ल्यूएंडटी / 09	02.02.87
2978	वीर सिंह राजपूत, पुत्र श्री डी.पी. सिंह राजपूत	यूपीएसवीसी / 4988 / 09	ग्राम एवं डाक— इटीलिया (बया), सरीला, हमीरपुर, उ.प्र.	बीवीएससीएंडएच / एनडीयूएंडटी / 09	07.05.82
2979	विराम वार्णोय, पुत्र श्री वी.के. वार्णोय	यूपीएसवीसी / 4959 / 09	रवि कुंज, भट्टे वाली गली, हाथरस, उ.प्र.	बीवीएससीएंडएच / यूपीपीडीडीयूपीसी वीवी / 09	31.05.81
2980	वीरमगाम बिपिन कुमार प्रेमजी भाई	जीवीसी / 1712	अम्बापेट स्ट्रीट, यूको बैंक के निकट, एटी व डाक— सुपेदी, तालुक— धोराजी, राजकोट जिला, पिन—360440, गुजरात	बीवीएससीएंडएच / जीएयू / 93	16.6.70
2981	विरानी वल्लभभाई पदमशीभाई	जीवीसी / 766	11, सरिता बंगला, गोविंद पार्क, जवाहर नगर के पीछे, पालियाड रोड, एटी / तालुक— बोताड, जिला भावनगर, गुजरात	बीवीएससीएंडएच / जीबीपीयूएटी / 72	13.9.52

2982	वीरेंद्र कुमार, पुत्र श्री भंवर लाल ढाका	राजएसवीसी / 3715 / 10	ग्राम एवं डाक— नेटरवास, बाया— ढोड, सीकर— 332022, राजस्थान	बीवीएससीएंडएच / एसकेवीआरएयू/ 10	04.05.84
2983	वीरेंद्र कुमार, पुत्र श्री श्याम सिंह	यूकेएसवीसी / 484 / 09	प्रेम नगर, गली न. 1, बी.टी.सी. अस्पताल के निकट, रूड़की, जिला हरिद्वार, उत्तराखंड	बीवीएससीएंडएच / यूपीएयू / 68	15.09.46
2984	वीरेंद्र कुमार, पुत्र श्री विद्याधर	राजएसवीसी / 3722 / 10	ग्राम— पडेवा, तहसील खेत्री, झुंझुनू— 332716, राजस्थान	बीवीएससीएंडएच / एसकेवीआरएयू/ 10	02.03.86
2985	वीरेंद्र पाल सिंह	जीवीसी / 656	10, मैत्री सोसायटी, नाना कुम्भ नाथ रोड, अंकुर सोसायटी के निकट, नाडियाड— 387001, गुजरात	बीवीएससीएंडएच / जीबीपीयूएटी / 66	16.2.43
2986	वीरेंद्र शर्मा, पुत्र श्री राजेंद्र प्रसाद	एचवीसी / 864 / 09	ग्राम खासरी, डाक नाल्टी, तहसील घुमारविन, जिला— बिलासपुर, हि.प्र.	बीवीएससीएंडएच / सीएसकेएचपीकेवी / 09	10.09.82
2987	वीरेंद्र सिंह, पुत्र श्री बाबू राम आर्या	यूपीएसवीसी / 4928 / 09	बी.एम.एम.एस., 5, इंदिरा पुरम, शम्साबाद रोड, आगरा—1, उ.प्र.	बीवीएससीएंडएच / एनडीयूएंडटी / 09	18.12.82
2988	वीरेंद्र सिंह, पुत्र श्री शीषराम गुर्जर	राजएसवीसी / 3644 / 09	ग्राम एवं डाक— रीनदयाल गुर्जर, बयाशरी महावीरजी, सवाईमाधोपुर—322220, राजस्थान	बीवीएससीएंडएच / केवीएफएसयू/ 09	25.05.80
2989	विरिन्दर सिंह, पुत्र श्री सी.पी. सिंह	यूपीएसवीसी / 5001 / 09	ग्राम: नंदपुर बिटा, डाक— शादपुर गंगू, जिला— मुरादाबाद, उ.प्र.	बीवीएससीएंडएच / जीबीआईएच; डब्ल्यूएंडटी / 09	05.06.84
2990	वीरूगामा जयंतिलाल नारायण भाई	जीवीसी / 2036	एटी— धोली, तालुक— ढांगधारा, जिला— सुरेंद्र नगर, गुजरात	बीवीएससीएंडएच / जीएयू / 96	17.6.72
2991	विश्वदीप पाहवा, पुत्र श्री रमेश कुमार पाहवा	पीबीएसवीसी / 2908 / 09	आदर्श नगर, स्ट्रीट—3, मकान न. 1055, फाजिल्का, पंजाब	बीवीएससीएंडएच / जीएडीवीएसयू / 09	6.11.83
2992	विष्णु कुमार, पुत्र श्री राम किशन	राजएसवीसी / 3694 / 09	चार भुजा मंदिर के पीछे, मालपुरा, टोंक— 304502, राजस्थान	बीवीएससीएंडएच / आरएयू / 09	24.10.85
2993	विश्वनाथ, पुत्र श्री सिदय्या	कर्नाएसवीसी / 4271 / 09	कडवाड— 585226, तालुक व जिला— बिदर, कर्नाटक	बीवीएससीएंडएच / केवीएफएसयू/ 09	15.7.86

2994	विश्वनाथ बी., पुत्र श्री बासवलिंगप्पा	कर्नाएसवीसी / 4330 / 09	बन्नीनगर, सिरा- 572137, तुमकुर जिला, कर्नाटक	बीवीएससीएंडएच / केवीएफएसयू/ C9	25.3.87
2995	विश्वेंदर एस. (ए. सम्बन्धन)	टीएनएसवीसी / 4517 / 09	74-ए, रोजा स्ट्रीट, पूंगा नगर, त्रिवेल्लेर- 602001, तमिलनाडु	बीवीएससीएंडएच / टीएएनयूवीएस / 09	26.05.86
2996	विठ्ठल सुभाष कौजलागी, पुत्र श्री सुभाष बी.कौजलागी	कर्नाएसवीसी / 4280 / 09	कौजलागी डाक 591227, गोकक तालुक, बेलगाम जिला, कर्नाटक	बीवीएससीएंडएच / केवीएफएसयू/ 09	30.8.86
2997	विवेक कुमार, पुत्र श्री आर.के. वर्मा	यूपीएसवीसी / 4927 / 09	ग्राम एवं डाक- यूजीओ, जिला- उन्नाव, उ. प्र.	बीवीएससीएंडएच / एनडीयूएंडटी / 09	16.02.82
2998	विवेक कुमार, पुत्र श्री राजवीर महेश्वरी	यूपीएसवीसी / 5021 / 09	ग्राम एवं डाक- मैनी, जिला एटा, उ.प्र.	बीवीएससीएंडएच / यूपीपीडीडीयूपीसी वीवी / 09	13.07.80
2999	विवेक पाल, पुत्र श्री वी.बी. पाल	यूपीएसवीसी / 4905 / 09	174, गांधी नगर, जिला- इटावा, उ.प्र.	बीवीएससीएंडएच / जीबीआईएच; डब्ल्यूएंडटी / 09	23.10.81
3000	विवेक उन्नीकृष्णन, पुत्र श्री ए.के. उन्नीकृष्णन	केएसवीसी / 35 57 / 09	प्लॉट न. 205, हिल गार्डन्स, कुट्टानेल्लोर, श्रिसूर- 680014, केरल	बीवीएससीएंडएच / केएयू / 09	26.04.85
3001	विवेकानंदन एम. (के. मथइय्यन)	टीएनएसवीसी / 4594 / 09	11-1-3ए2, केसवन नगर, कन्ननकुरिची डाक, सलेम- 636008, तमिलनाडु	बीवीएससीएंडएच / टीएनयूवीएस / 09	04.10.85
3002	बोरा घनश्याम भाई किशोर भाई	जीवीसी / 1406	20 / 1, रणछोड़ नगर सोसायटी, जैन डेरसर के सामने, राजकोट, गुजरात	बीवीएससीएंडएच / जीएयू / 91	14.10.68
3003	बोरा ललित कुमार रतिलाल	जीवीसी / 802	13, शिद्धि विनायक सोसायटी, आरसी टैक्नीकल रोड, घाटलोडिया, अहमदाबाद- 61, गुजरात	बीवीएससीएंडएच / जीएयू / 84	1.4.60
3004	व्यास हरगोविंद फूलशंकर	जीवीसी / 69	18, लाल बहादुर सोसायटी, एस.टी. बस स्टैंड के निकट, जूनागढ़- 362001, गुजरात	बीवीएससीएंडएच / बम्बई विवि / 62	27.4.29
3005	व्यास हरगोविंद फूलशंकर	जीवीसी / 69 / 09	18, लाल बहादुर सोसायटी, एस.टी. बस स्टैंड के निकट, जूनागढ़- 362001, गुजरात	बीवीएससीएंडएच / बीयू / 62	27.04.29

3006	व्यास नवलरे धनेश्वर	जीवीसी/62	आशीर्वाद, 2/5, श्रमजीवी सोसायटी, धेवर रोड, राजकोट-2, गुजरात	बीवीएससी/ बम्बई विवि/59	8.4.35
3007	व्यास सहदेव कुमार बाबूलाल	जीवीसी/903	एटी एवं डाक- वारेठा, तालुक- खेरालू, जिला- मेहसाना, गुजरात	बीवीएससीएंडएच / जीएयू/86	13.6.62
3008	व्यास संजय कुमार रमेश चंद्र	जीवीसी/1436	एटी एवं डाक-लक्ष्मीपुरा, तालुक- खेदब्रह्मा, जिला- सावरकंठा, गुजरात	बीवीएससीएंडएच / जीएयू/91	7.2.70
3009	व्यास उषेंद्र वसंतराय	जीवीसी/352	8. आनंद बाग सोसायटी, वेल्कम प्लाजा के सामने, गणेश चौकड़ी, आनंद, गुजरात	बीवीएससीएंडएच / जीएयू/74	25.4.52
3010	वैसाख मोहन, पुत्र श्री एस. विजय मोहन	केएसवीसी/35 48/09	उषामलारी, अम्बाडी नगर लेन-1, श्रीकरियम डाक, थिरुवनंतपुरम, केरल	बीवीएससीएंडएच / केएयू/09	14.05.86
3011	डब्ल्यू दीप्ती स्वप्न लथा, पुत्री श्री डब्ल्यू चंद्रा सेखर	एपीएसवीसी/ 04844/09	म.न. 26/554, विश्वासपुरम, नंदयाल, कुर्नूल जिला- 518502, आंध्र प्रदेश	बीवीएससीएंडएच / एसवीवीयू/09	01.06.85
3012	वाघ राजेश विश्वनाथ	महाएसवीसी/ 8171/09	गजानन नगर, वार्ड न. 17, एम.एस.ई.बी. कार्यालय के निकट, तालुक चिखाली, जिला बुलधाना- 443201, महाराष्ट्र	बीवीएससीएंडएच / एमएएंडएफएसयू /09	22.07.85
3013	वाघेला चंचल रघुराज सिंह	जीवीसी/3159 /10	शिवम पार्क सोसायटी, सर्वोदय बैंक के निकट, गोदी रोड, दाहोद, गुजरात	बीवीएससीएंडएच / एएयू/10	18.03.88
3014	वाघोडे देमंत जयंत	महाएसवीसी/ 8175/09	पुराना 'ई'-56, बीटीपीएस कॉलोनी, दीपनगर, तालुक भुसवाल, जिला जलगांव- 425307, महाराष्ट्र	बीवीएससीएंडएच / एमएएंडएफएसयू /09	21.05.85
3015	वांगीकर विनय दशरथराव	महाएसवीसी/ 8210/09	म.न.1-12-250, प्लॉट न. 87, हर्ष नगर, बाबा नगर के निकट, तालुक व जिला नांडेड- 431602, महाराष्ट्र	बीवीएससीएंडएच / एमएएंडएफएसयू /09	23.03.84
3016	वानखेडे धनंजय नामदेवराव	जीवीसी/1508	एटी, डाक व तालुक- वारुद, जिला अमरावती, महाराष्ट्र पिन- 444906, गुजरात	बीवीएससीएंडएच / पीकेवी/88	20.5.66
3017	वसीम शैम्स, पुत्र श्री शमीम शैम्स	सीएचएसवीसी /453/09	म.न. 7 ए, स्ट्रीट न. 32, सेक्टर न. 08, मिलर्ड, छत्तीसगढ़	बीवीएससीएंडएच / जेएलकेवीवी/87.	26.05.64

3018	वाई जया सुधा, पुत्री श्री वाई राजा रेड्डी	एपीएसवीसी/ 04885/09	आरेपल्ली (ग्राम), भवानीपेट (डाक), मचारेड्डी (एम), निजामाबाद जिला -503112, आंध्र प्रदेश	बीवीएससीएंडएच /एसवीवीयू/09	08.07.84
3019	वाई.के. यादव, पुत्र श्री रामफेर यादव	यूपीएसवीसी/ 5015/09	सी-2913, आवास विकास कॉलोनी, राजाजी पुरम, लखनऊ, उ.प्र.	बीवीएससीएंडएच /जेएनकेवीवी/09	01.08.81
3020	वाई. कमला कुमारी, पुत्री श्री वाई. सत्यम नायडू	एपीएसवीसी/ 04968/09	वुनुकुरु (ग्राम एवं डाक), राजम (वाया), श्रीकाकुलम जिला- 532122, आंध्र प्रदेश	बीवीएससीएंडएच /एसवीवीयू/09	19.06.86
3021	वाई. किरन कुमार, पुत्र श्री वाई. सत्य नारायण	एपीएसवीसी/ 04884/09	भक्तलापुरम (ग्राम एवं डाक), पैनपहाड़ (एम), नालगोंडा जिला- 508210, आंध्र प्रदेश	बीवीएससीएंडएच /एसवीवीयू/09	04.08.85
3022	वाई. सुनील कुमार, पुत्र श्री वाई. कोटेश्वर राव	एपीएसवीसी/ 04951/09	श्रीनगर तीसरी लाइन, डी.न. 7-17-161, गुंटूर-2, आंध्र प्रदेश	बीवीएससीएंडएच /एसवीवीयू/09	04.06.83
3023	यादव मनीष हंसराज	महाएसवीसी/ 8316/10	खासापुरी न. 2, तालुक परांदा, जिला उस्मानाबाद- 413502, महाराष्ट्र	बीवीएससीएंडएच /एमएएंडएफएसयू /09	05.07.86
3024	यादव रमन सिंह मातादीन	जीवीसी/1189	मकान न. 382/3, सेक्टर-29, गांधीनगर, गुजरात	बीवीएससीएंडएच /एचएयू/85	22.2.63
3025	यशोदा डी.सी., पुत्री श्री चिदा- नंदइयाह डी.एन.	कर्नाएसवीसी/ 4244/09	डीलक्स रोडलाइंस, दूसरा मेन रोड, न्यू मंडीपेट, तुमकुर- 572101, कर्नाटक	बीवीएससीएंडएच /केवीएफएसयू/ 09	14.9.84
3026	यशवंत सिंह, पुत्र श्री मांगे राम दलाल	पीबीएसवीसी/ 2858/09	म.न. 386, सेक्टर-डी, बीआरएस नगर, लुधियाना, पंजाब	बीवीएससीएंडएच /सीसीएसएचएयू/ 94	28.6.71
3027	येओत्तिकर योगेन्द्र गुनवंतराव	महाएसवीसी/ 8222/09	गुरुप्रसाद निवास, 1/9/731, हनुमान रोड के निकट, तालुक जिला नांडेड- 431605, महाराष्ट्र	बीवीएससीएंडएच /एमएएंडएफएसयू /09	22.04.86
3028	येवाले प्रशांत सोमनाथ	महाएसवीसी/ 8337/10	पुष्कराज, 82, साखरवाड़ी, त्रयम्बक नगर, तालुक जलगांव, जिला जलगांव- 425002, महाराष्ट्र	बीवीएससीएंडएच /एमएएंडएफएसयू /09	27.06.86
3029	योगानंद के.सी., पुत्र श्री चंद्र शेखरइयाह	कर्नाएसवीसी/ 4237/09	बिलेकल्लाहल्ली, टोगारीघट्टा - 572121, कोराटागेरे तालुक, तुमकुर जिला, कर्नाटक	बीवीएससीएंडएच /केवीएफएसयू/ 09	1.6.86

3030	योगेश कुमार कदियान, पुत्र श्री रामकिशन कदियान	हरिएसवीसी/2 113	ग्राम एंव डाक— माजरा (डोडी), जिला झज्जर, हरियाणा	बीवीएससीएंडएच / सीसीएसएचएसयू/ 09	24.6.83
3031	योगेश प्रिया एस. (ए. सोमू)	टीएनएसवीसी /4546/09	53, सनारपलायम, वाइपडी डाक, विजयमंगलम वाया, इरोडे— 638056, तमिलनाडु	बीवीएससीएंडएच / टीएनयूवीएस /09	18.04.86
3032	योगी नागीभाई विट्ठल भाई	जीवीसी/2287	एटी: गंगेत, तालुक चनासमा, जिला पाटन, पिन— 384275, गुजरात	बीवीएससीएंडएच / जीएसयू/00	11.9.76
3033	योकानंथ एस. (एन. सेकर)	टीएनएसवीसी /4683/10	न. 1—97, ईस्ट स्ट्रीट, सेम्मनगुडी डाक, कडावासल —एसओ, सिरकाली टीके, नागपट्टिनम —609104, तमिलनाडु	बीवीएससी/टीएन यूवीएस/01	03.06.77
3034	जकर अली गफूर अली	महाएसवीसी/ 8268/09	खाजा मंजिल, गुलज़ार कॉलोनी, गुलज़ार मस्जिद के निकट, धार रोड, पीबीएन, तालुक/जिला: परभनी— 431401, महाराष्ट्र	बीवीएससीएंडएच /एमएएंडएफएसयू /09	08.03.84
3035	जाला महेंद्र सिंह रणजीत सिंह	जीवीसी/1319	7—डी, उमियानगर सोसायटी, बर्ना रोड, हिम्मतनगर— 383 001, जिला:—साबरकंठा, गुजरात	बीवीएससीएंडएच / जीएसयू/90	11.12.64
3036	जंकत अजयराज राजेंद्र सिंह	जीवीसी/1249	एटी— कनक, डाक चोरवाड, तालुक मलिया (हटीना), जिला जूनागढ़, गुजरात	बीवीएससीएंडएच / जीएसयू/90	22.5.68
3037	जंजद सुहासिनी सुबोध	महाएसवीसी/ 8192/09	प्लॉट न. 429, आनंद नगर, आजमशा लेआउट, नागपुर— 440009, महाराष्ट्र	बीवीएससीएंडएच /एमएएंडएफएसयू /09	05.12.85
3038	जरकार समृद्धि मोहन	महाएसवीसी/ 8194/09	म.न.— 20, हनुमान नगर, नागपुर— 440009, महाराष्ट्र	बीवीएससीएंडएच /एमएएंडएफएसयू /09	04.06.87
3039	जियाउल रहमान, पुत्र श्री तौहीद अन्सारी	जेवीसी/609 /09	ग्राम—उकरीद बस्ती, डाक बोकारो स्टील सिटी, थाना— सेक्टर 12, ब्लॉक—चास, बोकारो— 827001, झारखंड	बीवीएससीएंडएच / बीएसयू/05	15.04.77

VETERINARY COUNCIL OF INDIA**NOTIFICATION**

New Delhi, the 1st March, 2011

F. No. 10-7/2010-VCI.—Whereas the Veterinary Council of India in pursuance of sub-section (1) of Section 23 of Indian Veterinary Council Act, 1984 (52 of 1984) is required to maintain a register known as Indian Veterinary Practitioners Register which shall contain the names of all persons who possess the recognised veterinary qualification and who are for the time being enrolled on State/UT Veterinary Council of the State to which this Act extends.

Now, in exercise of powers conferred by sub-section (2) of Section 23 of the Indian Veterinary Council Act, 1984 (52 of 1984) the Secretary, Veterinary Council of India, directs that Supplement to Indian Veterinary Practitioners Register, 2010 shall be published in the Gazette of India for general information.

Dr. ANUP BHAUMIK, Secy.

[ADV T III/4/141/10-Exty.]

Indian Veterinary Practitioner's Register, Supplement-2010

Sl. No.	Name	RNUM	Address	Qualification	DOB
1	A. Dharma Naik S/o A. Lachu Naik	AP SVC/04901/09	H.No.2-102, Gangireinigudem, Shyampet, Warangal-506348, Andhra Pradesh	BVSc&AH/SVVU/09	01.06.86
2	A. Anil Kumar S/o A. Ramanjaneyulu	AP SVC/04911/09	H.No.46/1-M-25-4, Aditya Nagar, Kurnool-518002, Andhra Pradesh	BVSc&AH/SVVU/09	01.07.84
3	A. Anita D/o Arasumani Ramachandran	Pondi SVC/324/09	No.67, Gangal Amman Koil Street, Pillaitthottam, Kuvarpalyam, Pondicherry	BVSc&AH/PU/09	6.1.87
4	A. Anitha D/o A. Satya Narayana	AP SVC/04906/09	H.No. 6-74, Gandhi Road, Husnabad, Karimnagar-505467, Andhra Pradesh	BVSc&AH/SVVU/09	04.02.85
5	A. Aruna Kiran D/o A. Appala Naidu	AP SVC/04964/09	D.No.62-4-5/1, Sriharipuram, Malkapuram (P), Visakhapatnam-530011, Andhra Pradesh	BVSc&AH/SVVU/09	13.08.85
6	A. Chinnarajulaiah S/o A. Samson	AP SVC/04816/09	Magutur (P), Ardhaveedu (M), Prakasam Dt-523333, Andhra Pradesh	BVSc&AH/SVVU/08	01.01.81
7	A. Jayapal S/o A. Venkata Subba Reddy	AP SVC/04855/09	Vadlamopur (V&P), Dakkali (M), Nellore Dt, Andhra Pradesh	BVSc&AH/SVVU/09	28.12.81
8	A. K. Gupta S/o B. N. Gupta	UP SVC/5053/09	Vill & PO- Bhardarwara, Teh.- Mauranipur, Distt.- Jhansi, UP	BVSc&AH/KU/09	05.08.78
9	A. K. Gupta S/o P. C. Gupta	UP SVC/5050/09	Smriti Gulkaiyapur (Maudostpur) Mauamir, Dist.- Allahabad, UP	BVSc&AH/KU/09	30.04.83
10	A. K. Mishra S/o D. S. Mishra	UP SVC/5010/09	Mau Bazar, PO- Mau, Distt.- Chitrakoot, UP	BVSc&AH/JNKVV/09	01.01.85
11	A. K. Sahraswat S/o Ravindra Kumar	UP SVC/5046/09	Vill.- Bhokareai, Tehsil- Jansath, Muzaffar Nagar, UP	BVSc&AH/SDAUSK/09	05.02.84

12	A.K. Singh S/o N.B. Singh	UPSVC/5064/10	Dewra (Mouharjya) Bara, Distt.- Allahabad,UP	BVSc&AH/IGKV/09	23.07.82
13	A.K. Upadhyay S/o H.L. Upadhyay	UPSVC/5071/10	Vill.- Bhuila, PO- Sikandra, Distt.- Jaunpur,UP	BVSc&AH/GADUASU/09	07.02.83
14	A.K. Verma S/o D.R. Verma	UPSVC/4929/09	Vill.- Parsan Ka Pura, PO- Uttrethu, Distt.- Ambedkar Nagar,UP	BVSc&AH/NDUA&T/09	15.02.83
15	A.K. Verma s/o R.J. Verma	UPSVC/4937/09	Vill.-Manka Pura. PO- Khaphraadin, Faizabad,UP	BVSc&AH/NDUA&T/09	30.08.82
16	A.N. Kushwaha S/o A.L. Kushwaha	UPSVC/5034/09	Vill.- Harhai, PO- Charwa, Distt.- Kaushambi,UP	BVSc&AH/SVVU/09	11.09.81
17	A.R. Chnādrashekar S/o Late A.R. Ajanna	KarnSVC/4362/09	10th C cross,sapthagiri Extn Toweri-572102, Tumkur Tq & Dt,Karnataka	B.VSc/ UAS,B'lore/86	12.8.61
18	A.S. Bhatla S/o S.S. Bhatla	UPSVC/5062/09	Vill.- Hasanpur, Delhi Road, Near Panchayat Ghar, Distt.- Saharanpur,UP	BVSc&AH/IGKV/09	01.04.82
19	A.Srikanth S/o A.Dharma Rao	APSVC/04996/09	Narsampet (M&V), Nekkonda Road, H.No. 19-103/3-1, Warangal Dist., Andhra Pradesh	BVSc&AH/SVVU/09	05.06.84
20	A.Sudhakar Naik S/o A. Teekya Naik	APSVC/04892/09	H.No. 30-126, Edulaguda, Near Petrol Bunk, Miryalaguda (M), Nalgonda Dist. Andhra Pradesh	BVSc&AH/SVVU/09	06.06.86
21	A.T.Poangba S/o Sh Akai	NSVC/0242/09	Yongkhao Vill, B.P.O. Tobu Dist-Mon, Nagaland	BVSc&AH/CAU/09	9.9.86
22	Aasheesh Jain S/o Rakhab Chand Jain	RajSVC/3602/09	1/613 Scout Field Housing Board, Sawaimadhopur-322001, Rajasthan	BVSc&AH/RAU/09	18.09.84
23	Abdul Lathief K.A, S/o Abdul Azezz K.S	KSVC/3582/09	Kalappurakal house, Cheranellore (P.O.)Ernakulam-682034, Kerala	BVSc&AH/KAU/09	20.05.85
24	Abhani Bhaskarkumar Amrutlal	GVC/1407	C/O. Mayur G Abhani, Shree Ram Medical Store, Jetpur, Dis-Rajkot,Gujarat	BVSc&AH/GAU/91	3.4.65
25	Abhay Kumar S/o Sh. Jagdesh Sharan Garg	UKSVC/500/10	V.O., Veterinary Hospital Bhagwanpur, Haridwar, Uttarakhand	BVSc&AH/GBPUA&T/93	17.08.72
26	Abhijit Kumar Jha S/o Sri Lakshmi Narayan Jha	JVC/630/09	Barganda Aarnghat Road Makatpur, Giridih-815301, Jharkhand	BVSc&AH/BAU/09	12.02.84
27	Abhijit Mishra, S/o Jaya Prakash Mishra	OSVC/2275/09	Plot No. 1963, At/Po-Kalarahanga, Bhubaneswar, Orissa	BVSc&AH/OUAT/09	07.06.87
28	Abhimanyu Parmar S/o Ashok Singh Parmar	Pb.SVC/2914/09	# 5, Gulmohar Complex, VPO. Dhakoli,Zirakpur,Punjab	BVSc&AH/RAU/09	15.10.85
29	Abhinav Sharma, S/o B.K. Sharma	HVC-874/09	House No. 127/2, Purani Mandi, distt. Mandi, HP	BVSc&AH/CSKHPKV/09	16.04.84
30	Abhinav Verma S/o G.P. Verma	UPSVC/5070/10	119/2, Mahraj Ganj Road, Near Vijay Palace Bachhawan, Raibareilly,UP	BVSc&AH/AAU/09	19.07.85
31	Abhishek Asati S/o Sh A.K.Asati	MPSVC/2635/09	Naya Bazar No.3, Bada Pul, Damoh,M.P - 470661	BVSc&AH/JNKVVV/09	9.1.84

32	Abhishek Kalundia S/o Jiren Kalyan Kalundia	JVC/641/09	Chiryapahari, Kathbahari Chaibasa, West Singhbhum-14, Jharkhand	BVSc&AH/BAU/09	26.02.86
33	Abhishek Kumar S/o Sh. Lilamber Yadava	UKSVC/447/09	H.No. 1/3/9 Phool Bagh, Pantnagar, U.S.Nagar, Uttarakhand	BVSc&AH/GBPUA&T/09	17.09.82
34	Abraham Geoffrey Gnanaraj.J (G.John Stephen)	TNSVC/4437/09	102-A, Tuckerammalpuram, Tirunelveli- 627007, Tamil Nadu	BVSc/TANUVAS/89	20.03.67
35	Abraham P Alex, S/o P.A. Alexander	KSVC/3499/09	Puthenparambil House, Kundara E, Kundara P.O., Kollam-691501, Kerala	BVSc&AH/KAU/07	25.05.83
36	Adha Himmatdan Udaydan	GVC/526	21, Vishwa Karmanagar, Opp. Shivjipark, Sukhbag road, Dudhiyawadi, Palanpur- 385 001 Dt- Banaskantha	BVSc&AH/GAU/80	10.5.58
37	Aditi D/o Naresh Kumar Bajaj	Pb.SVC/2906/09	252 E SBS Nagar, Pakhowai Road, Ludhiana, Punjab	BVSc&AH/GADVASU/09	14.6.85
38	Aditi Sharma D/o Vinod Kumar Sharma	UKSVC/491/09	V/1342. TA Colony, Pantnagar, Distt. U.S.Nagar, Uttarakhand	BVSc&AH/GBPUA&T/01	17.08.77
39	Adity Dominique D Miranda D/o Arlindo D'Miranda	GoaSVC/148/09	13, Bank of India Colony, Aquem Alto Margao- Goa	BVSc&AH/PU/09	
40	Aditya Kumar S/o Surendra Kumar	UPSVC/4960/09	VIII Khanpur, PO Dighruva, Distt Fatehpur, UP	BVSc&AH/UPPDUPCVV /09	25.04.83
41	Aditya Pratap Panda, S/o Late Sh Pravakar Panda	OSVC/2259/09	Plot No. 402, Nayapalli (Nuasahi), Bhubaneswer-12, Orissa	BVSc&AH/OUAT/08	07.03.86
42	Aghara Arjan Sundarji	GVC/299	A/3, Kruti Appartment, B/H-L.D.Eng. Hostel, Gulbaitekara, A'bad, Gujarat	BVSc&AH/GAU/73	6.3.53
43	Aghera Sureshchandra Ganesh	GVC/1647	At : Nasipar, Ta- Tankara, Dis- Rajkot- 363651 ,Gujarat	BVSc&AH/GAU/93	29.12.70
44	Agivale Rohini Balkrishna	MahaSVC/8300/09	A-103, Sangam Apartment, Barrage Road, B- Cabin, Badlapur (W)-421504, Maharashtra	BVSc&AH/MA&FSU/07	26.08.84
45	Agivale Satyawan Madhukar	MahaSVC/8291/09	House No-44, Gaurapur, PO-Palsai, Tal.Wada, Dist. Thane-421312, Maharashtra	BVSc&AH/MA&FSU/09	13.10.86
46	Agravat Vinodkumar Maniram	GVC/2214	At : Morbi, C/O. C M Agravat, Ankur Society, House-4, Opp. G I D C Gate, Morbi, Dis : Rajkot PIN- 363641	BVSc&AH/GAU/99	25.5.71
47	Aher Sandeep Bhausahab	MahaSVC/8183/09	1, Shital Apartment, Pumping Station Road, Gangapur Road, Tal.Dist.Nashik- 422013, Maharashtra	BVSc&AH/MA&FSU/09	12.09.84

48	Aher Tushar Kisan	MahaSVC/8326/10	Shivshankar Nagar, Co.No.1, Shivsadan R-11, Chakrapani Vasahat Rd, Bhosari, Tal, Haveli, Dt. Pune, Maharashtra	BVSc&AH/MA&FSU/09	13.07.84
49	Ahmad Fahim S/o Aijaz Ahmad	UPSVC/5025/09	H.No. 24/338 Near Railway West Cabin Abubakar Nagar, Deoria, UP	BVSc&AH/GBPUA&T/09	06.12.82
50	Ahmed Md. Masud Rana S/o Monowar Ali Ahmed	ASM/2442/09	C/o Monowar Ali Ahmed Vill- Nayahat, PO- Barkanda, Dt-Dhubri -783348, Assam	BVSc&AH/AAU/09	1.2.80
51	Aitalwad Amarkumar Sudhakar Rao	MahaSVC/8224/09	At-Gaddewadi, Po-Waigaon, Tal, Ahmedpur, Dist-Latur-413515, Maharashtra	BVSc&AH/MA&FSU/09	10.06.87
52	Ajay Goswami S/o Sh Tara Chand	HarSVC/2128	Nr. Police Family Quarter Tosham Distt, Bhiwani, Haryana	BVSc&AH/CCSHAU/09	16.4.85
53	Ajay Kumar Khalkho S/o Mani Khalkho	CHSVC/533/10	Post- Chal, District- Raigarh, Chhattisgarh	B.V.Sc.&AH/IGKVV/09	07.10.81
54	Ajay Kumar Mishra S/o Sh Raj Kumar Mishra	MPSVC/2622/09	H/19, Model Colony, Sujhora, Mandla, M.P	BVSc&AH/JNKVV/09	24.1.83
55	Ajay Kumar Sinha S/o Late Alakh Kumar Sinha	JVC/655/10	305, Aradhna Apartment North Office Para Doranda Ranchi-834002, Jharkhand	BVSc&AH/RAU/89	02.12.63
56	Ajay Raj Gupta S/o Sh. R.P.Gupta	UKSVC/497/10	H-190, Shivalik Nagar B.H.E.L, Haridwar, Uttarakhand	BVSc&AH/GBPUA&T/90	15.03.65
57	Ajay Singh S/o Indra Pal Singh	UPSVC/4985/09	Vill.- Churamanpur, PO- Bhullanpur, Distt.- Varanasi, UP	BVSc&AH/MAFSU/09	10.10.79
58	Ajay Thakur S/o Attar Chand Thakur	HVC-882/09	Vill. Tikri, P.O. Rakhoh., Teh, Sarkaghat, distt, Mandi, HP	BVSc&AH/CSKHPKV/09	10.12.86
59	Ajeet Singh Bhatla S/o Sh. Suresh Singh Bhatla	UKSVC/503/10	179/2, New Bazar Chakrata, Distt. Dehradun, Uttarakhand	BVSc&AH/IGKVV/09	01.04.82
60	Ajith B S/o Beeralingappa	KarnSVC/4289/09	Hosapalya Extn. Arasapura, Koratagere-572129, Tumkur Dt., Karnataka	BVSc&AH/KVAFSU/09	2.5.86
61	Ajudia Damjibhai Lavjibhai	GVC/681	B-37, Milapnagar Society, University Road, Rajkot, Gujarat	BVSc&AH/GAU/77	22.8.51
62	Ajudia Vimal Savji	GVC/393	B-66, Aalap Avenue, University Road, Rajkot-360 005, Gujarat	BVSc&AH/GAU/76	1.5.65
63	Akabari Rameshchandra Bhikhabhai	GVC/1782	At - Dhundhoraji, Ta - Kalawad, Dist - Jamangar- 361160, Gujarat	BVSc&AH/GAU/94	1.6.67

64	Akbari Dineshkumar Madhubhai	GVC/1526	At & Po- Pata Meghpar, Ta: Kalawad, Dis-Jamnagar,Gujarat	BVSc&AH/GAU/92	25.12.68
65	Akbari Rameshkumar Raghubhai	GVC/1216	At- Jam Sajadyali, Ta- Jam Kandorana, Dis-Rajkot,Gujarat	BVSc&AH/GAU/89	17.1.72
66	Akeshdeep S/o Pala Ram	Pb.SVC/2871/09	H.No.479,Guru Nanak Colony,Rajwaha Road,Sangrur,Punjab	BVSc&AH/GADVASU/09	25.4.86
67	Alaka Pattnaik, D/o Ajit Pattnaik	OSVC/2306/09	At-Narayeni Road, Phulbani, Distt.-Kondhmal, Orissa	BVSc&AH/OUAT/09	05.01.86
68	Alase Ashwini Laxman	MahaSVC/8293/09	37/2, A-3, Amruta Society, Erandawana, Tal.Dis: Pune-411032,Maharashtra	BVSc&AH/MA&FSU/09	29.01.87
69	Alate Ashok Vishwanath	GVC/191	H-301, Nandanvan Apprt., Sussen-Tansali Road, Baroda-390 009, Gujarat	BVSc&AH/PKV/70	8.8.47
70	Alexander.G (M.Govindaraj)	TNSVC/4417/09	Adambai South (PO), Pattukkottai taluk, Thanjavur District-614602, Tamil Nadu	BVSc/TANUVAS/97	25.05.74
71	Alkunte Daivashala Hanumant	MahaSVC/8249/09	Near Telephone Exchange Office, Juna Bazar Road,Majalgaon, Tal.Majalgaon,Dist.Beed-431131	BVSc&AH/MA&FSU/09	01.01.80
72	Alok Chaudhary S/o Ugrasen Verma	UPSVC/4903/09	Vill Shekhupur, PO Jalalpur, Ambedkarnagar, UP	BVSc&AH/UPPDDUPCVV /09	03.07.82
73	Alok Kumar Chaudhari S/o Jagan Nath Prasad	UPSVC/4964/09	Vill&PO Keshav Nagar Grant Distt Gonda, UP	BVSc&AH/UPPDDUPCVV /09	01.06.84
74	Alok Kumar S/o T.R. Rastogi	UPSVC/5004/09	Vill.& PO- Hardaspur via Ram Nagar (Kila), Aunla, Distt.- Bareilly,UP	BVSc&AH/GBPUA&T/09	25.07.81
75	Alok Mishra S/o R.D. Mishra	UPSVC/4970/09	Vill & PO- Rehta Khurd, Distt.- Ambedkar Nagar,UP	BVSc&AH/GBPUA&T/09	31.07.82
76	Alok Pratap Singh S/o Virendra Kr Singh	UPSVC/4969/09	Vill. & PO Semrajpur, Distt.- Mau,UP	BVSc&AH/GBPUA&T/09	12.07.82
77	Aman Dev Moudgil, S/o Dev Raj Moudgil	HVC-884/09	Vill. Lathwan, PO Ladrour, Teh. Bhoranj, Distt Hamirpur, HP	BVSc&AH/CSKHPKV/09	05.04.85
78	Amarbir Singh S/o Gurmit Singh	Pb.SVC/2685/09	179, Bhagat Singh Colony,Basti Gobinggarh,Moga,Punjab	BVSc&AH/GADVASU/06	1.8.82
79	Amarendra Pattnaik, S/o Abheya Kumar Pattnaik	OSVC/2278/09	At-Kotuan, Po- Arilo, Distt.-Cuttack, Orissa	BVSc&AH/OUAT/09	02.06.84

80	Amarjit Singh S/o Nazar Singh	Pb.SVC/948/10	H.No.5-271, Nr Double Railway Gate,Dhuri- 148024,Distt.Sangrur,Punjab	BVSc & AH/GBPUA&T/73	1.10.50
81	Ambalia Naranbhai Hamirbhai	GVC/1935	At & Po- Jam Keshod, Ta-Jam Khambhaliya, Dis- Jamnagar PIN- 361305,Gujarat	BVSc&AH/GAU/96	
82	Amin Bhupendra Jethalal	GVC/394	6, Amar Asha Society, B/H. Utkarsh Society, Bholav, Bharuch, Gujarat	BVSc&AH/GAU/76	13.1.53
83	Amit Chandrakar S/o Chinta Ram Chandrakar	CHSVC/499/10	J-24, Tilak Nagar, Gudiyari, Raipur,Chhattisgarh	B.V.Sc.&AH/IGKVV/09	05.05.83
84	Amit Devrari S/o Sh. D.P.Devrari	UKSVC/448/09	Village Bhatiyana, Post Kothli, Distt. Chamoli, Uttarakhand	BVSc&AH/GBPUA&T/09	10.10.85
85	Amit Gupta S/o Jagdish Parsad Gupta	CHSVC/542/10	Near Namanakala Kabristan (North), Rajiv Nagar, Ambikapur,Chhattisgarh	B.V.Sc.&AH/IGKVV/09	07.06.82
86	Amit Kumar Dohare S/o Sh Jagdish Prasad	MPSVC/2626/09	Maharana Pratap Square,Lahar,Bhind,M.P.- 477445	BVSc&AH/JNKVV/09	25.6.82
87	Amit Kumar Nagesh S/o Gajru Ram Nagesh	CHSVC/522/10	H 24/21, Civil Line, Kasarideeh, Durg,Chhattisgarh	B.V.Sc.&AH/IGKVV/09	06.06.82
88	Amit Kumar Sahoo, S/o Ajaya Kumar Sahoo	OSVC/2276/09	At/Po Kishorenagar, Distt.- Cuttack-754131, Orissa	BVSc&AH/OUAT/09	01.05.86
89	Amit Kumr S/o Sh Shiv Kumar	HarSVC/2123	Vill-Tothwal, PO -Nangli Godha Distt, Rewari, Haryana	BVSc&AH/CCSHAU/09	15.4.85
90	Amitha George, D/o K.S George	KSVC/3501/09	Kattunilath House, XI/987A, ST,John Pattom, Cochin-682001, Kerala	BVSc&AH/KAU/09	15.01.86
91	Amra Ram S/o Deva Ram	RajSVC/3707/10	V/P-Chhiter Ka Par, Via-Kawas, Barmer- 344035, Rajasthan	BVSc&AH/SKRAU/10	01.07.82
92	Anand Prakash S/o N.N. Singh	UPSVC/5003/09	KGSKG Bank, Krishna Nagar, MAU Road, Sidhari, Distt.- Azamgarh,UP	BVSc&AH/MAFSU/09	12.07.83
93	Anand S/o Dhulappa	KarnSVC/4281/09	Anand Nivas Opp Vivekanda High School, Shivpur Rd, Basavakalyan-585327, Bidar Dt.,Karnataka	BVSc&AH/KVAFSU/09	10.12.83
94	Ananda Sagar Seth, S/o Padma Lochan Seth	OSVC/2262/09	AT/PO Patnagarh (Badpara), Distt-Bolangir, Orissa-767025	BVSc&AH/OUAT/08	21.07.81
95	Anandakumar.A (P.Arimuthu)	TNSVC/4425/09	No.120,C.R.Camp, Thenpallipattu, Kalasapakkam, Thiruvannamalai-606751, Tamil Nadu	BVSc&AH/TANUVAS/08	30.01.85

96	Anandaraj.A (G.Annadurai)	TNSVC/4645/09	41, K, Mamanandal Road, Kallakurichi 606202, Villupuram District., Tamil Nadu	BVSc&AH/TANUVAS/09	05.06.86
97	Anandi Prasad Singh S/o Ram Swarup Prasad Singh	JVC/645/10	Holding No-cc/61 cross road No. 22 Champia Colony, Sidhgora Market P.O. Agrico East Singhbhum.Jamshedpur-831009, Jharkhand	BVSc&AH/RAU/72	15.08.47
98	Anantha Babu.J (P.Jeganathan)	TNSVC/4654/09	Kalamman Kovil Street, Mill Krishnapuram, Rajapalayam taluk, Virudhunagar-626108, Tamil Nadu	BVSc&AH/TANUVAS/09	24.04.86
99	Anantharaj.A (R.Anthonysamy)	TNSVC/4506/09	97/31-A, Briyant Nagar 13th Street, Thoothukudi-628008, Tamil Nadu	BVSc&AH/TANUVAS/09	12.03.85
100	Aneesh Kumar. R, S/o Radhakrishnan Nair.G	KSVC/3576/09	Aneesh Bhavan, Kannimel, Pattazhy (PO), Kollam-691522, Kerala	BVSc&AH/KAU/09	15.05.86
101	Aneez Azeez, S/o A.Abdul Azeez	KSVC/3605/09	Neez Manzil, Kakkazhom P.O., Alappuzha- 688005, Kerala	BVSc&AH/KAU/09	06.07.84
102	Anil Dawar S/o Shri Paval Singh	MPSVC/2598/09	Vill&PO-Bakharli, The-Sendhwa,Badwani, M.P	BVSc&AH/JNKVV/09	5.3.85
103	Anil Kumar Ganga Reddi S/o Laxmanappa	KarnSVC/4247/09	Honakuppi-591227, Gokak Tq, Belgaum Dt.,Karnataka	BVSc&AH/KVAFSU/09	10.5.84
104	Anil Kumar S/o Late Babu Lal Saw	JVC/652/10	Gauri Shankar Mohalla Jhumri Tilaiya Koderma-825409, Jharkhand	BVSc&AH/BAU/89	05.01.64
105	Anil Kumar S/o Sh Partap Singh	HarSVC/2090	VPO BarduChaina T. Loharu Distt- Bhiwani, Haryana	BVSc&AH/RAU/07	5.1.80
106	Anilkumar S/o Hanumanthaiah H	KarnSVC/4324/09	No.7,Chakkeridoddi Lakojinahalli- 571511,Ramanagara Tq & Dt.,Karnataka	BVSc&AH/KVAFSU/09	10.6.86
107	Anita Kumari D/o Ashu Singh	RajSVC/3607/09	Vill.-Sonthali Poonia Ki dhani, Post- Titanwar,Jhunjhunu-333001, Rajasthan	BVSc&AH/RAU/09	13.03.83
108	Anitha Narayanan D/o P.K Narayan	KSVC/3519/09	Thazhathu House, kaipuzha P.O., Kottayam- 686602, Kerala	BVSc&AH/KAU/09	25.05.85
109	Anitha Sriram C.R D/o Ramachandra A	KarnSVC/4334/09	Annapoorneshwari Nilaya, Opp SRMT office, santhemarket,Chickballapura-562101 Tq&Dt,Karnataka	BVSc&AH/KVAFSU/09	21.11.85
110	Anitha.S (M.Shanmugam)	TNSVC/4624/09	2, Munusamy Street, Thiruvalluvar Nagar,Pammal Chennai-600075	BVSc&AH/TANUVAS/09	24.09.85
111	Anjaneya S/o Mudukappa	KarnSVC/4301/09	Koravi,Sadapur-584123,Manvi Tq, Raichur Dt.,Karnataka	BVSc&AH/KVAFSU/09	1.6.86

112	Anjani Kumar Pandey S/o Rambhuvan Pandey	CHSVC/488/09	Shaskiy Kukut Palan Prashetra Parisar, Koria, Chhattisgarh	B.V.Sc.&AH/JLNKVV/98	10.12.61
113	Anju Bala S/o Sh Hari Om Singh	HarSVC/2136	#754, Mahavir Colony, Yamunanagar, Haryana	BVSc&AH/CCSHAU/09	20.9.85
114	Anju Rajan.R D/o Rajan K.R	KSVC/3597/09	Kochumuriyil House, Kaviyoor (PO)., Thiruvalla, Pathanamthitta-689582, Kerala	BVSc&AH/KAU/09	17.04.86
115	Annadurai.R (P.Ramakrishnan)	TNSVC/4661/09	74, Sanjeevarayan Koil Street, Cuddalore Port, Cuddalore-607003, Tamil Nadu	BVSc/TANUVAS/92	07.02.69
116	Annarao S/o Shankararao	KarnSVC/4252/09	No.142, Srinivas Saradagi-585102, Gulbarga Tq & Dt,Karnataka	BVSc&AH/KVAFSU/09	7.11.85
117	Anoop Geo Jose, S/o Jose George	KSVC/3535/09	Naduvile Purackal House Parathode, Idukki P.o., -685571, Kerala	BVSc&AH/KAU/09	30.01.84
118	Anoop Kumar S/o T.P. Pandey	UPSVC/5031/09	vill.- Chaturpur, Khidirabad, Kadipur, Sultanpur,UP	BVSc&AH/SVVU/09	05.06.83
119	Anoop Vals S/o Shri Rajendra Vals	MPSVC/2608/09	G-138, Krishi Nagar Colony, Adhartal, Jabalpur, M.P	BVSc&AH/JNKVV/09	1.07.83
120	Anoop.S, S/o P.N. Shivadasan	KSVC/3495/09	Puthoochirayil House, Arpookara west (PO), Kottayam-686008, Kerala	BVSc&AH/KAU/09	10.10.84
121	Anshul Kumar Khare S/o Sh Suresh Kumar Khare	MPSVC/2653/10	C/o Gulab Goswami, H.No.25, Indira Colony, Civil Lines, Sagar-470001, M.P	BVSc&AH/JNKVV/09	02.6.84
122	Anshui S/o Sh Dharampal	HarSVC/2108	# 627, Sector 15 (A), Hisar, Haryana	BVSc&AH/CCSHAU/09	9.5.85
123	Antala Pravinbhai Lavjibhai	GVC/749	"Darshan" 23, Bansidhar Nagar, Street No-3, Nr. Desai Nagar, B/h – S.T.Bus Stand, Junagadh-362 002, Gujarat	BVSc&AH/GAU/81	30.5.54
124	Anu Arora D/o Sumeet Bagga	KarnSVC/4354/09	B-832, Sobha Windfall Apt, Amruthahalli, Bengaluru, Karnataka	BVSc&AH/CCSHAU /99	4.1.76
125	Anu Gopal, S/o V.K. Gopalan	KSVC/3575/09	Ajantha House, Nariyanani (PO.), Ponkunnam, Kottayam-686506, Kerala	BVSc&AH/KAU/09	16.05.86
126	Anu Joseph Perekattu, D/o P.D.Joseph	KSVC/3547/09	Perekattu House, Panachipara, P.O., Poonjar, Kottayam-686581, Kerala	BVSc&AH/KAU/09	11.04.85
127	Anu Sudhakaran, D/o N.K.Sudhakaran	KSVC/3564/09	Naduviledathu House, Kumaramangalam (PO), Para Junction, Thodupuzha, Idukki, Kerala	BVSc&AH/KAU/09	29.05.86

128	Anuj Kumar S/o Ashwini Kumar	UPSVC/5005/09	VIII Singhapur Khass PO Nahil Teh Powayan Distt Shahjahanpur, UP	BVSc&AH/SKUAS&T/09	20.03.85
129	Anupam Datta, S/o Sh Kshitindramohan Datta	TripuraSVC/179/08	PO&Vill- Kanchanbali, Dt- Tripuraa(North)	BVSc&AH/CAU/08	9.4.82
130	Anuradha Gupta D/o Chhaju Ram Gupta	RajSVC/3632/09	36, Bank Colony, Alwar-301001, Rajasthan	BVSc&AH/RAU/09	06.05.83
131	Anuradha Gupta D/o Girish Chandra Gupta	RajSVC/3630/09	Purushottam Lal, NearShankar Atta Chakki, Mohan Nagar Extension, Hindaun City, Karauli-322230, Rajasthan	BVSc&AH/RAU/09	07.01.83
132	Anurag Dwivedi S/o Om Prakash Dwivedi	RajSVC/3687/09	Julania Mohalla, Bakani, Jhalawar-326022, Rajasthan	BVSc&AH/SVVU/09	31.12.84
133	Anusha Sali, D/o Sali K.R	KSVC/3568/09	Kattukattil House, Adimaly (PO), Adimaly, idukki-685561, Kerala	BVSc&AH/KAU/09	23.04.86
134	Anusree, D/o P.Krishnanunni	KSVC/3540/09	Padmasree, Mundur (P.O) Palakkad-678592, Kerala	BVSc&AH/KAU/09	25.04.85
135	Aparajita Choudhary S/o Bhaskar Choudh	GoaSVC/154/10	Vaddy, Raia, Siolim, Bardez Goa	BVSc&AH/TNV&ASU/06	
136	Aparajita Das D/o Makhan Lal Das	TripuraSVC/183/08	C/o Makhan Lal Das, PO&Vill-Panisagar, Tripura (North)	BVSc&AH/CAU/08	25.6.83
137	Aparnathi Bhavesh Dev giri	GVC/2182	"Jagnath Krupa", B/H- Suman Society, At & Ta-Kesod, Dis- Junagadh PIN- 362 220, Gujarat	BVSc&AH/GAU/00	3.9.76
138	Aprajita Bhatt S/o Dr. Jagdish Chandra Bhatt	UKSVC/471/09	Nakshatralok Mukul Vihar Laadat haldwani Distt. Nainital, Uttarakhand	BVSc&AH/GBPUA&T/09	28.12.84
139	Aradhana Priyadarshini, W/o Tapas Ranjan Pradhan	OSVC/2320/09	S1/159, Niladri Vihar Chandra Sekharpur, Bhubaneshwar, Orissa	BVSc&AH/OUAT/09	25.11.84
140	Arathi.V, D/o N.B.Ramesh Kumar	KSVC/3529/09	Sree Valsam, TC 12/1240, Law College Junction, Vanchiyoor, P.O., Kunnukuzhi, Thiruvananthapuram-695035, Kerala	BVSc&AH/KAU/09	01.01.86
141	Aravinth.T.P (K.V.Parameswaran Pillai)	TNSVC/4483/09	14-33 (Old No.14/3C)Anand Nivas, Ramanparambu, Thukalay-629175, Kanyakumari Dist. Tamil Nadu	BVSc/TANUVAS/94	12.06.71
142	Archana Alvin Kerketta D/o T.I. Kerketta	CHSVC/523/10	H.B. Rajiv Nagar Shankar Nagar, Raipur, Chhattisgarh	B.V.Sc.&AH/IGKVV/09	09.08.85
143	Archana D/o R.P.Singh Chauhan	UPSVC/4948/09	Moh. Surya Nagar Basti Road Jaithra Distt Etah, UP	BVSc&AH/UPPDDUPCVV /09	21.03.83

144	Archanasinha D/o Sitendrakumar	KarnSVC/4359/09	Plot No.146,1st floor, Vanashreenagar,Dandelli,Uttarakannada Tq & Dt.,Karnataka	BVSc&AH/BAU/05	1.3.80
145	Ardeshta Jamandas Thakarshibhai	GVC/655	B/7- Avkar Flat, Devbag, Opp. Kumarshala, Bhavnagar, Gujarat	BVSc&AH/GAU/77	10.1.51
146	Arivarasi.R (P.Rajamanikkam)	TNSVC/4679/10	1/A1, Arivu Illam, Periyar Nagar, Sendurai, Ariyalur-621714, Tamil Nadu	BVSc&AH/TANUVAS/09	26.10.83
147	Arjun Kumar S/o H.C. Katiyar	UPSVC/4999/09	Vill & PO- Sarai, Prayag, Distt.- Kannauj,UP	BVSc&AH/NDUA&T/09	31.05.83
148	Arora Nitesh Jaykishan	GVC/2213	3- Mansi Society, Ajay Tenaments Section-5, Mahadev Nagar, Vastral Road, Ahmedabad- 382418, Gujarat	BVSc&AH/GAU/00	1.6.77
149	Arpan Preet Kaur D/o Jaspal Singh Pal	Pb.SVC/2904/09	244, North Estate, Nr Kishori Ram Hospital, Bathinda,Punjab	BVSc&AH/GADVASU/09	11.4.86
150	Arun Kumar Devgun S/o Kunjbihari Devgan	CHSVC/483/09	Junior M.I. 18 Bodhghat Colony, Jagdal Pur,Chhattisgarh	BVSc&AH/IGKVV/90-91	01.04.67
151	Arun Kumar Gaur S/o Hare Parsad Gaur	CHSVC/475/09	Pashu Chikitsalya Parisar, Narayanpur,Chhattisgarh	BVSc.&AH/JLNKVV/75	03.05.52
152	Arun Kumar N.S,S/o P.Nagarajan Asari	KSVC/3492/09	House No.8, Pavithra Nagar, Manacaud P.O., Thiruvananthapuram, Kerala	BVSc&AH/KAU/09	28.08.83
153	Arun T.R D/o T.R. Remesh	KSVC/3511/09	Thachappally, P.O Vadanapally, Thrissur- 680614, Kerala	BVSc&AH/KAU/09	03.05.86
154	Arun Thakur S/o H.C.Thakur	HVC-887/09	Vill. Kilra, PO Mahoge, The. Theog, Distt, Shimla, HP	BVSc&AH/CSKHPKV/09	12.10.86
155	Arun.A (M.Asokan)	TNSVC/4591/09	Manmalai Murugan Koil Street, Chengam PO & Taluk, Thiruvannamalai District-606709, Tamil Nadu	BVSc&AH/TANUVAS/09	18.11.85
156	Aruna N.V.D/o Victor Arul Rejna	KSVC/3507/09	Arun Nivas, Undappara, Poovachal (PO)Kattakada, Thiruvananthapuram-695575, Kerala	BVSc&AH/MU/09	04.07.86
157	Aruna.N.V (A.Victor Arul Retna Raja)	TNSVC/4627/09	5-170, A.R. Manzil, Vettukattuvilai, Paloor, Karungal PO, Kanyakumari District-629157, Tamil Nadu	BVSc&AH/TANUVAS/09	04.07.86
158	Arundeeep P.S, S/o Sasidharan P.P	KSVC/3546/09	Puthiyedan House, Kuttikad P.O., Chalakudy, Thrissur-680724, Kerala	BVSc&AH/KAU/09	15.05.87
159	Arunkumar K S/o Krishnamurthy	KarnSVC/4314/09	Revanasiddeshwara Road, Ajjampura- 577547,Taikere Tq, Chickmagalur Dt.,Karnataka	BVSc&AH/KVAFSU/09	9.1.87

160	Arunvikram.K (A.Kandasamy)	TNSVC/4585/09	3/22, Kudi Street, Kalangani PO, Namakkal District-637014, Tamil Nadu	BVSc&AH/TANUVAS/09	30.07.86
161	Arvadiya Vishaldip Bhagvanjibhai	GVC/2998/09	House No. 36,Uma Society, To-Halvad,Dist-Surendranagar-363330, Gujarat	BVSc&AH/SDAU/09	07.03.87
162	Arvind kumar Nandanwar s/o B.L. Nandanwar	CHSVC/518/10	H.No. 531, Ram Nagar, Supela, Bhilai,Chhattisgarh	B.V.Sc.&AH/IGKVV/09	18.08.84
163	Arvind Kumar Pandey S/o S.B. Pandey	CHSVC/525/10	W.R.S. Colony, H.No. 129/6 T02, Raipur,Chhattisgarh	B.V.Sc.&AH/IGKVV/09	23.01.83
164	Arvind Kumar S/o Amar Singh	RajSVC/3639/09	Vill.-Manothdi, Post-Baghora, Teh.-Kishangarhbas, Alwar-301405, Rajasthan	BVSc&AH/CCSHAU/09	15.01.84
165	Arvind Kumar S/o Banwari Lal	RajSVC/3599/09	V/P-Rajpura, VIA-Balaran, Teh.-Laxmangarh, Sikar-332401, Rajasthan	BVSc&AH/RAU/09	07.01.82
166	Arvind Kumar Verma S/o Babu Ram	UPSVC/4951/09	Vill Odraha, PO Bhikampur, Distt Lakhimpur, UP	BVSc&AH/UPPDDUPCVV/09	16.08.86
167	Arvindraj.N (R.Nagarajan)	TNSVC/4621/09	18/8, Kandasamy Street, Bajanai Madam, Kitchipalayam, Salem-636015, Tamil Nadu	BVSc&AH/TANUVAS/09	24.05.84
168	Asha Vijayan, D/o Vijayakumar.S	KSVC/3502/09	Aswathy Bhavan, Thanni Ninna Vila, Koliyoor, Muttakkadau P.O, Thiruvananthapuram, Kerala	BVSc&AH/KAU/09	25.07.85
169	Ashish Agrawal S/o Sh Manoj Gupta	MPSVC/2595/09	C/o Anoop Gupta, Near B.R.Gardens Naina Garh,Bridge, Morena,M.P	BVSc&AH/MPEMVV/09	2.12.86
170	Ashish Gupta S/o Chamam Lal Gupta	HVC-888/09	Vill. Sadhot, PO Sadhot, Teh., Sarekaghat, Distt. Mandi, HP	BVSc&AH/CSKHPKV/09	17.04.86
171	Ashish Kulshrestha S/o Shanti Swaroop Kulshrestha	RajSVC/3730/10	"Shanti Sadan" Near panchayat Samiti Office Bari, Dholpur-328021, Rajasthan	BVSc&AH/SKRAU/10	27.07.84
172	Ashish Kumar S/o Jagdish Prasad	UPSVC/5061/09	355/469, Barihaat Distt. Bahraich, UP	BVSc&AH/TNV&ASU/09	18.08.84
173	Ashish Kumar S/o Madhav Rao Bankar	CHSVC/516/10	Zone No.3, St No.-8, Sindhu Grah Nirman Samiti, ,New Adarsh Nagar, Durg,Chhattisgarh	B.V.Sc.&AH/IGKVV/09	11.07.87
174	Ashish Kumar Singh S/o Bhadauria R.B.S.	KarnSVC/4309/09	No.10/1 Jcos SF Quarter, Vannarpet,Viveknagar-560047,Bengaluru urban,Karnataka	BVSc&AH/KVAFSU/09	1.7.86
175	Ashish Mahajan S/o Ashok Kumar	KarnSVC/4283/09	No.19-6-58, C/o Sai Sadan, Gouli Layout,Shivanagar-585401, Bidar Tq & Dt.,Karnataka	BVSc&AH/KVAFSU/09	27.3.83

176	Ashish Subramaniam.C, S/o C.K Subramaniam	KSVC/3527/09	Nest, Onnapaarambu, Perinjanam, Thrissur-680686, Kerala	BVSc&AH/KAU/09	14.06.85
177	Ashishek Kumar Singh S/o Sidheshwar Prasad Singh	JVC/635/09	Q.No. 3188, ST-09 Sector-4E CHAS, Bokaro-827004, Jharkhand	BVSc&AH/BAU/09	05.06.85
178	Ashny Ali, D/o M.Alikutty	KSVC/3533/09	Ashly Nivas, Muslim Street, Kottarakara, Kollam-691506, Kerala	BVSc&AH/KAU/09	05.02.85
179	Ashok Baindha S/o Megha Ram Baindha	RajSVC/3759/10	Shiv Street, Pura Mohalla, Jalore-343001, Rajasthan	BVSc&AH/RAU/09	13.03.82
180	Ashok Kumar Jat S/o Bhanwar Lal Jat	RajSVC/3712/10	Vill.-Raila, Teh.-Banera, Bhilwara-311024, Rajasthan	BVSc&AH/SKRAU/10	21.04.84
181	Ashok Kumar Patil S/o Sh Omkar Patil	MPSVC/2606/09	Vill-Heerapur, P-Karpur, Khandwa, M.P	BVSc&AH/JNKVV/09	24.2.82
182	Ashok Kumar S/o Hariram	RajSVC/3690/09	4-E 385, J.N.V. Colony, Bikaner-334003, Rajasthan	BVSc&AH/RAU/09	15.06.83
183	Ashok Kumar S/o Nabab Singh	RajSVC/3697/09	V/P-Dubara, Dholpur, Rajasthan	BVSc&AH/JNKVV/09	25.09.82
184	Ashok Kumar S/o Sh Dharam Pal	HarSVC/2110	VPO Pandu Pindara, Distt- Jind, Haryana	BVSc&AH/CCSHAU/09	10.4.85
185	Ashok Kumar Sule S/o Shri Mang	MPSVC/2601/09	Vill-Pachaya, PO-Dodwa, The-Bhikangaon, Khargone, M.P	BVSc&AH/JNKVV/09	8.6.84
186	Ashok Kumar, S/o Vir Singh	HVC-891/09	Vill. & PO Jahu, Teh. Bhoranj, distt. Hamirpur, HP	BVSc&AH/CSKHPKV/09	06.07.86
187	Ashutosh Thakur, S/o Manmohan Singh	HVC-869/09	Vill. & P.O. Nain Pukhar, Teh. Dehra, distt. Kangra, HP	BVSc&AH/CSKHPKV/09	06.11.85
188	Ashwani Jadaun S/o R.S. Jadaun	UPSVC/5029/09	1247 keshava Puram Avas, Vikas Kalaynpur, Kanpur, UP	BVSc&AH/SVVU/09	21.03.83
189	Ashwani Kumar Lamba S/o Sh Jaibir Singh	HarSVC/2111	Bharma Colony, Dinod Road, Bhiwani, Haryana	BVSc&AH/CCSHAU/09	26.5.83
190	Ashwani Kumar S/o Sh Ramdhan	HarSVC/2101	VPO Sisana Distt- Sonapat, Haryana	BVSc&AH/CCSHAU/09	6.11.84
191	Ashwatha M.B. S/o Basavalingappa M.B.	KarnSVC/4287/09	Mallenahalli, Kabbala-577527, Hosadurga Tq, Chitradurga Dt., Karnataka	BVSc&AH/KVAFSU/09	1.6.85

192	Ashwin Jayarajan	MahaSVC/8159/09	Madhukunj, 12/1, Jayanagar, Dattapada Road, Borivli East, Mumbai-400066, Maharashtra	BVSc&AH/MA&FSU/08	29.06.85
193	Aswathanarayanappa V S/o Aswathappa	KarnSVC/4291/09	No.56/1, Veerammanahalli, Alipura-56215, Gowribidanur Tq, Chickballapura Dt.,Karnataka	BVSc&AH/KVAFSU/09	10.9.84
194	Atam Abhay Toppo S/o Irius Toppo	JVC/642/09	Narduli, Bhandra, Lohardaga-835306, Jharkhand	BVSc&AH/BAU/09	10.07.85
195	Athira George, D/o M.M.George	KSVC/3496/09	Piamthottiyal house,Athirampuzha, Kottayam-686562, Kerala	BVSc&AH/KAU/09	03.05.84
196	Athira Prakash, D/o K.B.Prakash	KSVC/3523/09	Puthussery House , Panachikkadu, Kuzhimattom P.O., Kottayam-686533, Kerala	BVSc&AH/KAU/09	01.07.85
197	Atul Kumar Gupta S/o K.M. Lal Gupta	UPSVC/4973/09	New Durga Mandir, Suhag Nagar Chauraha, Himayapur Road, Firozabad,UP	BVSc&AH/NDUA&T/09	03.02.82
198	Avadhesh Niranjn S/o L.S. Niranjn	UPSVC/5067/10	H.No. 542 Moh Ajadpura, Distt.- Lalitpur,UP	BVSc&AH/GADVU/09	06.03.82
199	Avadhesh Niranjn S/o Lakhan Singh Nirajan	Pb.SVC/2866/09	Room No.224, Hostel No.8, PAU Ludhiana,Punjab	BVSc&AH/GADVASU/09	6.3.82
200	Avanish Kumar Upadhyay S/o H.L. Upadhyay	Pb.SVC/2865/09	Room No.123, Hostel No.8,GADVASU,Ludhiana,Punjab	BVSc&AH/GADVASU/09	7.2.83
201	Avdesh S/o Sh Dhanpat Singh	HarSVC/2114	# 17/23 Kath Mandi Rohtak, Haryana	BVSc&AH/CCSHAU/09	2.10.84
202	Avhad Sharad Rambhau	MahaSVC/8320/10	At-Sutarwadi, Po-Dhawalpuri, Tal.Parner, Dist-Ahmednagar-414103,Maharashtra	BVSc&AH/MA&FSU/09	05.01.85
203	Avijit Kr. Singh S/o Amerdev Singh	UPSVC/4966/09	8/9/8GA, Begum Ganj, Dalmandi Makbara, Distt.- Faizabad,UP	BVSc&AH/NDUA&T/09	01.07.82
204	Avinash R.G. S/o Rudrappa R.G.	KarnSVC/4274/09	Ramagondanahalli, Davanagere-577514, Davanagare Dt,Karnataka	BVSc&AH/KVAFSU/09	7.5.86
205	Awadh Bihari Singh S/o Late Ramchandra Singh	JVC/644/10	Veterinary Surgeon Veterinary Hospital, East Singhbhum, Chaibasa-833201, Jharkhand	BVSc&AH/RAU/75	16.06.53
206	Ayush Singh S/o Sh. Mahendra Singh Negi	UKSVC/483/09	Malla Gorakhpur, Ward No.19 Canal Road Haldwani, Distt. Nainital, Uttarakhand	BVSc&AH/OUA&T/09	23.12.84
207	B.C.Narayana Reddy S/o B.P.Nagi Reddy	APSVC/04835/09	Thondur (V) (P) (M), Pulivendula (Taluq), Kadapa Dist-516401,Andhra Pradesh	BVSc&AH/SVVU/09	20.01.83

208	B.Chandra Sekhar S/o B.Neelakantu	APSV/04955/09	Peddaveedhi, Korasavada (V), Srikakulm Dist.- 532214, Andhra Pradesh	BVSc&AH/SVVU/09	18.11.84
209	B.Channa Kesavulu Naik S/o B.Haneme Naik	APSV/04880/09	N.V.Thanda, Reddi Palli (P), Nallamada (M), Anantapur Dt. Andhra Pradesh	BVSc&AH/SVVU/09	10.09.83
210	B.Jyothsna D/o B.Venkateswara Rao	APSV/04970/09	Gullapalli (P), Cherukupalli (M), Guntur Dist., Andhra Pradesh	BVSc&AH/SVVU/09	02.05.87
211	B.K. Verma S/o Ram Verma	UPSVC/4940/09	170 Patli Nagar, Rama Devi, Kanpur, UP	BVSc&AH/NDUA&T/09	30.10.80
212	B.Kalpna Reddy D/o B.Pitchi Reddy	APSV/04914/09	H.No. 9-3-151/1, old club Road, Khammam- 507001, Andhra Pradesh	BVSc&AH/SVVU/09	16.09.86
213	B.Krishna S/o B.Chenchu Ramaiah	APSV/04881/09	N.G.O's Colony, D.No.9/772, Kanigiri, Prakasam-523230, Andhra Pradesh	BVSc&AH/SVVU/09	14.08.85
214	B.Pareesh Kumar S/o B.Venu Gopal	APSV/04920/09	Govt. Hospital Quarters, Sathyavedu, Chittoor Dist., Andhra Pradesh	BVSc&AH/SVVU/09	12.04.83
215	B.Pavan Kumar Reddy S/o B.Venkat Reddy	APSV/04998/09	H.No.3-95, Yetham (V), Kodair (M), Mahabubnagar Dist-509102, Andhra Pradesh	BVSc&AH/SVVU/09	10.08.83
216	B.Prasanna Bai D/o B.Bojya Naik	APSV/04822/09	Pedapalli Thanda (P), Satya Sai Mandal, Anantapur Dt., Andhra Pradesh	BVSc&AH/SVVU/09	07.06.85
217	B.Ramya D/o B.Bujanga Rao	APSV/04926/09	H.No. 18-779, Ashoknagar, Miryalaguda, Nalgonda Dist-508207, Andhra Pradesh	BVSc&AH/SVVU/09	16.05.85
218	B.Rangamma D/o B.Singaiiah	APSV/04975/09	Pokuru (P), V.V.Palem (M), Prakasam Dist.523113, Andhra Pradesh	BVSc&AH/SVVU/09	16.05.85
219	B.S.Yadav S/o Krishna Yadav	UPSVC/4926/09	Moh. Agrawal Street No.4 Bye Pass Road, Manipuri, UP	BVSc&AH/UPDDUPCVV /09	15.01.86
220	B.Sampath Kumar S/o B.Eshwaraiah	APSV/04894/09	H.No.12-1-485/37, New Indira Nagar, Seetharambagh, Hyderabad-6, Andhra Pradesh	BVSc&AH/SVVU/09	13.05.85
221	B.Siva Rami Reddy S/o B.Rami Reddy	APSV/04834/09	7/307-N, Bhagya Nagar Colony, Kadapa- 516002, Andhra Pradesh	BVSc&AH/SVVU/09	05.06.84
222	B.Umamaheswari D/o B.Anji Reddy	APSV/04915/09	Mamillagudem (P) (V), Mothey (M), Nalgonda Dist-508212, Andhra Pradesh	BVSc&AH/SVVU/09	27.03.83
223	B.V.V.Satyanarayana Murty S/o B. Appa Rao	APSV/04912/09	Sub post master, Peddapuramtown post office, peddapuram, East Godavari Dist- 533437, Andhra Pradesh	BVSc&AH/SVVU/09	02.07.84

224	B.Vidya D/o. B.Shyam Sunder Reddy	AP SVC/04916/09	Dhanalakshmi Colony, Gajwel, Medak Dist., Andhra Pradesh	BVSc&AH/SVVU/09	01.06.84
225	B.Vinay S/o B.Narendar	AP SVC/04922/09	H.No. 3-4-706/1, New Raipura Indira Nagar, hanamkonda, Warangal., Andhra Pradesh	BVSc&AH/SVVU/09	23.01.85
226	Babaria Chimanlal Nathalal	GVC/1210	To - Dhoraji, Kharwad Plot, Garbi chock, Dist - Rajkot,Gujarat	BVSc&AH/GAU/89	12.6.64
227	Babariya Dineshkumar Popatbhai	GVC/1936	C/O- Babariya Popatbhai Jadavbhai, At & Po: Moti-Parabadi, Via: Jetalasar (J), Ta: Dharaji, Dis : Rajkot-360 360	BVSc&AH/GAU/96	17.11.73
228	Babu M S/o Munivenkataswamy S	KarnSVC/4317/09	Chokkandahalli-562102,Siddlaghatta Tq, Chickballapura Dt.,Karnataka	BVSc&AH/KVAFSU/09	30.7.86
229	Babu.P (P.Hazarathaiah)	TNSVC/4666/09	16/4, MES Quarters, Seven Wells Pump Station, Old Jail Road, Mint, Chennai-600001, Tamil Nadu	BVSc&AH/TANUVAS/09	27.09.86
230	Badal Singh S/o R.B. Singh	UPSVC/5054/09	Vill.- Karaur, PO- Karaur, Distt- Jaunpur,UP	BVSc&AH/JNKVV/09	25.05.79
231	Badamalia Vijaykumar Najabhai	GVC/301	Prasilpark, Block No-40, Near Saurashtra University, University Road, Rajkot-5, Gujarat	BVSc&AH/GAU/73	2.5.49
232	Badgujar Hardik Rajendra	GVC/3042/09	C31, Sanjaynagar Colony, Sutarapada, Taveraval, Dist-Junagadh, Gujarat	BVSc&AH/AAU/09	06.05.87
233	Bagale Shailesh Sidramappa	MahaSVC/8225/09	3/4, Bhushan Nagar, Vangi Road, Tal.Dist.Solapur-413004,Maharashtra	BVSc&AH/MA&FSU/09	01.06.87
234	Bahire Sanghratna Vishanath	MahaSVC/8265/09	At-Wadhiwara, Post-Bhankheda, TalSengaon, Dist.Hingoli-431513,Maharashtra	BVSc&AH/MA&FSU/09	01.05.82
235	Bal Krishna Dava S/o Sh Chagan Lal	MPSVC/2596/09	L-197, Bharti Niketan, Govindpura, Bhopal, M.P	BVSc&AH/JNKVV/57	3.3.35
236	Balajee.P (K.P.Prabhakaran)	TNSVC/4655/09	82, Ward 6, Thiruvalluvar 3rd Main Street, Chidambaram, Cuddalore-608001, Tamil Nadu	BVSc&AH/TANUVAS/09	19.06.85
237	Bal Krishnan.R (C.Rajendiran)	TNSVC/4575/09	61/35, Puduvalavupatti, Ariyurnadu, Kolli hills, Namakkal Dist. Tamil Nadu	BVSc&AH/TANUVAS/09	02.04.86
238	Bal Krishnan.U.V (T.V.U.Warrier)	TNSVC/4665/09	34, Sir Madhavan Nair Road, Mahalingapuram, Chennai-600034, Tamil Nadu	BVSc/KU/68	05.06.42
239	Balamurugan.N (M.Natarajan)	TNSVC/4543/09	8/377, Sengadu, Vellalapuram PO, Edappadi taluk, Salem-636306, Tamil Nadu	BVSc&AH/TANUVAS/09	26.04.85

240	Balasubramanian.S (P.Sivasankaran)	TNSVC/4482/09	Plot No.2716, AM Block, 12th Main Road, Y-7th Street, Anna Nagar (West) Chennai-600040, Tamil Nadu	BVSc/TNAU/86	14.03.62
241	Balasubramanya N S/o Nagaraja R	KarnSVC/4261/09	No.842, 1st Main Rd, 6th B Cross, Kempe Gowda Ng, T.Dasarahalli, Bengaluru-57,Karnataka	BVSc&AH/KVAFSU/09	16.8.86
242	Balavigneswaran.M (K.Mohanram)	TNSVC/4595/09	9/2 B, Nesavaalar Street, Ramanathapuram taluk & District-623501, Tamil Nadu	BVSc&AH/TANUVAS/09	24.03.87
243	Baidha Hirenkumar Damjibhai	GVC/2238	Kishan Plot, Gondal Road, Jamkamdorana, Dis- Rajkot- 360 405,Gujarat	BVSc&AH/GAU/00	7.7.78
244	Balram S/oSh Charan Lal	MPSVC/2610/09	C/oSh Mohan Lal, Singotiya, Nai Abaadi, Kukdajagat, Chhindwara, M.P	BVSc&AH/JNKVV/09	10.6.75
245	Baltej Singh S/o Milkha Singh	Pb.SVC/2870/09	VPO. Pakhopur, Distt.Tarn Taran, Via Chohla Sahib, Punjab	BVSc&AH/GADVASU/09	15.5.87
246	Bamaniya Sanjivkumar Hiralal	GVC/2272	16, Suryanagar Society, Nr, ST Stand, Godhra, Panchamahai, Gujarat	BVSc&AH/GAU/00	16.12.77
247	Bandamiki Phawa D/o Smti B. Phawa	MeghSVC/267/09	Moopyllaitsyiar Khliethyrshi, BPO Thadlaskein, Jaintia Hill, Meghalaya	BVSc&AH/CAU/09	4.3.85
248	Bandiwar Vijay Gangaram	MahaSVC/8155/09	C/o Pandharinath Venkatrao Sughav, Amit Niwas, Dath nagar, Rampur Rd, Degloor, Tal. Degloor, Dt. Nanded-431717, Maharashtra	BVSc&AH/MA&FSU/03	04.12.77
249	Bangar Yogesh Chandrakant	MahaSVC/8312/10	Bangar Residence, Pimpalgaon (Kh), Tal. Ambegaon, dist. Pune-410503, Maharashtra	BVSc&AH/MA&FSU/09	11.07.87
250	Bansod Rutuja Ramesh	MahaSVC/8178/09	28, Atray Layout, Nagpur-440022, Maharashtra	BVSc&AH/MA&FSU/09	01.07.85
251	Bara Prakashbhai Sardarbhai	GVC/3102/10	At&Post-Nalsheri, Ta-vijaynagar, Dist-Sabarkanatha, Gujarat	BVSc&AH/AAU/10	17.05.87
252	Barad Bhoorsinh Chandasinh	GVC/1616	Karmath clinic, Main Bazar, At & Ta-Danta, Dis- Banaskantha PIN- 385 120, Gujarat	BVSc&AH/GAU/93	10.8.61
253	Baraiya Manoj Bhanjibhai	GVC/2245	"Kiran"Shastrinagar, B/H Doctor Bhilash House Ravapar Road, Morbi-363641, Gujarat	BVSc&AH/GAU/00	17.7.78
254	Barasara Sureshbhai Mavjibhai	GVC/2110	At & Po- Khareda, Ta: Morbi, Dis-Rajkot 363 642, Gujarat	BVSc&AH/GAU/98	9.3.72
255	Barbachia Prabhatbhai Chanabhai	GVC/1906	At- Aliabada, Navapara, Momage Krupa, Ta & Dis- Jamnagar, Gujarat	BVSc&AH/GAU/95	19.12.70

256	BariaVithalsinh Dalsukhbhai	GVC/1724	At: Khanpur, Po: Vadodar, Ta: Godhra, Dis : Panchmahal PIN- 389120,Gujarat	BVSc&AH/GAU/94	1.6.71
257	Barot Lalitkumar Ratilal	GVC/706	Achala 6, Sabarkunj Society, Near Vaishali Cinema, Himatnagar-383001, Dis : Sabarkantha, Gujarat	BVSc&AH/GAU/83	12.12.59
258	Barot Rajnikantbhai Panulai	GVC/530	Navapura, Near Shabji Market, Detroj Road, At & Ta- Kadi, Dis- Mehsana PIN-382715, Gujarat	BVSc&AH/GAU/80	8.9.56
259	Barot Viralkumar Bhagawandas	GVC/2999/09	At&Po, Piliucha, Ta-Vadgam, Dist- Banaskantha,Gujarat	BVSc&AH/SDAU/09	10.01.87
260	Barot Vishal Maheshkumar	GVC/3079/09	A-45, Vijay park society, Nr.Gornokuvo, Maninagar (east) Ahmedabad,Gujarat	BVSc&AH/AAU/09	22.08.82
261	Barua Jyoti Rekha MazinderS/oU.Ch. Mazinder Barua	ASM/2462/09	C/o Umesh Ch Mazinder Barua,H.No.50,Krishnapur,Nr A.G.Office,Beltola,Guwahati-29,Assam	BVSc&AH/AAU/09	12.12.84
262	Baruah Stuti S/o Mr.Prasanta Kumar Baruah	ASM/2455/09	C/o Mr.Padma Das,H.No.1, Bye Lane- 2,Chandan Nagar,Six Mile,Guwahati, Assam	BVSc&AH/AAU/09	18.12.84
263	Barwaliya Bharatkumar Parshottambhai	GVC/1886/09	14, Jigar Park Society, Odhav, Nikol Gam Road, Uttamnagar Ahmedabad,Gujarat	BVSc&AH/GAU/96	03.03.72
264	Basanti Jena, D/o Brajendra Kumar Jena	OSVC/2287/09	At:Nagpal ward no.2, Po: Udala, Distt+Mayarbhanj, Orissa	BVSc&AH/OUAT/09	03.08.84
265	Basappa N S/o Veerappa Gowda N	KarnSVC/4225/09	3rd Cross,1st Main,Sharavathinagar,Shimoga- 577201,Karnataka	BVSc/UAS,B'lore/80	20.10.56
266	Basavana Gouda H.G. S/o Kubhera Gouda H.G.	KarnSVC/4299/09	No.155,Hire Kumbala Gunte-583218,Kudligi Tq, Bellary Dt.,Karnataka	BVSc&AH/KVAFSU/09	1.6.84
267	Basavaraj Karebharamannavar S/o Hanamappa	KarnSVC/4270/09	Ibrahimpur-580001, Navalgund Tq, Dharwad Dt,Karnataka	BVSc&AH/KVAFSU/09	31.7.85
268	Basavaraj Vaddar S/o Shivappa Vaddar	KarnSVC/4262/09	Ward No. 3 rd, Saidapur Galli, Mudhol- 587313, Mudhol Tq, Bagalkot Dt.,Karnataka	BVSc&AH/KVAFSU/09	1.8.85
269	Basavaraja G.D. S/o Darakeshwarappa G	KarnSVC/4298/09	Doddajoginahalli-577214,Shikaripura Tq, Shimoga Dt,Karnataka	BVSc&AH/KVAFSU/09	2.6.86
270	Baswaraj S/o Mallikarjun Nitture	KarnSVC/4285/09	12-1-172, Ashok Nagar, Behind Karnataka College, Bidar-585401,Karnataka	BVSc&AH/KVAFSU/09	10.1.84
271	Bava Rajeshpuri Surajpuri	GVC/429	Shivshakti Sadan, Near Gam Talav, At - Amudh, Ta - Unjha, Dist - Mehsana, Gujarat	BVSc&AH/GAU/77	1.6.51

272	Bavaji Rajeshgar Motigar	GVC/1826	40, Bhavaninagar Society, Sidhdhpur Road, Unzha Three Road, Patan,Gujarat	BVSc&AH/GAU/95	30.5.70
273	Bavariya Atulkumar Girdharlal	GVC/1421	Shantiniketan Soc. , Dhankni Gari , At:Upleta , Di:Rajkot,Gujarat	BVSc&AH/GAU/91	2.4.68
274	Bawane Pradip Vishwanath	MahaSVC/8202/09	At-Ramgad Tal-Kurkheda, Dist-Gadchiroli,Maharashtra	BVSc&AH/MA&FSU/09	27.07.84
275	Baxi Jayeshkumar Kamalkant	GVC/493	257/2, G-1, Sector-19, Gandhinagar, Gujarat	BVSc&AH/GAU/79	1.3.58
276	Bebein Sinia.S (Siromony)	TNSVC/4500/09	Nesa villa, Pandivilai Mekkamandapam PO Kanyakumari Dist. Tamil Nadu	BVSc&AH/TANUVAS/09	12.03.86
277	Bechara Veljibhai Ladhabhai	GVC/1198	"Pritukrupa", 5-B, Gunjan Park, B/H. Aalap Cenctury, University Road, Rajkot-5,Gujarat	BVSc&AH/GAU/89	13.6.64
278	Beenu Jain D/o J.K. Jain	UPSVC/4978/09	V-10/4, Badshah Nagar Colony Faizabad Road, Lucknow, UP	BVSc&AH/UPDDUPCVV /09	01.07.84
279	Beeshrni P D/o Vivek Ramaswamy	KarnSVC/4347/09	No.298,3rd stage,11th main Rajarajeshwarinagar,BEML layout,Bangalore-98,Karnataka	BVSc& AH//PU/02	28.10.79
280	Beldar jigneshkumar kalidas	GVC/3043/09	Ayodhyanagar, At&Po-Naswadi, B/H-taluka Panchayat, Dist-Baroda,Gujarat	BVSc&AH/AAU/09	27.06.86
281	Belsare Manjiri Madhukar	MahaSVC/8294/09	Sahas Opp.sabnis Hospital, Aarey Rd, Naik Wadi, Goregaon (E), Tal. Dist. Mumbai-63,,Maharashtra	BVSc&AH/MA&FSU/09	02.09.84
282	Bendale Lalit Nivruti	MahaSVC/8167/09	Durgamata Nagar, At/Post-Nhavi, Tal.Yawal, Dist.Jalgaon-425511,Maharashtra	BVSc&AH/MA&FSU/09	29.01.85
283	Benjamin Angire W/o Dr.Akhil Benjamin	ASM/2428/09	C/o Dist A.H. & Veterinary Officer, Jorhat, Assam	BVSc&AH/RAU/85	9.2.61
284	Bhadarka Hamirbhai Hardasbhai	GVC/1170	Mangal Dham Society, Mangrol Road, Keshod- 362220 Dis- Junagadh,Gujarat	BVSc&AH/GAU/89	1.6.67
285	Bhadasiya Babubhai Shamjibhai	GVC/87	HIG- 693, Ekta Colony, Sector- 27, Gandhinagar, Gujarat	BVSc/Nagpur Uni/64	10.10.38
286	Bhadja Tribhovan Chhaganbhai	GVC/1054	At & Po: Nesda (Khanpar), Ta: Tankara, Dis- Rajkot, Gujarat	BVSc&AH/GAU/88	11.2.63
287	Bhadringe Viraj Vinayak	MahaSVC/8163/09	Sonabai Chawl, Room No.1, S.No. Road Mulund, Dist-Mumbai (Suburban)400080,Maharashtra	BVSc&AH/MA&FSU/08	21.01.86

288	Bhagat Vinay Tejrao	MahaSVC/8286/09	Devchandhar Appts. 240, Sector-18, Sambhajinagar Road Chinchwad Dist-Pune, Maharashtra	BVSc&AH/MA&FSU/07	02.07.83
289	Bhagwat Sekhar Ramchandra	GVC/1195	Quarter- D-7/1, Staff Quarters SardarKrushinagar Dantiwada Agricultural University, SardarKrushinagar-385506, Banaskantha	BVSc&AH/PRV/75	12.12.49
290	Bhalani Vinodrai Govindji	GVC/464	Near Telephone Exchange, Court Road, Vanthali (Sorath)- 362 610 Dis- Junagadh, Gujarat	BVSc&AH/GAU/78	5.7.56
291	Bhalia Sanjaykumar Rameshchadra	GVC/1530	Veterinary Officer, Veterinary Dispensary, Naswadi, Ta - Nasavadi, Dist - Baroda, Gujarat	BVSc&AH/GAU/92	22.11.68
292	Bhalodia Natvarlal Bhanjibhai	GVC/430	903-A, Pyramid Tower, Amin Marg, Bansi Park, Rajkot-5, Gujarat	BVSc&AH/GAU/77	1.2.53
293	Bhalodia Pratik Amrutbhai	GVC/3104/10	"Shrinathji" 18/Shahibag-1, Zanzrda Road, Junagadh, Gujarat	BVSc&AH/AAU/10	07.06.87
294	Bhalodiya Pravinkumar Nanjibhai	GVC/1176	44, Parvatinagar, Bhuravav, Godhara, Dis- Panchamahals - 389 001, Gujarat	BVSc&AH/GAU/89	23.8.64
295	Bhanderi Rameshkumar Vallabhbbhai	GVC/1844	At : Kalavad (Shitala), Nr. Sarda Patel Chowk, Dhoraji Road, Ta- Kalavad, Dis : Jamnagar, Gujarat	BVSc&AH/GAU/95	15.3.67
296	Bhandirge Rajesh Khushal	MahaSVC/8307/09	Shanti Bhavan, 18, Nr. Police Station, Mowad, Tal. Dist. Nagpur, Maharashtra	BVSc&AH/MA&FSU/09	26.03.81
297	Bhanu Kawde S/o N.L. Singh Kawde	CHSVC/480/09	Kaya Joint Director, Pashu Chikitsalya Sang, Jagdalpur, Chhattisgarh	BVSc&AH/JLNKVV/90-91	27.08.61
298	Bhanvadiya Prafulkumar Shantilal	GVC/1202	At & Po- Jamvali, Ta- Jam Jodhpur, Dis- Jamnagar. PIN.360530, Gujarat	BVSc&AH/GAU/89	4.9.64
299	Bharat Kumar S/o Sh Ram Saroop	HarSVC/2096	#106/31 Chhotu Ram Colony, Rhotak, Haryana	BVSc&AH/CCSHAU/09	26.1.82
300	Bharat Kumar, S/o Uma Shankar	UPSVC/4911/09	Vill Basia, PO Purani Basti Distt Basti, UP	BVSc&AH/UPPDDUPCVV /09	24.12.82
01	Bharate Sachin Jaisingh	MahaSVC/8258/09	Shankarnagar, Khadkat, Tal. Ashti, Dist. Beed- 414203, Maharashtra	BVSc&AH/MA&FSU/09	01.06.84
02	Bharathbhushan M S/o Manjunaik	KarnSVC/4263/09	Saraswatipura Tandya -577548, Kadur Tq, Chickmagalur Dt., Karnataka	BVSc&AH/KVAFSU/09	14.5.87
03	Bharathraj S.V. S/o Vasanthaiah	KarnSVC/4297/09	D.K.Colony, Koratagere-572129, Tumkur Dt, Karnataka	BVSc&AH/KVAFSU/09	19.4.87

304	Bhartesh Sharma S/o K.G. Sharma	CHSVC/545/10	Sector 212, Street- 19, Samriti Nagar, Bhilai, Chhattisgarh	B.V.Sc.&AH/JLNKVV/09	31.12.67
305	Bharti D/o Kuwar Singh	CHSVC/538/10	498/2 Pantan, 6 V.I.P. Nagar, Bhilai, Chhattisgarh	B.V.Sc.&AH/IGKVV/09	04.09.86
306	Bharti Sahu D/o O.L. Sahu	CHSVC/510/10	GndhiNagar, Basant Pur, Rajnand Gaon, Chhattisgarh	B.V.Sc.&AH/IGKVV/09	09.01.86
307	Bharti Verma D/o Shri Panna Lal	MPSVC/2605/09	H.No.70, Sec-C, Slice-3, Scheme No.78, Vijay Nagar, A.B.Road, Indore, M.P	BVSc&AH/JNKVV/09	25.6.85
308	Bhatt Harit Dhananjaybhai	GVC/3044/09	20, Arihant Park App.B/H Sarjan society, Nr.Ravidarshan Appt. City light, Surat, Gujarat	BVSc&AH/AAU/09	02.09.86
309	Bhavana Rathore S/o Bheru Lal Rathore	RajSVC/3691/09	Near Bardi Ka Chabutra, Jhalra Patan, Jhalawar-326023, Rajasthan	BVSc&AH/RAU/09	25.05.84
310	Bhavani.K.P (K.Prakasam)	TNSVC/4622/09	209, III Main Road, Thirumalai Nagar, Hasthinapuram, Chennai-64	BVSc&AH/TANUVAS/09	24.11.86
311	Bhavsar Vipulkumar Jagdishkumar	GVC/1763	A-12, Shri Krishna Row-House, Near Adityanath Society, T B Road, Mehsana, Gujarat	BVSc&AH/GAU/94	18.11.67
312	Bhavsar Yogeshkumar Kanaiyalal	GVC/2160	At & Po- Bilodara, Ta - Mansa, Dis - Gandhinagar, Gujarat	BVSc&AH/GAU/99	29.9.76
313	Bhavya. S (R. Sekar)	TNSVC/4648/09	12, Perumal Kovil Street, Kallakurichi- 606202, Villupuram, Dist. Tamil Nadu	BVSc&AH/TANUVAS/09	20.08.85
314	Bhawana Gupta D/o Sh G.L.Gupta	MPSVC/2646/09	C/o Sh R.K.Gupta, Panna Mod, Kuthla, Nr Shiv Sanatan School, Katni, M.P	BVSc&AH/JNKVV/09	20.3.85
315	Bhelonde Jaiprakash Jaisingrao	MahaSVC/8302/09	16, Shivam Deepnagar, Mukhed Tal, Mukhed, Dist.Nanded, Maharashtra	BVSc&AH/MAU/99	05.09.76
316	Bhimani Bharatkumar Bhudarbhai	GVC/1155	C/O, Uttam Dairy, Gomatipur, Ahmedabad, Gujarat	BVSc&AH/GAU/89	1.5.64
317	Bhimani Chimankumar Khimajibhai	GVC/1609	At - Ajab, Ta- Keshod, Dis- Junagadh PIN- .362220, Gujarat	BVSc&AH/GAU/93	10.6.69
318	Bhinde Haresh Gangaji	GVC/1938	B/5, Swaminarayan nagar, Jadiya, Juno Vas, Madhupur, Ta - Bhuj, Dist - Kachchh, Gujarat	BVSc&AH/GAU/96	30.7.73
319	Bhingaradiya Batukbhai Vaghabhai	GVC/1254	At-Po. Gadhada (SN), Opp. Shrijee Cinema, Ta- Gadhada, Dist. Bhavnagar, Gujarat	BVSc&AH/GAU/90	9.3.66

320	Bhojane Somnath Maruti	MahaSVC/8271/09	At-Jarkarwadi, Post-Pargaon, Tal.Ambegaon, Dist.Pune-412406,Maharashtra	BVSc&AH/MA&FSU/09	04.03.85
321	Bhole Gajanan Bhuniwale	MahaSVC/8191/09	C/o Ganga Sabhagruha, 3rd Floor, Krida Squar, Hanuman Nagar, Nagpur- 440009,Maharashtra	BVSc&AH/MA&FSU/09	23.08.86
322	Bhoola Ram S/o Vira Ram Choudhary	RajSVC/3597/09	VPO-Kesury, Teh.- Sanchore, Jalore-343041, Rajasthan	BVSc&AH/RAU/09	10.07.77
323	Bhoot Purushottam Bhovanbhai	GVC/265	"NIRUPAM", Durveshnagar Society, Junagadh- 362 001, Gujarat	BVSc&AH/GAU/72	1.7.48
324	Bhoraniya Dayalji Amarshi	GVC/878	12- Avani Park Society, Sanada Road, Morbi, Dis Rajkot , Gujarat	BVSc&AH/GAU/86	1.6.62
25	Bhorkar Vasant Damodar	GVC/193	11/B, Anupamnagar-H Colony, Old Padra Road, Nr.Tube Co, Vadodara-390 020, Gujarat	BVSc&AH/PKV/70	14.10.44
26	Bhosale Sachin Tukaram	MahaSVC/8335/10	Belwadi, Tal.Indapur, Dist. Pune- 413104,Maharashtra	BVSc&AH/MA&FSU/09	01.03.86
27	Bhupendar Sharma S/o Prithu Dutt Sharma	RajSVC/3699/09	Khandelwal Medical Store, Opposite Government Hospital, Bhadra, Hanumangarh- 335511, Rajasthan	BVSc&AH/KAU/09	23.12.84
28	Bhupendra Kumar Devangan s/o Dhanraj Prasad	CHSVC/526/10	Village & Post- Thnood, District- Durg,Chhattisgarh	B.V.Sc.&AH/IGKVV/09	28.12.85
19	Bhubendra Kumar S/o Santosh Kumar	CHSVC/527/10	Village & Post- Kesara Patan, Durg,Chhattisgarh	B.V.Sc.&AH/IGKVV/09	12.07.84
30	Bhut Dipeshkumar Chhwalal	GVC/1888	F-14, Janakpuri Apprt, Zanzarda Road, Junagadh	BVSc&AH/GAU/95	21.10.72
31	Bhuvanendra Kumar S/o Dhanraj	GVC/1713	At & Po:Buri, Ta:Manavadar Di:Junagadh,Pin- 362630,Gujarat	BVSc&AH/GAU/94	5.3.71
32	Bhuva Chhaganlal Naranbhai	GVC/830	"Narayan", Bhagyalaxmi Society, B/H Sardar Baug, Junagadh, Gujarat	BVSc&AH/GAU/80	2.10.53
33	Bhuva Viren Mansukhlal	GVC/2246	At :- Kolithad, Ta - Gandal, Dist - Rajkot,Gujarat	BVSc&AH/GAU/00	5.6.78
34	Bijaini Panda, D/o daya Nath Panda	OSVC/2291/09	Vill-Malatahi, P.O-Dipi deuli, via.- Balanga- Puri, Orissa	BVSc&AH/OUAT/03	02.05.83
35	Bikash Sharma S/o Pri Chandan Lal Sharma	MPSVC/2611/09	Near New Court Housing Board Triangle, M.S.Road, Morena, M.P	BVSc&AH/INKVV/09	20.07.83

336	Bindeshwari Singh W/o Ram Kumar Singh	CHSVC/477/09	F/21/03, Civil Line, Kanker, Chhattisgarh	BVSc&AH/IGKVV/95-96	12.11.73
337	Binod Kumar S/o Late Fawdi Sahu	IVC/648/10	Kaushalya Bhawan Ma Anandmayi Nagar Kathitarn, Ratu-835222, Jharkhand	BVSc&AH/BAU/84	04.05.59
338	Biplab Deb Roy, S/o Lt. Bijan Behari Deb Roy	TripuraSVC/175/08	C/o Salil Dhar PO&Vill-Srirampur Kailashar Tripura(North)	BVSc&AH/CAU/07	9.2.83
339	Biplab Sahu, S/o Dharanither Sahu	OSVC/2265/09	At-Jharava Mess, PO-Dhabalegiri, Via-J.K. Road, Distt. Jaipur-755019, Orissa	BVSc&AH/OUAT/08	10.06.80
340	Biradar Kishan Balaprakash S/o Biradar Balaprakash Manikrao	KarnSVC/4360/09	Veterinary officer, A.H&Vetey Services, Bijalgaon, Nandi Post, Aurad Tq, Bidar Dt., Karnataka	BVSc&AH/MAFSU/05	1.5.82
341	Bisitha K.S (D/o K.K. Subhash Chandra Bose	KSVC/3578/09	Kattiparambil House, Moothakunnam PO., Ernakulam-683516, Kerala	BVSc&AH/KAU/09	23.05.86
342	Biswabhanu Samanta Singhar, S/o Upendranath Samant	OSVC/2317/09	Plot No. 130 Siripur, Nuasahi, PO Delta Distt. Khurda, Bhubaneswar-751003, Orissa	BVSc&AH/OUAT/09	22.06.86
343	Bobitha Stanly, D/o Stanly George	KSVC/3560/09	Karikothu House Avoly P.O., Muvattupuzha, Ernakulam-686677, Kerala	BVSc&AH/KAU/09	16.09.86
344	Boda Jayeshkumar Gopalbhai	GVC/2308	B-12, Silver Coin Apprt., Opp. Judges bunglow, PremchandNagar Road, Ahmedabad, Gujarat	BVSc&AH/GAU/96	23.9.78
345	Bodar Khima Ranmal	GVC/2244	At: Bhinda, Via: Bhadthar, Ta: Jamkhambhalia, Di: Jamnagar- 361 306, Gujarat	BVSc&AH/GAU/00	15.2.75
346	Borah Bitumani S/o Mr. Babul Borah	ASM/2431/09	Girls Hostel, College of Vety Science, Khanapara, Guwahati-22, Assam	BVSc&AH/AAU/09	25.11.86
347	Borah Jayanta Jeet S/o Ratneswar Borah	ASM/2436/09	Brindaban Nagar, Sijubari Near Khankah Maszid, Hatigaon, Guwahati, Assam	BVSc&AH/AAU/09	31.7.83
348	Borah Rashmi Rekha D/o Dr. Sailajananda Borah	ASM/2429/09	H.No.5, By Lane- 8, Sewaliparth, Hatigaon, Guwahati, Assam	BVSc&AH/AAU/07	11.7.83
349	Borisagar Prakash Chotalal	GVC/1260	Veterinary Dispensary, Dhari, Ta- Dhari, Dis- Amreli, Gujarat	BVSc&AH/GAU/90	14.1.68
350	Boro Prasanta S/o Sri Ramesh Ch Boro	ASM/2438/09	C/o Ramesh Ch. Boro Vill No.-1 Galachuba, PO-Sikaribangla, Dt-Gudalguri-784528, Assam	BVSc&AH/AAU/09	1.05.85
351	Borole Rajendra Sudhakar	MahaSVC/8301/09	"Anusudha", 932/1, Near Society, Vidyanagar, A/P-Faizpur, Tal.Yawal Dist.Jalgaon, Maharashtra	BVSc&AH/MA&FSU/05	01.06.81

352	Brahmaxatri Kailashkumar Ghanshyamlal	GVC/1614	Nr. Janta Nagar Society, Mansarovar Road, Palanpur-385 001 Dist. Banaskantha, Gujarat	BVSc&AH/GAU/93	16.11.70
353	Brahmbhatt Narendrakumar Jayantilal	GVC/891	Bhatvado , Kansara Sheri, At & Ta - Mansa, Dis - Gandhinagar, Gujarat	BVSc&AH/GAU/87	3.7.63
354	Brahmbhatt Yashvantkumar Jaydevbhai	GVC/707	Near Manek Krupa Vidhyamandir, Alkapuri, Himatnagar- 383001, Di: Sabarkantha, Gujarat	BVSc&AH/GAU/83	9.2.61
355	Brahmbhatt Yogeshkumar Vinubhai	GVC/2184	A-17/Avanipark Soc. , At& Po: Kapadwanj , Di:Khedā,Gujarat	BVSc&AH/GAU/99	20.5.76
356	Braj Mohan Sharma S/o Sh Olaram Sharma	MPSVC/2612/09	C/o Ram Gopal Sharma, Nr New Court Housing Board Triangle, M.S.Rd, Morena, M.P	BVSc&AH/JNKVV/09	15.09.84
357	Brajesh Kumar S/o N.K. Mishra	UPSVC/4906/09	Jawahar Nagar, Kabrai, Distt.- Mahoba, UP	BVSc&AH/GBPUA&T/09	12.11.82
358	Brajnandan Pd. Singh S/o Late Munsī Prasad Singh	IVC/597/09	Chief Instructor (Retired) Gauriakarma, Barhi Hazaribagh (Jharkhand)	BVSc&AH/RAU//71	28.03.49
359	Brijesh Bhardwaj S/o S.K. Upadhyay	UPSVC/4965/09	Vill.- Mahuval, PO- kichhoucha, Distt.- Ambedkar Nagar, UP	BVSc&AH/CSKHPKV/09	15.08.86
360	Brijesh Kumar Punia S/o Dhannaram Punia	RajSVC/3621/09	Vill.-Mohabbat Sari, Post-Ghoriwara Khurd, Jhunjhunu-333705, Rajasthan	BVSc&AH/RAU/09	01.11.79
361	Brijesh Kumar Singh S/o Surya Bali	UPSVC/4921/09	Vill Bihata, PO Palthi Tehsil Phoolpur, Azamgarh, UP	BVSc&AH/UPPDDUPCVV /09	05.03.78
362	Brijesh Kumari Meena D/o Kalu Lal Meena	RajSVC/3762/10	H.No. 36-A, Sanjay Nagar, Kota, Rajasthan	BVSc&AH/SKRAU/10	02.05.83
363	Bruce.M.S (P.Muthuswamy)	TNSVC/4455/09	S.B..Building, Kuzhithnurai West, Pacode Post, Kanyakumari district-629168, Tamil Nadu	BVSc/TNAU/76	30.06.51
364	Bthani Rahulkumar Harsukhlal	GVC/3103/10	Avadh Society-1, Street No.2,"Vrundavan" Sanala Road, Morbi,Gujarat	BVSc&AH/AAU/10	11.06.88
365	Butani Maganlal Gopalbhai	GVC/1464	At & Po: Kaneri, Via & Ta: Keshod, Dis : Junagadh,Gujarat	BVSc&AH/GAU/91	26.6.67
366	C.Gurivi Reddy S/o C.Yanadi Reddy	APSVC/04898/09	Ram Chandra Nagar (V), A.Nakkaladhinne (P), Chapadu (M), Kadapa Dist., Andhra Pradesh	BVSc&AH/SVVU/09	10.06.85
367	C.M.Venkateswara Sarṃa S/o C.M.B.Krishna Moorthy	APSVC/04876/09	D.No. 2/1015-B, Sri Satya Sai Nilayam, Nehru Nagar, Kadapa, Andhra Pradesh	BVSc&AH/SVVU/09	12.04.85

368	Ch. Nagendra S/o Ch.Anjaiah	AP SVC/04993/09	Vootlapally (P&V), Miryalaguda (M), Nalgonda Dist., 508207, Andhra Pradesh	BVSc&AH/SVVU/09	15.06.83
369	Ch. S.Krishna Rao S/o Ch. Raja Rathnam	AP SVC/04990/09	Srinivasa Nagar, Tangutur (M), Prakasam Dist., Andhra Pradesh	BVSc&AH/SVVU/09	12.07.82
370	Ch. Yerrunaidu S/o Ch. Sri Ram Murthy	AP SVC/04952/09	Mushidipalli (P) (V), Devarapalli (M), Visakhapatnam Dist-531030, Andhra Pradesh	BVSc&AH/SVVU/09	30.08.85
371	Ch.Malli Babu S/o Ch. Satyanarayana	AP SVC/04947/09	Nathavaram (P) (M), Visakhapatnam Dist- 531115, Andhra Pradesh	BVSc&AH/SVVU/09	07.05.86
372	Ch.Sree Rupavalli D/o Ch.Krishna Kishore	AP SVC/04819/09	5-4-768, Bhulaxminagar, Vanasthalipuram, Hyderabad-500070, Andhra Pradesh	BVSc&AH/ANGRAU/02	07.07.79
373	Chachondia Kadambari, Dr./O- Dineshkumar	GVC/3054/09	Bunglow No.-14, C/o Mr.D.K.Chachondia, Pratap nagar railway colony, Baroda, Gujarat	BVSc&AH/AAU/09	13.10.86
374	Chakkingal P.Devanand	GVC/3096/09	Sabarmati Ashram Gausalam Qtr.No.62, Asram Road, Ahmedabad,Gujarat	BVSc&AH/KAU/92	01.06.68
375	Chakraborty Raju S/o Babul Chakraborty	ASM/2425/09	Vill- UttarAmeri, PO-Barpani,Dt-Nagaon- 782425,Assam	BVSc&AH/AAU/08	28.2.81
376	Chakraborty Sharmistha S/o Dr.Apurba Chakraborty	ASM/2446/09	College of Veterinary Science Campus,AAU Khanapara, Guwahati-22,Assam	BVSc&AH/AAU/09	30.8.85
377	Chanchpara Dineshbhai Meghrajibhai	GVC/1052	Veterinary Dispansary, Vapi, Ta -Killa-Pardi, Dist - Valsad, Gujarat	BVSc&AH/GAU/88	9.10.65
378	Chander Shekher Sarswat S/o Shanker Lal Sarswat	RajSVC/3587/09	110-L-Block,Sriganganagar-335001,Rajasthan	BVSc&AH/SKNDU/08	01.06.83
379	Chandershekhar Chandrakar S/o Tuls Ram Chanderakar	CHSVC/463/09	Veterinary Club Para Mahasamund,Chhattisgarh	BVSc&AH/JLNKVV/90-91	23.04.68
380	Chandra Bhan S/o Nawab Singh	UPSVC/4916/09	Vill & Po. Hironda Distt. Agra, UP	BVSc&AH/UPDDUPCVV /09	03.01.81
381	Chandra Prakash Sharma S/o Mool Chand Sharma	RajSVC/3588/09	Shivpuri Colony, Ward No.17, Neem Ka Thana, Sikar-332713, Rajasthan	BVSc&AH/RAU/09	16.02.83
382	Chandra SekharMukhopadhyay S/o S.Mukhopadhaya	Pb.SVC/2917/09	Deptt of Animal Biotechnology,GADVASU, Ludhiana,Punjab	BVSc&AH/WBUA&FSU/0 2	1.4.79
383	Chandrakesan.P (R.Periyasamy)	TNSVC/4572/09	S. Marigo Street, A. Karattipalayam, Mialalavaram PO, Sakthi Nagar via, Erode- 624215, Tamil Nadu	BVSc&AH/TANUVAS/09	25.02.84

384	Chandramohan S S/o Siddappa R	KarnSVC/4316/09	Uppakunte Village, Mudiyananur-563127, Srinivasapura Tq, Kolar Dt., Karnataka	BVSc&AH/KVAFSU/09	20.8.86
385	Chandrapal Katar Singh	GVC/1197	C/O, Veterinary Section, Sabar Dairy, At & Po- Boria, Ta-Himmatnagar, Dis- Sabarkantha PIN- 383001	BVSc&AH/GBPUAT/81	1.9.55
386	Chapadia Amitkumar Trikambhai	GVC/2285	Bordi Chora, Isani Faliya, Vanthali (Sorath)- 362610, Dis- Junagath, Gujarat	BVSc&AH/GAU/00	9.9.77
387	Charan Vishnudan Ayadanji	GVC/587	4, Laxmi Narayan Soc, At & Ta - Idar, Dist - Sabarkantha, Gujarat	BVSc&AH/GAU/81	18.5.57
388	Chaudhari Amitkumar Ramjibhai	GVC/2692/09	Motavas, Po Charada, Ta Mansa, Dist Gandhinagar-382810, Gujarat	BVSc&AH/SDAU/06	26.09.83
389	Chaudhari Ankitkumr Kantibhai	GVC/3105/10	At&PO-Mehasana, Gujarat	BVSc&AH/AAU/10	03.08.88
390	Chaudhari Arvind Kanjibhai	GVC/3045/09	At-Moti Hirvani, Ta-Kheralu, Dist-Mehsana, Gujarat	BVSc&AH/AAU/09	31.10.85
391	Chaudhari Babubhai Dungarbhahi	GVC/1620	At - Unad , Ta - Kheralu, Dist - Mehsana, Gujarat	BVSc&AH/GAU/93	1.6.69
392	Chaudhari Chandulal Ganeshji	GVC/2289	At: Sherpura, Po: Kansari, Ta: Deesa, Di: Banaskantha- 385 535, Gujarat	BVSc&AH/GAU/00	1.6.78
393	Chaudhari Dahyabhai Bahecharbhai	GVC/923	At - Khatoda, Ta - Vadnagar, Dist - Mehsana, Gujarat	BVSc&AH/GAU/87	1.6.62
394	Chaudhari Dhaval Popotabhai	GVC/3106/10	G-5 Pramukhnagar Opp Shayona City, Ghatlodia, A'Bad, Gujarat	BVSc&AH/AAU/10	07.08.87
395	Chaudhari Dineshkumar Chamabhai	GVC/2161	At & Po- Godadha, Ta- Mandvi Dis- Surat PIN- 394160, Gujarat	BVSc&AH/GAU/99	20.7.74
396	Chaudhari Govindbhai Jivanbhai	GVC/1403	At & Po- Pamol, Ta: Vijapur, Dis- Mehsana, Gujarat	BVSc&AH/GAU/91	11.10.66
397	Chaudhari Jayeshkumar Amrutlal	GVC/3046/09	At-Bapupura, Ta-Mansa, Dist Gandhinagar, Gujarat	BVSc&AH/AAU/09	20.07.87
398	Chaudhari Mukeshkumar Jagamalbhai	GVC/3107/10	At-Po Raviyana, Ta-Kankrej, Dist- Banaskantha, Gujarat	BVSc&AH/AAU/10	01.06.87
399	Chaudhari Mulabhai Ambabhai	GVC/3108/10	At-Bural, Po Khimal, Ta-Deesa, Dist- Banaskantha, Gujarat	BVSc&AH/AAU/10	05.06.86

400	Chaudhari Prakashkumar Muljibhai	GVC/2007	At & Po - Dadhiyal, Ta -Visnagar, Dis- Mehsan, Gujarat	BVSc&AH/GAU/96	1.1.73
401	Chaudhari Rahulkumar Chelajibhai	GVC/3080/09	At&Post-Balod, Ta-Kheralu, Dist- Mehsana,Gujarat	BVSc&AH/AAU/09	22.08.86
402	Chaudhari Shankerbhai Sakabhai	GVC/1184	Moto Chaudharivas, Mansa Road, At & Po- Charada, Ta- Mansa, Dis- Gandhinagar, Gujarat	BVSc&AH/GAU/85	21.7.62
403	Chaudhari Vijaykumar Kalidas	GVC/2112	19, Jay Mangal Society, Mirambika Road, Naranpura, Ahmedabad-13,Gujarat	BVSc&AH/GAU/98	31.8.75
404	Chaudhari Vinodkumar Abheraj	GVC/1760	Near District Bank,At & Po-Charada, Ta- Mansa, Dis- Gandhinagar,Gujarat	BVSc&AH/GAU/94	25.9.72
405	Chaudhary Abhubhai Premjibhai	GVC/793	At - Kodrali, Po- Chhapi, Ta - Vadgam, Dst - Banaskantha- 385 210, Gujarat	BVSc&AH/GAU/84	1.6.59
406	Chaudhary Anilkumar Muljibhai	GVC/3000/09	Village-Kanpur, Ta & Distt-Gandhinagar, PO- Chhala, Gujarat	BVSc&AH/SDAU/09	31.07.87
407	Chaudhary Dasharathkumar Valjibhai	GVC/2066	At- Ucharpi, Po - Dela, Ta & Dis- Mehsana,Gujarat	BVSc&AH/GAU/97	2.6.75
408	Chaudhary Girish Meghajibhai	GVC/3001/09	To-Kansa,Ta & Dist- Patan-384265, Gujarat	BVSc&AH/SDAU/09	27.01.85
409	Chaudhary Maheshkumar Abherajbhai	GVC/2162	At - Laxmipura (Khara), Po - Mitha, Ta & Dist - Mehsana,Gujarat	BVSc&AH/GAU/99	30.3.75
410	Chaudhary Pranavkumar Raghubhai	GVC/2111	38, Shankar Nagar Society, Opp-Dudhsagar Dairy, Mehsana,Gujarat	BVSc&AH/GAU/98	24.9.76
411	Chaudhary Rajni	GVC/2994/09	H.N.1254/3, Sector 7-D Gandhinagar ,Gujarat	BVSc&AH/KVA&FSU/06	19.10.83
412	Chaudhary Rameshkumar Umaji	GVC/2295	28, Sunrise Park Society, Patel Society Road, At & Ta-Deesa, Dis-Banaskatha- 385 535,, Gujarat	BVSc&AH/GAU/00	2.1.78
413	Chaudhary Sunita	GVC/2995/09	H.N.1254/3, Sector 7-D, Gandhinagar,Gujarat	BVSc&AH/KVA&FSU/07	04.09.85
414	Chaudhri Govindbhai Ramsangbhai	GVC/1182	At & Po - Fatehpura, Ta - Kheralu, Dis- Mehsana,Gujarat	BVSc&AH/GAU/89	15.3.65
415	Chaudhri Manojkumar Akheraj	GVC/1253	At & Po- Charada, Ta: Mansa, Dis- Gandhinagar,Gujarat	BVSc&AH/GAU/90	28.10.67

416	Chauhan Ashokkumar Naranbhai	GVC/1658	At-Hatipura, Po-Asharama, Tal-Ankalav, Dist-Anand, Gujarat	BVSc&AH/GAU/93	25.5.67
417	Chauhan Devendrakumar Shankarlal	GVC/2132	"Shantikunj", 21-B, Shreenagar Society-1, Nr. Mundav Road, Dahod, Gujarat	BVSc&AH/GAU/98	19.9.75
418	Chauhan Hareshkumar Dasrathlal	GVC/1744	7, Gurukrupa Society, Abu Highway Road, Palanpur - 385001, Banaskantha, Gujarat	BVSc&AH/GAU/94	1.6.70
419	Chauhan Harshadkumar Chaturbhai	GVC/1977	E-15/1, Staff Quarters SardarKrushinagar Dantiwada Agricultural University, SardarKrushinagar-385506, Banaskantha	BVSc&AH/GAU/96	27.2.72
420	Chauhan Mahendrasingh Gumansingh	GVC/1914	At : Chauhangadh, Po- Marpuria, Ta- Amirgadh, Dis- Banaskantha-385135, Gujarat	BVSc&AH/GAU/95	1.6.72
421	Chauhan Maheshbhai Khanabhai	GVC/1861	Rohir Nivas, At & Po - Bavla, Dist - Ahmedabad- 384710, Gujarat	BVSc&AH/GAU/94	6.1.70
422	Chauhan Mansingh Khumansingh	GVC/467/10	C/o Dr. KD Chauhan, Block No. 1055, Sector-27, Swastik Society, Gandhinagar, Gujarat	BVSc&AH/GAU/78	15.03.52
423	Chavan Shamsundar Sarjerao	MahaSVC/8254/09	Adv.S.S.Chavan, house No.22, Vakil Colony, Parbhani, Dist.Parbhani-431401, Maharashtra	BVSc&AH/MA&FSU/09	05.10.81
424	Chavda Arvindkumar Hirjibhai	GVC/801	Vrundavan Society, Nr. Timbavadi, Junagadh, Gujarat	BVSc&AH/GAU/84	6.6.78
425	Chavda Chandansinh Lakhabhai	GVC/2138	At - Dholi, Ta - Dholaka, Dis-Ahmedabad- 382240, Gujarat	BVSc&AH/GAU/98	21.12.74
426	Chavda Chaturji J.	GVC/531	A-302, Surya Ketu Tower, Opp. Judges Bunglow, Near Sambhav Press, Bodakdev, Ahmedabad - 380 015	BVSc&AH/GAU/80	29.3.8
427	Chavda Dashrathsinh Parvatsinh	GVC/1172	At & Po - Ajol, Ta-Mansa, Dis - Gandhinag, Gujaratar	BVSc&AH/GAU/89	15.6.65
428	Chavda Kantilal Parshottambhai	GVC/887	Govt. Quarter D/15/97 Nr. Circuit House, Khaghawadi Road, Bhavnagar, Gujarat	BVSc&AH/GAU/86	13.9.60
429	Chavda Kiritkumar Jayantilal	GVC/3047/09	At-Mangrol Vithal vilas, Jail Road, Dist-Junagadh, Gujarat	BVSc&AH/AAU/09	30.09.87
130	Chavda Mukeshkumar Gulabbhai	GVC/2064	At near Railway Station, Lunawada, Ta-Lunawada, Dis : Panchmahal- 389 230, Gujarat	BVSc&AH/GAU/97	1.2.74
31	Chavhan Sushil Shankar	MahaSVC/8259/09	C/o S.G.Chavhan, Dubewar Lay out, Pusad, Tal.Pusad, Dist.Yavatmal, Maharashtra	BVSc&AH/MA&FSU/09	30.03.85

432	Chetan A.B. S/o Basappa M	KarnSVC/4290/09	Attimogge, 577228, Tarikere Tq, Chickmagalur Dt.,Karnataka	BVSc&AH/KVAFSU/09	20.5.87
433	Chethan Kumar K.N. S/o Nagaraja K.M.	KarnSVC/4236/09	Hospital Street, Govt Hospital Area, Sirigere- 588541, Chitradurga Tq & Dt.,Karnataka	BVSc&AH/KVAFSU/09	9.3.86
434	Chikhaliya Harshadkumar Durlabhjiibhai	GVC/3081/09	At&Post -Sarvad, Ta Maliya (Miyana), Dist- Rajkot,Gujarat	BVSc&AH/AAU/09	05.05.87
435	Chinmay Rout, S/o Akshaya Kumar Rout	OSVC/2284/09	At/Po: Rohia, Via.-Nuagaonhat, Distt.- Jagatsinghpur,Orissa	BVSc&AH/OUAT/09	23.08.87
436	Chinoy Zenobai Rohinton	MahaSVC/8292/09	Bunglow No. 22, Telco Senior Officers' Coop. Hsg.Society, Tal.Pimpri, Dist.Pune- 411018,Maharashtra	BVSc&AH/MA&FSU/09	27.10.85
437	Chisty Syed Salman Chisty Syed Sadruddin	MahaSVC/8220/09	Rizwan.Inayat Nagar, Tal. Dist. Parbhani- 431401,Maharashtra	BVSc&AH/MA&FSU/09	20.04.82
438	Chitra Dhiman D/o Sh. R.N. Singh	UKSVC/489/09	Veterinary Officer Veterinary Hospital, Bhikiyasain, Distt. Almora, Uttarakhand	BVSc&AH/GBPAA&T/01	15.06.79
439	Chitra.K.J (C.Rajah)	TNSVC/4465/09	19,84th Street, 13th Sector, K.K.Nagar, Chennai-600078, TN	BVSc/TANUVAS/00	10.06.74
440	Chitrambigai.K. (M.Krishnan)	TNSVC/4498/09	14, Bharathi Nagar, Kalanivasal, Karaikudi- 630001, TN	BVSc&AH/TANUVAS/09	27.03.86
441	Chocha Divyakant Karshanbhai	GVC/2043	207, Krishna Vihar, Near Azad Weigh Bridge, Nutannagar, Vapi, Ta - Pardi, Dt - Valsad- 396 191, Gujarat	BVSc&AH/GAU/96	6.1.75
442	Chothani Mehulkumar Goganbhai	GVC/2187	Block No- 182/A/5, CH- type, Sector-30, Gandhinagar,Gujarat	BVSc&AH/GAU/99	16.6.76
443	Chougule Anil Mahaveer	MahaSVC/8266/09	A/P-Dattawad, Tal, Shiral, Dist.Kolhapur- 416107,Maharashtra	BVSc&AH/MA&FSU/09	30.06.85
444	Chougule Sunita Shripati	MahaSVC/8304/09	At-Post-Punal, Tal.Panhala, Dist.Kolhapur- 416205,Maharashtra	BVSc&AH/MA&FSU/09	10.11.81
445	Choure Kuldeep Kalyanrao	MahaSVC/8216/09	At-Talepimpleon, Tal. Patoda, Dist. Beed- 414204,Maharashtra	BVSc&AH/MA&FSU/09	01.05.81
446	Chovatia Popatbhai Nanjibhai	GVC/358	2, Murlidhar Society, Joshipura, Junagadh, Gujarat	BVSc&AH/GAU/75	7.7.50
447	Chowdhury Sadhana S/o Sri Sarat Ch. Chowdhury	ASM/2463/09	C/o S.C.Chowdhury VFA 30-Sow Unit Deptt of LPM COVSc,AAU Khanapara, Guwahati, Assam	BVSc&AH/AAU/09	1.1.81

8 Chukewar Atul Babanappa	MahaSVC/8166/09	At. Po.Ghatbori, Tal. Mehkar, Dist. Buldhana-443301, Maharashtra	BVSc&AH/MA&FSU/09	14.03.86
9				
1 Clement Louis Raj.A (M.Amala Doss)	TNSVC/4462/09	No.10-A/1 (Old No.46-A/1) West Circular Road, Mandavelipakkam, Chennai-600028, Tamil Nadu	BVSc/M.U/74	28.01.46
Coutinho Natasha Rachel S/o Lawrence Coutinho	GoaSVC/149/09	C/o David & Co. Bela Vista Apts. Monte-Margao- Goa	BVSc&AH/PU/09	
Cunha Costa Maria Niceta S/o Manual Cunha Costa	GoaSVC/146/09	Agricol, Rana, Curtorim, Salcee-Goa	BVSc&AH/PU/08	
D. Anjaneya Reddy S/o D. Guruvaiah	APSVC/04908/09	Madanapullalacheru (P), Bestavaripeta (M), Prakasam Dt., Andhra Pradesh	BVSc&AH/SVVU/09	08.04.83
D. Suresh S/o D.L.Prasada Rao	APSVC/04946/09	C/o Sri Srin Auto Xerox, Main Road, Salur, Vizianagaram Dist-535591, Andhra Pradesh	BVSc&AH/SVVU/09	20.08.85
D.Archana D/o D.Prakash Swamy	APSVC/04934/09	CMPF Quarters, Block-F, Godavarikhani, Karimnagar Dist., Andhra Pradesh	BVSc&AH/SVVU/09	13.05.86
D.Chinna Babu S/o D. Tailor Jamal	APSVC/04858/09	H.No. 7/428, Kanala (P&V), Nandyal (T), Kurnool Dt., Andhra Pradesh	BVSc&AH/SVVU/09	01.06.82
D.Hareesh S/o D.Chandra Mouleeswara Rao	APSVC/04938/09	Pedapalli (P), Nagaram (M), Pittavanipalem (V), Guntur Dist.-522329, Andhra Pradesh	BVSc&AH/SVVU/09	26.08.87
D.Indira D/o D.Biksha Naik	APSVC/04988/09	Ralla vagu Tanda (V), Damaracharia (M), Miryalaguda (Tq), Nalgonda Dist., Andhra Pradesh	BVSc&AH/SVVU/09	13.08.85
D.K. Gupta S/o L.L.Gupta	UPSVC/5057/09	Kanspur Road Dataganj, Distt Badaun, UP	BVSc&AH/UPPDDUPCVV /09	15.02.78
D.K.Chaudhary, S/o B.Chaudhary	UPSVC/4908/09	Vili Nadawan Po Bankunyan, Distt Sidharthnagar, UP	BVSc&AH/UPPDDUPCVV /09	31.03.79
D.Kishore S/o anakeshwara Rao	APSVC/04826/09	D.No.1-23-67, Balaga, Balaji Nagar, Srikakulam-532001, Andhra Pradesh	BVSc&AH/SVVU/09	12.08.82
D.L.Singh S/o S.D. gh	UPSVC/5036/09	Block A, Bhagwati Nagar, Susuwaha, Varanasi, UP	BVSc&AH/Agra Uni/73	09.07.49
D.L.Singh S/o S.P. h	UPSVC/5073/10	SH-3/1A, 201 Tulsi Vihar Colony Navalpur Basani, Distt.- Varanasi, UP	BVSc&AH/IGKV/09	06.11.82
D.L.Singh S/o R.P.Singh	UPSVC/5074/10	H.No.1/577 New Colony Surendra Nagar, Aligarh, UP	BVSc&AH/RAU/10	22.10.85

464	D. Pallavi D/o D. Akki Reddy	AP SVC/04943/09	Ponnaluru (P) & (M), Prakasam Dist., Andhra Pradesh	BVSc&AH/SVVU/09	02.05.84
465	D. Shanthibabu S/o D. Somulu	AP SVC/04925/09	H.No. 6-2-1133/4A, Pint No. 34, New Venkateswara Colony, Hyd Road, Nalgonda Dist., Andhra Pradesh	BVSc&AH/SVVU/09	12.04.84
466	Dabhi Bhagvanji Jivanlal	GVC/805	At- Shapur (Sorath), Jaganath Road, Khan Darwajo, Ta- Vanthali, Dis- Junagadh, Gujarat	BVSc&AH/GAU/84	19.10.60
467	Dabhi Sanjaykumar Bhagatsinh	GVC/1267	14, Hariom Bunglows, Abadnagar Road, Bopal, Ahmedabad, Gujarat	BVSc&AH/GAU/90	24.7.67
468	Dadaga Prakash Nathubhai	GVC/1063	16, Nishant Park Society, B/H, Shresti Park Hotel, Opp- Commerce College, Mirzapar Road, Bhuj, Dis- Kachchh- 370 001	BVSc&AH/GAU/88	10.10.62
469	Dadhania Dineshkumar Mohanlal	GVC/952	B-36, Aalap Avenue, Nr. Puskardham, University Road, Rajkot-5, Gujarat	BVSc&AH/GAU/86	18.11.62
470	Dadhania Jitendrakumar Jamnadas	GVC/865	Govani Sheri, At : Supedi, Ta: Dhoraji, Dis- Rajkot, Gujarat	BVSc&AH/GAU/87	23.8.61
471	Dadhania Rajeshkumar Govindbhai	GVC/1718	At & Po- Ambawadi, Ta - Keshod, Dist - Junagadh, Gujarat	BVSc&AH/GAU/94	1.10.71
472	Dadhania Shailesh Shamjibhai	GVC/1909	303, Sahara Apartment, 3rd Floor, Near Sushrushta Hospital, Sardar Chawck, Vijalpur, Navsari, Gujarat	BVSc&AH/GAU/95	13.8.73
473	Dadhania Vijaykumar Aodhavjibhai	GVC/1608	At - Chalthan, Sumal Dan Factory, Dist - Surat, Gujarat	BVSc&AH/GAU/93	9.8.71
474	Dadhaniya Ashavinkumar Mansukhlal	GVC/1553	At&Po: Motivavdi, Ta: Dhoraji, Dis- Rajkot- 360 440, Gujarat	BVSc&AH/GAU/92	2.2.70
475	Dadhaniya Rakeshkumar Chimanlal	GVC/2249	"Saket" Tirupati Soc. At & Po: Jam - Jodhpur, Dis- Amnagar, Gujarat	BVSc&AH/GAU/00	15.10.77
476	Dagade Arun Maruti	MahaSVC/8152/09	Opp. Railway Station, A/P Bhalwani, (Jeur), Tal Karmala, Dist. Solapur- 413202, Maharashtra	BVSc&AH/MA&FSU/08	02.06.85
477	Dagdu Sanjay Shantaram	MahaSVC/8213/09	C/o Shantaram: Degdu, Sawarkar Nagar, Tal. Manwath. Dist Parbhani- 431505, Maharashtra	BVSc&AH/MA&FSU/09	21.08.84
478	Dahiwade Siddharth Subhash	MahaSVC/8217/09	At-Mandwa Pathan, Tal. Ambajogai, Dist- Beed-431517, Maharashtra	BVSc&AH/MA&FSU/09	05.07.83
479	Dake Shrikant Laxmanrao	MahaSVC/8278/09	Dake Laxman Janardhanrao, At-Pimpri(kd), Post-Hiwara-Gowardhan, Tal. Majaigaon, Dist. Beed.	BVSc&AH/MA&FSU/09	14.01.86

480	Dalal Sudhir Kumar	GVC/1822	12/A, AAshruti Tenaments, Borsad Road, ANAND, Gujarat	BVSc&AH/JNKVV/77	5.1.56
481	Dalasanija Ratanshi Jeram	GVC/924	8-A, Doctor Society, "Krishnakunj", Chital Road, Amreli-365 601, Gujarat	BVSc&AH/GAU/87	1.2.62
482	Dalavi Darshan Pandurang	MahaSVC/8323/10	1, Kalambad, Post-Tulai, Tal, Murbad, Dist.Thane-421401, Maharashtra	BVSc&AH/MA&FSU/09	01.07.86
483	Dalsania Ashvin Devsi	GVC/2035	Ta-Sherdi, Ta -Manvadar, Di-Junagadh, Gujarat	BVSc&AH/GAU/96	31.7.73
484	Dalsania Rajesh Nanji	GVC/1890	"Madhuvan", Jalaram-3, Sheri No-2, Opp-Bharat Dairy, University Road, Rajkot, Gujarat	BVSc&AH/GAU/95	30.6.73
485	Dalvendra Singh S/o Bhagwan Singh	RajSVC/3598/09	Vill.-Mohabbatsari., Post-Ghoriwara Khurd, Jhunjhunu-333705, Rajasthan	BVSc&AH/RAU/09	25.07.78
486	Damor Kantibhai Motibhai	GVC/1799	A-16, Srushti Society, Chani Jakat Naka, Baroda, Gujarat	BVSc&AH/GAU/94	16.3.72
487	Damor Pareshkumar Somabhai	GVC/2152	62, Ashishnagar, B/H, I T I College, At - Jafarabad, Ta - Godhra, Dist - Panchmahal, Gujarat	BVSc&AH/GAU/98	24.1.73
488	Dangar Nikil Shantilal	GVC/3109/10	B/H Government Hospital Krishna Society, Mendarda, Dist-Junagadh, Gujarat	BVSc&AH/AAU/10	04.01.87
489	Dangar Rayade Dharnatbhai	GVC/2188	Veterinary Dispensary, Lalpur, Ta: Lalpur, Dis : Jamnagar, Gujarat	BVSc&AH/GAU/99	1.6.73
490	Dangaria Anuras Manjibhai	GVC/397	Office Of Deputy Director of A.H, Vety Polyclinic, Saru Section Rd, Jamnagar, Gujarat	BVSc&AH/GAU/76	1.6.54
491	Danveer Singh Yadav S/o Sh Harpal Singh Yadav	MPSVC/2640/09	Near Solanki Petrol Pump, M.S.Road, Morena -476229, M.P	BVSc&AH/JNKVV/09	18.10.79
492	Daraji Dilipkumar Kanaiyalal	GVC/533	G-88/1046, Shivam Apartment, Nava Vadaj, Near Vyas Wadi, Ahmedabad-13, Gujarat	BVSc&AH/GAU/80	8.7.58
493	Darji Prakashchandra Ratilal	GVC/882	11, Nilambar Bunglow-1, Opp. Narayan Vidhyalaya, Nr. Swaminarayan Gurukul, Dabhoi -Vaghodiya Ring Road, Vadodara-19	BVSc&AH/GAU/87	6.1.64
494	Das Arunoday S/o Sri Anath Ch Das	ASM/2470/09	New Sachal, FCI Colony, Rupkonwar Path, H.NO.60, Guwahati-22, Assam	BVSc&AH/AAU/09	14.10.85
495	Das Deepa D/o Hem Das	ASM/2449/09	S.Haiborgaon, PO-Haiborgaon, Dist-Nagaon, Assam	BVSc&AH/AAU/09	9.5.79

496	Das Gourange S/o Madhab Ch Das	ASM/2456/09	Vill-Issapurhat, PO and Dist-Barpeta, Assam	BVSc&AH/AAU/09	23.12.85
497	Das Jibesh Kamal S/o Kamaleswar Das	ASM/2457/09	Bokakhat Mohmaiki Gaon, PO-Bokakhat, Dt- Golaghat, Pin-785612, Assam	BVSc&AH/AAU/09	11.4.83
498	Dasadia Dinesh Navnitlal	GVC/1628	B-302, Shakti Palace, Nr. Renuka Hall, Nehru Park, Vastrapur, Ahmedabad-15, Gujarat	BVSc&AH/GAU/93	23.4.71
499	Dasmabai Banothu D/o Ghansingh	APSVC/04928/09	Rathnagiri (P), Bheenadevarapally (M), Karimnagar Dist-505497, Andhra Pradesh	BVSc&AH/SVUU/09	27.07.84
500	Daud Adam Sultan	GVC/398	A-2, Live-Well Society, Samapark, Bharuch- 392 001, Gujarat	BVSc&AH/GAU/76	21.4.51
501	Daundkar Prashant Sudamrao	MahaSVC/8327/10	At/Post-Ambale, Tal, Shirur, Dist, Pune- 412211, Maharashtra	BVSc&AH/MA&FSU/09	16.02.85
502	Dave Rashmikant Ramniklal	GVC/196	30, Shri Bhakti Tenament, Nr Pramukhswami Hospital, Atladara Road, Vadodara, Gujarat	BVSc&AH/GAU/70	30.3.45
503	Dave Chirag Bhalchandra	GVC/1638	13, Avanti Bunglows, Jodhpur Gam Road, Satellite, Ahmedabad-15, Gujarat	BVSc&AH/KKV/89	28.3.68
504	Dave Maheshkumar Jamanashankar	GVC/588	B/39-40, Nandishwer Tenaments, Nr. Someswar Park, Opp. Sun-N-Step Club, Sola Road, Thaltej, Ahmedabad	BVSc&AH/GAU/81	9.10.58
505	Dave Nilamkumar Vishnuprasad	GVC/957	Near Municipal Water works, Near Police Station, At & Ta- Borsad, Dis- Anand, Gujarat	BVSc&AH/GAU/86	7.4.63
506	Dave Nitinkumar Ravishanker	GVC/675	"Chintan", 6, Yoginagar, Opp. Akshar Mandir, Gondal, Dis-Rajkot, Gujarat	BVSc&AH/GAU/72	9.12.50
507	Dave Sanjaykumar Manuprasad	GVC/2067	12, Om Shubham Bunglows Nagalpur, At & Dis-Mehsana, Gujarat	BVSc&AH/GAU/67	31.1.74
508	Davendra Kumar Agrawal S/o Late Sh. R.K. Agrawal	UKSVC/498/10	V/1431, Ta, Colony, Pantnagar, U.S. Nagar, Uttarakhand	BVSc&AH/GBPUA&T/76	25.07.52
509	Davendra Kumar S/o Lt. Phool Singh	RajsVC/3735/10	Central Sheep And Wool Research Institute, Avikanagar, Dt-Tonk, Rajasthan	BVSc&AH/GBPUA&T/94	08.07.68
510	David Dinakaran.D (Deivakkan)	TNSVC/4485/09	198/109, Rajaram Nagar, Behind Vidya Hospital, Salem-636007, Tamil Nadu	BVSc/TNAU/76	01.10.46
511	Daya V.E. Giftson (V. Emmanuel)	TNSVC/4671/10	19/148, Shalom Illam, Nariyar Vilai, Kuzhithurai, Kanyakumari District, Tamil Nadu	BVSc/TANUVAS/02	19.06.79

512	Debashish Deb S/o Late Dinesh Ranjan Deb	JVC/624/09	Touring Veterinary Officer, Rahargora, Jamshedpur East-Singhbhum, Jharkhand	BVSc&AH/BAU/88	02.07.60
513	Debashishkar, S/o Suresh Chandrakar	OSVC/2279/09	At-Purbakachha, PO-Madhyakachha, Via.- Bahugram, Distt.-Cuttack-754200, Orissa	BVSc&AH/OUAT/09	16.05.86
514	Debasmita Debata, D/o Sudarsan Debata	OSVC/2273/09	At/Po Brahmapuro, Via.-Banki, Distt. Cuttack- 754008, Orissa	BVSc&AH/OUAT/09	01.07.86
515	Debi Prasad Mohapatra, S/o Satchidananda Mohapatra	OSVC/2301/09	At-Bijipur, Po-Nimapara, Distt.-Puri, Orissa	BVSc&AH/OUAT/09	24.05.86
516	Debosri Bhowmick D/o Sh T.K.Bhowmick	MPSVC/2637/09	1139, Yadav Colony, Jabalpur, M.P -482002	BVSc&AH/JNKVV/09	18.10.85
517	Dechamma K.P. S/o Poonacha K.M.	KarnSVC/4288/09	General Thimmaiah Layout Appaiah Swamy Road, Virajpet-571218, Kodagu Dt.,Karnataka	BVSc&AH/KVAFSU/09	18.7.86
518	Dedakia Shaileshkumar Mohanlal	GVC/1566	B + 14, Tirupati Bunglows, Hanuman Tekri, B/H. Dharati Resort, Abu Highway, Palanpur, DT- BK, Gujarat	BVSc&AH/GAU/92	20.5.72
519	Dedhrotia Hasanbhai Jalalbhai	GVC/302	101, Zaheerabad Society, Panpur Patia Area, Savagadh Panchayat, Ta- Himmatnagar, Dis- Sabarkantha- 383 220	BVSc&AH/GAU/73	1.10.50
520	Deeban.K (T.Kittu)	TNSVC/4647/09	Nagavayal Road, Devakottai Rastha, Karaikudi-5, Sivaganga Dist.-Tamil Nadu	BVSc&AH/TANUVAS/09	08.05.86
521	Deep Kumar S/o Ram Prakash	UPSVC/4919/09	Vill.- Kisauli, Distt.- Moradabad,UP	BVSc&AH/GBPUA&T/09	06.07.85
522	Deepak Mohan, S/o V.Mohandas	KSVC/3536/09	Vrindavanam, TC 15/646(1), Vellayambalam, Sasathamangalam, P.O., Thiruvananthapuram, Kerala	BVSc&AH/KAU/09	24.07.82
523	Deepak Gujral S/o Dr. Jagatri Lal Gujral	UKSVC/496/10	V.O(Contract), Poultry Farm Hawalbagh, Distt. Almora, Uttarakhand	BVSc&AH/GBPUA&T/98	01.06.73
524	Deepak Kumar Nag S/o Ramkumar Nag	CHSVC/471/09	Village Usaribeda Lohandigaud, District- Baster,Chhattisgarh	BVSc&AH/IGKVV/07-08	07.08.82
525	Deepak Kumar Pradhan, S/o Sukadev Pradhan	OSVC/2263/09	Q.No. 4304, HAL Township Sunabeda-2, Korapat, Orissa	BVSc&AH/OUAT/08	10.07.83
526	Deepak Kumar Rath, S/o Subash Chandra Rath	OSVC/2285/09	At/Po: Baighnia, Distt. Nayagarh-752077, Orissa	BVSc&AH/OUAT/09	28.03.86
27	Deepak Navani S/o Shri Nand Lal	MPSVC/2604/09	Civil Lines, Ward No.2, Near Gyan Jyoti School,Nainpur, Mandla,M.P	BVSc&AH/JNKVV/09	1.11.83

528	Deepak Ranjan Behera, S/o Sarat Chandra Behera	OSVC/2277/09	At/Po: Garajanga, Distt- Kendrapara-754213, Orissa	BVSc&AH/OUAT/09	05.01.86
529	Deepak S/o Brij Kishor Rajput	UPSVC/4989/09	Rajeev Nagar, Muskara, Distt. - Hamirpur, UP	BVSc&AH/NDUA&T/09	01.12.82
530	Deepak Sharma S/o Sh Surjeet Sharma	HarSVC/2141	Near Summer Field High School, Gurudwara Basti Kalawali Dt Sirsa, Haryana	BVSc&AH/CCSHAU/06	21.6.81
531	Deepak Sheo S/o Shri Ayodhya Prasad Sheo	MPSVC/2616/09	A-22, Vijay Nagar Extension, Ranjhi, Jabalpur, M.P	BVSc&AH/JNKVV/09	28.5.81
532	Deepak Upadhyay S/o Sh Nand Kumar Upadhyay	MPSVC/2642/09	H.No.250, Kabir Ward, Dunda, Seoni, M.P - 480661	BVSc&AH/JNKVV/09	24.06.86
533	Deepak.T (M.Thirumenon)	TNSVC/4512/09	Chithirai Street, Nagarasampatti P.O, Pochampalli taluk, Krishnagiri-635204, Tamil Nadu	BVSc&AH/TANUVAS/09	03.07.86
534	Deepesh Rawate S/o Tula Ram Rawate	CHSVC/537/10	Village & Post- Sonarpal, District- Bastar, Chhattisgarh	B.V.Sc.&AH/IGKVV/09	13.12.85
535	Deepesh Sharma S/o Sh. Tribhuwan Datt Sharma	UKSVC/449/09	Kohli Colony, Bithoria No.1 Haldwani, Distt. Nainital, Uttarakhand	BVSc&AH/GBPUA&T/09	25.12.82
536	Deepti Bodh, D/o Late Sh Jagdev Singh	HVC-865/09	C/o Sh.Tulsi Ram, Vill. Tandi, P.O Tandi, distt Lahaul & Spiti, HP	BVSc&AH/CSKHPKV/09	08.02.85
537	Deepti Naag D/o Shri K.P.Naag	MPSVC/2657/10	M 854, Darpan Colony, Gwalior -474011, M.P	BVSc&AH/IGKVV/09	7.10.83
538	Deka Anil S/o Sh Nandeswar Deka	ASM/2450/09	Vill & PO- Bongaon, Dt-Barpeta, Pin- 781375, Assam	BVSc&AH/AAU/09	1.1.83
539	Deka Suraksha Subedi S/o Sanjib Deka	ASM/2479/09	C/o Dr.Sanjib Deka, Vill&PO-Bezere, Dt- Kamrup-781121, Assam	BVSc&AH/AAU/09	3.2.87
540	Deokar Avdhut Vijay	MahaSVC/8357/10	C/o Vijay Ramchandra Deokar, A/P-Kem, Tal.Karamala, Dist.Solapur- 413223, Maharashtra	BVSc&AH/MA&FSU/09	08.11.85
541	Deori Juri S/o Mr Biren Deori	ASM/2432/09	Navapur Nagar, PO- Chapakhowa, Sadiya, Dt- Tinsukia, Assam	BVSc&AH/AAU/09	3.6.85
542	Deori Parag S/o Late Prafulla Deori	ASM/2435/09	Katori Bamrajabari, Dt-Sivassagar, Pin- 785671, Assam	BVSc&AH/AAU/09	22.10.84
543	Derashri Pankajkumar Jayantilal	GVC/898	A-603, Sansharya Tower, Nr. Nand-Deep Bungalows, B/H. Lakeview Appt., Vastrapur lake, Vastrapur, Ahmedabad- 380 054	BVSc&AH/GAU/86	1.9.62

544	Desai Amritbhai Leelabhai	GVC/1857	At & Po- Sudasana, Ta- Satlasna, Dis- Mehsanas- 384 340,Gujarat	BVSc&AH/GAU/95	9.7.69
545	Desai Bharatkumar Masotbhai	GVC/1081	Mahadev Vas, Desiwado, At.Po: Kheralu, Mehsana, Gujarat	BVSc&AH/GAU/88	1.6.64
546	Desai Himmat Ukabhai	GVC/1442	Veterinary Dispensary, Amrelli, Ta- & Dis- Amrelli,Gujarat	BVSc&AH/GAU/91	1.6.66
547	Desai Jaydipkumar Mohansing	GVC/1321	At & Po- Maroli, Chhinam Road, Dis- Navsari,Gujarat	BVSc&AH/KKV/90	26.12.65
548	Desai Kalabhai Arajanbhai	GVC/970	477/6, Ishan Flat,Viratnagar,Sector- 23 Gandhinagar, Gujarat	BVSc&AH/GAU/86	6.1.59
549	Desai Krushnak Rajendrakumar	GVC/3110/10	E-37, GEB, Colony, Dhuval, Gujarat	BVSc&AH/AAU/10	15.06.88
550	Desai Manshuklal Thakarshibhai	GVC/1028	At - Dumiyani, Ta - Upleta, Dist - Rajkot, Gujarat	BVSc&AH/GAU/85	5.9.61
551	Desai Ochchhavkumar Hasmukhlal	GVC/877	8/20, Utsav Bunglows, Opp. Shri Nagar Society, Mehsana-384002, Gujarat	BVSc&AH/GAU/86	10.4.63
552	Desai Pravinbhai Jashubhai	GVC/1698	Paniyo Vas, Desai wado, Kheralu, Dist - Mhesan,Gujarat	BVSc&AH/GAU/89	6.8.67
553	Desai Sendhabhai Muljibhai	GVC/1942	Rabarivas, At & Po-Maktupur, Ta-Unjha, Dis- Mehsana,Gujarat	BVSc&AH/GAU/96	1.1.74
554	Desai Subhash Navanilal	GVC/2228	13/A, Kailash Nagar Soc., Nr. Indoor Stadium Ghoddod Road, Surat,Gujarat	BVSc&AH/GAU/71	19.9.45
555	Desai Subodhkumar Mohanlal	GVC/1199	At & Po- Alipor, Ta- Chikhali, Dist. Navsari : 396 409,Gujarat	BVSc&AH/GAU/77	22.6.54
556	Desai Vasantkumar Bhomabhai	GVC/3004/09	At-Rampura (Mota), Po-Vater, Ta-Dhanera, Dist-Banaskantha, Gujarat	BVSc&AH/SDAU/09	06.02.87
7	Desai Vikram Ramjibhai	GVC/3048/09	At-Thumthal, Ta-Visnagar, Dist-Mehsana, Gujarat	BVSc&AH/AAU/09	10.08.85
	Deshkar Swagat Kishor	MahaSVC/8195/09	Radhe-Radhe, D-42, Himalaya Vishva Nagpur Road, Wardha-442001,Maharashtra	BVSc&AH/MA&FSU/09	21.10.85
	Deshmukh Aditi Vinay	MahaSVC/8345/10	8, Ramkrupa, D.L. Vaidya Road, Dadar, Mumbai-400028,Maharashtra	BVSc&AH/MA&FSU/09	03.11.86

560	Deshmukh Niteen Manikrao	GVC/1352	C-17, Vardhaman Bunglows, Nr. A'Bad Highway, Palanpur-385001, Gujarat	BVSc&AH/PKV/88	19.9.65
561	Deshmukh Ruchir Ramesh Rao	MahaSVC/8230/09	Laxminarayan Sadan, D.P. Road, Gajanan Nagar, Tal. Majalgaon, Dist. Beed., Maharashtra	BVSc&AH/MA&FSU/09	31.12.86
562	Deshmukh Sagar Surendra	MahaSVC/8288/09	Naya Press, Vidya Colony, Akot, Dist. Akola-444101, Maharashtra	BVSc&AH/MA&FSU/09	14.07.87
563	Deshpande Rasika Ramesh	MahaSVC/8346/10	'Vajabaki', 60/1, Jainagar, new Deshmesh Nagar, New Osmanpura, Tal. Dist Aurangabad-431005	BVSc&AH/MA&FSU/09	17.06.87
564	Deshpande Shrish Ramrao	MahaSVC/8151/09	Sudhanshi CHS-5, Nanda Patkar Road, Mile Pareil (E), Mumbai-57, Maharashtra	BVSc&AH/KKVP/74	17.12.87
565	Desinguraja.D (P. Durairaj)	TNSVC/4524/09	Desinguraja Dairy Farm, Navakkurichi PO, Attur Taluk, Salem-636112, Tamil Nadu	BVSc&AH/TANUVAS/08	02.03.84
566	Detharia Parsotam Manjibhai	GVC/2287	At & PO- Tiker (Ran) Fa. Halvad, Dist. Safendranagar, PIN-363330, Gujarat	BVSc&AH/GAU/90	5.6.87
567	Dev Vrat Singh S/o Sh. Murari Singh	UKSVC/501/10	8/212 Shamu Avas Vikas, Shubh Vihar Kashipur, U.S. Nagar Uttarakhand	BVSc&AH/Agra Uni/78	01.01.56
568	Devaliya Bharatkumar Ravjibhai	GVC/1495	Nr, Kalanala, Porbandar Road, Upleta-360490, Dis- Rakot, Gujarat	BVSc&AH/GAU/92	31.1.68
569	Devendra Kr. Kushwaha S/o Ram Sanehi	UPSVC/4968/09	Vill.- Mauhli, PO- Purini, Distt.- Hamirpur, UP	BVSc&AH/NDUA&T/09	20.10.78
570	Devendra Kumar S/o Dwarika Prasad	UPSVC/5058/09	Vill & PO- Pandwaha, Distt.- Jhansi, UP	BVSc&AH/KU/09	15.04.79
571	Devendra Kumar S/o Ghasita	UPSVC/4941/09	Vill. & PO- Bidokher (Purai), Hamirpur, UP	BVSc&AH/NDUA&T/09	15.01.81
572	Devendra Pal Singh S/o I.P. Singh	UPSVC/4907/09	1 Kanchan Nagar, Agra Road Distt.- Hathras, UP	BVSc&AH/Agra Uni/83	04.09.59
573	Devesh Kumar Giri S/o Lt. Ramesh Giri	CHSVC/500/10	Village & Post- Bakavand, District- Bastar, Chhattisgarh	B.V.Sc.&AH/IGKVV/09	18.11.8
574	Devesh Kumar Singh S/o Mahendra Prasad Singh	JVC/654/10	C/o Dr. Mahendra Prasad Singh, Latehar, Jharkhand	BVSc&AH/BAU/93	28.01.
575	Devi Ruma D/o Late Atul Ch. Sharma Baruah	ASM/2472/09	C/o Prasanta Sharma Baruah, Vill & PO- Madhupur, Dt- Nagaon, Assam	BVSc&AH/AAU/08	11.1

3	Dhaduk Ashok Jagabhai	GVC/1452	C/O. Jaljit Hall, Jaljit Apprt- 201, Amrutpark Soc., Near Anandnagar Bridge, Rajkot-360002, Gujarat	BVSc&AH/GAU/91	9.2.66
7	Dhamgunde Ajay Subhashrao	MahaSVC/8246/09	"Deha-Raksha" Sadan, House No. 1940, Behind Jayakwadi Workshop, Near Kalyan Mandapam, Lokmanya Nagar, Parbhani-431401	BVSc&AH/MA&FSU/09	25.07.83
3	Dhamotharan.P (T.Palanisamy)	TNSVC/4590/09	99/61, Nainampatty Road Street, Idappadi taluk, Salem District-637101, Tamil Nadu	BVSc&AH/TANUVAS/09	10.03.84
1	Dhamsaniya Dilipkumar Dayalal	GVC/1395	At : Falla, Via: Dhuvan, Ta & Dis : Jamnagar 361 120, Gujarat	BVSc&AH/GAU/91	14.11.66
1	Dhanalakshmi.M (R.Marimuthu)	TNSVC/4539/09	Rajaram Compound Kaliyamman Kovil Street, Vadamadurai, Dindigul Dist.-Tamil Nadu	BVSc&AH/TANUVAS/09	16.10.86
	Dhanalakshmi.V.S (V.Sivagnanam)	TNSVC/4561/09	14, Padaivetti Amman Kovil Street, East gate, Thanjavur-613001	BVSc&AH/TANUVAS/09	31.03.84
1	Dhananjay Kumar Sinha S/o Ram Das Sinha	JVC/646/10	Block Chowk R.V.C. Kanke, Ranchi-834006, Jharkhand	BVSc&AH/BAU/93	28.11.67
1	Dhananjay Prasad Singh S/o Ashok Kumar Singh	JVC/653/10	B.A.H.O. Chandil Saraikela Kharsawan-832401, Jharkhand	BVSc&AH/BAU/88	20.02.62
1	Dhane Akshay Ashok	MahaSVC/8333/10	Aaditya, 44, Shrikrishnanagar, Akurdi, Tal. Haveli, Dist.Pune-411035, Maharashtra	BVSc&AH/MA&FSU/09	03.08.86
	Dhanesh.V, S/o V.Vijayaraghavan	KSVC/3566/09	Divyasree House, Thalakkulathur, PO., Kozhikode-673317, Kerala	BVSc&AH/KAU/09	06.03.85
	Dhanik Lal Mandal S/o te Bhuthu Mandal	JVC/610/09	TVO.Kurdeg Simdega Jharkhand	BVSc&AH/RAU/91	26.01.67
	Dhanya Jose, D/o Jose	KSVC/3555/09	Thuruthel House, Chemparoda P.O., Kozhikode-673528, Kerala	BVSc&AH/KAU/09	15.05.86
	Dhanya.P, D/o hakaran Nair	KSVC/3602/09	Kalappilavil Vil Veedu, Chemmakad, P.O House No.PP.SV, 130, Perinad Kollam-691303, Kerala	BVSc&AH/KAU/09	30.03.83
	Dhan Pal Singh S/o R.C Poonia	HarSVC/2091	Baisala Wali Gali, Rashulpur Road Patwal, Haryana	BVSc&AH/RAU/01	5.2.76
	Dhan Pal Ganager S/o	KarnSVC/4246/09	No.643, Chiniwar Lane, Gokak-591307, Belgaum Dt., Karnataka	BVSc&AH/KVAFSU/09	28.11.85
	Dhan Prasad Meena	RajSVC/3716/10	Vill.-Goth, Teh.,-Bamanwas, Sawaimadhopur-322212, Rajasthan	BVSc&AH/SKRAU/10	21.10.81

592	Dharmendra Kumar Sharma S/o Nathu Lal Sharma	RajSVC/3617/09	Plot No. 46, Near TBN School, Bharmपुरi, Sawaimadhopur-322001, Rajasthan	BVSc&AH/RAU/09	20.08.80
593	Dharmendra Singh S/o L.P. Singh	UPSVC/4994/09	Vill. & PO- Hansipur, Distt.- Mirzapur, UP	BVSc&AH/CCSHAU/09	12.07.84
594	Dhedhi Jagdishkumar Parshotambhai	GVC/3082/09	At&Po-Malvav, Ta-Mahuva- Dist- Bhavnagar, Gujarat	BVSc&AH/AAU/09	29.09.82
595	Dhian Chand S/o Sh Banarsi Dass	HarSVC/2125	# 159, Sector-4, Panchkula, Haryana	BVSc&AH/Pb.Uni/62	14.10.40
596	Dhiraj Goyal S/o Sat Paul Goyal	Pb.SVC/2872/09	H.No.19714, St.No. 10-A, Ajit Road, Bathinda, Punjab	BVSc&AH/GADVASU/09	28.2.85
597	Dhirendra Singh S/o Rajvir Singh	UPSVC/4981/09	Vill Bahadur Gari, PO Pilukhna, Distt Aligarh, UP	BVSc&AH/UPPDUPCVV/09	15.07.83
598	Dholakia Ghanshyam Bachubhai	GVC/1308	B-54, Farm Baug, Nirmal Sinhji Wadi, Mundra Road, Bhuj, Kutch. PIN-370061, Gujarat	BVSc&AH/KKV/75	15.12.51
599	Dholariya Sanjaykumar Arjanbhai	GVC/2068	At - Chalthan, Sumal Dan Factory, Dist - Surat, Gujarat	BVSc&AH/GAU/97	25.8.74
600	Dhuka Ataurahman Gulamnabi	GVC/469	At - Hasanpur, Po- Dhota, Ta - Vadgam, Dist - Banaskantha, Gujarat	BVSc&AH/GAU/78	1.3.55
601	Diksha Rawat, D/o Sh. Arvind Kishor Rawat	UKSVC/461/09	150/4 Dharampur, Distt, Dehradun, Uttarakhand	BVSc&AH/GBPUA&T/09	01.10.85
602	Dileepkumar H S/o Hanume Gowda	KarnSVC/4339/09	Anupamanilaya NES Extn, Malavalli-571430, Mandya Dt, Karnataka	BVSc&AH/KVAFSU/09	1.1.87
603	Dilip Kumar Singh S/o A.K. Singh	UPSVC/4993/09	Vill.- Telagawan PO- Machargawal, Distt.- Kushi Nagar, UP	BVSc&AH/CCSHAU/09	10.11.82
604	Dilpreet Kaur D/o Joginder Singh	Pb.SVC/2905/09	H.No.1874, St.No.5, Maharaj Nagar, Ludhiana, Punjab	BVSc&AH/GADVASU/09	3.5.86
605	Dina Nath Chaudhary S/o Roop Lal Chaudhary	CHSVC/535/10	Black Colony, Gharghoda Tehsil, District- Raigarh, Chhattisgarh	BVSc&AH/ILNKVV/89-90	15.04.84
606	Dinesh Kumar Choudhary S/o Bhoma Ram choudhary	RajSVC/3701/09	Vill.-Sawau Padam Singh, Via-Baitu, Barmer-344037. Rajasthan	BVSc&AH/Anand Agri Uni/09	15.06.1
607	Dinesh Kumar Malviya S/o Shri Hem Raj Malviya	MPSVC/2603/09	C/o Shri Rajeev Batham, 114/1 North Moosakhedi, Indore, M.P	BVSc&AH/JNKVV/09	2.9.71

608	Dinesh Kumar Patel S/o Virendra Kumar Patel	CHSVC/461/09	Chakardhar Nagar Chowk, Raigarh, Chhattisgarh	BVSc&AH/JLNKVV/94-95	20.03.69
609	Dinesh Kumar Saini S/o Sitaram Saini	RajSVC/3714/10	Ward No. 1, Khendella Road, Near Ganesh Mandir, Shrimadhapur, Sikar-332715, Rajasthan	BVSc&AH/SKRAU/10	13.01.81
610	Dinesh Kumar Singh Late Kailash Prasad Singh	JVC/657/10	B.A.H.D. Pakur Gokulpur Pakur-816107, Jharkhand	BVSc&AH/RAU/96	20.09.70
611	Dinesh Kumar.T (M.Thirusangu)	TNSVC/4548/09	6Z 11, Murugha Bhavan, New M.G.Puram, Perambalur-621212, Tamil Nadu	BVSc&AH/TANUVAS/09	06.06.85
612	Dinesh S/o Sh Kedar Nath	HarSVC/2094	Pawan Trading Compay, Balsamand Road, Hisar, Haryana	BVSc&AH/CCSHAU/09	9.3.86
613	Dinesh Kumar. V (R.G.Vijayakumar)	TNSVC/4528/09	20/308, Nainampatty Rattu Street, Edapadi, Salem Dist.637101, Tamil Nadu	BVSc&AH/TANUVAS/09	17.06.87
614	Dipak Deka S/o Narendra Nath Deka	Pb.SVC/2916/09	H.No.932, I-Block, BRS Nagar, Ludhiana, Punjab	BVSc&AH/AAU/00	1.2.76
615	Dipak Kumar Kashyap S/o Devnarayan kashyap	CHSVC/501/10	Behind Shyam Takies, Bilaspur, Chhattisgarh	B.V.Sc.&AH/IGKVV/09	31.08.82
616	Divakar Maurya S/o S.K.Maurya	UPSVC/4983/09	Vill Kandaila, PO Moti Nagar, Faizaabad, UP	BVSc&AH/MAFSU/09	22.08.78
617	Divakar Maurya S/o S.P. Maurya	UPSVC/4982/09	Kalakankar Road, Sirathu, Kaushambi, UP	BVSc&AH/MAFSU/09	01.01.81
618	Divya Gowda M S/o Mahadevi Gowda H.C.	KarnSVC/4241/09	Halenahalli, Purushanahalli Post-561204, Doddaballapur, Bengaluru Rural, Karnataka	BVSc&AH/KVAFSU/09	16.7.86
619	Divya S S/o Shivaraj R	KarnSVC/4343/09	Pombarahalli, Uttanur, Mulbagal Tq, Kolar Dt, Karnataka	BVSc&AH/KVAFSU/09	25.4.87
620	Divya Sen D/o Suresh Sen	HVC-889/09	Vill. Haripur, PO & Teh. Sundernagar, Distt. Mandi, HP	BVSc&AH/CSKHPKV/09	12.04.86
621	Divya T.M., D/o E.P Gangadharan	KSVC/3573/09	Thirumangalath Meethal House, Kunnathara (PO), Kannur, Koyilandy, Kozhikode-673327, Kerala	BVSc&AH/KAU/09	24.02.85
622	Divya.P D/o P. Raghunathan	KSVC/3585/09	Achyutham, P.O., Civil, Station Eranhilalam, Kozhikode-673020, Kerala	BVSc&AH/KAU/09	22.04.86
623	Divyamol Thomas, D/o C.M Thomas	KSVC/3551/09	Cherolickal House, Padinjattinkara P.O., Kadaplamattam, Kottayam-686571, Kerala	BVSc&AH/KAU/09	22.08.85

624	Diyora Dhanjibhai Lajjibhai	GVC/1668	222, New Shanktivijay Society, Varachha Road, Surat, Gujarat	BVSc&AH/GAU/93	12.9.68
625	Doctor Dilavathusain Sulemanbhai	GVC/1258	At & Po- Dahegam, Ta & Dis- Bharuch, Gujarat	BVSc&AH/GAU/89	1.6.63
626	Dodiya Bharatsinh Panchamsinh	GVC/359	404-Arpan Appartment, Nanpura, Timaliyawad, Opp- Kadam Bhavan, Surat, Gujarat	BVSc&AH/GAU/75	4.5.55
627	Dodiya Dharmendrasinh Umedsang	GVC/1420	At & Po- Rampura, Near : Chekhla, Ta: Sanand, Dis : Ahmedabad-382110, Gujarat	BVSc&AH/GAU/91	16.5.68
628	Dodiya Prahaladsinh Madhusinh	GVC/1920	At & Po: Mahadevpura , Ta: Vijapur , Di: Mehsana, Gujarat	BVSc&AH/GAU/96	5.11.74
629	Dodiya Velabhai Ramjibhai	GVC/1851	At&Po: Chalava, Ta: Deodar, Di: Banaskantha, Gujarat	BVSc&AH/GAU/95	1.6.69
630	Bomple Vijay Digamber	MahaSVC/8267/09	Police colony, Mukhed, Tal. Mukhed, Dist. Nanded, Maharashtra	BVSc&AH/MA&FSU/09	20.01.85
631	Donapaty Sreenivasa Reddy (Donapati Chenna Reddy)	TNSVC/4448/09	C/o Y.K.M.Reddy, G2, First floor Door No.20 (Old No. 40) Ranganivas, Barnaby Road, Kilpauk, Chennai-600010, Tamil Nadu	BVSc&AH/APAU/87	01.05.6
632	Done Dnyanoba Ashroba	MahaSVC/8234/09	Done Nivas, 172, Ukhli (BK), Tq. Sonapeth, Dist. Parbhani-431514, Maharashtra	BVSc&AH/MA&FSU/09	06.07.81
633	Doshi Bipinchandra Revashankar	GVC/1800	"Anmol", 56, Neminath Society, Raiya Road, Rajkot, Gujarat	BVSc&AH/GAU/95	17.4.45
634	Doshi Dipakkumar Dhirajlal	GVC/1061	K-6, Vishwas Flat, Nayannagar, Krishnanagar, Sajpur Bogha, Ahmedabad- 382 345, Gujarat	BVSc&AH/GAU/88	5.7.66
635	Doshi Mineshkumar Bhupendraray	GVC/1175	5-Shyam Priy Park, B/H- 27 Gam Patidar School, VV Nagar Road, Anand- 388 001, Gujarat	BVSc&AH/GAU/89	27.11.64
636	Doverfield Tariang S/o Shri(L) E.Shullai	MeghSVC/270/09	C/o B.T.Kharkongor, Lawjynriew, Golden Estate, Nongthymmai-793014	BVSc&AH/AAU/09	26.5.86
637	Dube Yogesh Subhash	MahaSVC/8223/09	Durga Nivas, A/P-Kolhar Khurd, Tal, Rahuri, Dist, Ahmednagar-413710, Maharashtra	BVSc&AH/MA&FSU/09	03.10.84
638	Dudhagra Pashvin Chanabhai	GVC/2113	At & Po: Majoth, Ta: Dhrol, Dis : Jamnagar - 361 210, Gujarat	BVSc&AH/GAU/98	1.6.75
639	Dudhatra Suresh Bavanjibhai	GVC/2232	54- Amrutnagar, B/H Lal baug, Shashikunj Road, Junagadh-362 001, Gujarat	BVSc&AH/GAU/00	26.6.78

640	Dulakasaria Debashis S/o Rajendra Nath Borah	ASM/2444/09	PO-Majarahat, VIII-Dulakasaria gaon, Dt- Sivasagar, Assam	BVSc&AH/AAU/09	30.12.84
641	Durga Prasad Yadav S/o R.K.Yadav	UPSVC/4914/09	VIII Mukhadumpur Po Pirauthsinghpur Distt. MATU, UP	BVSc&AH/UPDDUPCVV /09	25.02.82
642	Durshavat Pradhuuman Natvarsinh	GVC/3006/09	48, Aakash Bunglows, Angola Road, Hanuman Tekari Palanpur, Gujarat	BVSc&AH/SDAU/09	10.07.86
643	Dutta Laaraa S/o Khanan Ch. Dutta	ASM/2430/09	Garamur Shankarpur, PO-J.E.C.Dist, Jorhat- 785007, Assam	BVSc&AH/AAU/09	8.6.87
644	Elamarañ.A (P.Anbazhagan)	TNSVC/4619/09	2/236, Main Road, Irumbulikurichi PO, Ariyalur District-621804, Tamil Nadu	BVSc&AH/TANUVAS/09	25.07.86
645	Elamurigan.A (M.Appavoo)	TNSVC/4520/09	East Street, Uranthairayankudikadu, Orathanadu taluk, Thanjavur-614625, Tamil Nadu	BVSc&AH/TANUVAS/09	30.07.87
646	Elavarasu.S (V.Sivasamy)	TNSVC/4604/09	2/411, Periyar Nagar, Sendurai PO & taluk, Ariyalur district-621714, Tamil Nadu	BVSc&AH/TANUVAS/09	02.03.86
647	Erbavelan.P.A (P.C.Angappan)	TNSVC/4609/09	5/285, Near New Bus Stand, Palacode taluk, Dharmapuri, district-Tamil Nadu	BVSc&AH/TANUVAS/09	18.10.85
648	Eswanth Rao.S (R.Subbaiah)	TNSVC/4608/09	2/125, Vadapathi, Thathuvanchery PO, Thiruvudaimarudur taluk, Thanjavur-612502, Tamil Nadu	BVSc&AH/TANUVAS/09	03.04.84
649	Fadadu Nitinkumar Jayantilal	GVC/2248	604, Atithi Palace Apartment, Tinwala Farm, Zanzarda Road, Junagadh, Gujarat	BVSc&AH/GAU/00	26.4.78
650	Faihriem Solomon Vantol Suong S/o S.T.Faihriem	ASM/2452/09	VIII&PO-Muolhoi, Hafflong, Dt-N.C Hills, Assam	BVSc&AH/AAU/09	19.12.79
651	Faladu Shantilal Mulajibhai	GVC/1394	At-Goladhar, Po-Majevadi, Ta-&Dis- Junagadh. PIN:-362011, Gujarat	BVSc&AH/GAU/91	12.4.65
652	Faldu Chandulal Bhovanbhai	GVC/820	A-45, Vijayanagar Society, B/H- Mahila College, Jamnagar-361008, Gujarat	BVSc&AH/GAU/84	28.3.60
653	Farah Maria De Souza S/o Freddy De Souza	GoaSVC/151/09	Case Jose Luis, Near Vishant Linema, Aquem, Allo, Margao -Goa	BVSc&AH/PU/09	
654	Fareeda D/o Mohd.Yakub	APSVc/04986/09	H.No.2-1-699, NaimNagar, Hanamkonda, Warangal, Andhra Pradesh	BVSc&AH/SVVU/09	02.01.83
655	Feneshwar S/o Narayan Prasad	CHSVC/489/09	Village & Post Barbarspur, Teh. - Gondardehi, District - Durg, Chhattisgarh	B.V.Sc.&AH/IGKVV/09	21.05.87

656	Fuletra Pankajkumar Karasanbhai	GVC/1160	At & Po- Limbuda, Ta- Manavadar, Dis- Junagadh-362 621,Gujarat	BVSc&AH/GAU/89	8.7.67
657	Fulvani Vishvambar Maganlal	GVC/944	Behind Adani Complex, Pavan Park, Opp- Mahendra Shah's Hospital, Anand- 388 001, Gujarat	BVSc&AH/GAU/87	20.6.63
658	G. Aruna D/o G. Ramana	AP SVC/04861/09	Rolugunta (P) (M) Visakhapatnam Dt., Andhra Pradesh	BVSc&AH/SVVU/09	20.07.84
659	G. John Sudhakar Babu S/o G. Satya Raju	AP SVC/04857/09	1/73 F, Opp. Dsp Bungalow, Jammalamadugu Kadapa Dt-516434, Andhra Pradesh	BVSc&AH/SVVU/09	30.05.86
660	G. Satya Sai Chandana D/o G.Narasinga Rao	AP SVC/04967/09	D.No. 53-16-67/2, Maddilapalem, Visakhapatnam-530013, Andhra Pradesh	BVSc&AH/SVVU/09	23.11.85
661	G.Ananda Rao S/o G.Rama Rao	AP SVC/04929/09	H.D.24, Nurses Quarters, Near main Hospital Area, Kothagudem, Khammam Dist-5(1)7101, Andhra Pradesh	BVSc&AH/SVVU/09	22.03.85
662	G.Aruna D/o G.Thirupathi	AP SVC/04983/09	Sundilla (P), Godavarikhani (V), Karimnagar Dist., Andhra Pradesh	BVSc&AH/SVVU/09	08.07.85
663	G.C. Yadav S/o Jairam Yadav	UP SVC/4945/09	Villi.- Deurpur, PO- Bankaj Jagdish, Distt.- Azamgarh,UP	BVSc&AH/NDUA&T/09	07.08.83
664	G.Eswara Srinivas S/o G. Simhachalam	AP SVC/04856/09	Ravivalasa, Garugubili (M), Vizianagaram Dt. Andhra Pradesh	BVSc&AH/SVVU/09	13.07.85
665	G.J.Sankara Rao Rajam S/o G.Narayana Rao	AP SVC/04875/09	Talavaram (V&P) Neelanagram (SO), Srikakulam Dt-532462, Andhra Pradesh	BVSc&AH/SVVU/09	31.08.84
666	G.Kamalakar S/o G.Basavaiah	AP SVC/04924/09	Q.No. ST2-111, Bus Stand Colony, Godavarikhani, Karimnagar Dist., Andhra Pradesh	BVSc&AH/SVVU/09	24.05.83
667	G.leena Grace D/o G.Jayapal	AP SVC/04962/09	H.No. 1-203-Z-73/43, Markapur, Prakasam Dist-523316, Andhra Pradesh	BVSc&AH/SVVU/09	17.07.86
668	G.Naresh S/o G.Narsingh	AP SVC/04893/09	Chowlamaddi (P), Metpally (M), Karimnagar Dist-505325, Andhra Pradesh	BVSc&AH/SVVU/09	03.09.85
669	G.Nijanand S/o G.Mogullappa	AP SVC/04992/09	H.No.3-70, C% Mala Kanakamma, Rawalpally (V&P), Kodangal (M), Mahaboobnagar Dist., Andhra Pradesh	BVSc&AH/SVVU/09	11.05.85
670	G.Pallavi D/o G.Gopal	AP SVC/04913/09	H.No-13-115, Ravula Cheruvu Katta, Manthani (M&V), Karimnagar Dist., Andhra Pradesh	BVSc&AH/SVVU/09	11.02.84
671	G.Pinakapani S/o G.Ganesan.K	AP SVC/04974/09	D.No. 8-553, Gandhi Road, Chittoor-517001, Andhra Pradesh	BVSc&AH/SVVU/09	05.06.83

672	G.Prathibha D/o G.Yadagiri	APSVC/04976/09	H.No. 7-9-1/2, Alivelu Manga Colony, Panagal Road, Nalgonda Town Nalgonda Dist, Andhra Pradesh	BVSc&AH/SVVU/09	21.07.86
673	G.Praveena D/o G.Balachennaiah	APSVC/04919/09	D/o . G.Balachennaiah (R.I), Sumitanagar, 8/112, Badvel, Kadapa Dist., Andhra Pradesh	BVSc&AH/SVVU/09	09.05.84
674	G.Rajesh S/o G.Baswarajyam	APSVC/04837/09	H.No.2-85,Machapur (V), Geesugonda (M), Warangal Dist., Andhra Pradesh	BVSc&AH/SVVU/09	03.03.85
675	G.Ravi Babu S/o G.Bhaskar	APSVC/04833/09	Near Vijaya Milk Dairy, Ponnapuram (V), Nandyal (M), Kurnool Dist. Andhra Pradesh	BVSc&AH/SVVU/09	07.06.82
676	G.Saritha D/o G.Ravindhralah	APSVC/04867/09	Iskapalem of vaddipalem (V), Iskapalem (P) Buchieddy Palem (M) Nellore Dt.Andhra Pradesh	BVSc&AH/SVVU/09	22.06.86
677	G.Siva Sankar S/o G.Narayana Rao	APSVC/04980/09	D.No.6-58, Sivalayam Street, Lalupuram, Guntur-522017, Andhra Pradesh	BVSc&AH/SVVU/09	29.08.84
678	G.Sivanagaraju S/o G. Narasaiah	APSVC/04853/09	4-4-875, Nehrunagar, Tirupati-517501, Andhra Pradesh	BVSc&AH/SVVU/09	21.07.85
679	G.Srinivas S/o G.Raghupathi	APSVC/04891/09	Pochampally (V), Regonda (M), Warangal Dt. Andhra Pradesh	BVSc&AH/SVVU/09	05.05.84
680	G.Swarna Latha D/o G.Raghu Ramaiah	APSVC/04966/09	D.No. 8-410, Jawaharlal Street, Kanigiri, Prakasam Dist., Andhra Pradesh	BVSc&AH/SVVU/09	14.08.86
681	G.V.S.Kalyani D/o G.SatyaNarayana	APSVC/04995/09	H.No. 1-3-131/13A, Near Ravi High School, Nirmal, Adilabad Dist.,504106, Andhar Pradesh	BVSc&AH/SVVU/09	17.04.84
682	G.Venkata Rao S/o G.Venkateswarlu	APSVC/04899/09	C/o M.S.Devinagr, Martur (P&M), Prakasam Dist, Andhra Pradesh	BVSc&AH/SVVU/09	20.07.80
83	G.Venkata Surekha D/o G.Venkateswarlu	APSVC/04863/09	H.No. 2-360, Addanki Road, Darsi, Prakasam Dt.-523247, Andhra Pradesh	BVSc&AH/SVVU/09	04.06.86
4	G.Venkateswarlu S/o G.Venkata Ratnam	APSVC/04848/09	Kamarole (P) (M), Prakasam Dt. Andhra Pradesh	BVSc&AH/SVVU/09	06.06.81
	Gadani Prakash Babulal	GVC/589	114, Shiv Ganesh Bunglows, Near Madhuram Plots, Thaltej Shilaj 100 Feet Road, Thaltej, Ahmedabad-54	BVSc&AH/GAU/81	26.5.58
	Gadariya Maheshkumar Ramnivas	GVC/1010	B-53 Radha Krishna Nagar Society, Nr. Moti Baug, At. Junagadh, Pin- 362 001, Gujarat	BVSc&AH/GAU/87	6.2.64
	Jadhavi Bharatsingh Jaxiram	GVC/1943	C/O- Sadguru Caters, Nr. Railway Station, Idar, Dis-Sabarkantha, PIN - 383430,Gujarat	BVSc&AH/GAU/96	26.1.72

688	Gadhavi Chandrashekher Savatdan	GVC/2302	C/o- K S Gadhavi, Shivaji Park Society, At & Ta- Dhanera Dis- BK, Gujarat	BVSc&AH/GAU/00	1.3.70
689	Gadhavi Dhaval Fattesinh	GVC/3007/09	14, "Saheb Krupa" Premanand Society, Nr. Becharpura Crossing, Laxmipura, Palanpur, Gujarat	BVSc&AH/SDAU/09	07.07.87
690	Gadhavi Manarkumar Samarathadan	GVC/2022	Arbuda Nagar, Sukhbag Road, Dhuadhivadi, Palnpur, Dist - Banaskatha, Gujarat	BVSc&AH/GAU/97	2.6.68
691	Gadhavi Natvardan Banasing	GVC/534	4, Vasundhara Society, Near Gaytri mandir, Visnagar Road, Mehsana-384 001, Gujarat	BVSc&AH/GAU/80	18.4.57
692	Gadhia Manshukhlal Natnolal	GVC/810	25/26, Bhaktinagar, B/H Shrinathnagar, Junagadh, Gujarat	BVSc&AH/GAU/84	15.12.59
693	Gadhia Talshibhai Lavjibhai	GVC/746	"Jay Shreeji Krupa", 3/4, Jyotinagar, Kalawad Road, Rajkot -7, Gujarat	BVSc&AH/GAU/80	12.11.56
694	Gadhvi Jabardan Mulibhai	GVC/590	5, Vasundhara Society, Near Gayatri Madir, Opp. GEB, Visanagar Road, Mehsana, Gujarat	BVSc&AH/GAU/81	1.3.55
695	Gagan Kh Satapathy, S/o Ramesh Chandro Satapathy	OSVC/2296/09	C/o Tapan Kh. Satapathy, NILACHALSAHI, 3rd Lane, Old Berhampur, PO. Berhampur ganjam, Orissa	BVSc&AH/OUAT/09	11.06.83
696	Gaikwad Sanjay Bhausahab	MahaSVC/8334/10	Maparwadi Road, A/P-Loni KD, Tal. Rahata, Dist. Ahmednagar-413713, Maharashtra	BVSc&AH/MA&FSU/09	09.04.87
697	Gaikwad Satish Shraavan	MahaSVC/8358/10	Krishinivas, Takali Dhokeshwar, Tal., Parner, Dist. Ahmednagar-414304, Maharashtra	BVSc&AH/MA&FSU/07	29.12.83
698	Gajendra S/o Sh Sunder Lal	HarSVC/2120	#932/27, Janta Colony, Nr. Namdev Mandir Rohtak, Haryana	BVSc&AH/CCSHAU/09	12.1.84
699	Gajendra Singh S/o Roomi Singh	UPSVC/4923/09	Vill Nagla Bag, PO Naugava, Distt Hathras, UP	BVSc&AH/UPPDDUPCVV /09	08.01.84
700	Gajera Arvind Valjibhai	GVC/2163	At&Po: Bhadva, Ta: Kotda (Sanghani), Dis- Rajkot, Gujarat	BVSc&AH/GAU/99	12.4.76
701	Gajera Ashokkumar Popatlal	GVC/1524	At - Mendanda, Near Power House- GEB, Ta- Mendarda, Dist - Junagadh PIN- 362 260, Gujarat	BVSc&AH/GAU/92	21.7.69
702	Gajera Harsukhlal Gobarbhai	GVC/1803	At. Nagvadar, Po-Nagvadar, Ta. Upleta, Dist. Rajkot Pin- 360 490, Gujarat	BVSc&AH/GAU/94	1.3.70
703	Gajera Kanubhai Polabhai	GVC/917	At & Po- Dabhoda, Ta- Kheralu, dis- Mehsana, Gujarat	BVSc&AH/GAU/87	6.1.63

704	Gajera Mukeshkumar Vallabhabhai	GVC/1489	At & Po-Ravni, Ta- Vanthali, Dis-Junagadh, PIN-362002, Gujarat	BVSc&AH/GAU/91	2.7.69
705	Gajera Pravinbhai Dharamshibhai	GVC/1391	Veterinary Department, Sumul Dairy, PB No- 501, Surat-395008 -395008, Gujarat	BVSc&AH/GAU/91	27.9.64
706	Gajjar Swapnil Girishkumar	GVC/3112/10	4th "Swapnil" Appartment, Hillpara, Rajkot, Gujarat	BVSc&AH/AAU/10	10.08.87
707	Gajraj Singh S/o Jaswant Singh	UPSVC/4901/09	Vill. & Po Siau, Paharlyan, Distt.- Bijnor, UP	BVSc&AH/AU/71	15.06.45
708	Galakatu Shirish Shivajirao	MahaSVC/8276/09	Suyog Colony, Pati-No. 2, Tal.Parbhani, Dist.Parbhani-431401, Maharashtra	BVSc&AH/MA&FSU/09	20.04.84
709	Galande Mahendra Rangnath	MahaSVC/8287/09	A/P-Vadgaon Pan, Tal. Sangamner, Dist. Ahmednagar-422614, Maharashtra	BVSc&AH/MA&FSU/07	08.06.84
710	Gami Bhaveshkumar Ishvarlal	GVC/3008/09	At-Sundha, Distt-Banaskantha, Ta- Palanpur, Gujarat	BVSc&AH/SDAU/09	26.02.86
711	Gami Dhanjibhai Vaghjibhai	GVC/436	Gaytri Nagar Soc-1, Ravapar Road, Morbi, Dis- Rajkot, Gujarat	BVSc&AH/GAU/77	22.2.53
712	Gami Maheshkumar Amichandbhai	GVC/1396	D/5, Sheri no - 4, Becharpura, Palanpur, Dis- Banaskantha, Gujarat	BVSc&AH/GAU/91	1.6.69
713	Gami Manojkumar Somabhai	GVC/3009/09	At&Post-Vedancha, Distt-Banaskantha, Ta- Palanpur, Gujarat	BVSc&AH/SDAU/09	07.08.86
714	Ganatra Ashvinkumar Kanjibhai	GVC/708	A-704, Sanshrya Tower, Nr. Nand-Deep Bungalows, B/H. Lakeview Appt. Vastrapur, Ahmedabad- 380 054	BVSc&AH/GAU/83	1.1.59
715	Gandhi Anilkumar Balkrishna	GVC/492	32/A, Nimishapark Tenament, Kisan Samosawala Na Khanchama, College Road, Nadiad-387 001 Dis- Kheda	BVSc&AH/GAU/79	5.5.57
716	Gandhi Shetal Sunil	GVC/1266	645, MG Road, Near Gujarati WaS, Dahod, Ta- Dahod, Dis- Panchmahal- 389151, Gujarat	BVSc&AH/GAU/89	5.5.67
717	Ganesh. M.K. (M.S.Kandasamy)	TNSVC/4489/09	No-4/279 (old.No.4/267) Melapalayam, Uthukuli Road, chennai, Erode-638051, TN	BVSc&AH/TANUVAS/09	19.03.85
718	Gangadhar Sakte S/o Vittal	KarnSVC/4239/09	Renukanilaya, Manjunathnagar A-Block, Ljari Lakmapur, Haveri-581110, Karnataka	BVSc&AH/KVAFSU/09	11.3.84
719	Gangurde Hemant Bhikhaji	GVC/3049/09	At-Po-Godhvi, Ta-Ahawa, Dist-Dang-394710, Gujarat	BVSc&AH/AAU/09	22.04.86

720	Garima Sharma D/o Late Sh. Kamal Kishore Sharma	UKSVC/477/09	Q.No.V/1521, Ta Colony, Pantnagar, Distt.U.S.Nagar, Uttarakhand	BVSc&AH/GBPUA&T/09	11.02.86
721	Gaurav Dwivedi S/o R.P. Dwivedi	UPSVC/4990/09	452 Gnesh Ganj, Distt. - Mirzapur, UP	BVSc&AH/NDUA&T/09	08.07.82
722	Gaurav Somani S/o Shanti Lal Somani	RajSVC/3748/10	Behind Bhadada Sagh, Daroga Mohalla, Bhilwara-311001, Rajasthan	BVSc&AH/RAU/09	31.03.84
723	Gauswami Gauravgiri Sureshgiria	GVC/3113/10	"Gitanjali" Opp.- Bhavna Society, Savar- Kundla, Dist-Amreli, Gujarat	BVSc&AH/AAU/10	31.07.88
724	Gauswami Vijaygiri Maheshgiri	GVC/3114/10	Chavadiya, Ta Lunawada, Dist- Panchmahal, Gujarat	BVSc&AH/AAU/10	01.06.85
725	Gautam Rudrapaul S/o Sh Narayan Ch.Rudra Paul	TripuraSVC/178/08	C/o Narayan Ch Rudra Paul, Vill- Malbasa, PO- Amarpur, PS- Birganj, Tripura (South)	BVSc&AH/CAU/08	7.5.83
726	Gavhane Dnyaneshwar Shivaji	MahaSVC/8314/10	Vanashree Gajanan-L, Room No.404, Birla College Highway, Kalyan (W), Khadakpada, Tal.Kalyan, Dist.Thane-421301	BVSc&AH/MA&FSU/09	29.07.87
727	Gavit Ramdasbhai Shantivanbhai	GVC/1879	At & Po: Kalibel, Ta: Ahwa, Dis : Dangs- 394 715, Gujarat	BVSc&AH/GAU/95	5.5.70
728	Gawande Sneha Narhari	MahaSVC/8290/09	Kalpna 143-B, Bhagyashri Colony, Nr Saraswati School, Akot, Tal.Akot, Dt.Akola, Maharashtra	BVSc&AH/MA&FSU/09	06.04.87
729	Gawarkar Liladhar Narayanrao	GVC/1234	T N - 6/D, Staff Colony, Banas Dairy, Palanpur, Banaskantha, Gujarat	BVSc&AH/PKV/89	5.6.68
730	Gayathri.S(P.Selli)	TNSVC/4553/09	NGO Colony, Natarajapuram, Bhavani, Erode Dist.- Tamil Nadu	BVSc&AH/TANUVAS/09	01.05.86
731	Gedam Kishor Prembabu	MahaSVC/8170/09	21/14, Gopal Nagar Road, 3rd Bus Stop, Parsodi, Nagpur, Dist. Nagpur- 440022, Maharashtra	BVSc&AH/MA&FSU/09	23.06.85
732	Gedia Kishorbhai.V	GVC/2622/09	Khodiyarkrupa' P.P.Sheri, Station Road, At- Chalala, Ta.Dhari, Dist.Amreli, Gujarat	BVSc&AH/AAU/06	15.12.80
733	Geeta Patel D/o B.L.Patel	UPSVC/4955/09	Vill Jayrampur, PO Durgaganj Bazar, Distt Pratapgarh, UP	BVSc&AH/UPDDUPCVV /09	10.07.83
734	Geetha.D (K.Durairaj)	TNSVC/4601/09	1/75, N.G.G.O Colony, Chengaiannai Road, Puthumariamman Koil PO, Ponnampet, Salem-Dist. Tamil Nadu	BVSc&AH/TANUVAS/09	02.04.86
735	Gelani Rajesh Narshibhai	GVC/3050/09	E-78, Ishwarkrupa Society-28/h spinning mill, L.H Road, punagam, Gujarat	BVSc&AH/AAU/09	01.05.86

736	Gelot Uttambhai Vanchhaji	GVC/3010/09	Village-Nnarasana Po-Mota Rasana, Nr.Pooja Cold storage, Deesa-Palanpur Highway, Ta-Deesa, Dt.-B.K.Gujarat	BVSc&AH/SDAU/09	08.02.87
737	George Verghese, S/o N.C.Verghese	KSVC/3498/09	33/112A, Vetnest, No. E-17, Soumya Nagar, (Alinchuvadu,)Edappally (PO), Cochin-682024, Kerala	BVSc&AH/KAU/73	18.02.50
738	Ghasuar Rizvankhan Sabirkahan	GVC/3011/09	85, New Amanpark, Sukhbagroadm Palanpur, Distt-B.K, Gujarat	BVSc&AH/SDAU/09	21.04.86
739	Ghodasara Dineshkumar Jethalal	GVC/987	Dept. of Pathology, Veterinary College, Anand, 388 001, Gujarat	BVSc&AH/GAU/86	5.12.61
740	Ghoghari Gordhanbhai Vallabhbhai	GVC/1582	At : Thorala, Po: Shantinagar, Ta: Mahuva, Di: Bhavnagar, Gujarat	BVSc&AH/GAU/91	6.2.67
741	Gholap Digvijay Babasaheb	MahaSVC/8325/10	C/o Babasaheb Shankarao Gholap, A/P-Pathari, Tal.Rahata, Dist.Ahmednagar-413710, Maharashtra	BVSc&AH/MA&FSU/09	24.07.87
742	Ghoya Megharaj Ghemarbai	GVC/2164	At & Po- Jasleni, Ta- Palanpur Dis- BK, Gujarat	BVSc&AH/GAU/99	27.3.77
743	Ghumde Rajendra Gajanan	MahaSVC/8260/09	At-Warud, Po-sevagram, Tal.Dist.Wardha-442102, Maharashtra	BVSc&AH/MA&FSU/09	11.05.84
744	Girdharee Lal Awase S/o Sh. R.C.Awase	MPSVC/2649/09	82, Vivekanand Nagar, Jhabua, M.P-457661	BVSc&AH/JNKVVV/09	25.10.83
745	Giri Tina Suresh	GVC/3100/10	L/18, Komal Enclave, OPP-P.P.C.C.grounds, Shantivan cross Roads, Paldi, ABD, Gujarat	BVSc&AH/KKVP/99	11.03.75
746	Giriprasad.R (O.S.Ramasamy)	TNSVC/4495/09	6, Nethaji Street, Odappalayam, Modakkurichi, Erode Dist.-638104, TN	BVSc&AH/TANUVAS/09	09.11.84
747	Girish K.S. S/o Shivanna K	KarnSVC/4293/09	No.25, Shettihalli Village-571501, Malur Hobli, Channapatna Tq, Ramnagara Dt.,Karnataka	BVSc&AH/KVAFSU/09	2.11.84
748	Giteli Ahmed Mahammed	GVC/819	, Salamat Society, Lilesara Rd., Godhra, Pin-389001, Gujarat	BVSc&AH/GAU/84	13.10.60
749	Godase Bandu Naganath	MahaSVC/8247/09	A/P-Ambechincholi, Tal.Pandharpur, Dist.Solapur, Maharashtra	BVSc&AH/MA&FSU/09	01.06.84
750	Godhani Mahendrakumar Meghajibhai	GVC/1528	"Raj Palace", Plot No-17, Divyam Park, Opp. Khodiyar Colony, Jamnagar- 361 006, Gujarat	BVSc&AH/GAU/92	12.7.67
751	Godhat Jaysukhlal Popatbhai	GVC/2145	At- Lunagara, Via- Jetpur, Po- Kerali, Dis- Rajkot - 360 410, Gujarat	BVSc&AH/GAU/98	14.8.74

752	Gogoi Bipul Jyoti S/o Sri Gauri Gogoi	ASM/2439/09	C/o Sri Gauri Gogoi, Vill Barbam Dihingia Gaon, PO-Depri Barbam, Dt-Dhemaji, Assam	BVSc&AH/AAU/09	10.10.79
753	Gogoi Denish S/o Sh Uttam Ch. Gogoi	ASM/2427/09	C/o Mr. Uttam Ch Gogoi, Vill-Mainapara, PO-Ghilamara, Dt-Lakhimpur, Assam	BVSc&AH/AAU/08	1.3.80
754	Gogoi Madhumita S/o Shri Manik Gogoi	ASM/2459/09	C/o M. Gogoi, Back side of Dob Bosco School, Boiragi Moth, Dibrugarh-786001, Assam	BVSc&AH/AAU/09	10.12.85
755	Gohel Dayalbhai Karshanbhai	GVC/646	A/2, Madhavbaug, Appratmant, Opp. Chhparu hall, Gogha Circle, Bhavnagar, Gujarat	BVSc&AH/GAU/69	7.5.56
756	Gohil Bharatsinh Lakhadhirsinh	GVC/1667	At- Toda, Po- Madhada Via- Shihor, Dis- Bhavnagar, Gujarat	BVSc&AH/GAU/93	3.2.70
757	Gohil Dharmendrasinh Lakhubhai	GVC/1627	C/O. Shri Jitsinh S. Solanki, 1/2- Laxminagar Society, Kayawarohan Road, Por, Ta & Dis- Vadodara, Gujarat	BVSc&AH/GAU/93	25.10.65
758	Gohil Jayeshkumar Amarsibhai	GVC/1186	B/17, Uday Nagar Soc. Kubernagar, Surat, Gujarat	BVSc&AH/GAU/89	25.5.67
759	Gohil Laxman Bhimabhai	GVC/909	At - Karnuki, Via- Babara, Post- Kotda Pitha, Ta- Babara, Dis- Amreli, Gujarat	BVSc&AH/GAU/87	1.6.60
760	Gohil Ramrshchandra Popatlal	GVC/1418	24, Shivajali Raw house, Opp. Natraj sinema, Patel vadi, Lala Darvaja, Surat, Gujarat	BVSc&AH/GAU/91	6.10.67
761	Gojiya Vejanand Dhanabhai	GVC/1501	At :- Lamba Bandar, Ta: Jam Kalyanpur, Dis : Jamnagar, Gujarat	BVSc&AH/GAU/92	1.6.67
762	Golakia Pragbhai Ravajibhai	GVC/654	Plot No- 80/A, Sarita Society, Sheri - 6, Bhavnagar, Dis- Bhavnagar, Gujarat	BVSc&AH/GAU/77	25.1.52
763	Gondaliya Pragji Ukabhai	GVC/2279	Krishana park society, Madhuvan Society, near Sadbhavana, Hospital, Library chowk. GHARI. Dist- Amreli, Gujarat	BVSc&AH/GAU/00	3.5.75
764	Gondkar Suhas Bhanudas	MahaSVC/8289/09	A/P-Peth (Gondkar Wada) Tal- Walwa Dist- Sangli, Maharashtra	BVSc&AH/MA&FSU/09	30.04.85
765	Gopal Krishan S/o Surinder Pal	Pb.SVC/2868/09	H.No-BIV-346, Subhash Nagar, Sunam, Distt. Sangrur, Punjab	BVSc&AH/GADVASU/09	30.8.84
766	Gopal Sachdev S/o Sh. Krishan Kumar Sachdev	UKSVC/446/09	C/o 3rd Battalion, S.S.B., NTD Almora Uttarakhand	BVSc&AH/PAU/85	14.09.61
767	Gopalakrishna. R, S/o N.K.R. Iyer	KSVC/3543/09	5/681, Cherumukku, Chembukkavu, Thrissur- 680020, Kerala	BVSc&AH/KAU/09	02.09.86

768	Gopalakrishnan.N (D.Narasimhan)	TNSVC/4668/10	121-A, Pillaiyar Koli Street, Mosavadi, via Peranamallur, Vandavasi taluk, Tiruvannamalai-604503, Tamil Nadu	BVSc/TANUVAS/02	16.07.76
769	Gopi.R (K.V.Raju)	TNSVC/4511/09	Koonandiyur PO, Maillikundam via, Mettur taluk, Salem Dist.-636458, Tamil Nadu	BVSc&AH/TANUVAS/09	30.06.86
770	Gopikrishnan.D (P.Duraisamy)	TNSVC/4587/09	1694, Perumapatti Kudi Street, Nallur, Paramathivelur taluk, Namakkal-637203, Tamil Nadu	BVSc&AH/TANUVAS/09	13.10.86
771	Gor Dipakkumar Narmadashankar	GVC/1828	Sabar Chilling Center, Bayad, AT&PO- Anjnavav, Ta-Bayad, S.K., Gujarat	BVSc&AH/GAU/93	26.8.70
772	Goriya Karsanbhai Kanabhai	GVC/2190	At :- Bhatiya Po: Mahadeviya, To: Kalyanpur, Dis : Jamnagar, Gujarat	BVSc&AH/GAU/99	1.6.75
773	Gosai Amrutpuri Ganapatpuri	GVC/536	20, Pritamnagar Soc, Near Prakash Society, Radhanpur Road, Mehsana, Gujarat	BVSc&AH/GAU/80	1.6.56
774	Gosai Bhagwanbharthi Ranchhodbharthi	GVC/399	A/37, Sweta Park-1, Varasiya ring road, Vadodara- 390022 , Gujarat	BVSc&AH/GAU/76	9.12.54
775	Gosai Bikeshgiri Mahendragiri	GVC/3051/09	10, Bansari Tenament, B/H vaibhav cinema, Bakrol, Ta-Dist-Anand, Gujarat	BVSc&AH/AAU/09	14.12.86
776	Gosai Kamleshgir Laxmangir	GVC/1711	At: Somgarna Muvada, Po: Zara, Via: Kothamba, Ta: Lunawada, Dis- Panchmahal, Gujarat	BVSc&AH/GAU/94	20.4.72
777	Gosavi Rahul Sudhakar	MahaSVC/8157/09	Swamy Shivkrupa, Jawli, Plot Near Shinde Classes, Agalgaon Road, Tal.Barshi, Dist. Solapur-413401	BVSc&AH/MA&FSU/08	01.06.84
778	Goswami Chiragpuri Bipinpuri	GVC/3115/10	At&Po- Ghadi, Ta-Prantij, Dist- Sabarkantha, Gujarat	BVSc&AH/AAU/10	05.07.88
779	Goswami Harsh Vinodchandra	GVC/3052/09	Plot No-1026/1, Sector-2-Dr., Gandhinagar, Gujarat	BVSc&AH/AAU/09	25.10.86
780	Goswami Harshadkumar Mahendrapuri	GVC/2070	At - Langanomath, Po - Nanachekhala, Ta - Talod, Dist - Sabarkantha, Gujarat	BVSc&AH/GAU/97	11.10.74
781	Goswami Ishvar Bharati Chanchal Bharti	GVC/199	Plot No-309/2, Sector-7A, Gandhinagar, Gujarat	BVSc&AH/GAU/70	2.5.46
782	Goswami Jaswantger Bhagwanger	GVC/796	24, Matru bunglows, Near- Ayodhyanagar, B/s Maruty Bhuru, Opp- Express Hotel, Ramol, Ahmedabad	BVSc&AH/GAU/84	1.6.57
783	Goswami Shailesh Kantigiri	GVC/2061	At & Po: Vanod - 364 525 , Ta: Savarkundla , Di: Amreli, Gujarat	BVSc&AH/GAU/97	23.3.74

784	Gourav Tandon S/o Sushil Kumar	Pb.SVC/2902/09	H.No. CM 38/4, I/S Delhi Gate, Ferozepur City, Punjab	BVSc&AH/GADVASU/09	9.11.86
785	Govani Atulkumar Vitthalidas	GVC/1592	Ambapat Street, Supedi, Ta-Dhoraji, Dist:- Rajkot PIN:-360440, Gujarat	BVSc&AH/GAU/92	26.2.67
786	Govani Gopaldas Gokaldas	GVC/927	"Ganesh Bhuvan", Station Road, Bank of Baroda, Dhoraji- 360 410, Ta- Dhoraji, Dis- Rajkot, Gujarat	BVSc&AH/GAU/85	1.1.62
787	Govani Sanjaykumar Maganlal	GVC/1475	C/O., Panchamrut Dairy, Godhara Di: Panchmahal, Gujarat	BVSc&AH/GAU/91	5.7.66
788	Goverdhan Singh S/o Bhanwar Lal Purohit	RajSVC/3686/09	Near Geeta Bhawan, Karoliya Road, Jaitaran, Pali-306302, Rajasthan	BVSc&AH/PU/09	27.01.83
789	Govina Devangan D/o Shyam Ratan Devangan	CHSVC/502/10	Club Ward, District- Mahasamund, Chhattisgarh	B.V.Sc.&AH/IGKV/09	10.11.86
790	Govind R, S/o Raveendran Pillai	KSVC/3493/09	Valiya veetil Padeetathil Erezha North, Chettikulanagar P.O. Mavelikara-690106, Kerala	BVSc&AH/KAU/09	04.08.83
791	Govindappa P S/o Parameshwarappa N	KarnSVC/4319/09	Aruna theatre Road, Ajjampura - 577547, Tarikere Tq, Chickmagalur Dt., Karnataka	BVSc&AH/KVAFSU/09	19.4.85
792	Govindarasu.M (C.Manikkam)	TNSVC/4613/09	3/90-D, Narasipuram Colony village, kalappambadi PO, Pennagaram taluk, Dharmapuri-636811, Tamil Nadu	BVSc&AH/TANUVAS/09	07.04.84
793	Gowrisankar.G (S.P.Ganesan)	TNSVC/4576/09	5/89-D1, Sembampalayam, Nallipalayam, Tiruchengode taluk, Namakkal Dist, Tamil Nadu	BVSc&AH/TANUVAS/09	27.05.87
794	Gowrisankar.S (S.Sathiyamoorthi)	TNSVC/4536/09	No.8, Nethaji Street, Mallasamudram, Tiruchengode taluk, Namakkal-637503, Tamil Nadu	BVSc&AH/TANUVAS/09	29.07.86
795	Goya Abhubhai Rajsangbhai	GVC/1190	At - Sedrasana, Po- Kanodar, Ta - Palanpur, Dist - Banaskantha, Gujarat	BVSc&AH/GAU/85	5.8.61
796	Gujarati Mohanbhai Lakhmanbhai	GVC/1000	"Raxit" Vijaynagar-2, Near Sidhdheshwar Temple, Joshipura, Junagadh, Gujarat	BVSc&AH/GAU/86	13.11.60
797	Gulamnabi Alibhai Mansuri	GVC/500	30, Rahemani Society, Near Minal Society, Juhapura, Ahmedabad- 380 055, Gujarat	BVSc&AH/GAU/78	21.12.55
798	Gunanidhi.P (T.P.panneerselvam)	TNSVC/4516/09	64/1, Kumaran Street, Cheyyar, Tiruvannamalai Dist-604407, Tamil Nadu	BVSc&AH/TANUVAS/09	19.03.86
799	Gurjinder Pal Singh S/o Balvir Singh	Pb.SVC/2867/09	BXIII 997, Baba Deep Singh Nagar, Nr New Courts, Barnala, Punjab	BVSc&AH/GADVASU/09	9.1.84

800	Gurmeet Singh Chahl S/o Jaswinder Singh Chahl	Pb.SVC/2911/09	168, Guru Ram Das Colony, Jalandhar Road, Batala, Distt. Gurdaspur, Punjab	BVSc&AH/CSKHPKV/09	26.1.82
801	Gurpal Singh S/o Inderjeet Singh	Pb.SVC/2877/09	Property No.653, Sector-No.4, Malout, Distt Mukatsar, Punjab	BVSc&AH/GADVASU/09	2.4.86
802	Gurutaj P.M. S/o Mohandas P.G.	KarnSVC/4294/09	Srinivas, Appaya Swamy Road, Nr Shantha Thetre, Virajpet-571218, Kodagu Dt., Karnataka	BVSc&AH/KVAFSU/09	26.11.86
803	Gurusamy.A (S.Arunagiri Nadar)	TNSVC/4447/09	36, Kavel Ramasamy Street, TN Puthukudi, Pullangudi, pin-627855, Tamil Nadu	BVSc/TANUVAS/92	08.04.69
804	Gyan Chandra Agarwal	GVC/922	11, Kalyaneshwar Society, At & Dis- Mehsana, Gujarat	BVSc&AH/CSAKPV/86	5.4.62
805	Gyanender Vasistha S/o Sh Nawal Kishor Vasishtha	HarSVC/2106	#3126/89 A Company Bag Rewari, Haryana	BVSc&AH/CCSHAU/09	22.9.85
806	Hada Nainesh Amarsing	GVC/3116/10	48, Brahma Society, Bhutavav Road, Godhara, Gujarat	BVSc&AH/AAU/10	01.07.87
807	Hada Sohanbhai Motisinh	GVC/2135	At: Motilachhell, Po: Dashla, Ta: Garbada, Dahod, Gujarat	BVSc&AH/GAU/98	22.6.75
808	Hadassa CB.Sangma D/o Shri S.D.Shira	MeghSVC/271/09	Bonipa Atilia Tura, Meghalaya	BVSc&AH/AAU/09	25.7.84
809	Hadiya Keshavji Shivajibhai	GVC/2153	35, Shivanjali Raw House, Puna Patia, At- Magob, Po- Punagam, Ta: Choryasi, Di: Surat, Gujarat	BVSc&AH/GAU/98	11.6.74
810	Hadole Shrikrushna Shamrao	GVC/1330	Sumal Dan Factory, At - Chalthan, Dist - Surat, Gujarat	BVSc&AH/PKV/87	22.6.65
811	Hannurkar S/o Pratap Bharam	KarnSVC/4233/09	No.266, LakshmiGalli, Bekkinkrere-591128, Belgaum, Karnataka	BVSc&AH/MAFSU/02	28.5.79
812	Hansalia Vijaykumar Mohانبhai	GVC/1056	At & Po: Jhanjmer, Ta- Upleta, Dsi- Rajkot - 360 440, Gujarat	BVSc&AH/GAU/88	19.6.64
813	Hansel Geo Thomas, S/o Georgekutty Thomas	KSVC/3583/09	Kochuvadakkekara House, Mangaram, Konni P.O., Pathanamthitta-689691, Kerala	BVSc&AH/KVA&FSU/09	21.11.86
814	Hanumant Singh S/o Raghuvansh Pratap Singh	CHSVC/484/09	Near Podi Bahar Church, Korba, Chhattisgarh	BVSc&AH/JLNKVV/74	18.05.52
815	Harish K.N. S/o Nagaraja	KarnSVC/4300/09	Koladevi Village & Post, Koladevi- 563131, Mulbagal Tq, Kolar Dt., Karnataka	BVSc&AH/KVAFSU/09	2.3.86

816	Harku Devi D/o Khema Ram	RajSVC/3703/10	Vill.- Raichandpura, Teh.-Baitu, Barmer, Rajasthan	BVSc&AH/SKRAU/10	15.07.83
817	Harleen Kaur D/o Ajit Singh	Pb.SVC/2889/09	2727-B, Gurdev Nagar, Ludhiana - 141001, Punjab	BVSc&AH/GADVASU/09	27.11.85
818	Harmanjeet Singh S/o Darshan Singh	Pb.SVC/2864/09	7036, New Shakti Nagar, Street No. 4, Ludhiana-141007, Punjab	BVSc&AH/GADVASU/09	8.3.84
819	Harpaul Sandhu S/o Bindra Singh Sandhu	Pb.SVC/2901/09	Q 7 Police Line Amritsar, Punjab	BVSc&AH/GADVASU/09	2.11.83
820	Harpreet Inder Singh Brar S/o Kuldeep Singh	Pb.SVC/2878/09	H.No. BXII-107, Harindra Nagar, Faridkot, Punjab	BVSc&AH/GADVASU/09	7.11.83
821	Harpreet Kaur D/o Daljit Singh	Pb.SVC/2891/09	H.No.146, Krishna Colony, Ward No.8, Dasuya, Distt. Mohiarpur, Punjab	BVSc&AH/GADVASU/09	22.4.85
822	Harpreet Singh S/o Rattan Singh	Pb.SVC/2882/09	C/o Sarabjit Boutique, Nr Shori Shah Mandi, Nr Shori Shah Mandi, New Bus Stand, Dhariwal Dt. Gurdaspur-143519, Punjab	BVSc&AH/GADVASU/09	21.10.84
823	Haseena K.V, D/o Mohammed Kutty K.V	KSVC/3532/09	Karuppan Veetil House, Puthur P.O., Kottakkal, Malappuram-676503, Kerala	BVSc&AH/KAU/09	28.10.85
824	Hatzade Ravindra Kumar Imdeo.	MahaSVC/8168/09	At/Post-Koka (Jungle), Tal.Bhandara, Dist. Bhandara-441905, Maharashtra	BVSc&AH/MA&FSU/09	31.08.84
825	Heba Shaheen D/o Sh. Abdul Khaliq Ansari	UKSVC/474/09	H.N, 1104/4, Jha Colony, Pantnagar Distt, U.S.Nagar, Uttarakhand	BVSc&AH/GBPUA&T/09	17.06.85
826	Hedaoo Vandana Ramesh	MahaSVC/8173/09	Khat Road, Bhaiyyaji Nagar, Bhandara, Tal. Dist. Bhandara-44190, Maharashtra	BVSc&AH/MA&FSU/09	29.05.87
827	Hegde Ramachandra Shripati S/o Hegde Shripathi Ramayya	KarnSVC/4361/09	At Post Balegadde, Sirsi Tq Uttarakannada Dt- 581336, Karnataka	B.VSc/ UAS, B'lore/86	23.3.63
828	Hemachandran.R (V.Rajasekaran)	TNSVC/4593/09	1/23, Sivanayakkanpatty, Palayapalayam PO, Namakkal District-Tamil Nadu	BVSc&AH/TANUVAS/09	15.05.86
829	Hemant Kumar Belchandan S/o Lt. Kedar Singh Belchandan	CHSVC/457/09	16 Anand Nagar, Durg, Chhattisgarh	BVSc&AH/IGKVV/07-08	20.01.81
830	Himanchal Majhi, S/o Keshab Majhi	OSVC/2302/09	At-Khalana, PO-Ghuchaguda Via-Sinapali, Distt.-Nuapada-766108, Orissa	BVSc&AH/OUAT/09	13.08.86
831	Hirani Dhanze, F/o J.R.Dhanze	HVC-883/09	Vill. Batada, PO. Bagdi, Teh.Theog, Distt, Shimla, HP	BVSc&AH/CSKHPKV/09	11.02.86

832	Himansh Vaishya S/o Foolchand Vaishya	CHSVC/515/10	H.No. N.H. 10, Telicom Colony, Korba, Chhattisgarh	B.V.Sc.&AH/IGKVV/09	17.04.86
833	Himanshu Awasthi S/o Rajiv Awasthi	UPSVC/5008/09	4-4/2 Jainigam Colony, Indra Nagar, Lucknow, UP	BVSc&AH/GBPUA&T/09	07.03.85
834	Hingade Sonal Sham	MahaSVC/8179/09	Dewangan Society, Waghapur Lohara Bypass Road, Tal. Dist. Yavatmal-445001, Maharashtra	BVSc&AH/MA&FSU/09	23.12.85
835	Hingonekar Namrataramdas	MahaSVC/8353/10	D/o Mrs. Prabhavati Ramdas Tayade, Plot No. 65/B, Nr Navjeevan Traiton, NH. No. 6, A/P- Muktainagar, Tal. Muktainagar, Dist. Jalgaon, Maharashtra	BVSc&AH/MA&FSU/09	16.06.85
836	Hirpara Ranchod Kadva	GVC/1783	AT-Sasan-Gir, TA-Talala, Dist-Junagadh- 362135, Gujarat	BVSc&AH/GAU/94	2.3.68
837	Hirpara Mahesh Mansukhbhai	GVC/2286	At- Morwada, Ta- Bhesan, Dist. Junagadh - 382020, Gujarat	BVSc&AH/GAU/00	12.12.76
838	Hitesh Kumar Mishra S/o Premshankar Mishra	CHSVC/494/10	Vikas Nagar, Konda Gaon, District - Bastar, Chhattisgarh	B.V.Sc.&AH/IGKVV/09	12.08.81
839	Hridesh Kumar Yadav S/o R.K. Yadav	UPSVC/5056/09	Vill & PO Akhniwa Konch Distt Jalaun, UP	BVSc&AH/TNV&ASU/09	04.03.85
840	Huchhegowda K.H. S/o Karlu Huchhegowda H	KarnSVC/4322/09	Kodambhalli-571501 Channapatna Tq, Ramnagara Dt., Karnataka	BVSc&AH/KVAFSU/09	5.7.86
841	Hukum Chand Patel S/o Shri Ranchod Patel	MPSVC/2599/09	146 MIG Vindya Vihar, New Housing Board Colony, Khargone, M.P	BVSc&AH/JNKVV/09	3.8.71
842	J.A. Ansari S/o Mohd. Aslam Ansari	UPSVC/5026/09	Moh. Baghiya PO- Dakshin, Distt.- Firozabad, UP	BVSc&AH/CCSHAU/09	16.06.82
843	J. Satish Kumar S/o L. Prasad	APSVC/04958/09	Swamivari Street, 10-72/9A, Main Road, Bobbili, Vizianagaram Dist-535558, Andhra Pradesh	BVSc&AH/SVVU/09	12.07.85
844	Javazhagan.M (E. Muniswamy)	TNSVC/4466/09	High School Street, Minnal, Arakkonam taluk, Vellore-632510, Tamil Nadu.	BVSc/TANUVAS/97	07.05.73
845	Jamdar Arif Innus	MahaSVC/8188/09	A/P Varkute-Malwadi, Tal-Man, Dist- Satara, Maharashtra	BVSc&AH/MA&FSU/08	07.06.85
846	Jandhu.M.S (M.Selvaraj)	TNSVC/4535/09	Dhevi Textiles, 154, Main Road Namakkal- 637001, Tamil Nadu	BVSc&AH/TANUVAS/09	27.05.86
847	Jandhumathi.B (K. Balasubramanian)	TNSVC/4499/09	18, Sundaram Street, Jafferkanpet, Chennai- 600083	BVSc&AH/TANUVAS/09	02.03.86

848	Indhumathi.V (N.Veerappan)	TNSVC/4602/09	285/2, Sethu Nagar, Near Omakulam, Chidambaram-608001, Cuddalore Dist.Tamil Nadu	BVSc&AH/TANUVAS/09	08.06.86
849	Ingle Dnyaneshwar Shankarrao	MahaSVC/8262/09	Behind Gram Panchayat, At+Post- Kanheri(Salap), Tal.Barshitakli, Dist.Akola- 444001,Maharashtra	BVSc&AH/MA&FSU/09	15.06.81
850	Ingle Sachin Sudamrao	MahaSVC/8226/09	"Ingle Niwas", Raje Sambhaji Nagar, Nagar Road, Balepic, Tal. Dist.Beed0431122,Maharashtra	BVSc&AH/MA&FSU/09	21.01.83
851	Ingle Vinayak Shivajirao	MahaSVC/8232/09	At. Umari, Post-Bhategaon, tal. Hadgaon, Dist. Nanded,Maharashtra	BVSc&AH/MA&FSU/09	01.09.85
852	Ingtipi Mary Monjir S/o Late Tapan Singh Ingty	ASM/2465/09	Doctors Colony,Dibhu Civil Hospital,Karbi- Anglong, Assam	BVSc&AH/AAU/09	3.8.84
853	Iranagouda Bapugouda Patil S/oSh Bapungoudapatil	KarnSVC/4222/09	Plot No. 80,Vishweshwaraiahnagar, Ashram Road, Bijapur,Karnataka	BVSc&AH/MAU/77	1.6.54
854	Isal Gopal Madhukar	MahaSVC/8277/09	Civil Line,Tal.Daryapur, Dist.Amravati- 444803,Maharashtra	BVSc&AH/MA&FSU/09	24.09.86
855	Ishpreet Singh Gill S/o Bakhshish Singh Gill	Pb.SVC/2869/09	53-A, Ranbir Marg, Patiala,Punjab	BVSc&AH/GADVASU/09	20.6.86
856	Ishrat Uttah S/o Kudratullah Ansari	RajSVC/3734/10	43, Ansari Mohaliah, Sawai Madhopur- 322021, Rajasthan	BVSc&AH/SKRAU/10	01.07.83
857	J.Bhagya Lakshmi D/o J.Balanna	APSVC/04883/09	Kudasingi (V), Seekari (P), Pedabayalu (M) Visakhapatnam Dt, Andhra Pradesh	BVSc&AH/SVVU/09	03.02.82
858	J.Narendra Kumar S/o J.Rayappa	APSVC/04873/09	Chinabogili, Seethanagaram (M), Vizianagaram Dt, Andhra Pradesh	BVSc&AH/SVVU/09	10.08.85
859	J.Sreekanth S/o J.Vinod Kumar	APSVC/04872/09	D.No. 10/681, Car Street, Dharmavaram Anantapur Dt-515671, Andhra Pradesh	BVSc&AH/SVVU/09	28.08.85
860	Jadav Ajitsinh Somsinh	GVC/1878	Jadav Faliya, At - Daheli, Ta- Valia, Dist - Bharuch,Gujarat	BVSc&AH/GAU/95	21.8.73
861	Jadav Natha Masri	GVC/1985	At & Po: Chandawana, Ta : Mangrol, Dis : Junagadh,Gujarat	BVSc&AH/GAU/96	1.6.73
862	Jadeja Harishchandra Dilipsinh	GVC/1945	B/9, Sonal Nagar Society, Nirmalsinh's Wadi, Mundra Road, Bhuj, Dis-Kachchh, Gujarat	BVSc&AH/GAU/96	21.9.65
863	Jadhav Nandkishor Govindrao	MahaSVC/8204/09	At-Zunzunwadi Post-Shivaji Nagar, Tal- Kalamnuri, Dist-Hingoli,Maharashtra	BVSc&AH/MA&FSU/09	21.05.86

864	Jadhav Ravikumar Sudhakar	MahaSVC/8206/09	Jadhav Niwas, H.NO.37, Wangi Road, (HADCO), Tal.Dist.Parbhani- 431401, Maharashtra	BVSc&AH/MA&FSU/09	24.10.83
865	Jadhav Sagar Ramchandra	MahaSVC/8319/10	C/o-Ramchandra N.Jadhav, M.V,Seeds Company, Nehru Chauk, Tal.Indapur, Dt.Pune- 413106, Maharashtra	BVSc&AH/MA&FSU/09	24.03.87
866	Jadhav Vinayak Laxmanrao	MahaSVC/8279/09	At-Post-Chikalthana(BK), Tal.Sailu, Dist.Parbhani-431503, Maharashtra	BVSc&AH/MA&FSU/09	25.07.85
867	Jaffer Sadiq S/o Shaik Hydersaheb	KarnSVC/4226/09	No.9, 1st Main, 2nd Cross, K.V.Layout K.R.Puram, Bengaluru- 36, Karnataka	BVSc/UAS, B'lore/70	6.6.44
868	Jagadish A.L. S/o Lakshme Gowda	KarnSVC/4245/09	S.K.P. Road, Arehalli-573101, Belur Tq, Hassan Dt., Karnataka	BVSc&AH/KVAFSU/09	7.4.87
869	Jagdeep Singh S/o Avtar Singh	Pb.SVC/2873/09	H.No.1829, Phase 5, Mohali-160059, Punjab	BVSc&AH/GADVASU/09	7.3.87
870	Jagdev Singh S/o Jagtar Singh	UPSVC/5055/09	Vill.- Kueyan Mahuliya, PO- Bhambht, Sahjahanpur, UP	BVSc&AH/IGKV/09	20.04.82
871	Jagiwala Prakash Sundarlal	GVC/540	16/17, Triloknagar, Nr. Narayan Park, Opp. Siddhivinayak Park, Nr. Palanpur Octroi Naka, Surat, Gujarat	BVSc&AH/GAU/80	1.6.58
872	Jagjivan Lal Kushwaha S/o Lavkush Kushwaha	CHSVC/472/09	Balak Colony Tamnar, District- Raigarh, Chhattisgarh	BVSc&AH/JLNKVV/86-87	01.08.60
873	Jagmohan Singh S/o R.K. Chandrakar	CHSVC/491/09	H.No. LIG 349 Padamnabh Pur, Durg, Chhattisgarh	B.V.Sc.&AH/IGKVV/09	24.12.84
874	Jai Bhagwan S/o Sh Dharam Pal	HarSVC/2124	VPO Sisana, Dt- Sonapat, Haryana	BVSc&AH/CCSHAU/09	15.9.84
875	Jaidev Verma S/o Prakash Chand	UPSVC/5072/10	Vill.- Dharampura, Po- Khirari, Mathura, UP	BVSc&AH/SVVU/09	02.07.80
876	Jaikanth.C.M (C.Masthan)	TNSVC/4612/09	103, Anbazhagan Nagar, Minjur, pin-601203 Thiruvallure district. Tamil Nadu	BVSc&AH/TANUVAS/09	09.01.85
877	Jain Harish Chnadra	GVC/92	16, Vrundavan Park-II, Opp- Akruti Nagar, Borsad Road, Anand- 388001, Gujarat	BVSc&AH/Vikram Uni/64	11.7.40
878	Jaipal Kargeti S/o Sh. G.D.Kargeti	UKSVC/450/09	Adarsh Colony, P.O. Chilianola, Tehsil. Ranikhet, Distt. Almora. Uttarakhand	BVSc&AH/GBPUA&T/09	28.02.83
879	Jaiprakash Kachhawa S/o Ramlatoor Kachhawa	RajSVC/3709/10	VPO-Deoli (Manji), Teh.-Sangod, Kota- 325001, Rajasthan	BVSc&AH/SKRAU/10	01.12.82

880	Jakasania Kantilal Hirjibhai	GVC/1138	At & Po: Jetpur (Machchhu), Ta: Morbi, Dis-Rajkot 363 630,Gujarat	BVSc&AH/GAU/89	3.6.67
881	Jalandhra Jagdishkumar Mohanbhai	GVC/1499	At - Ankolwadi (Gir), Ta - Talala, PIN- 362 140 Dist - Junagadh,Gujarat	BVSc&AH/GAU/92	15.4.69
882	Jalantha.P (P.Periasamy)	TNSVC/4616/09	11, Sekar Varma Nagar, Thiruttani, Thiruvallur Dist-631209, Tamil Nadu	BVSc&AH/TANUVAS/09	05.12.86
883	Jalu Gopaladas Karsanji	GVC/798	5, Chandrapark Co.Op.Hou.Soc., Block No-48, 150 Fit Ring Road, Opp. Parijat Party Plot, Nr. Big Bazar, Rajkot-5	BVSc&AH/GAU/84	24.3.60
884	Jamdade Ashay Ajit	MahaSVC/8332/10	'Sneh',8/396, Behind Shahu High School, Patas Road, Baramati, Tal.Baramati Dt.Pune,Maharashtra	BVSc&AH/MA&FSU/09	01.01.87
885	Jamsheer.P, S/o Anithi Pothala	KSVC/3567/09	Pothala House, Thandukode, Vellayur (PO), Malappuram, Kerala	BVSc&AH/KAU/09	05.04.85
886	Jamuna Valsalan,D/o P.K.Valsalan	KSVC/3596/09	Parakulam House, Parampuzha, P.O., Eranjal, Kottayam-686032, Kerala	BVSc&AH/KAU/09	12.12.85
887	Janak Dhakal S/o Maheshwor Dhakal	Pb.SVC/2897/09	Hostel NO.9, Room No.-8 PAU Campus,Ludhiana,Punjab	BVSc&AH/GADVASU/09	2.1.89
888	Jani Vikrambhai Shivshankar	GVC/2098	Plot No- 246/1, Kisannagar, Sector-26, Gandhinagar,Gujarat	BVSc&AH/GAU/98	4.12.74
889	Jankhwala Nisarahmed Dosimohmod	GVC/362	"Abodana", Madina Masjid Street Pologround, Himatanagar, Dist - Sabarkantha - 383 001, Gujarat	BVSc&AH/GAU/75	23.3.50
890	Jarsaniya Dineshkumar Hansarajbhai	GVC/1610/09	C-43, JhanviBunglows, Opp-Govt tubewell, Bopal Ahmedabad,Gujarat	BVSc&AH/GAU/93	10.05.71
891	Jasani Gajjan Nalinbhai	GVC/3117/10	"Murlidhar", Patel Chiwk, Manavadar,Gujarat	BVSc&AH/AAU/10	02.11.87
892	Jasdeep Singh S/o Mandeep Singh	Pb.SVC/2898/09	537/14, Jagjit Poultry Farm, Court Road, Patti, Distt. Amritsar,Punjab	BVSc&AH/GADVASU/09	31.7.85
893	Jatinder Pal Singh S/o Hardev Singh	Pb.SVC/2859/09	H.No.32,Gali No.2, Bindra Colony,Nr Gurudwara Dukhniwaran Sahib,Patiala,Punjab	BVSc&AH/IGKV/05	12.4.82
894	Javed Ahmad S/o Yar Mohammed	UPSVC/5043/09	Vill & PO Lehra Bazar Distt Mahrajanj, UP	BVSc&AH/UPDDUPCVV /09	15.01.79
895	Javed Jameela.A S/o P.A.Abdul Jameel	KSVC/3586/09	Chempilackel House, Kottangal PO., Pathanamthitta-686547, Kerala	BVSc&AH/KAU/09	03.05.86

896	Javia Chiragkumar Babulal	GVC/3118/10	Block-104, Bluestar Appt, Ashok Vatika, zanzarda Road, Junagadh, Gujarat	BVSc&AH/AAU/10	15.02.88
897	Javia Ketankumar Premjibhai	GVC/2071	At - Keshod, Taluka Panchayat, Quarter, Opp. T.B. Hospital, Dist - Junagadh, Gujarat	BVSc&AH/GAU/97	23.3.75
898	Jawad.N, S/o Najeeb.M	KSVC/3577/09	Shine, Farook College (PO)Kozhikode-673632, Kerala	BVSc&AH/KAU/09	28.01.86
899	Jawahar.P (S.Pachiamani)	TNSVC/4430/09	25-G, Gokulam Colony, 4th Street, P.N.Pudur, Coimbatore-641041, Tamil Nadu	BVSc/TANUVAS/91	01.06.64
900	Jay Anand Singh S/o Sri Jagdish Singh	JVC/617/09	TVO Bandarkuppi Palmo, Giridih, Jharkhand	BVSc&AH/BAU/87	15.05.62
901	Jemima Ponraj (M.Samson Jeyakumar)	TNSVC/4472/09	B-3, Soundaryam Apartments, 370, E.B Office Road, Mogappair East, Chennai-600037, Tamil Nadu	BVSc&AH/OUA&T/95	22.11.72
902	Jereesh K.M, S/o Muhammed K.T	KSVC/3534/09	Kollan Thodukayil House Punnur Cherupalam, Narikunni Kozhikode-673585, kerala	BVSc&AH/KAU/09	29.01.86
903	Jessiehun Nongsiej D/oShri B.S.Nongkynrih	MeghSVC/268/09	Mawphlang, Ladumrisain, East Khasi Hills, Shillong, Meghalaya	BVSc&AH/CAU/09	26.11.86
904	Jeyentrabalaji.T (M.S.Thangaraj)	TNSVC/4669/10	288, Mevani PO, Kugalur via, Gobi taluk, Erode-638313, Tamil Nadu	BVSc&AH/TANUVAS/09	30.10.84
905	Jhaveri Harish Bhadrakant	GVC/304	16, Trishala Apartment, 12-Anand Nagar Society, Bhaththa, Paldi, Ahmedabad-07, Gujarat	BVSc&AH/KKV/73	14.5.51
906	Jiji Jagannathan, D/o O.Jagannathan	KSVC/3594/09	Shanthi Bhavan, Bakery Street, Kattoor (PO), Thrissur-680702, Kerala	BVSc&AH/KAU/09	14.03.86
907	Jijo V Thomas, S/o V.J.Thomos	KSVC/3528/09	Vazhakkattu House, Koleri P.O., Kenichira, Wayanad-673596, Kerala	BVSc&AH/KAU/09	25.04.83
908	Jillawar Swapnil Sharadchandra	MahaSVC/8248/09	Chintamani Niwas, Pandurang Nagar, Dhanki, Tal. Umerkhed, Dist. Yavatmal-445207, Maharashtra	BVSc&AH/MA&FSU/09	15.12.84
909	Jinsa Geogre D/o C.V.George	KSVC/3509/09	Chettivalappil House, Kuttikad P.O., Chalakudy (VIA), Thrissur-680724, Kerala	BVSc&AH/KAU/09	30.05.80
910	Jintpure Swapnil Vijaykumar	MahaSVC/8250/09	Marwadi Galli, Near Rajendra Watch Company, Tal. Dist Osmanabad-413501, Maharashtra	BVSc&AH/MA&FSU/09	07.12.85
911	Jisana Pareeth, D/o K.K.Pareeth	KSVC/3522/09	Jas Nivas, Kuthiathode P.O Cherthala, Alappuzha-688533, Kerala	BVSc&AH/KAU/09	06.04.86

912	Jisha Raj A, D/o G.Rajappan Nair	KSVC/3530/09	Ponnamma Bhavan, Puravoor, Chirayinkeezhu, P.O., Thiruvananthapuram- 695304, Kerala	BVSc&AH/KAU/09	18.05.86
913	Jitendra Beghel S/o Sh Basant Singh Beghel	MPSVC/2613/09	Vill-Kudari Via-Khera Palari,Seoni (M.P)- 480991	BVSc&AH/JNKVV/09	10.07.80
914	Jitendra Kumar Agrawal S/o Girraj Prasad	RajSVC/3595/09	Kaptan Colony, purana Roopbass, Alwar- 301001, Rajasthan	BVSc&AH/RAU/09	02.10.84
915	Jitendra Kumar S/o Sh. Shambhu Nath	UKSVC/451/09	Village Buksoura, Post Office Dineshpur, Distt. U.S.Nagar, Uttarakhand	BVSc&AH/GBPUA&T/09	01.06.86
916	Jitendra Kumar S/o Sh.Ram Kumar	UKSVC/490/09	Veterinary Officer Veterinary Hospital Banbasa, Distt. Champawat Uttarakhand	BVSc&AH/CSAKEPVK/98	10.03.71
917	Jitendra Singh S/o Narayan Singh	UPSVC/5014/09	Shake Bulaki Dalinai, Tajganj, Distt.- Agra,UP	BVSc&AH/JNKVV/09	30.04.80
918	Jithesh J. Poonattu, S/o P.K. Joseph	KSVC/3494/09	Poonattu House, Muvattupuzha Club Road, Muvattupuzha Market P.O., Marady Ernakulam,-686673,Kerala	BVSc&AH/KAU/09	10.03.79
919	Jivani Keshavji Kanjibhai	GVC/1719	Veterinary Officer, Veterinary Dispensary, Dwarka, Dis- Jamnagar,Gujarat	BVSc&AH/GAU/94	13.2.70
920	Jivani Sureshkumar Limbbhai	GVC/1908	At&Po: Dhunda (Khanpar), Ta: Tankara, Rajkot,Gujarat	BVSc&AH/GAU/95	30.11.68
921	Jnanesh Jha S/o Sri Vighnesh Jha	JVC/628/09	Bhojpur colony, Ches Bokaro-827013, Jharkhand	BVSc&AH/BAU/09	09.01.85
922	Jogdand Nilesh Kisanrao	MahaSVC/8242/09	A/P-Mandwa(P)Tal-Ambejogai, Dist-Beed- 431517,Maharashtra	BVSc&AH/MA&FSU/09	08.07.84
923	Johnson.P.John, D/o P.T. John	KSVC/3600/09	Ponneduthamkuzhy House, Poolakutty P.O., Chittariparamba (VIA), Kannur-670650, Kerala	BVSc&AH/KAU/09	26.08.85
924	Joshi Amit Vallabhbai	GVC/1178	A-24, Tirupati town ship-1, Opp- Aroma, Deesa, Highway, Palanpur, Dist - Banaskantha, Gujarat	BVSc&AH/GAU/89	23.1.66
925	Joshi Ashwinkumar Himatlal	GVC/471	Dudhsagar Dairy, Mehsana - Palanpur Highway, Mehsana, Gujarat	BVSc&AH/GAU/78	11.11.57
926	Joshi Atulbhai Babubhai	GVC/1315	At & Po- Nedra, Ta - Siddhapur, Dis- Patan,Gujarat	BVSc&AH/GAU/89	1.6.64
927	Joshi Atulkumar Shantilal	GVC/1247	6, Himalay bungalows-I, Behind Dharati Resort, Hanuman terkri, Abu Road Highway, Palanpur Dis- Banaskantha	BVSc&AH/GAU/90	21.3.68

928	Joshi Dhirajlal Himmatlal	GVC/593	18,Marvel Tenament,co-op Housing society,Near Abadnagar,Bopal Amedabad, Gujarat	BVSc&AH/GAU/81	11.12.58
929	Joshi Jayendrakumar Jayantilal	GVC/1280	6, Maharshi Arvind Soc., Veri Hanuman Road, At - Po & Ta- Lunawada, Dis : Panchmahals - 389 230	BVSc&AH/GAU/90	4.4.67
930	Joshi Ketankumar Navinchawdra	GVC/3012/09	F-28/3, S.K.Nagar Dantivada Agri.Uni. Ta- Dantivada, Distt, B.K. Gujarat	BVSc&AH/SDAU/09	27.09.86
931	Joshi Kishorkumar Dahyashankar	GVC/634	"Devhit", 29, Brahmsamaj Society, Sheri No- 2, Raiya Road, Rajkot-7, Gujarat	BVSc&AH/GAU/78	11.7.53
932	Joshi Nileshkumar Vinayakrav	GVC/2072	25/ Super A, Tirupati Bunglow, Abu highway, Palanpur- 385 001, Dis : Banaskantha, Gujarat	BVSc&AH/GAU/97	31.3.75
933	Joshi Prafulchandra Mohanlal	GVC/1271	A/8, Pramukh Swaminagar, Opp- AIMS Oxygen, Old Padara Road, Vadodara,Gujarat	BVSc&AH/GAU/90	30.5.67
934	Joshi Prashantkumar Pradyumanbhai	GVC/1055	7- Gayatri Nagar, Near Rajeshwari Society, Near Chandola Cans, Maninagar, Ahmedabad- 50, Gujarat	BVSc&AH/GAU/88	17.5.66
935	Joshi Pravinkumar Chandulal	GVC/542	39, Swagt Buaglogss, Ramosana Road,Mhesana, Gujarat	BVSc&AH/GAU/80	22.7.58
936	Joshi Sharad Narayan	GVC/71	163, Veer Avenue Complex, Opp. Manekrao Akhada, Dandiabazar, Vadodara-390 001, Gujarat	BVSc&AH/Vikram Uni/61	26.11.38
937	Joshi Shweta Ramrao	MahaSVC/8228/09	Krishna Niwas, Udgir, Tal. Udgir Dist. Latur- 413517,Maharashtra	BVSc&AH/MA&FSU/09	06.07.87
938	Joshi Sunil Mahashankar	GVC/1631	7/2, Sector-26, KH- Road, Gandhinagar- 28,Gujarat	BVSc&AH/GAU/93	
939	Joshi Sunilkumar Natvarlal	GVC/973	26, 'Gokul', Gurukrupa Society, Akesan Road, Ahmedabad Highway, At-Po & Ta- Palanpur, Dis- BK, Gujarat	BVSc&AH/GAU/85	23.9.61
940	Joshi Vaibhav Venkatesh	MahaSVC/8235/09	Sterling Nisarg Phase-1 B-3, Dhayari, Sinhgad Road, Pune-411041,Maharashtra	BVSc&AH/MA&FSU/09	07.06.87
941	Joshi Vasantkumar Bapulal	GVC/1486	At-Vardhara, Ta: Virpur, Dis : Kheda,Gujarat	BVSc&AH/GAU/91	13.6.69
942	Joshi Vinodchandra Kantilal	GVC/1117	A-1,/202,karnavati App-III,bhairavnath - isanpur road,near mansipark society,maninagar,ahemedabad, Gujarat	BVSc&AH/GAU/85	11.12.62
943	Joshiyara Pareshkumar Babubhai	GVC/1946	At & Po- Chunakhan, Ta- Bhiloda, Dis - Sabarkantha,Gujarat	BVSc&AH/GAU/96	30.5.71

944	Jotaniya Arvindkumar Harjivanbhai	GVC/1947	At & Po-Juna Devaliya, Ta-Halvad, Dis - Surendranagar PIN- 363330,Gujarat	BVSc&AH/GAU/96	13.10.73
945	Jyoti Sachan D/o R.K. Sachan	UPSVC/4998/09	94 Basant Vihar, Naubasta, Kanpur,UP	BVSc&AH/NDUA&T/09	08.08.81
946	Jyoti Sahu D/o A.L. Sahu	CHSVC/509/10	40/150 Kodikhana Road, Basantpur, Rajnadgoan,Chhattisgarh	B.V.Sc.&AH/IGKVV/09	23.03.85
947	Jyotika	GVC/3053/09	B-10, Avakar Appartments, Nr.IRMA Anand, Gujarat	BVSc&AH/AAU/09	05.11.86
948	K. Dastagiri S/o K Hussainappa	APSVC/04866/09	T.Kammavaripalle (V) (P), Vaddirala (s.o), Kadapa Dt-516432, Andhra Pradesh	BVSc&AH/SVVU/09	10.05.85
949	K. Raja S/o K.Venkateswara Rao	APSVC/04939/09	H.No. 11-61, Nethaji Naga, Nandigama, Krishna Dist-521185, Andhra Pradesh	BVSc&AH/SVVU/09	01.05.87
950	K. Shyam Prasad S/o K.Gopal	APSVC/04851/09	H.No. 6/20A, Karivena (V) (P), Atmakur (M) Kurnool Dt-518422, Andhra Pradesh	BVSc&AH/SVVU/09	05.08.85
951	K. Sreenivasa Reddy S/o K, Narsi Reddy	APSVC/04930/09	Pedaveedu (V), Mattampally (M), Nalgonda Dist., Andhra Pradesh	BVSc&AH/SVVU/09	14.04.85
952	K.Balanaik S/o K. Mangenaik	APSVC/04842/09	Gorkal Tanda (V), Polure (P), Nandyal (T.Q),Kurnool Dt, Andhra Pradesh	BVSc&AH/SVVU/09	06.03.87
953	K.D. Sharma S/o C.D. Sharma	UPSVC/5049/09	Vill.- Khaguvbas, PO- Sikandrabad, Distt.- Bulandshahar,UP	BVSc&AH/TANUVAS/09	07.11.83
954	K.Gangadhara Rao S/o K.Sreenivasulu	APSVC/04825/09	Billupadu (V), Nagulavellaturu (P), Chejarla (M), Nellore Dt, Andhra Pradesh	BVSc&AH/SVVU/09	06.08.85
955	K.Geetha D/o K. Srikishan	APSVC/04917/09	H.No. 9-27, Vaddeman Road, Bijinipally (M), Mahaboobnagar Dist., Andhra Pradesh	BVSc&AH/SVVU/09	24.06.85
956	K.Govinda Raju S/o K.Thirupalaiah	APSVC/04849/09	C/o B.Venkata Krishnudu, H.No.19-134 Upstair, Gudipatigadda, Nandyal, Kurnool Dt. Andhra Pradesh	BVSc&AH/SVVU/09	29.06.82
957	K.Indira D/o K.Hanmantha Reddy	APSVC/04905/09	Pegadapally (V,P&M), Karimnagar Dist.- 505532, Andhra Pradesh	BVSc&AH/SVVU/09	11.10.84
958	K.Jagan Mohana Rao S/o K.Dhananji Naidu	APSVC/04954/09	Subhadra (P), Balijipeta (M), Vizianagaram Dist.-535558, Andhra Pradesh	BVSc&AH/SVVU/09	01.06.85
959	K.K. Maurya S/o R.J.Maurya	UPSVC/4936/09	Vill.- Paharpur, PO- Kalafatehpur, Azamgarh,UP	BVSc&AH/NDUA&T/09	02.02.83

960	K.K. Verma S/o Karan Singh	UPSVC/4943/09	K-3164, Shastri Nagar, Meerut, UP	BVSc&AH/NDUA&T/09	15.10.84
961	K.Kishore Kumar Reddy S/o K.Rajeshwara Reddy	APSVC/04828/09	H.No. 51, SBI Colony, Nandyal-518 502, Kurnool Dt., Andhra Pradesh	BVSc&AH/SVVU/09	09.08.84
962	K.Madhava Reddy S/o K.Chandra Sekhar Reddy	APSVC/04877/09	Madhavaram, Siddavatam (M), Kadapa Dt. Andhra Pradesh	BVSc&AH/SVVU/09	21.10.82
963	K.Muni Chandra Reddy S/o K.Muni Rathnam Reddy	APSVC/04897/09	Gangudupalli (V), Dornakambala (P), Chandragiri (M), Chittoor Dist. Andhra Pradesh	BVSc&AH/SVVU/09	01.06.84
964	K.Padmavathi Devi D/o K.Murali Naidu	APSVC/04869/09	H.No. 4-149-51, Teachers Colony, Dhone, Kurnool Dt., Andhra Pradesh	BVSc&AH/SVVU/09	06.07.86
965	K.Prathyusha D/o K.Satyanarayana	APSVC/04945/09	6/1447-2, Shankarapuram Kadapa-516001, Andhra Pradesh	BVSc&AH/SVVU/09	26.08.87
966	K.Praveen S/o K.Raja Rao	APSVC/04836/09	H.No. 11-8-52, A.A. Street, Kavali, Nellore Dist., Andhra Pradesh	BVSc&AH/SVVU/09	10.11.79
967	K.Pushpa D/o K.Satya Rao	APSVC/04860/09	Settipalem.B.B.Palem (P), Makavarapalem (M) Vizag Dt.531113, Andhra Pradesh	BVSc&AH/SVVU/09	03.07.86
968	K.Rajaprem Shetty S/o A.S.Shetty	KarnSVC/4349/09	Kothadi House, Bannadi Post, Udupi Tq & Dt., Karnataka	B.VSc/ UAS, B'lore/82	12.7.55
969	K.Rama Krishna S/o K.Krishna Murthy	APSVC/04839/09	H.No. 1-8-893/1, Sri Ram Nagar, Nallakunta, Hyderabad-500044, Andhra Pradesh	BVSc&AH/SVVU/09	28.08.86
970	K.Sandeep Reddy S/o K. Ravinder Reddy	APSVC/04933/09	PeddaSuraram (V), Thipparthi (M), Nalgonda Dist-508211, Andhra Pradesh	BVSc&AH/SVVU/09	11.01.86
971	K.Saritha D/o K.Ramanjula Reedy	APSVC/04845/09	D.No. 26-1-315, N.G.O. Colony, B.V. Nagar, Nellore, Andhra Pradesh	BVSc&AH/SVVU/09	26.09.85
972	K.Sidhartha S/o K.Namdev	APSVC/04890/09	Pippaladhari (V&P), Adilabad (M&D)-504002, Andhra Pradesh	BVSc&AH/SVVU/09	05.03.82
973	K.Sirisha D/o K.Ratnam	APSVC/04971/09	D.No. 61-19-2/1, Chella Rao Street, Ramalingeswara Nagar, Vijayawada, Krishna Dist., Andhra Pradesh	BVSc&AH/SVVU/09	17.08.85
974	K.Srikanth S/o K.Ganeswara Rao	APSVC/04985/09	Fiat No. 204, Gk Enclave, New Balaji Nagar, Kukatpally, Hyderabad, Andhra Pradesh	BVSc&AH/SVVU/09	09.08.86
975	K.Subbarayudu S/o K.Subba Rayudu	APSVC/04859/09	Mylavaram (V&M), Jammalamadugu, Kadapa Dt, Andhra Pradesh	BVSc&AH/SVVU/09	21.02.84

976	K.Sunitha D/o K.Buchaiah	APSVC/04987/09	Rajannagudem (V), Nidamanoor (M), Nalgonda Dist., Andhra Pradesh	BVSc&AH/SVVU/09	10.07.85
977	K.Surender S/o K.Jalapathi Reddy	APSVC/04931/09	Konaraopet (V), Julapally (M), Karimnagar Dist.505525, Andhra Pradesh	BVSc&AH/SVVU/09	06.08.85
978	K.Swapna D/o K.Nageswara Rao	APSVC/04960/09	Agraharam Street, Belgam, Parvatipuram, Vizianagaram Dist.,Andhra Pradesh	BVSc&AH/SVVU/09	01.06.86
979	K.V.J.R.Gupta S/o K.Bhushana Rao	APSVC/04982/09	Koruprolu, Ramalayam Street, S.Rayavaram (M), Visakhapatnam Dist.-531083, Andhra Pradesh	BVSc&AH/SVVU/09	15.07.87
980	K.Yuvarajan S/o P. Kalivaradan	PondiSVC/323/09	No.362,Cuddalore Road, Nainamandabam,Puducherry-605004	BVSc&AH/PU/09	30.12.86
981	Kaarthick.D.T (G.Damodaran)	TNSVC/4451/09	No-13(Old No.7/3), Sivan Koli West Mada Street, Villivakkam, Chennai-600049	BVSc&AH/P.U/09	12.08.85
982	Kacha Jayant Bhikhalal	GVC/863	30, Shrinath Society, Usmanpura, Ashram Road, Ahmedabad, Gujarat	BVSc&AH/GAU/87	29.9.63
983	Kachari Jodumoni S/o Sh Budhin Kachari	ASM/2478/09	C/o Budhin Kachari, 2 No. Bejeja Gaon, PO- Purana Titabar, Dt- Jorhat, Assam	BVSc&AH/AAU/09	9.4.85
984	Kachot Kesurbhai Virabhai	GVC/2044	At- Akhodar (Ghed), Ta- Keshod, Dis- Junagadh PIN- 362229,Gujarat	BVSc&AH/GAU/97	15.7.73
985	Kadam Rahul Ganpatrao	MahaSVC/8229/09	Umbari (Near Tamashagaon), Tal, Hadgaon, Dist. Nanded-431602, Maharashtra	BVSc&AH/MA&FSU/09	06.12.83
986	Kadivar Imtiyaz Fatemohamad	GVC/2218	At.&Po: Pipaliya-Raj, Ta: Wankaner, Dis : Rajkot - 363 621,Gujarat	BVSc&AH/GAU/99	7.7.78
987	Kahangara Ghanshyam Ravajibhai	GVC/894	Navrang Society-1, 80 Feet Road, Wadhwan, Dist - Surendranagar-363035, Gujarat	BVSc&AH/GAU/87	10.8.63
988	Kahar Bhartkumar Ratanjibhai	GVC/1025	"Snehashish", 13- Gokuldham, Abrama, Dharampur Road,Valsad-396001, Gujarat	BVSc&AH/KKV/85	30.8.60
989	Kaila Milan Naranbhai	GVC/2011	8-Krishnanagr Society, Bhavnagar-Rajkot Highway, At & Po- Babara Ta- Babara Dis- Amreli, Gujarat	BVSc&AH/GAU/96	29.1.74
990	Kailash Chand Yadav, S/o Sardara Ram Yadav	RajSVC/3723/10	Vill.-Unchhpur, Teh.-Bansur, Alwar-301402, Rajasthan	BVSc&AH/SKRAU/10	25.07.80
991	Kailash Chandra S/o Prabhu Dayal	UPSVC/4913/09	Jugyana Muhal Rath Distt Hamirpur, UP	BVSc&AH/UPDDUPC/VV /09	01.01.83

992	Kakati Nilim KumarS/o Sri Paban Kakati	ASM/2426/09	Vill-Dakhipat Chariali,PO-Baligaon,Dt-Nagaon- 782144,Assam	BVSc&AH/AAU/08	1.3.81
993	Kakkad Madhukar Chandulal	GVC/1221	83, "Swapna", Rudanagar-1, Kalawad Road, Rajkot-5,Gujarat	BVSc&AH/GAU/77	11.8.53
994	Kalaivani.S (A.Sundarrajan)	TNSVC/4574/09	3/306-A, Vadamalamatti, Pochampalli taluk, Krishnagiri Dist.-635206, Tamil Nadu	BVSc&AH/TANUVAS/09	17.05.86
995	Kalaria Amitkumar Narbheram	GVC/2165	Vijaynagar Road, Opp. Sharda Vidhayala, Morbi, Rajkot,Gujarat	BVSc&AH/GAU/99	5.8.77
996	Kalaria Vasantrai Lakhabhai	GVC/439	501, Seffron Tower, Jaldip Park, Main Road, Opp. Limbudi Vadi, Kalawad Road, Rajkot-1, Gujarat	BVSc&AH/GAU/77	15.2.2
997	Kalaskar Pankaj Suryakant	MahaSVC/8219/09	Kalaskar Niwas, H.No. 372, Dhondkeda Rd, Kurhe-Hardo, Tal, Bodwad, Dist. Jalgaon- 425310,Maharashtra	BVSc&AH/MA&FSU/09	01.06.85
998	Kale Parag Ashok	MahaSVC/8243/09	9-10, Maharshi Atharwa Appt. Gawande Layout, Sneha nagar Khamla Nagpur- 44015,Maharashtra	BVSc&AH/MA&FSU/09	15.09.85
999	Kalola Dalpatbhai Ramjibhai	GVC/1564	At & Po- Dungarka, Ta- Padadhari, Dis- Rajkot - 360 110,Gujarat	BVSc&AH/GAU/92	23.6.68
1000	Kalpana.C (G.Chinnasamy)	TNSVC/4646/09	North Street, Solamadevi PO, Kodalikeruppur via, Udayarpalayam taluk Ariyalur-612902, Tamil Nadu	BVSc&AH/TANUVAS/09	07.07.86
1001	Kalpat Malviya S/o Tara Chand Malviya	RajSVC/3749/10	Jatiyo Ka Bas, Kabro Ki Pol, Pipar City, Jodhpur-342601, Rajasthan	BVSc&AH/SKRAU/10	08.11.83
1002	Kamal Kishor s/o Bansh Gopal	UPSVC/4991/09	Vill.- Patkhuri, PO- Jarya, Distt.- Hamirpur,UP	BVSc&AH/NDUA&T/09	05.12.83
1003	Kamal Kishore S/o Deep Chand Soni	RajSVC/3725/10	Sunaro Ka Mohalla, V/P-Riyan Badi, Nagaur- 341513, Rajasthan	BVSc&AH/SKRAU/10	20.09.81
1004	Kamala Samant D/o Sh. Narendra Singh Samant	UKSVC/481/09	Jalnigam Colony, Didihat, Distt. Pithoragarh, uttarakhand	BVSc&AH/GBPUA&T/09	26.04.86
1005	Kamaldeep S/o Sh Ramesh Bhanot	HarSVC/2138	# 304 Ram Nagar, Ambala City, Haryana	BVSc&AH/CCSHAU/04	25.2.81
1006	Kamani Gordhan Parmanand	GVC/1203	B-8,Triveni Park Society, Behind Manjapur Township No-2, Manjapur, Vadodara,Gujarat	BVSc&AH/GAU/89	18.7.65
1007	Kamble Mangesh Shamrao	MahaSVC/8186/09	Koshti Lane Sangola Dist-Solapur,Maharashtra	BVSc&AH/MA&FSU/09	02.06.86

1008	Kamble Swapnil Bhajandas	MahaSVC/8212/09	Satkarya colony, C-6, Ambad Road, Old Jalna, Tal. Dist, Jalna-431203, Maharashtra	BVSc&AH/MA&FSU/09	25.05.84
1009	Kamdar Hasmukhrai Amritlal	GVC/472	C/O, Uttam Dairy, Sukharamnagar, Gomatipur, Ahmedabad- 380 021, Gujarat	BVSc&AH/GAU/78	9.10.57
1010	Kamle Maulikkumar Babulal	GVC/3160/10	1/A Anand Nagar Society, Visnagar Link road, Mahesana, Gujarat	BVSc&AH/AAU/10	27.05.85
1011	Kamlesh Chandra Prakash S/o S.C. Prakash	UPSVC/4962/09	Vill. & PO- Kharan, Distt.- Chandauli, UP	BVSc&AH/NDUA&T/09	30.04.80
1012	Kamlesh Kumar Pingle S/o Nandlal Mohato	JVC/608/09	Maganpur, Gola, Ramgarh-825210, Jharkhand	BVSc&AH/BAU/88	16.01.65
1013	Kamu Kathiravan. M.P. (M. Paul Kamu)	TNSVC/4552/09	11, Marudhupandiyar Nagar, 3rd Street, Ward No. 68, Madurai-625003, Tamil Nadu	BVSc&AH/TANUVAS/09	01.03.86
1014	Kanaraj.C (K.Chelliah)	TNSVC/4481/09	8-1-190-410, Kamarajar Nagar, Opp. Panchayat Union Office, Nilakkottai- 624208, Dindigul District. Tamil Nadu	BVSc/M.U/68	25.11.44
1015	Kanani Anvar Bahadurali	GVC/2192	At: Gaduka, Po: Pipali, Via: Kanalush, Dis : Jamnagar-361 280, Gujarat	BVSc&AH/GAU/99	6.6.78
1016	Kandavel. E (A. Eswara Udaiyar)	TNSVC/4684/10	No.2/174, Pugazhendi Street, Mugapair East, Chennai-600037, Tamil Nadu	BVSc/MU/71	10.05.45
1017	Kaneriya Maheshkumar Keshavlal	GVC/2270	At&Po: Patanavav, Ta: Dhoraji, Dis- Rajkot, Gujarat	BVSc&AH/GAU/00	17.12.62
1018	Kania Sureshchandra Ratilal	GVC/950	2/1939-4/C, Kihesu Sadan, Opp- Navsarjan, Appt-3, Near Kailashnagar, Sagrampura, Surat- 395 002, Gujarat	BVSc&AH/GAU/87	14.8.65
1019	Kanjia Jayantilal Karmshibhai	GVC/331	'Jay' Patel Colony, Timbavadi, Junagadh - 362 015, Gujarat	BVSc&AH/GAU/74	8.8.49
1020	Kannan.P. (P.Palanisamy)	TNSVC/4538/09	Pagalpatti PO, Muthunaikenpatti via, Omalur taluk, Salem-636304, Tamil Nadu	BVSc&AH/TANUVAS/09	05.10.84
1021	Kannan.T.P (L.T.Ponnuraj)	TNSVC/4450/09	21, 3rd Street, K.R.G Nagar II, Ganapathy, Coimbatore-641006, Tamil Nadu	BVSc/TANUVAS/92	06.01.69
1022	Kansagara Hiteshbhai Dayabhai	GVC/797	"Anmol" 16-Kailash Society, Near Hilton Apartment, Timbawadi, Junagadh PIN- 362 015, Gujarat	BVSc&AH/GAU/84	13.7.61
1023	Kansagra Kanaiylal Jethabhai	GVC/678	A-203, Ganga Apartment, Zanjara da Road, Near Siddhnath Mahadev Temple, Junagadh, Gujarat	BVSc&AH/GAU/78	15.5.54

1024	Kantak Pradnya Anand S/o Anand Kantak	GoaSVC/150/09	Mathura Apts, 2nd Floor, Near Sincro Hotel, Fatorda	BVSc&AH/PU/09	
1025	Kantappa S/o Bhimaray Aski	KarnSVC/4266/09	No. 3665/B/29, Adrashnagar, Sankeshwar- 591313, Hukkeri Tq, Belgaum Dt.,Karnataka	BVSc&AH/KVAFSU/09	1.6.86
1026	Kantharaja K.J. S/o Javaraiah	KarnSVC/4302/09	Keragodu-573211,Holenarasipura Tq, Hassan Dt.,Karnataka	BVSc&AH/KVAFSU/09	30.7.86
1027	Kanwarbir Singh S/o Nirmal Singh	Pb.SVC/2896/09	H.No-L-13/1230, Street Kot Baba Deep Singh, Amritsar,Punjab	BVSc&AH/GADVASU/09	5.2.87
1028	Kanzaria Pravin Kanji	GVC/1411	Veterinary Dispensary, Lathi, Ta- Lathi, Dis- Amreli,Gujarat	BVSc&AH/GAU/91	11.3.65
1029	Kapadiya Devarajbhai Limbabhai	GVC/813	"BHAVIN" 75-Shrinathnagar, B/H- Giriraj Society-3, Joshipura, Junagadh, Gujarat	BVSc&AH/GAU/84	31.5.59
1030	Kapadiya Dhirendrakumar Khimajibhai	GVC/2299	Veterinary Dispensary, Savarkundla, Ta- Savarkundla, Dis- Amreli,Gujarat	BVSc&AH/GAU/00	5.3.78
1031	Kapse Sachin Uttamrao	MahaSVC/8244/09	Siddartha Nagar, At.Post-Aundh (Nagnath), Tal.Aundha (Nag), Dist.Hingoli,Maharashtra	BVSc&AH/MA&FSU/09	20.12.84
1032	Karan Bansal S/o Raj Kumar Bansal	Pb.SVC/2875/09	H.No.353,Model Town,Phase-1,Bathinda- 151001,Punjab	BVSc&AH/GADVASU/09	24.2.86
1033	Karandeep Singh S/o Shamsher Singh	Pb.SVC/2885/09	VPO Sakruli,Tehsil Garhshankar,Distt.Hoshiarpur,Punjab	BVSc&AH/GADVASU/09	13.7.85
1034	Kardani Bhagwanji Dahyalal	GVC/305	8-76/77, Aalap Avenue, University Road, Rajkot-5, Gujarat	BVSc&AH/GAU/73	17.7.53
1035	Karetha Parbatbhai Devdanbhai	GVC/1069	At - Handala, Ta - Keshod, Dist - Junagadh PIN- 362220, Gujarat	BVSc&AH/GAU/88	1.6.64
1036	Karikaian.M (B.Mathesh)	TNSVC/4509/09	Thaliyur,Banagamutlu PO, Krishnagiri Dist.- 635106, Tamil Nadu	BVSc&AH/TANUVAS/09	27.07.86
1037	Karthick.R (M.Ramasamy)	TNSVC/4611/09	166-C, Sathya Nagar, T.Kailasampalayam Po, Tiruchengode, Nammakkal-637209, Tamil Nadu	BVSc&AH/TANUVAS/09	17.11.85
1038	Karthiga.D (A.Vijayanand)	TNSVC/4653/09	Mael Street, Pappireddipatti PO, Dharmapuri- 636905, Tamil Nadu	BVSc&AH/TANUVAS/09	02.12.84
1039	Karthik.B (G.Balu)	TNSVC/4638/09	1015, Sundaram Illam, Bharathi Nagar, Jahir Ammapalayam, Salem-636005, Tamil Nadu	BVSc&AH/TANUVAS/09	23.10.85

1040	Karthika.R (N.Ramasamy)	TNSVC/4555/09	4/11,Bhavani Main Road, Oricheripudur PO, Sakthi Nagar via, Erode-638315, Tamil Nadu	BVSc&AH/TANUVAS/09	16.03.86
1041	Karthikeyan. T (A. Tamilselvan)	TNSVC/4636/09	9/76-E, G.K, Tex, Sakthi Nagar via, Brammadesam PO, Bhavani taluk, Erode- 638315, Tamil Nadu	BVSc&AH/TANUVAS/09	25.07.85
1042	Karthikeyan.E.B (S.Bolliyappan)	TNSVC/4634/09	2/33, Ekkandahalli,Gummanur PO, Palacode taluk, Dharmapuri-635116, Tamil Nadu	BVSc&AH/TANUVAS/09	15.11.84
1043	Karthikeyan.S (R.Shanmugam)	TNSVC/4568/09	78, Kottampatti, Akkalampatti PO, Thiruchengode taluk, Namakkal-637212, Tamil Nadu	BVSc&AH/TANUVAS/09	19.03.86
1044	Karthikeyan.V (P.Venkatesan)	TNSVC/4541/09	Thoppu Street, Brammadesam PO, Tindivanam taluk, Villupuram dist., Tamil Nadu	BVSc&AH/TANUVAS/09	28.11.84
1045	Karthiyayini.N (A.Nagarathinam)	TNSVC/4678/10	15, Ramu Devar Street, Aruppukottai, Virudhunagar district, Tamil Nadu	BVSc&AH/TANUVAS/09	25.11.79
1046	Kasundra Narbheram Thobhan	GVC/711	"Jay" Divyampark-32, Opp. Khodiyar Colony, Airforce Road, Jamnagar-388 005, Gujarat	BVSc&AH/GAU/83	5.2.60
1047	Kasundra Nareshkumar Jivabhai	GVC/925	Amin Road, Pyramid Tower Vali Sheri, Gulab Vatika Sheri No-3, Rajkot, Gujarat	BVSc&AH/GAU/86	16.2.63
1048	Kasundra Shantilal Naranbhai	GVC/1393	At : Ramgadh (Koyli), Via: Latipur, Ta: Jodia, Dis : Jamnagar,Gujarat	BVSc&AH/GAU/91	
1049	Kasundra Veljibhai Manjibhai	GVC/473	102, Alisan Appartment, Nehru Park Society, Behind Dwarkadhish Temple, Junagadh- 362 001, Gujarat	BVSc&AH/GAU/78	2.5.55
1050	Katara Karshanbhai Rudabhai	GVC/2063	At&Po: Ranakandorana, Ta: Ranavav, Dis : Porbandar-360 570,Gujarat	BVSc&AH/GAU/97	1.8.72
1051	Katharpi Rupali S/o Sh Dhanu Ram Kathar	ASM/2453/09	C/o Dhanu Ram Kathar,Baghmari No,- 1,Diphu,Assam	BVSc&AH/AAU/09	8.9.85
1052	Kathiravan.P. (Perumal)	TNSVC/4490/09	93, Perumal Illam, Weavers'Colony, Sivagiri, Erode-638109	BVSc&AH/TANUVAS/09	08.06.84
1053	Kathiriyai Satyam Valjibhai	GVC/3119/10	At-Gir-Gadhada, Ta-Una Dist- Junagadh,Gujarat	BVSc&AH/AAU/10	26.11.87
1054	Kathirvelu.M (S.Mani)	TNSVC/4589/09	1-144, Koviloor, MN Patty PO, Tholasampatty via, Salem-636503, Tamil Nadu	BVSc&AH/TANUVAS/09	15.05.86
1055	Kathirya Amit Jadavbhai	GVC/2301	At- Alidhra, Ta - Mendarada, Dist - Junagadh,Gujarat	BVSc&AH/GAU/00	27.7.78

1056	Katkade Janardan Kundlikrao	MahaSVC/8236/09	Sal-Kripa Nivas, Sant Janabai Nagar, Gangakhed, Tal. Gangakhed, Dist. Parbhani- 431514	BVSc&AH/MA&FSU/09	09.06.85
1057	Kavar Rameshchandra Jivram	GVC/1181	Subhasnagar, Sheri No-5, Ravapar Road, Morbi, Dis- Rajkot, Gujarat	BVSc&AH/GAU/89	20.6.66
1058	Kavar Rameshkumar Maganlal	GVC/2261	At - Nana Bhela, Near Primary School, Po- Mota Bhela, Ta- Maliya (Miyana), Dis- Rajkot - 363660, Gujarat	BVSc&AH/GAU/00	22.8.74
1059	Kavitha.A (R.Saravanan)	TNSVC/4470/09	Alangadu, Karuppur, Salem 12	BVSc/TANUVAS/00	04.09.75
1060	Kavyadeep Joshi S/o Sh. Kedar Dutt Joshi	UKSVC/457/09	Lilawati Sadan Ancholi, Distt Pithoragarh Uttarakhand	BVSc&AH/GBPUA&T/09	22.08.84
1061	Kavyashree S D/o Shivanna K.V.	KarnSVC/4341/09	Nr Devanur Church, Saptthagiri Extn, Tumkur- 572102, Karnataka	BVSc&AH/KVAFSU/09	18.3.86
1062	Kevizekho Kar S/o Sh Vilhoupra Kar	NSVC/0247/09	Phesama Village, Kohima, Nagaland	BVSc&AH/AAU/09	29.11.83
1063	Khajanizamuddin S Shetasanadi S/o Saiyad Ahmmad	KarnSVC/4249/09	No.1294, 1st Main, Vinayakanagar, Ranebennur-581115, Haveri Dt., Karnataka	BVSc&AH/KVAFSU/09	26.7.86
1064	Khalini A.S	MahaSVC/8263/09	B/60, W.C.L.Colony, Coat Estate, Civil Lines, Dist.Nagpur, Maharashtra	BVSc&AH/MA&FSU/09	15.08.86
1065	Khambhala Shankarbhai Ambubhai	GVC/543	"Gurukunj", Akesan road, Palanpur Dis- Banaskantha, Gujarat	BVSc&AH/GAU/80	1.12.54
1066	Khan Feroz Zafar Khan	MahaSVC/8169/09	At&Post-Ner, D.No. 264, Tal & Dist. Jalna- 431203, Maharashtra	BVSc&AH/MA&FSU/01	18.04.78
1067	Khanapara Kishorkumar Ukalal	GVC/1112	"Vihaj", Shashtrinagar Society, Jamnavad Road, At & Ta: Dhoraji, Dis- Rajkot, Gujarat	BVSc&AH/GAU/88	23.5.66
1068	Khandeka Raymal Sidibhai	GVC/1068	"Khodiyar Krupa", Yadav Road, Jirapa Plot, Opp- Bunglow of Dr Dhirubhai Daberia, At , , Po & Ta : Upaleta, Dis- Rajkot- 360 490	BVSc&AH/GAU/88	12.3.64
1069	Khania Bhargav Jagdishbhai	GVC/3120/10	Gangnath para.T.B Hospital Rd,Nr.Ghannshyam Mill,"Bhargav"Keshod.,Dt- Junagadh,Gujarat	BVSc&AH/AAU/10	14.09.88
1070	Khant Dharmendrakumar Ashokkumar	GVC/3121/10	Bus Station Falia, Gothib, Ta-Santarampur, Dist-Panchmahal,Gujarat	BVSc&AH/AAU/10	09.10.86
1071	Khant Prakashbhai Jivabhai	GVC/3122/10	D-B,Jalaramnagar Society,Nr Jalaram Park,Opp-SRPF Group, Kapadvanj Road, Nadiad, Dt-Kheda,Gujarat	BVSc&AH/AAU/10	01.06.85

1072	Khanushia Abidbhai Valibhai	GVC/474	Office of Deputy Director of Animal Husbandry, intensive Cattle Development Project, Sevasdan - 1, Valsad	BVSc&AH/GAU/78	1.6.55
1073	Khanusia Yasinbhai Ismailbhai	GVC/966	At-Mangadh, Ta-Idar, Dist:Sabarkantha -383 110, Gujarat	BVSc&AH/GAU/86	31.5.62
1074	Khanwilkar Dineshkumar Narayanrao	GVC/402	7-Mansarovar, Vrundavan Nagar-I, Bamroli Road, Godhara-389001, Gujarat	BVSc&AH/JNKVV/75	27.8.51
1075	Khanzode Deepak Vinayakrao	GVC/1336	Vasudhara Dairy At : Alipur, Ta. Chikhali, Dist. Navsari 396 521, Gujarat	BVSc&AH/PKV/87	7.1.63
1076	Kharsan Virabhai Danabhai	GVC/3013/09	At-Po Moti Mahudi, TC Dantiwada, Dist.- Banaskantha, Gujarat	BVSc&AH/SDAU/09	05.09.81
1077	Khasatiya Chudubhai Tarshibhai	GVC/1759	At - Mevasa (Gayakvadi), Via- Ratanpur, Ta - Vallabhipur, Dist - Bhavnagar -13, Gujarat	BVSc&AH/GAU/94	9.8.70
1078	Khatri Anwar Osman	GVC/1185	Khatri Chowk, Mota Falia, Bhuj, Dis- Kutch, Gujarat	BVSc&AH/GAU/89	15.9.66
1079	Kher Ashish Nagjibhai	GVC/2193	"Nagbai Krupa", B/H Bus Stand, Plot Area, Madhavpur (Ghed), Ta & Dis- Porbandar- 362230, Gujarat	BVSc&AH/GAU/99	26.7.77
1080	Kher Hiteshbhai Shamibhai	GVC/3123/10	T-Bhandariya, Ta Gadhada (Swami), Dist- Bhavangar, Gujarat	BVSc&AH/AAU/10	06.09.87
1081	Kheriengunuo Mepfhuo S/o Late K.S.Mepfhuo	NSVC/0245/09	Upper Nagabazar, Kohima Nagaland	BVSc&AH/AAU/09	22.06.85
1082	Khillare Gautum Sudamrao	MahaSVC/8269/09	Ganga Colony, Purna Road, Dist.Nanded- 431605, Maharashtra	BVSc&AH/MA&FSU/09	11.03.85
1083	Khodwe Sanket Surendra	MahaSVC/8305/09	Ward No. 13, At-Post-Madhavpur, Tal. Ner, Dist-Yavatmal, Maharashtra	BVSc&AH/MA&FSU/09	17.09.84
1084	Khorajiya Abbasbhai Nathubhai	GVC/1443	At & Po- Punjpur, Ta- Danta, Dis- Banaskantha PIN- 385120, Gujarat	BVSc&AH/GAU/91	1.6.67
1085	Khulape Sagar Ashok	MahaSVC/8272/09	House No.14, Ward No.1, Kasaba, A/P - Baramati, Dist, Pune-413102, Maharashtra	BVSc&AH/MA&FSU/09	08.04.87
1086	Khunt Jayeshkumar Gokal	GVC/2257	At & Po: Moviya, Govindnagar, "Shri Suktam", Ta: Gondal, Dis-Rajkot- 360 330, Gujarat	BVSc&AH/GAU/00	3.5.75
1087	Khushboo Singh D/o N.K. Singh	UPSVC/4976/09	41 Purbia Tola South Panjawah, Distt.- Etawah, UP	BVSc&AH/SKDAU/09	20.08.86

1088	Khushbu Chandrakar d/o Sanat Kumar Chandrakar	CHSVC/505/10	Trimurti Colony, H.No. 79, Mahasamund, Chhattisgarh	B.V.Sc.&AH/IGKVV/09	15.07.86
1089	Kini Amit Chandrakant	MahaSVC/8295/09	Parishram Building, 701, Bhandar Lane, mahim (West), Tal. Dist. Mumbai- 400016, Maharashtra	BVSc&AH/MA&FSU/09	11.09.85
1090	Kiran Das K, S/o Premadasan K.M	KSVc/3515/09	Kizhumandodi, Palath (PO), Kakkodi (VIA), Kozhikode-673611, Kerala	BVSc&AH/KAU/09	03.03.86
1091	Kitkurlang Sawian S/o Shri (L)F.Swer	MeghSVC/269/09	Sohra, East Khasi Hills District, Meghalaya	BVSc&AH/AAU/09	13.08.85
1092	Kodimalar.K. (K.Kulandaivelu)	TNSVC/4603/09	Oricheri, Oricheripudur PO, Sakthinagar via, Bhavani taluk, Erode district.- Tamil Nadu	BVSc&AH/TANUVAS/09	25.05.86
1093	Kokila.S (P.Soundararajan)	TNSVC/4556/09	5/34, Tiruvenkata Nagar, Tiruverumbur, Tiruchy-13, Tamil Nadu	BVSc&AH/TANUVAS/09	31.05.87
1094	Kokilavani.S (M.Shanmugam)	TNSVC/4606/09	4,2, Appar Street, Sriram Nagar, Kottaiyur, Karaikudi, Sivagangai dist.-630106, Tamil Nadu	BVSc&AH/TANUVAS/09	18.11.85
1095	Kolekar Dnyaneshwar Vitthal	MahaSVC/8352/10	Kolekar Vitthal Kerappa, At-Manewadi, Post- hunnur, Tal. Managalwedha, Dist.Solapur- 413322, Maharashtra	BVSc&AH/MA&FSU/09	18.05.87
1096	Komal parsad Rai D/o Purshotam Rai	CHSVC/546/10	Mukam Kumhari Post Marwahi, District- Bilaspur, Chhattisgarh	B.V.Sc.&AH/IGKVV/09	21.08.87
1097	Konwar Priyanka S/o Sh Suren Konwar	ASM/2434/09	PO-Cherekapar, Vijoy Nagar, Sivasagar- 785640, Assam	BVSc&AH/AAU/09	9.12.85
1098	Koringa Hitesh Rughnathbhai	GVC/20	Veterinary Dispensary, Falia, Ta: Jamnagar Dis- Jamanagar, Gujarat	BVSc&AH/GAU/96	
1099	Koringa Udayakumar Gangarambhai	GVC/2046	"Sohum", Anand Colony No-1, Main Road, B/H. Dental College, Jamnagar- 361 008, Gujarat	BVSc&AH/GAU/97	27.9.75
1100	Kosada Indrajitsinh Amarsinh	GVC/852/09	28, Green Park Society, B/h Polytechnic College, Bholav, Bharuch, Gujarat	BVSc&AH/GAU/86	17.12.62
1101	Kotadiya Ashvin Jayantilal	GVC/3014/09	At&Po-Madana (Gadh) Ta-Palanpur, Dist- B.K,Gujarat	BVSc&AH/SDAU/09	03.03.87
1102	Kotadiya Rameshkumar Motilal	GVC/2115	94, Panchavati Society, Near Railway Crossing, Ahmedabad highway, Palanpur, Dis- BK, Gujarat	BVSc&AH/GAU/98	2.6.76
1103	Kothadiya Kishorkumar Vallabhbhai	GVC/896	B-202, My Nest Apartment, B/H- ICICI Bank, Opp. Rayajinagar Nr. Merigold Centre, Motibaug, Junagadh	BVSc&AH/GAU/87	22.6.63

1104	Kotwal Rameshbhai Shanabhai	GVC/595	36, Govt. Quarters, Godhra, Dis- Panchmahal, Gujarat	BVSc&AH/GAU/81	8.9.59
1105	Kowachi Hemantkumar Deorao	MahaSVC/8211/09	C/o Ghubade Home, Nehru Ward-02. A/P Gadchiroli, Tal. Dist.Gadchiroli- 442605,Maharashtra	BVSc&AH/MA&FSU/09	22.03.78
1106	Koyani Alpeshkumar Babubhai	GVC/2194	C/O., B B Koyani, Opp- Dr. Sureja's Home, Jin Plot, Dhoraji, Ta- Dhoraji, Dis- Rajkot, Gujarat	BVSc&AH/GAU/99	30.9.77
1107	Kripali Pant D/o Sh. Vijay Kumar Pant	UKSVC/479/09	Arogya Bhawan, Mukhani, Haldwani, Distt. Nainital Uttarakhand	BVSc&AH/GBPUA&T/09	29.11.85
1108	Krishna Kumar S/o Asharfi P.D. Singh	Pb.SVC/2884/09	C/o Dr.Ajit Kumar,H.No.10/49,PAU Campus, Ludhiana, Punjab	BVSc&AH/GADVASU/09	1.3.79
1109	Krishnamurthy.S (G.Saminathan)	TNSVC/4670/10	37, Aruna Nagar, V.O.C Road, Mannargudi- 614001, Tamil Nadu	BVSc/TNAU/76	31.07.44
1110	Kruthika P.R. D/o Rudramani P.L.	KarnSVC/4242/09	C/o Vijayakumar P.Slecturer Tyagaraja Street, Doddapete-577501, Chitradurga Tq&Dt,Karnataka	BVSc&AH/KVAFSU/09	25.7.86
1111	Kshirsagar Deepak Prakash	MahaSVC/8245/09	At/P-Deolali, Tal. Osmanabad, Dist.Osmanabad-413501,Maharashtra	BVSc&AH/MA&FSU/09	14.07.85
1112	Kubavat Prabhudas Nandram	GVC/794	At & Po - Jinavari, Via- Verad, Ta: Jamjodhpur, Dis- Jamnagar, Gujarat	BVSc&AH/GAU/84	1.6.61
1113	Kuldeep Rai S/o Vijay Singh	RajSVC/3732/10	VPO-Bhakranwali, Teh.-Sangaria, Hanumangarh-335063, Rajasthan	BVSc&AH/MAFSU/09	06.07.84
1114	Kuljotvir Singh S/o Harmit Singh	Pb.SVC/2876/09	Village Diwala, Tehsil Samrala Distt.Ludhiana,Punjab	BVSc&AH/GADVASU/09	17.1.86
1115	Kulkarni Madhav Manohar	MahaSVC/8328/10	5A,Sobat Building, Usha Darshan {CHS},5A,Agra Road, Kalyan.Tal,Kalyan, Dist. Thane,Maharashtra	BVSc&AH/PKV/71	10.11.48
1116	Kulkarni Prajakta Dattatraya	MahaSVC/8311/10	Gurukripa, Ganesh Nagar, Selu, Tal.Selu, Dist.Parbhani-431503,Maharashtra	BVSc&AH/MA&FSU/09	30.10.87
1117	Kum. Mamta Janmedra	GVC/2486/09	Colleges/O, Dr.,P.DHOL,Vikramsinghji Road, Nr.PWD.Jail chowk, Gondal, Rajkot, Gu, arat	BVSc&AH/AAU/03	04.03.81
1118	Kumar S.S (N.Subramanian)	TNSVC/4461/09	D.No.28, Sanarpalayam, Suriampalayam. Road, Tiruchengode taluk, Namakkal-637209, Tamil Nadu	BVSc/TANUVAS/93	31.07.70
1119	Kumara A.M. S/o Muniswamaiah	KarnSVC/4304/09	Ankalakoppa-572213, C.S. Pura Hobli, Gubbi Tq, Tumkar Dt.,Karnataka	BVSc&AH/KVAFSU/09	16.4.86

1120	Kumaraswamy S.R S/o Shivarudrappa V.S.	KarnSVC/4238/09	Upparakeri, Vadnal-577213, Channagiri Tq, Davanagare Dt.,Karnataka	BVSc&AH/KVAFSU/09	16.2.87
1121	Kunadiya Shailesnkumar Bhikhabhai	GVC/1643	Veterinary Dispensary, Kunkavav, Ta-Kunkavav, Dis- Amreli,Gujarat	BVSc&AH/GAU/93	1.2.71
1122	Kundan Singh S/o B.P.Verma	UPSVC/4904/09	Vill Naubasta, PO Masauli Nainamau, Barabanki, UP	BVSc&AH/UPPDDUPCVV/09	10.07.80
1123	Kundaria Pranjivan Bhimjibhai	GVC/1164	At & Po-Gala, Tal- Morbi, Dist:-Rajkot - 363630,Gujarat	BVSc&AH/GAU/89	17.1.65
1124	Kundariya Harshadkumar Chaturbhai	GVC/2283	Shrimad Soc., "Panchvati", Badiyad Road, Morbi - 363 642, Dis-Rajkot,Gujarat	BVSc&AH/GAU/00	15.4.78
1125	Kurundwade Jitendra Jaykumar	MahaSVC/8214/09	Daan-Sundra Nivas, Vidya Nagar Colony, Sangola, Dist-Solapur-413307,Maharashtra	BVSc&AH/MA&FSU/09	25.05.85
1126	Kush Shrivastava S/o Sh A.K.Shrivastava	MPSVC/2619/09	1567 Nepier Town, Jabalpur,M.P-482001	BVSc&AH/JNKVV/09	26.1.86
1127	L.Anusha D/o L.Vijay Kumar	APSVC/04831/09	H.No..201, Asha Plaza apartment, New Maruthi Nagar, M.R.Palli, Tirupati, Andhra Pradesh	BVSc&AH/SVVU/09	23.07.86
1128	L.Nagamani D/o Syapla Naik	APSVC/04910/09	Daida (P), Gurajala (M), Guntur Dist., Andhra Pradesh	BVSc&AH/SVVU/09	15.06.84
1129	Ladani Haresh Jethalal	GVC/993	B-501,Tirth Appartment, Zanzarda Road, Junagadh-362 001, Gujarat	BVSc&AH/GAU/85	1.10.61
1130	Ladani Natwarlal Govindji	GVC/307	"Ashutosh", Shaktinagar, Main Road, Nr. Gaytri Mandir, Kalawad Road, Rajkot - 360 005, Gujarat	BVSc&AH/GAU/73	17.6.51
1131	Lahade Vrushali Chandrasen	MahaSVC/8239/09	Parijat Society, Plot No. 17, Prakash Nagar, Tal. Dist. Latur-413531,Maharashtra	BVSc&AH/MA&FSU/09	15.03.86
1132	Laheri Suraj Subhashchandra	GVC/3124/10	At-Devgadh Baria, Dist-Dahod,Gujarat	BVSc&AH/AAU/10	14.10.87
1133	Lahon Smita S/o Sh Lohit Ch Lahon	ASM/2448/09	SukaphaNagar,W/No.1, Dhemaji,Dt-Dhemaji- 787057,Assam	BVSc&AH/AAU/09	28.12.84
1134	Lakhan Pal Singh S/o Roopsingh Jhajharia	RajSVC/3608/09	V/P-Bagar, Ward No. 14, Kheri Mohalla, Jhunjhunu-333023, Rajasthan	BVSc&AH/RAU/09	15.07.82
1135	Lakhani Maganlal Fulabhai	GVC/1673	At & Po- Galatha, Ta- Bhesan, Dis : Junagadh PIN- 362020,Gujarat	BVSc&AH/GAU/93	1.2.67

1136	Lakshman Marmu S/o Late Karan Murmu	JVC/623/09	C/o Mr. Meghla! Mumu, Vill-Bansila, Po-- Kalikapur Potka, East Singhbhum, Jharkhand	BVSc&AH/BAU/94	10.01.63
1137	Lakshmanan.N (A.Nagarajan)	TNSVC/4605/09	102/86, 5th Ward, Old Ayakudi PO, Palani taluk, Dindigul district-624613, Tamil Nadu	BVSc&AH/TANUVAS/09	13.04.86
1138	Lakshmanan.T (S.Tiruvarul)	TNSVC/4415/09	5/47, Vallalar nagar, Peeriyar street, Vadalur- 607303, Cuddalore DT. Tamil Nadu	BVSc/TNAU/80	27.05.54
1139	Lakshmi Bhai.K., D/o Ramachandran Pillai	KSVC/3538/09	Parvathy Mandiram, Thuruthikara P.O., Kunnathur East VIA, Kollam-690540, Kerala	BVSc&AH/KAU/09	30.05.86
1140	Lakshmi Lalita Sonti, D/o S.N. Socinivas	OSVC/2322/09	Neelachakra Apartment, N/A 406, L.B.Road, Budheswani Colony, Bhubhneswar-751006	BVSc&AH/OUAT/09	08.03.87
1141	Lakshmi.R (S.Rajendran)	TNSVC/4463/09	Pillaiyar Koli Street, Sennakunam & PO, Mugaiyur via, Thirukoilur taluk, Villupuram- 605755, Tamil Nadu	BVSc&AH/P.U/09	31.08.85
1142	Lakshmi.S (R.Subramani)	TNSVC/4449/09	No.11, Chinna Kadai Veedhi Thirupapuliur, Cuddalore-607002, Tamil Nadu	BVSc&AH/P.U/04	16.04.80
1143	Lakshmi pathi S.J. S/o Jayappa S	KarnSVC/4235/09	No.196, Upparbeedi, Devarahalli-577213, Channagiri Tq, Davanagare Dt., Karnataka	BVSc&AH/KVAFSU/09	1.9.84
1144	Lakum Prashant Dinakerrai	GVC/2247	44, Navprakash Society, Near Swati Flats, Opp- Rajwada Hotel, B/h. Malav Talav, Jivrajpark, Ahmedabad	BVSc&AH/GAU/00	1.8.78
1145	Lalakiya Rajeshkumar Jamnadas	GVC/1240	"Rajdhani", 798- Ekta Colony, Sector-27, Gandhinagar-28, Gujarat	BVSc&AH/GAU/90	18.7.68
1146	Lalani Shantila Ramji	GVC/1433	At - Koday, Ta - mandri, Dist - Kachchh, Gujarat	BVSc&AH/GAU/91	13.8.65
1147	Lalchand Prajapati S/o R.S. Prajapati	UPSVC/5030/09	Vill.- Churaila, Po- Jalalpur, Distt.- Ambedkar Nagar, UP	BVSc&AH/SVVU/09	06.06.83
1148	Lalit Kumar Gaur S/o Shivlahari Gaur	RajSVC/3611/09	Vill.-Garh Himmat Singh, Teh.-Mahawa, Dausa-321609, Rajasthan	BVSc&AH/RAU/09	01.07.83
1149	Lalit Kumar S/o R.D. Prasad	UPSVC/5007/09	Vill.- Bahorwa, PO- Madipur, Via Bhatpareni, Deoria, UP	BVSc&AH/RAU/09	25.09.84
1150	Lalit Kumar S/o Ram Darash prasad	RajSVC/3612/09	A-25, Karni Nagar, Near pawanpuri Colony, Bikaner-334003, Rajasthan	BVSc&AH/RAU/09	25.09.84
1151	Lalit Kumar S/o Tikaram Sahu	CHSVC/493/10	Village - Jhit, Teh.- Patan, District - Durg, Chhattisgarh	B.V.Sc.&AH/IGKVV/09	17.04.86

1152	Lalit Mohan Sharma S/o Sh Krishan Sharma	HarSVC/2093	Near I.T.I Ward No. 4, Rania Distt- Sirsa, Haryana	BVSc&AH/CCSHAU/09	19.11.83
1153	Lalthansangi Mrangkhawal D/o Sh Nhcichunga Mrangkhawal	TripuraSVC/181/08	C/o Nhcichunga-Hrangkbawal,PO&Vill- Mission Compound,A.D.Nagar, Agartala, Tripura (West)	BVSc&AH/AAU/08	12.12.83
1154	Iashkari Bhupendrakumar Bhaskumar	GVC/2166	16, Shivanji Row House, Puna Patiya, Magob, Surat,Gujarat	BVSc&AH/GAU/99	18.6.76
1155	Lata Goyal D/o Sh. N.C.Goyal	UKSVC/475/09	Gali No.03, Adarsh Nagar, Talli Bamori, Mukhani, Haldwani, Distt. Nainital	BVSc&AH/GBPUA&T/09	29.11.83
1156	Lavlesh Singh S/o Ram Kesh Singh	UPSVC/5013/09	Vill.- Mauharua, PO- Bharat Nagar, Shankar Garh, Allahabad,UP	BVSc&AH/JNKVV/09	01.05.84
1157	Lavrance Christopher.C (F.Chandra Christopher)	TNSVC/4460/09	8/86-E, Edward Cottage, Paduvloor, Pallapallam PO, Kanyakumari-629159, Tamil Nadu	BVSc/TANUVAS/96	06.03.73
1158	Laxminarayan Prajapat Laxminarayan Lal Prajapat	RajSVC/3628/09	Behind Champa Lal Well Bhinasar, Bikaner- 334403, Rajasthan	BVSc&AH/RAU/09	03.11.83
1159	Laxhrajat S/o Ramkaran Jat	RajSVC/3615/09	Vill.- Maheshpura, Post-Gidhani, VIA-Dudu, Jaipur-303008, Rajasthan	BVSc&AH/RAU/09	15.08.84
1160	Lekshmi.S.Rajan, D/o K.R.Sasirajan	KSVC/3554/09	Kattoortharayil. Elippakulam, P.O., Alappuzha- 690503, Kerala	BVSc&AH/KAU/09	15.05.86
1161	Likesh Kanungo, S/o Ashis Kanungo	OSVC/2283/09	At-Haridaspur, PO Kundheittat, Via.- Kakatpur, Distt.Puri, Orissa	BVSc&AH/OUAT/09	05.03.87
1162	Limbasia Pravin Valjibhai	GVC/676	302, Sudarshan Apartment, Opp- Gayatri School, Zanzarda Road, Junagadh- 362 001, Gujarat	BVSc&AH/GAU/1977	29.12.53
1163	Lini Thomes	GVC/2264	D- 24, VrunDavan Park, Nr Police Colony, Sangam, Harni Colony, P.O. Vadodara, Gujarat	BVSc&AH/GAU/00	12.11.77
1164	Lipsa Mishra, D/o Rama Chandra Mishra	OSVC/2264/09	Plot No. 41, Near Khelghar, Satyanagar, BBSR, Orissa	BVSc&AH/SVVU/09	04.01.86
1165	Liya Anto, D/o E.V.Anto	KSVC/3526/09	Erinjery House, Oppo.Govt H.S.Main Road, Christopher Nagar, Ollur, Thrissur-680306, Kerala	BVSc&AH/KAU/09	18.05.85
1166	Liyakat Ali s/o syad Mustak Ali	CHSVC/466/09	H.I.G. I 479, Veterinary College, Anjara, District- Durg, Chhattisgarh	BVSc&AH/JLNKVV/84-85	08.03.63
1167	Ilakkiya.B (S.Bommaya Swamy)	TNSVC/4660/09	37/A, Ward-9, Ellai Street, Gudalur, Theni District, Tamil Nadu	BVSc&AH/TANUVAS/09	18.05.86

1168	Lodaliya Pareshkumar Khodubhai	GVC/2148	43, Govardhan Park, Raw House, Nr. Pramukh Park, Chhapra Bhattha Road, Amaroli, Surat, Gujarat	BVSc&AH/GAU/98	11.1.75
1169	Loganathan.R (P.Ramasamy)	TNSVC/4652/09	Vaiyamalaipalayam, Tharagampatti PO, Manaparai taluk Trichy-621311, Tamil Nadu	BVSc&AH/TANUVAS/09	05.06.85
1170	Logeswari.P (K.Ponnusamy)	TNSVC/4533/09	4/39-A, Alanganatham X Road, Alanganatham PO, Namakkal Dist.-637013, Tamil Nadu	BVSc&AH/TANUVAS/09	08.05.86
1171	Lokendra Kumar S/o Sh.V.P.Singh	UKSVC/485/09	Veterinary Officer Veterinary Hospital, Kaljikhil, Distt. Pauri Garhwal, Uttarakhand	BVSc&AH/GBPUA&T/01	14.03.78
1172	Lokesh J.V. S/o Venkataravanappa J	KarnSVC/4315/09	Bank Narayanappa Compound, Santhe Gate, Mulbagal-563131, Kolar Dt., Karnataka	BVSc&AH/KVAFSU/09	21.9.86
1173	Lokhande Shailesh Vithalrao	MahaSVC/8285/09	At-Kelzara (warthi), Post-Saoli (Sadoba), Tal.Arni, Dist Yavatmal-445106, Maharashtra	BVSc&AH/MA&FSU/09	10.03.77
1174	Ludarkar Sandip Manohar	MahaSVC/8303/09	Renuka Nagar, Boregaon (Manju), Tal. Dist. Akola, Maharashtra	BVSc&AH/MA&FSU/09	01.06.84
1175	Lunagariya Pravinchandra Mohan	GVC/1887	21, Ashruti Tenament, Jitodia Road, Anand, Gujarat	BVSc&AH/GAU/95	3.3.72
1176	M. Laxminarasaiah S/o M.Venkata Subbaiah	APSVC/04862/09	D.No. 10-4-71, Raghunadhapuram (V), Gudem (P), Badvel (M), Kadapa Dt, 516227, Andhra Pradesh	BVSc&AH/SVVU/09	10.06.84
1177	M. Purna Chandra Rao S/o M. Mallayya	APSVC/04868/09	Podugupadu (V), Jarjangi (P), Kotabommali (M) Srikakulam Dt, Andhra Pradesh	BVSc&AH/SVVU/09	02.05.85
1178	M. Venkateswara Reddy S/o M. Ramana Reddy	APSVC/04942/09	D.No. 1-97, Yadava Bazar, near Boddurai Center, Gorantla, Guntur, Andhra Pradesh	BVSc&AH/SVVU/09	14.08.87
1179	M. Anitha Devi D/o M. Bhaskara Rao	APSVC/04963/09	H.No.1-242, Simhadrinagar, Valasapakala, Kakinada, East Godavari Dist-533005, Andhra Pradesh	BVSc&AH/SVVU/09	20.06.84
1180	M. Aruna S/o M. Ratna Kumari	APSVC/04882/09	Vellampalli, Maddipadu (M), Prakasam Dt. Andhra Pradesh	BVSc&AH/SVVU/09	05.10.80
1181	M. Ashok Kumar S/o T. Mariappan	PondiSVC/328/09	312, Cuddalore Road, Mudaliarpet, Puducherry	BVSc&AH/PU/08	2.04.86
1182	M. Bala Koteswara Rao S/o M. Chinna Kotaiah	APSVC/04932/09	Kaligiri (VPM), Nellore Dist. 524224, Andhra Pradesh	BVSc&AH/SVVU/09	01.07.83
1183	M.D. Saifullah Siddiqui S/o Abdul Ghani	JVC/600/09	Block Animal Husbandry Officer, Chandankiaary, Po-Sec XII A, Chas, Dist-Bokaro-827012, Jharkhand	BVSc&AH/RAU/81	30.12.55

1184	M.Nagaiah S/o M.Narasalah	APSVC/04888/09	Madhavairani gudem (V), Huzurnagar (M) Nalgonda Dist.-508204, Andhra Pradesh	BVSc&AH/SVVU/09	06.01.84
1185	M.Naveen Kumar S/o M.Lakshmana	APSVC/04850/09	Thagguparthy (P), Beluduppa (M), Anantapur Dt. Andhra Pradesh	BVSc&AH/SVVU/09	15.06.85
1186	M.Raghavendra Reddy S/o M.Hanumantha Reddy	APSVC/04878/09	Chindukur (V,P), Nandyal (T), Kurnool Dt, Andhra Pradesh	BVSc&AH/SVVU/09	01.07.82
1187	M.Rajanikanth S/o M.Sudhakar Rao	APSVC/04818/09	403, 5-5/21/4/B&C, Sairam Sreenidhi Gardens, Sangeeth Nagar, Kukatpally, Hyderabad-500072, Andhra Pradesh	BVSc&AH/ANGRAU/02	13.04.79
1188	M.Revathi Kumari D/o M.Ashok	APSVC/04984/09	Shaligowraram (M) (v) (P), Nalgonda Dist- 508210, Andhra Pradesh	BVSc&AH/SVVU/09	02.06.84
1189	M.Santhosh Kumar Goud S/o M.Penta Goud	APSVC/04994/09	H.No.4-12, Teeppole (V), Kondapoor (M), Medak Dist., Andhra Pradesh	BVSc&AH/SVVU/09	20.05.84
1190	M.Shiva Rama Krishna S/o M.Rangaiah	APSVC/04927/09	H.No. 1-173, Gundlagudem (V), Alair (M), Nalgonda Dist-508101, Andhra Pradesh	BVSc&AH/SVVU/09	03.07.84
1191	M.Sravanthi D/o Basava Sankar Reddy	APSVC/04871/09	H.No.1-10-38, Ayyalur (V), Nandyal (M), Kurnool Dt. Andhra Pradesh	BVSc&AH/SVVU/09	13.06.86
1192	M.Sukanya D/o M.Subbarao	APSVC/04909/09	Kurichedu road, Darsi (P), Prakasam Dt. Andhra Pradesh	BVSc&AH/SVVU/09	20.06.81
1193	M.Vanaja Lakshmi D/o M.Venkata Rao	APSVC/04969/09	D.No. 16-15-202, 1/6, Yadava Street, Near Geethamandirani, Old Guntur, Guntur- 522001, Andhra Pradesh	BVSc&AH/SVVU/09	15.05.85
1194	M.Venu Gopal S/o M.Narsimulu	APSVC/04889/09	H.No. 5-116, Gandhi Road, Dubbak (P&M), Medak Dist-502108, Andhra Pradesh	BVSc&AH/SVVU/09	30.08.85
1195	M.Vijay S/o M.Sambaiah	APSVC/04923/09	H.No.1-148/1, Kistempet, Chennur (M), Adilabad Dist., Andhra Pradesh	BVSc&AH/SVVU/09	27.10.83
1196	M.Vijaya Kumar S/o M.Surya Narayana	APSVC/04854/09	Nandavaram (P) (M), Yemmiganur (T), Kurnool Dt. Andhra Pradesh	BVSc&AH/SVVU/09	13.06.83
1197	Madale Dhananjay Shesharao	MahaSVC/8284/09	Sambhaji Nagar, Murbad, Tal.Murbad, Dist.Thane-421401, Maharashtra	BVSc&AH/MA&FSU/09	07.04.87
1198	Madhani Nanjibhai Vasharambhai	GVC/1722	At & Po: Dhudashiya, Via: Jam Vanthali, Dis : Jamnagar - 361 130, Gujarat	BVSc&AH/GAU/94	17.11.70
1199	Madhankumar.M (M.Meganathan)	TNSVC/4586/09	25, Mettu Street, Idappadi taluk, Salem distt. Pin.-637101, Tamil Nadu	BVSc&AH/TANUVAS/09	27.07.86

1200	Madhappan.G (P.Gnamam)	TNSVC/4492/09	P.Gollahalli village, Palacode PO & Taluk, Dharmapuri Dist., Tamil Nadu	BVSc&AH/TANUVAS/09	02.06.84
1201	Madhav Prasad S/o R.C. Verma	UPSVC/4935/09	Vill.- Ishapur, Bahorichpur, Distt.- Ambedkar Nagar, UP	BVSc&AH/NDUA&T/09	24.04.83
1202	Madhesh.P (M.C.Ponnusamy)	TNSVC/4549/09	Opp. Union Office, Idappadi taluk, Vellandivalasu PO, Salem Dist.-Tamil Nadu	BVSc&AH/TANUVAS/09	07.06.82
1203	Madhu C.L. S/o Lingaraju	KarnSVC/4251/09	No-207, Mysore Road, Cholanahalli-573116, Channarayapatna Tq, Hassan Dt, Karnataka	BVSc&AH/KVAFSU/09	18.5.86
1204	Madhu D.N. S/o Nanjappa R	KarnSVC/4303/09	Doddhadasarahalli, Shiddiaghatta 562102, Chickballapura Dt., Karnataka	BVSc&AH/KVAFSU/09	14.9.85
1205	Madhura Y S/o Yadavareddy J	KarnSVC/4284/09	Buddha Nagar, 5 th Cross, Stadium Road, Chitradurga-577501, Karnataka	BVSc&AH/KVAFSU/09	28.5.86
1206	Madnurkar Arjun Drupatrao	MahaSVC/8270/09	Guru Krupa Niwas, Patel Nagar, Dharmabad, Tal. Dharmabad, Dist. Nanded, Maharashtra	BVSc&AH/MA&FSU/09	18.04.84
1207	Magan Singh Dudwe S/o Sh Kadam Singh Dudwe	MPSVC/2650/09	V & P-Khattali, The-Jobat, Alirajpur, M.P	BVSc&AH/JNKVV/09	7.4.78
1208	Mahadev Lamani S/o Chittappa	KarnSVC/4303/09	Siddapur LT-587117, Bilagi Tq, Bagalkot Dt., Karnataka	BVSc&AH/KVAFSU/09	1.6.86
1209	Mahalankar Swapnil Sunil	MahaSVC/8354/10	"Prayag" Bhagirathi Nagar, Near Vitthal Nagar, Gudadhi, Tal/Dist. Akola-444005, Maharashtra	BVSc&AH/MA&FSU/09	20.09.86
1210	Mahammad Reyazali	GVC/2479/09	S/o Abdual Baquie, Tyre Repairing Shop, Nr. Star Talkies, Tatanagar, Jamshedpur-2pin-831002	BVSc&AH/GAU/03	22.12.74
1211	Mahantesh S/o Veerabadrappa	KarnSVC/4257/09	No.15, Mamadapur, Hallisalagar-585302, Aland Tq, Gulbarga Dt, Karnataka	BVSc&AH/KVAFSU/09	15.10.85
1212	Mahavir Chaudhari S/o Sh Gutti Ram Chaudhary	HarSVC/2126	VPO-Khari Sureran T. Ellenabad Distt, Sirsa, Haryana	BVSc&AH/CCSHAU/09	12.8.81
1213	Mahavir Joshi, S/o Santosh Kumer Joshi	HVC-894/09	Vill. & P.O. Badoli, Teh. & Distt Una., HP	BVSc&AH/OUA&T/09	13.09.86
1214	Mahavir Prasad Karir S/o Sewa Ram	RajSVC/3622/09	Behind Krishi Upaj Mandi, Ward No. 18, Near Sikar Vidhyapeeth School, Sikar-332001, Rajasthan	BVSc&AH/SVVU/09	28.07.81
1215	Mahavir Singh S/o Sh Rajender Kumar	HarSVC/2104	VPO Shahpur Begu The & Dt- Sirsa, Haryana	BVSc&AH/CCSHAU/09	29.1.86

1216	Mahendar Singh Meel S/o Gyan Chand Meel	RajSVC/3603/09	VIII.- Sonthallya, Post-Bawari, VIA-Reengus, Sikar-332404, Rajasthan	BVSc&AH/RAU/09	15.12.84
1217	Mahendiran.S (S.Seetharaman)	TNSVC/4445/09	106,Kalathumettu Street,Edayanchavadi,Auroville PO,Villupuram-605101, Tamil Nadu	BVSc&AH/P.U/05	20.10.81
1218	Mahendra Nagar S/o Suraj Mal Nagar	RajSVC/3695/09	V/P-Aton, Teh.-Atru,Baran-325223, Rajasthan	BVSc&AH/TV&ASU/09	30.07.84
1219	Mahendra Pratap Singh Tomar S/o Sh S.S.Tomar	MPSVC/2620/09	Krishi Farm,Zonal Agriculture Research Centre,A.B.Road,Morena,M.P	BVSc&AH/JNKVV/09	9.08.84
1220	Mahendra Singh Samil S/o Sh Bhagwan Singh	MPSVC/2644/09	Uttampura,Morena, M.P -477445	BVSc&AH/JNKVV/09	10.7.82
1221	Mahendra Tanwar S/o Laxmi Narayan Tanwar	RajSVC/3619/09	D-15, Jawahar Nagar, Gajner Road, Bikaner- 334004, Rajasthan	BVSc&AH/RAU/09	21.03.82
1222	Mahesh Agrawal S/o Laxman Agrawal	RajSVC/3769/10	H.No. 55, Ward No. 7, Kajori Ka Nagla Kherli, Alwar-321606, Rajasthan	BVSc&AH/SKRAU/10	05.03.81
1223	Mahesh Gupta S/o Bal Chand Gupta	RajSVC/3689/09	VPO-Dubliya, Teh.-Pirawa, Jhalawar-326513, Rajasthan	BVSc&AH/MAFSU/09	03.07.83
1224	Mahesh Kadagal S/o Sidhalingappa	KarnSVC/4333/09	Main Road,Hamsabhavi-580009,Hirekerur Tq, Haveri Dt.,Karnataka	BVSc&AH/KVAFSU/09	23.7.86
1225	Mahesh Kumar S/o Ambika Prasad Dwivedi	JVC/643/10	Arshandey RVC., Kanke Ranchi-834006, Jharkhand	BVSc&AH/OUA&T/09	25.02.82
1226	Mahesha N S/o Ningappa	KarnSVC/4254/09	Devanga Colony, Kallavanaghattihalli, B.Durga Po-577518, Holalkere Tq Chitradurga Dt.,Karnataka	BVSc&AH/KVAFSU/09	9.6.86
1227	Mahipal Kaji S/o Ramdev Singh Kaji	RajSVC/3736/10	Tatarwalo Ki Dhani, VPO-Sirohi, Teh.- Neem Ka Thana, Sikar-332714, Rajasthan	BVSc&AH/SKRAU/10	10.07.84
1228	Mahia Devendrabhai Rayubhai	GVC/1875	At & Po: Bahej, Ta: Chikhli, Dis : Navsari,Gujarat	BVSc&AH/GAU/95	27.11.72
1229	Majethia Jagdishchandra Prabhulal	GVC/1115	7, Himalay Bunglow, Abu road Highway, Palanpur Dis- Banaskantha,Gujarat	BVSc&AH/GAU/88	23.9.66
1230	Major Devender Singh Dalal, S/o Kalia Singh	OSVC/2261/09	Major in R&V India Squadron of NCC at Bhubaneswar, Orissa	BVSc&AH/OUAT/00	19.08.71
1231	Majumdar Avinash Dattatray	GVC/112	23, Anand Baug Society, Ganesh Circle, Amul Dairy Road, Anand- 388001, Gujarat	BVSc&AH/UPAU/66	14.3.41

1232	Makani Ramniklal Maganlal	GVC/1776	7, Shruti Apartment, B/H Ganesh Dairy, Anand, Gujarat	BVSc&AH/GAU/78	1.6.52
1233	Makvana Kanubhai Jivabhai	GVC/771	38-C, Gayatri Krupa Tenement, Near Old Bapod Jakatnaka, Vaghodiya Road, Vadodara, Gujarat	BVSc&AH/GAU/83	2.12.55
1234	Makwana Jahesh Dineshbhai	GVC/2227	Veterinary Dispensary, Hajirdhar, Via- Damnagar Ta- Lathi, Dis- Amreli, Gujarat	BVSc&AH/GAU/00	21.11.74
1235	Makwana Mehulkumar Jusaji	GVC/908	At - Kointiya, Ta - Detaroj (Rampura), Dist - Ahmedabad, Gujarat	BVSc&AH/GAU/87	1.6.62
1236	Malam rahulkumar sureshkumar	GVC/3055/09	Panchi hatdi chawk, Kutiyana-362650, Dist- Porbandar, Gujarat	BVSc&AH/AAU/09	26.12.86
1237	Malarvannan.P (S.Pannerselvan)	TNSVC/4442/09	Neivilakku Post, Vedaranyam taluk, Nagapattinam-614808, Tamil Nadu	BVSc/TANUVAS/02	23.07.77
1238	Malasana Amrutlal Chhaganbhai	GVC/714	4, Yogeswarnagar, Ravapar Road, Morbi- 363 341 Dis- Rajkot, Gujarat	BVSc&AH/GAU/83	6.1.58
1239	Malaviya Sanjay Gobarbhai	GVC/3056/09	To-Bagasara (Deri Pipariya) to-Bagasara, Dist- Amreli-365440, Gujarat	BVSc&AH/AAU/09	21.07.86
1240	Malayaman Thirumudikkari.S (K.Sethurajeswaran)	TNSVC/4439/09	No-3, Majestic park, Rajesh Avenue, Near Virugambakkam Police Station, Saligramam, Chennai, Tamil Nadu	BVSc/TNAU/86	28.05.62
1241	Malchand Kumawat S/o Gopal Lal	RajSVC/3733/10	Ward No. 19, Nawa City, Nagour-341509, Rajasthan	BVSc&AH/SKRAU/10	09.06.80
1242	Malgunde Smita Appasahed	MahaSVC/8282/09	Behind Surya Hospital, Lonand Nira Road, Lonand, Tal.Khandala, Dist.Satara- 415521, Maharashtra	BVSc&AH/MA&FSU/09	30.03.87
1243	Mallappa Mane S/o Kakasab	KarnSVC/4253/09	No.52, Jaianapur-591226, Chikodi, Belgaum, Karnataka	BVSc&AH/KVAFSU/09	10.12.85
1244	Mallikarjuna S/o Basavarajappa K.C.	KarnSVC/4329/09	Kanabagatte, Shivani-577549, Tarikere Tq. Chickmagalur Dt., Karnataka	BVSc&AH/KVAFSU/09	1.6.87
1245	Malvika Jaswal S/o Col. Rupchand Jaswal	KarnSVC/4234/09	No.6-301, Gangauravi, 2nd Cross, Srinivasa Layout, L.R.Bande Rd, RTNagar, B'lore- 32, Karnataka	BVSc&AH/CSKHPKV/03	15.8.80
1246	Mamtani Atma Prakash	GVC/853	A-74, Radha Krishna Park Nr, Akota Garden, Akota, Vadodara, Gujarat	BVSc&AH/VU/62	2.3.39
1247	Man Singh Bamaniya S/o Shri Singla Bamaniya	MPSVC/2597/09	Vill-Jabaniya, Post- Motibadoi, Alirajpur, M.P	BVSc&AH/JNKVV/09	8.12.72

1248	Mananuli Suvarnalata Shivaraaj	MahaSVC/8176/09	231, Jay-Kumar Nagar, Bijapur Road, Tal. Dist. Solapur-413004, Maharashtra	BVSc&AH/MA&FSU/09	07.07.86
1249	Manas Ranjan Polai, S/o Subas Chandra Polai	OSVC/2295/09	At: B Marg, Vill: Ankorada, PO: Hiajilicut, Distt. Ganjam-761102, Orissa	BVSc&AH/OUAT/09	25.05.83
1250	Manavadaria Sudhirkumar Vrajlal	GVC/715	Veterinary Dispensary, Bagasara, Ta- Bagasara, Dis- Amreli, Gujarat	BVSc&AH/GAU/83	3.7.61
1251	Mandeep Kaur S/o Amrik Singh	Pb.SVC/2886/09	Kabir Colony, Ward No.4, Nr Pujmatlan, Budhlada, Dt. Mansa-151502, Punjab	BVSc&AH/GADVASU/09	10.9.86
1252	Mandeep Kumar S/o Lachhman Dass	Pb.SVC/2879/09	Radha Swami Colony, Street No.1, H.No.1367 A, Fazilka, Distt. Ferozepur-152123	BVSc&AH/GADVASU/09	20.7.84
1253	Mandera Bharatkumar Virambhai	GVC/2144	Indraprashtha Nagari, Block No- 29, Sandipani Road, Opp- Air Port, Porbandar, Gujarat	BVSc&AH/GAU/98	28.8.74
1254	Mandira Reang D/o Dharendra Kr Reang	TripuraSVC/182/08	C/o Dharendra Kr Reang, PO&Vill- Laxmicharra, PS-Baikhora, Sub-Santirbazar, Tripura (South)	BVSc&AH/AAU/08	27.5.85
1255	Mane Atul Balbhim	MahaSVC/8306/09	At. Po. Chincholi (Mall), Tal. Kalj, Dist. Beed-431123, Maharashtra	BVSc&AH/MA&FSU/09	28.02.86
1256	Maner Saeedahamad Khudbuddin	MahaSVC/8317/10	Lengare, Tal. Khanapur, Dist. Sangli-415309, Maharashtra	BVSc&AH/MA&FSU/09	01.06.86
1257	Mangayarkarasi. S.(V.Selvaraj)	TNSVC/4554/09	33/8, Periyar Street, Pacchapatti Main Road, Salem-636001, Tamil Nadu	BVSc&AH/TANUVAS/09	09.01.86
1258	Mangukia Shambhubhai Amarsbhai	GVC/1806	At - Ingorala, Ta- Umaarla, Dist - Bahavnagar, Gujarat	BVSc&AH/GAU/95	15.1.67
1259	Mani. M.S.(S.K.Manickam)	TNSVC/4432/09	V-96 V Block, 5th Main Road, Anna Nagar, Chennai-600040, Tamil Nadu	BVSc/M.U/58	19.10.32
1260	Manikandan.K (R.Kumaravel)	TNSVC/4588/09	362, East Street, Sorathur, Perperiankuppam via, Vallam PO, Panruti taluk, Cuddalore-607805, Tamil Nadu	BVSc&AH/TANUVAS/09	02.01.86
1261	Manikanth C.L. S/o Lakshmana	KarnSVC/4323/09	3 rd Cross, Savalanga Road, Navale, Shimoga - 577202, Karnataka	BVSc&AH/KVAFSU/09	29.12.85
1262	Manimohan.P S/o Ponniah.S	KSVC/3504/09	RPL Colony. IA Block Kuathupuzha (P.O), Pathanapuram, Kollam, Kerala	BVSc&AH/KAU/09	29.09.84
1263	Manish Bhati S/o Mahfooz Ali Bhati	RajSVC/3609/09	House No. 34, Ram Raheem Street, Bhutto Ka Choraha, Bikaner-334001, Rajasthan	BVSc&AH/RAU/09	01.02.83

1264	Manish Chand S/o Dayanand Gupta	UPSVC/5022/09	Vill.&PO- Chariyawan, Bujurg, Distt.- Deoria,UP	BVSc&AH/KVAFSU/09	01.01.85
1265	Manish Chandra S/o Shyam Lal	UPSVC/4946/09	Moh. Gulam Alipura, Distt.- Bahraich,UP	BVSc&AH/NDUA&T/09	02.05.81
1266	Manish Chourasia S/o Sh Bharat Chourasia	MPSVC/2628/09	Krishna Colony, Narayanpur Road, Chhattarpur, M.P-471001	BVSc&AH/JNKVV/09	21.1.84
1267	Manish Kumar Tripathi S/o Vishnu Kripal Tripathi	MPSVC/2609/09	B-31, R.K.Puri, Thatipur, Morar, Gwalior, Madhya Pradesh	BVSc&AH/JNKVV/09	5.07.72
1268	Manish Mishra S/o B.S.Mishra	UPSVC/5047/09	G.L.Sharma 15/11/1 Jamuna baz Colony Sadar Bazar Mathura, UP	BVSc&AH/CSAKEPVV/09	01.04.67
1269	Manisha Chauhan D/o J.C. Chauhan	UPSVC/5059/09	Hajipur Behta Loni, Distt.- Gazaiabad,UP	BVSc&AH/JNKVV/09	02.07.83
1270	Manisha Mehra D/o Sidharth Mehra	RajSVC/3704/10	Near Naveen School, JAT Colony, Nawalgarh Road, Sikar-332001, Rajasthan	BVSc&AH/SKRAU/10	26.02.84
1271	Manivannan.N (P. Natesan)	TNSVC/4664/09	21, Tholuvappalli Street, Peddenaickenpalayam PO, Attur taluk, Salem- 636109, Tamil Nadu	BVSc&AH/TANUVAS/09	06.06.71
1272	Manivannan.V.S (V.Subramaniam)	TNSVC/4570/09	3/88-1A, M.G. Nagar, Kondichettipatty, Mohanur Road, Namakkal-637001, Tamil Nadu	BVSc&AH/TANUVAS/09	16.03.86
1273	Manju Nehra D/o Laxmi Narayan Nehra	RajSVC/3605/09	Vill.-Swami Ki Dhani, Post-Suliyawas, Teh.- Dantaramgarh, Sikar-332702, Rajasthan	BVSc&AH/RAU/09	01.08.81
1274	Manjunath Basaraddi S/o Sangappa	KarnSVC/4268/09	Tolamatti-587116, Bilagi Tq, Bagalkot Dt.,Karnataka	BVSc&AH/KVAFSU/09	1.10.85
1275	Manjunath N.L. S/o Laxmanappa B	KarnSVC/4229/09	No.7, Srikrupa Layout, Abbigere Extn, Chikkabanavara Road, Bengaluru, Karnataka	BVSc/UAS,B'lore/74	7.8.49
1276	Manjunath S/o Baburao	KarnSVC/4256/09	Old Kappar Bzar, Mathapati Lane, Chittapur- 585211, Gulbarga Dt., Karnataka	BVSc&AH/KVAFSU/09	5.2.87
1277	Manmeet Pal Singh S/o Sh Amarjeet Singh Aulakh	HarSVC/2129	VPO Aherwan T. Ratia Distt-Fatehabad, Haryana	BVSc&AH/CCSHAU/09	9.7.85
1278	Manohara C S/o Channakeshavamurthy	KarnSVC/4336/09	No.163, 4th cross, P & T Colony Vinobhanagara, Shimoga, Karnataka	BVSc&AH/KVAFSU/09	4.11.85
1279	Manoharan.M (M.Manickam)	TNSVC/4476/09	13, Ponnuchampuram Steet, Thirunagaram, Aruppukottai-626101, Tamil Nadu	BVSc/TANUVAS/95	04.03.71

1280	Manoj Kumar Aggarwal S/o Ram Kumar Aggarwal	CHSVC/534/10	Post- Jairam Nagar, District- Bilaspur, Chhattisgarh	BVSc&AH/JLNKVV/96-97	21.08.73
1281	Manoj Kumar Jha S/o Sri Tata Kant Jha	JVC/604/09	Qr. No. CD/109/Set-2 Dhurwa, Ranchi-834004, Jharkhand	BVSc&AH/BAU/93	25.06.68
1282	Manoj Kumar Joshi S/o Sh. Devi Datt Joshi	UKSVC/487/09	Village & Post Baralu, Distt. Pithoragarh, Uttarakhand	BVSc&AH/GBPAA&T/00	06.03.75
1283	Manoj Kumar s/o Ambika Yadav	UPSVC/5006/09	Vill.- Pacharasi, PO- Rasulpur Pacharasi (Deokali), Distt.- Ghazipur, UP	BVSc&AH/MAFSU/09	19.07.83
1284	Manoj Kumar Bhatnagar S/o Sh Chandrabahan Bhatnagar	MPSVC/2618/09	Shiv Nagar Bus Stand, Katni, M.P -483501	BVSc&AH/JNKVV/09	28.6.82
1285	Manoj Singh S/o Devi Dayal	UPSVC/4924/09	Vill.- Kazipur Farhat Nagar, PO.- Mallahwah, Distt.-Hardoi, UP	BVSc&AH/CSAU/09	15.07.81
1286	Manoj Yadav S/o Sh Birender Singh Yadav	HarSVC/2118	W.No. 5, VPO Kanina Distt- Mahendergarh, Haryana	BVSc&AH/CCSHAU/09	24.1.84
1287	Manpreet Singh S/o Surjit Singh	Pb.SVC/2883/09	VPO. Rai Pur Pir Bux Wala, Distt.Kapurthala, Punjab	BVSc&AH/GADVASU/09	12.5.86
1288	Mansuri Abbasbhai Hajibhai	GVC/365	Veterinary Dispensary, Vadgam, Banaskantha, Gujarat	BVSc&AH/GAU/75	19.11.51
1289	Mansuri Abdulkadar Gafurbhai	GVC/1230	155/Mansuri Soc Zahirabad, B/h, Mahila College, Savaghadh, Ta - Himmatnagar, Dist - Sabarkantha, Gujarat	BVSc&AH/GAU/89	5.6.66
1290	Mansuri Anwarhusen Mustufa	GVC/545	Intensive Poultry Development Block, Animal Husbandry Complex, Down to Shastri Overbridge, Genda Circle, , Vadodara	BVSc&AH/GAU/80	18.6.57
1291	Mansuri Yusufbhai Valibhai	GVC/1900	11/3, Sewak Nivas, Gujarat Vidhyapith, Asharam Road, Ahmedabad, Gujarat	BVSc&AH/GAU/95	2.12.72
1292	Mansury Faizahmed Ahmedhusen	GVC/1116	B/h. Madina Masjid, Pologround, Himatnagar, Di: Sabarkantha, Gujarat	BVSc&AH/GAU/88	27.3.65
1293	Manvar Arvindkumar Hanrajbhai	GVC/1525	AT & PO - Navada, Ta. Vanthali, Dist : Junagadh, Gujarat	BVSc&AH/GAU/92	17.4.70
1294	Manvar Devjibhai Arjanbhai	GVC/546	Block No-4, Shri Niket Complex, Ram Park- Main Road, B/H. Panchayat Nagar, University Road, Rajkot-5	BVSc&AH/GAU/80	5.7.54
1295	Manvar Prafulkumar Khodabhai	GVC/1532	Veterinary Dispensary, Near Railway Station, At & Ta : Jam-Jodhpur Dis- Jamnagar, Gujarat	BVSc&AH/GAU/92	23.6.68

1296	Manvir Singh S/o Sh. Dharamvir Singh	UKSVC/486/09	Deputy Manager (Pashu Posan) ULDB Shayampur, R.Shikesh, Distt. Dehradun, Uttarakhand	BVSc&AH/GBPUA&T/01	09.08.78
1297	Maradia Meghajibhai Gopalbhai	GVC/403	"Avsar" 3, Jalaram, University Road, Nr. Indira Circle, Gokul Store wali Sheri, Rajkot-5, Gujarat	BVSc&AH/GAU/76	12.10.54
1298	Maran Vazhuthi.R (P.Rajendran)	TNSVC/4444/09	10/243/C,Gandhi Nagar, Pavoorchatram,Tenkasi taluk,Tirunelveli-627808,Tamil Nadu	BVSc/TNAU/87	23.04.64
1299	Maru Laxman Arajanbhai	GVC/806	At- Bantava, Opp- Police Station, Ta- Manavadar, Dis- Junagadh PIN- 362620, Gujarat	BVSc&AH/GAU/84	17.2.60
1300	Mary Nisha Tigga S/o Herman Tigga	JVC/639/09	Sirsi Putrungi, Dumri Gumla, Jharkhand	BVSc&AH/BAU/09	28.03.83
1301	Masani Nilesh Harivadan	GVC/1114	2/38, Laxminarayan Society, Nr. Dharamnagar, Bholav, Di: Bharuch, Gujarat	BVSc&AH/GAU/88	25.5.64
1302	Masool Mohamed Abid Hussain S/o Mohamed Hayath	KarnSVC/4342/09	No.39, 2nd Cross, Nanjappa Garden, Manjunatha Layout,Bengaluru-560032,Karnataka	BVSc&AH/KVAFSU/09	22.8.87
1303	Mathiazagan. V(Vedi)	TNSVC/4467/09	Gangaiyamman Koil, Gopulapuram, Gudiyattam, Vellore-632602, Tamil Nadu	BVSc/TANUVAS/95	28.05.59
1304	Mauooj Ahmad Khan S/o Tarique Hussain Khan	JVC/627/09	Q.No.-H6/55. Road no.1 Kadma, Karamdih Ddhalrhur, Jharkhand	BVSc&AH/BAU/09	01.01.80
1305	Mavani Harshadkumar Parbatbhai	GVC/2293	B/H. Old Bus Stand, Hirpara Wadi, At & Po: Dhdraji, Dis : Rajkot - 360 410,Gujarat	BVSc&AH/GAU/00	14.8.78
1306	Mavatia Dineshbhai Shankerlal	GVC/2151	"Pitru Daya", At & Po : Karath, Ta: Jhalod, Dis : Dahod- 389 151,Gujarat	BVSc&AH/GAU/98	23.10.74
1307	Maya Jewriya D/o Sahiram Jewriya	RajSVC/3692/09	Chirawa Road, Singhana, Jhunjhunu-333516, Rajasthan	BVSc&AH/RAU/09	23.10.83
1308	Mayakrishnan S/o Kathavarayan	PondiSVC/325/09	No.42, II Cross Street, Ramji Nagar,Madukarai & Post-Puducherry-605	BVSc&AH/PU/09	20.3.82
1309	Md. Sayeed S/o Late Sheikh Azim	JVC/622/09	Staff Vety Officer, O/o Regional Director A.H.D.Santhal Pargana Dhunani, Dumka-814101, Jharkhand	BVSc&AH/RAU/73	29.12.48
1310	Medo-u-Wetsah S/o Sh Pfcu Khavetsah	NSVC/0246/09	Lower Chandmani Colony, Kohima Nagaland	BVSc&AH/AAU/09	26.6.83
1311	Meenakshi Pateriya D/o Sh Babulal Pateriya	MPSVC/2636/09	C/o Shri G.D.Namdev Behind Warehouse, Chhatarpur,M.P	BVSc&AH/JNKVV/09	20.6.83

1312	Megha Pande D/o Sh. S.C.Pande	UKSVC/464/09	25-A, Samir Vihar, Kusum Khera, Haldwani, Distt. Nainital, Uttarakhand	BVSc&AH/GBPUA&T/09	20.07.85
1313	Megharaj P S/o Devendrappa	KarnSVC/4310/09	10th Cross, Durgigudi Extn, Honnali-577217, Davanagare Dt., Karnataka	BVSc&AH/KVAFSU/09	7.8.86
1314	Mehesare Swapnil Sudhakar	MahaSVC/8322/10	"Krishna", Ranpise Nagar, Akola, Tal, Akola, Dist, Akola, Maharashtra	BVSc&AH/IGKVV/08	07.07.85
1315	Mehta Bharatkumar Vinodchandra	GVC/737	A-3/405, Vaikunth-1, Near Ambe Vidyalaya, Waghodiya Highway cross Road, Vadodara-390019, Gujarat	BVSc&AH/JNKVV/79	9.10.56
1316	Mehta Arunkumar Jeevanshanker	GVC/366	3, Neelkamal Society, B/h, Raj kamal Petrol Pump, Mehsana, Gujarat	BVSc&AH/JNKVV/75	26.6.53
1317	Mehta Kamleshkumar Arvindlal	GVC/1086	Veterinary Dispensary, Opp- Udipi Restaurant, Station Road, Valsad- 396 001, Gujarat	BVSc&AH/GAU/88	4.2.66
1318	Mehta Kartik Ravindranath	GVC/716	Plot - 279/1, Ravipushapa, Opp. Madhuvan Flats, Sector - 29, Gandhinagar-382 029, Gujarat	BVSc&AH/GAU/83	29.1.61
1319	Mehta Manojkumar Jayantibhai	GVC/1276	C/O, JJ Mehta, Opp- Jain Derasar, At & Po: Satlasana, Ta: Kheralu, Dis- Mehsana	BVSc&AH/GAU/90	10.7.67
1320	Mehta Narottambhai Nathabhai	GVC/926	C/O, N K Mehta, Devashipura, At- Drafa, Ta- Jamjodhpur, Via: Paneli Moti, Dis- Jamnagar PIN- 360520	BVSc&AH/GAU/87	24.12.62
1321	Meiyappan.U (K.Uthiramoorthy)	TNSVC/4578/09	1/1, Nanjappa Cross Street-3, Anthiyur, Bhavani taluk, Erode-638501, Tamil Nadu	BVSc&AH/TANUVAS/09	29.05.86
1322	Memam ikabal Husen Abdul Raheman	GVC/1272	At - Satlasana, Ta - kheralu, Dist - Mehsana, Gujarat	BVSc&AH/GAU/90	3.6.66
1323	Menaga.G (V .Gopalakrishnan)	TNSVC/4560/09	270, Vellalar Street, Pallathur PO, Pattukottai Taluk, Thanjavur-614803, Tamil Nadu	BVSc&AH/TANUVAS/09	15.04.85
1324	Mendapara Girishkumar Mavjibhai	GVC/2197	At & Po- Luvarsara, Via: Shapur, Ta: Vanthali, Di: Junagadh, Gujarat	BVSc&AH/GAU/96	29.2.76
1325	Merja Harjivan Chakubhai	GVC/275	Naklank Society, Nr. Patel Kanya Chhatralaya, Opp. Hari Om Apprt., Sanada Road, Morbi-363 641, Dis-Rajkot	BVSc&AH/GAU/72	29.6.47
1326	Merja Rajesh Maganlal	GVC/1716	"Mamta", Panchvati Society, B/H G.I.D.C. Morbi, Dis: Rajkot, Gujarat	BVSc&AH/GAU/94	30.6.73
1327	Meshram Chandraprakash Dinanath	MahaSVC/8324/10	Plot No.10, Rameshwari, Ring Road, Jogi Nagar, Nagpur-440027, Maharashtra	BVSc&AH/MA&FSU/09	09.01.82

1328	Mevada Vipulkumar Keshavlal	GVC/3016/09	Mahakali Society, Municipal High School, Kheralu, Distt-Mehsana-384350,Gujarat	BVSc&AH/SDAU/09	11.08.85
1329	Mewada Maheshkumar Shankarlal	GVC/1416	Opp. Co.Operative Bank, Vadgam, Ta: Vadgam, Dis : Banaskantha,Gujarat	BVSc&AH/GAU/91	23.5.66
1330	Mhatre Sandeepu Dattatreya	MahaSVC/8160/09	Ashtavinayak, Plot No. 20, Vidyanagar, Tal. Alibag, Dist. Raigad,Maharashtra	BVSc&AH/MA&FSU/08	20.02.86
1331	Minu Singh D/o B.P. Singh	JVC/634/09	Landupdi, Sonahatu, Bundu, Ranchi-835204, Jharkhand	BVSc&AH/BAU/09	07.06.84
1332	Mirza Ismail Gulam	GVC/441	Miraza Manzil, Signal Faliya, At & Po- Kosamba Dis- Surat, Gujarat	BVSc&AH/GAU/77	1.9.51
1333	Mirza Rizwan Baig Mirza Azmat Baig	MahaSVC/8207/09	Baig Manzil, Gulzar Colony, Nr Gulzar Colony, Nr Gulzar Masjid, Dhar Rd, Parbhani,Maharashtra	BVSc&AH/MA&FSU/09	16.11.85
1334	Mistry Prakashchandra Kantilal	GVC/1750	B-308, Gopivallabh, Opp, ITI, Modasa, Malpur Road, Sabarkantha- 383 315,Gujarat	BVSc&AH/GAU/94	17.11.71
1335	Mithuna K.V.S/o Kantharaju H.N.	KarnSVC/4296/09	B-8,Postal Staff Qurts,Laxmipura,Arasikere- 573103, Hassan Dt.,Karnataka	BVSc&AH/KVAFSU/09	29.7.86
1336	Mittu. T.Kurian, S/o Kurian T.K	KSVC/3601/09	Thekkummuriyil House, Near Kishko Nagar, Chevayor (PO), Kozhikode-673017, Kerala	BVSc&AH/KAU/09	08.02.86
1337	Modh Harshad Natvarlal	GVC/886	55, Shubha Tenament, Opp, Sakar Bunglow, Berna Road, Ta - Himmatnagar, Dist - Sabarkantha, Gujarat	BVSc&AH/GAU/87	28.7.65
1338	Modh Shaileshkumar Kantilal	GVC/846	Nr. SBI Society, Becharpura, Palanpur- 385001, Dis- BK, Gujarat	BVSc&AH/GAU/85	16.5.63
1339	Modh. Azmal S/o Mumtaj Ali	UPSVC/4972/09	Purni Bazar Bharwari, Distt. Kaushambi,UP	BVSc&AH/NDUA&T/09	01.12.84
1340	Modhukoilya Ayushman S/o Sh Tarun Kr Sharma	ASM/2445/09	C/o Tarun Kr Sharma. Dhowa Pukhuri Gaon,PO-Bahona,Dt-Jorhat, Pin- 785301,Assam	BVSc&AH/AAU/09	13.2.86
1341	Modhwadia Vejubhai Ramabhai	GVC/807	At & Po- Bhad, Ta & Dis- Porbandar, Gujarat	BVSc&AH/GAU/84	1.6.59
1342	Modi Arvindkumar Bhikhabhai	GVC/880	103, Simanagar - 2, Society, Palanpur patiya, Rander Road , Surat, Gujarat	BVSc&AH/GAU/86	7.10.63
1343	Modi Bhaskarkumar Arvindlal	GVC/1142	B/34, Jalaramnagar Society, Diwa Road, At&Po: Ankleshwar, Dis : Bharuch PIN- 393001, Gujarat	BVSc&AH/GAU/89	27.1.68

1344	Modi Kalpeshkumar Amritlal	GVC/1492	At&Po: Demal, Ta: Bayad, Di: Sabarkantha,Gujarat	BVSc&AH/GAU/92	16.6.70
1345	Modi Kamleshkumar Rasiklal	GVC/596	43, Radhanpur Society, Bhairavnath Road, Maninagar,Ahmedabad-380 008, Gujarat	BVSc&AH/GAU/81	30.8.59
1346	Modi Kirit Hiratal	GVC/503	27, Millap Raw House, Opp. Gail Tower, A M Road, Surat, Gujarat	BVSc&AH/GAU/79	9.4.56
1347	Modi Kiritkumar Shantilal	GVC/1205	75, Nevil Park Society, B/H. Gaytri Temple, New City Light, Udhana-Magdalla Road, Althan, Surat, Gujarat	BVSc&AH/GAU/89	21.2.67
1348	Modi Nareshbhai Ratilal	GVC/815	C/O, Cattle Breeding Farm, Sindhwai Farm, At & Ta- Mandvi, Dis- Surat, Gujarat	BVSc&AH/GAU/84	24.7.61
1349	Modi Prakashchandra Gordhanbhai	GVC/549	"Arunoday", Akesan Crossing, Highway Road, Palanpur, Banaskantha, Gujarat	BVSc&AH/GAU/80	16.3.57
1350	Modi Pravinkumar Kantilal	GVC/1067	Modi Vas, Kala Vasudev Chowk, At & Ta- Vadnagar, Dist - Mehsana, Gujarat	BVSc&AH/GAU/88	5.7.65
1351	Modi vishal ishavarbhai	GVC/3017/09	soniwado, Ambliwali fali, Patan, Dist-Patan-384265, Gujarat	BVSc&AH/SDAU/09	14.04.86
1352	Mohalisha Senapati, W/o Adhiraj Mishra	OSVC/2321/09	Plot No. 212/A Satyanagar, Bhubaneswar-751007, Orissa	BVSc&AH/OUAT/09	18.04.87
1353	Mohamed Abdul Khader.A (N.Abdul Salam)	TNSVC/4421/09	3/710, AAVIN Nagar, Surveyor Colony, K.Pudur, Madurai-625007, Tamil Nadu	BVSc/TANUVAS/78	07.05.51
1354	Mohammad Noor S/o Hazi Mohammad	RajSVC/3641/09	Near General Hospital Jalore, Jalore-343001, Rajasthan	BVSc&AH/MAFSU/09	23.07.82
1355	Mohammad Tarique	MahaSVC/8184/09	C/o Mohd. Ayaz, House No.648 (Old)Shatranjipura, Opp.Chotte Masjid, Nagpur-440008, Maharashtra	BVSc&AH/MA&FSU/09	17.12.83
1356	Mohammed Khaleelulla S/o Mohammed Inayatulla	KarnSVC/4255/09	2nd Cross, 1 st Main, Krishinagar, Shimoga-577201, Karnataka	BVSc&AH/KVAFSU/09	16.7.86
1357	Mohan Lal Choudhary S/o Budha Ram Ji	RajSVC/3592/09	Opp. House No. 3/272, M.P. Colony, Bikaner-334004	BVSc&AH/RAU/09	18.11.83
1358	Mohan Namjoshi	GVC/1820	C-56, NDDB Campus, Anand, Gujarat	BVSc&AH/GBPU/74	20.2.52
1359	Mohan Raj.S (T.R.Srinivasan)	TNSVC/4674/10	23, Main Road, Thottiyam, Trichy District-621215, Tamil Nadu	BVSc&AH/TANUVAS/09	24.03.87

1360	Mohanambal.K. (R.Kaliyannan)	TNSVC/4534/09	1-187, Kosavan Thottam, Thindamangalam PO, Namakkal Dist.-637207, Tamil Nadu	BVSc&AH/TANUVAS/09	04.09.85
1361	Mohanapriya.T (V.Thangaraj)	TNSVC/4542/09	13/165, 13th Ward, Jalakandapuram Main Road, Tharamangalam PO, Omalur taluk, Salem-636502, Tamil Nadu	BVSc&AH/TANUVAS/09	21.04.86
1362	Mohanavel.S (TV.Soundararajan)	TNSVC/4544/09	5/173, Thatchangkadu, Alavaipatty PO, Rasipuram taluk, Namakkal-637505, Tamil Nadu	BVSc&AH/TANUVAS/09	08.05.87
1363	Mohd. Mohsinuddin Mohd.Mobinuddin	MahaSVC/8196/09	5th Banglow Colony, Wadali Road Camp Amravati-444602, Maharashtra	BVSc&AH/MA&FSU/09	12.07.85
1364	Mohd. Qasim Ali S/o Mohd. Hanif	UPSVC/5032/09	Moh Ram Nagar Gulaothi, Distt.- Bulandshahar, UP	BVSc&AH/SVVU/09	02.02.79
1365	Mohit Kumar, S/o Hoshiar Singh	HVC-895/09	Vill. & PO Basal, The. & Distt. Una, HP	BVSc&AH/OUA&T/09	05.09.86
1366	Mohit Verma S/o Rishendra Verma	UPSVC/5066/10	E-1219/6 Rajendra Nagar, Bareilly, UP	BVSc&AH/OUA&T/09	30.10.82
1367	Mohite Ajaykumar Sitaram	GVC/1346	F/501, Rutwan Flats, Nr. Sahaj Supar Store Chhatrapati Shivaji Marg, Adajan, Surat-395 009, Gujarat	BVSc&AH/KKV/85	12.1.60
1368	Mohod Sanjay Rajendra	MahaSVC/8158/09	Ramnagar, Behind Post Office, Chandur Railway, Dist. Amravati., Maharashtra	BVSc&AH/PKVP/91	01.07.68
1369	Monalisa Priyadarsini, D/o Dhaneswar Mohanty	OSVC/2267/09	At/Po Jaraka, Distt. Jajpur-755050, Orissa	BVSc&AH/OUAT/09	24.07.86
1370	Monalise Debbarma D/o Narendra Ch Debbarma	TripuraSVC/185/08	C/o Narendra Ch Debbarma New Bodhjang Road, North Banamalipur, Agartala, Tripura (West)	BVSc&AH/CAU/08	16.2.83
1371	Money Singla S/o Megh Raj	Pb.SVC/2899/09	Shop No.194, Old Grain Market, Mansa, Punjab	BVSc&AH/GADVASU/09	27.10.86
1372	Monika Karnani D/o Hari Kishan Karnani	RajSVC/3702/10	Mundhra Qrts., Ganga Shahar Road, Bikaner- 334001, Rajasthan	BVSc&AH/SKRAU/10	17.05.84
1373	More Bhushan Dilip	MahaSVC/8264/09	Plot No.17, Gurudatta Colony Shirpur Tal- Shirpur Dist-Dhule-425405, Maharashtra	BVSc&AH/MA&FSU/09	06.03.86
1374	More Mahesh Prakash	MahaSVC/8218/09	Subhdra Nivas, Sambhaji Nagar, Osmanabad Dist-Osmanabad-413501, Maharashtra	BVSc&AH/MA&FSU/09	05.06.86
1375	Mori Dilipsinh Pragjibhai	GVC/308	Opp- New eye Industries, Near Rajendranagar, Behind Shyam Hotel, GIDC, Dairy Road, Wadhwan, Dis-Surendranagar- 363 035	BVSc&AH/GAU/73	9.6.50

1376	Mridu Sharma D/o Mool Raj Sharma	HVC-885/09	Vill. & PO Khaniara (Mohli), Teh., Dharamshala, Distt. Kangra HP	BVSc&AH/CSKHPKV/09	10.04.85
1377	Mritunjay Singh S/o K.N.Singh	UPSVC/5009/09	Q.N.D 524 Pipri Distt. Sonbhadra, UP	BVSc&AH/KVA&FSU/09	01.07.79
1378	Mugale Madhav Nilakanth	MahaSVC/8313/10	Near Ambika Temple Kadadora PO.Balsoor, Tq.Omerga, Dist.Osmanabad- 413604,Maharashtra	BVSc&AH/MA&FSU/09	25.11.83
1379	Muhammed Afzal.A, S/o C.E.Muhammed Asharaf	KSVC/3559/09	Afzal Manzil, Pazhayapurackal Chungom ward, Alappuzha	BVSc&AH/KAU/09	27.11.85
1380	Muhammed Shejir, S/o Rasheed	KSVC/3505/09	Hashir Manzil, Near Railway Gate Murukkumpuzha P.O., Managalapuram- 695302, Kerala	BVSc&AH/KAU/09	20.07.81
1381	Muhammedkutty V.H, S/o V.M.Hameed	KSVC/3574/09	Varikkottil House, Kaniyarkode P.O., Thrissur- 680594, Kerala	BVSc&AH/KAU/09	15.03.86
1382	Muhasin Asaf V.N.S/o V.N.Muhammed	KSVC/3591/09	Nechooli House, Kumaranelloor, P.O., Karamoola, Mukkan, Kozhikode-673602, Kerala	BVSc&AH/KAU/09	11.10.84
1383	Mukesh Beriwal S/o Ramniwas Beriwal	RajSVC/3631/09	Ward No. 14, Cinema Road, Sri Bijay Nagar, Sriganganagar-335704, Rajasthan	BVSc&AH/CCSHAU/09	15.06.84
1384	Mukesh Gahlot S/o Bulaki Gahlot	RajSVC/3613/09	II-E-273 Jai Narayan Vyas Nagar, Bikaner, Rajasthan	BVSc&AH/RAU/09	19.11.82
1385	Mukesh Kumar Mochi S/o Om Prakash Mochi	RajSVC/3774/10	SH-06, Near Bus Stand, Vill.-Aadsar, Teh.- Dungargarh, Bikaner-331803, Rajasthan	BVSc&AH/SKRAU/10	02.04.85
1386	Mukesh Kumar S/o Gopal Prasad	RajSVC/3625/09	Suraj Pole Gate outer, New colony, Bharatpur-321001, Rajasthan	BVSc&AH/RAU/09	08.02.82
1387	Mukesh Kumar S/o Lt. Jogeshar	CHSVC/531/10	Kandrapara, Ward No.-10, Dongar Gaon, Rajnand Gaon, Chhattisgarh	B.V.Sc.&AH/IGKVV/09	20.06.84
1388	Muktikanta Sethy, S/o Harish Chandra Sethy	OSVC/2281/09	At-Bajlpur, Po-Gopalpur, Distt. Balasore- 756044, Orissa	BVSc&AH/OUAT/09	05.04.82
1389	Mulani Javeed Bashir	MahaSVC/8227/09	Zinjewasti, Pilliv, Tal.Malshiras, Dist. Solapur- 413310,Maharashtra	BVSc&AH/MA&FSU/09	01.06.85
1390	Mulraj Devabhai Odedra	GVC/1715	Cattle breeding Farm, Junagadh Agricultural University, Junagadh-362 001,Gujarat	BVSc&AH/GAU/94	21.11.71
1391	Muluk Prerana Kantilal	MahaSVC/8330/10	Shivaji Housing Society, Ekata Chowk, Rupeenagar, Tal.Haveli, Dist.Pune- 412114,Maharashtra	BVSc&AH/MA&FSU/09	12.12.86

1392	Munendra Kumar S/o Dharmaveer Singh	UPSVC/4942/09	Vill.- Ambhera, PO- Mandidhanura, Distt.- J.P. Nagar,UP	BVSc&AH/NDUA&T/09	14.07.82
1393	Munish Chander, S/o Pyar Chand	HVC-861/09	Vill. Ropa, R.O. Damiru, Teh. Lad Bharol, Distt Mandi, HP	BVSc&AH/CSKHPKV/09	20.04.87
1394	Muralidarane S/o Pakkiri	PondiSVC/321/09	No.-17, Mariamma Koil Street, Bahour Pet & Post-Puducherry-607402	BVSc&AH/PU/09	3.4.82
1395	Muralidharan.K (R.Kathirvel)	TNSVC/4550/09	4/60, Angalamman Koil Street, O.Sowdhapuram PO, Vennandur via, Rasipuram taluk, Namakkal-637505, Tamil Nadu	BVSc&AH/TANUVAS/09	16.06.86
1396	Murnal Harish Gururaj	GVC/933	D/99, Vrundavan township, Gotri Vasna Road, Harinagar, Vadodara-12, Gujarat	BVSc&AH/KKV/85	15.12.62
1397	Murthy Can S/o Narayanappa C.M.	KarnSVC/4344/09	Chandamanahalli-563101, Kolar Tq & Dt., Karnataka	BVSc&AH/KVAFSU/09	4.3.85
1398	Musaddiq Khan S/o Mukhtar Khan	KarnSVC/4305/09	No.287,6thCross, Rajivnagar, Mysore-570019, Karnataka	BVSc&AH/KVAFSU/09	10.1.86
1399	Musale Vasudha Baburao	MahaSVC/8221/09	Sangivani Nivas, Mirkale Nagar, Tal. Ahmedpur, Dist. Latur-413515, Maharashtra	BVSc&AH/MA&FSU/09	21.05.85
1400	Mushtaq Ahamad S/o Khakic Ahmad	UPSVC/4958/09	Vill & PO Hafiz Ganj (By Pass), Distt. Bareilly, UP	BVSc&AH/UPPDDUPCVV /09	02.07.80
1401	Muthu Palaniappan. M(S.Maruthappan)	TNSVC/4639/09	11-A, Saraswathy Nagar, Main Road, lyyappan Nagar, Thirumullaivoyal, Chennai-600062, Tamil Nadu	BVSc&AH/TANUVAS/09	07.04.86
1402	Muthusamy.P (M.Perumal)	TNSVC/4443/09	Ottapidaram Post & taluk, Tuticorin District Pin-628401, Tamil Nadu	BVSc/TANUVAS/94	12.04.64
1403	Mythili.R (P.P.Ramasamy)	TNSVC/4641/09	29/26, Main Road, K.Pudur, Kavindapadi PO, Erode-638455, Tamil Nadu	BVSc&AH/TANUVAS/09	30.05.84
1404	N.Krishnaveni D/o A. Nagavelu	PondiSVC/327/09	A-1, Type Secretary Quarters Indra Nagar, Gorimedu Puducherry-6	BVSc&AH/PU/09	05.01.85
1405	N.Lavanya D/o N.Narayana	APSVC/04973/09	P.Levidi (V), Gummalamipuram (P), Kurupam (M), Vizianagaram Dist., Andhra Pradesh	BVSc&AH/SVVU/09	01.04.85
1406	N.Sarath Kumar Reddy S/o N.Rama Subba Reddy	APSVC/04895/09	M.G.Puram (P), Isukapalli (V) Rajampet (M), Kadapa Dist. Andhra Pradesh	BVSc&AH/SVVU/09	29.07.84
1407	N.V.Sabarinath.N S/o N.V.K.S.S.Prasad	APSVC/04981/09	13/147-A, Patimeeda, Opp:Triveni School, Gudiwada-521301, Andhra Pradesh	BVSc&AH/SVVU/09	23.08.87

1408	N.Venkat Raviteza S/o N. Rama Mohana Rao	APSVC/04941/09	Chinna Cumbum (P), Porumamillapalli, Cumbum (M), Prakasam Dist. Andhra Pradesh	BVSc&AH/SVVU/09	30.06.86
1409	Nabeel Muhammed T.M, S/o Nuruddin	KSVC/3561/09	Maliyekkel, Arambam, Padanilam, Kozhikode-673571, Kerala	BVSc&AH/KAU/09	30.05.85
1410	Nadiadwala Hyderi Amiruddin	GVC/1773	C/O, Uttam Dairy, Ahmedabad, Gujarat	BVSc&AH/GAU/95	8.11.51
1411	Nadodha Jalabhai Velabhai	GVC/788	16, Shiv Ashish Society, Bopal, B/H. Kalupur Bank, Ahmedabad	BVSc&AH/GAU/84	1.6.60
1412	Nagare Priya Anandrao	MahaSVC/8199/09	Plot No.163, Post-Bhagwan Nagar, Dhashrath Library, Jogi Nagar Nagpur- 400027, Maharashtra	BVSc&AH/MA&FSU/09	11.11.84
1413	Nage Pravin Ramkrushna	MahaSVC/8174/09	At/Post-Jatharpeth, Gayatri Nagar, Mothi Umri, Tal. Dist. Akola-444005, Maharashtra	BVSc&AH/MA&FSU/09	18.07.85
1414	Nagmote Swapnil Gunwant S/o Nagmote Gunwant	KarnSVC/4355/09	No.10/2, 17th cross, 24th Main J.P. Nagar, 6th Phase, Bengaluru-560078, Karnataka	BVSc&AH/MAFSU/07	16.4.84
1415	Nagpure Prasad Subhash	MahaSVC/8215/09	C/o Subhash D. Nagpure, Near Waze Coal Depot, Bajoriya Nagari, Hingna Road, Near Kaul Khed Road, Tal. Dist. Akola-444004	BVSc&AH/MA&FSU/09	11.07.84
1416	Nagrале Bulbul Gajanan	MahaSVC/8177/09	Rajhithgruh, 2, Babupeth No.2 Tal. Dist. Chandrapur-442403, Maharashtra	BVSc&AH/MA&FSU/09	23.04.85
1417	Naheef. K., S/o Assainar. K	KSVC/3563/09	Kokkadath House, Payyoli angadi (PO), Vedakara (VIA)-673523, Kerala	BVSc&AH/KAU/09	28.05.84
1418	Naimuddin Panwar S/o Allauddin Panwar	RajSVC/3726/10	Gali No. 6, Dhobhi Talai, Bikaner-334001, Rajasthan	BVSc&AH/SKRAU/10	27.07.82
1419	Nair Dhanya Venugopalan	MahaSVC/8315/10	21/B/6, Indian Airlines Staff Quarters, Kalina, Santasruz (East), Mumbai- 400029, Maharashtra	BVSc&AH/MA&FSU/09	26.07.86
1420	Nakarani Bhavan Madhabhai	GVC/828	39-Shiv Parvati Society, Nana Varachha Road, Surat, Gujarat	BVSc&AH/GAU/80	7.6.54
1421	Nakum Harshvardhan Dhanjibhai	GVC/1044	B-132, Motinagar-2, Sussen-Tarsali Road, Baroda, Gujarat	BVSc&AH/GAU/88	29.7.65
1422	Nakum Dahyabhai Hirabhai	GVC/1292	Opp. Bhagyalaxmi Hotel, Porbander Road, Char Rasta, Jam Khambalia, Dis : Jamnagar - 361 30. Gujarat	BVSc&AH/GAU/90	20.8.66
1423	Nalinarani.P (K.Palaniswamy)	TNSVC/4573/09	226, Sampath Nagar, Ellis Nagar PO, Dharapuram, Tirupur-638657 Tamil Nadu	BVSc&AH/TANUVAS/09	06.06.86

1424	Nalini Prjapati D/o Hanuman Prasad	CHSVC/513/10	New Shanti Nagar, Road No. 6, Raipur, Chhattisgarh	B.V.Sc.&AH/IGKVV/09	09.09.83
1425	Nalini.P (M.Palanivel)	TNSVC/4657/09	West Street, Pinnaiyur PO, Kottaitheru, Thanjavur District-614902, Tamil Nadu	BVSc&AH/TANUVAS/09	20.03.84
1426	Namrata Sharma D/o Dr.K.C.Sharma	UKSVC/495/09	Lane No.2, Rampur Road, Haldwani, Distt., Nainital, Uttarkhand	BVSc&AH/GBPUA&T/09	24.07.86
1427	Namrata Sharma D/o Rajinder Kumar Sharma	HVC-880/09	Vill. Gowna, P.O. Karour, Teh.Nadaun, distt. Hamirpur, HP	BVSc&AH/CSKHPKV/09	23.03.85
1428	Nandvana Ramjibhai Lakhabhai	GVC/1432	At- Kansari, Po- Una, Ta- Una, Dis- Junagadh- 362560, Gujarat	BVSc&AH/GAU/91	9.5.67
1429	Narahari.N (S.L.N.Moorthi)	TNSVC/4424/09	C-175, Smiriti Apartments, 4th Floor, II Avenue, Ashok Nagar, Chennai- 600083, Tamil Nadu	BVSc/M.U/60	16.11.34
1430	Narasimhaiah N S/o Nallappa	KarnSVC/4353/09	Anil Nilaya, 80 ft Road, Mahalakshminagar, Batawadi-572103, Tumkar Tq & Dt, Karnataka	B.VSc/UAS, B'lore/71	13.5.47
1431	Narayanan.K. (P.Krishnaswamy)	TNSVC/4435/09	128, North Street, Thiruvaiyaru Thanjavur- 613204, Tamil Nadu	BVSc/TANUVAS/96	31.07.73
1432	Narender Kumar Nayak S/o Babu Lal Nayak	CHSVC/512/10	Village & Post Naurangpur, District- Raigarh, Chhattisgarh	B.V.Sc.&AH/IGKVV/09	25.12.85
1433	Narender Singh S/o Sh. Satnam Singh	HarSVC/2105	# 532/21 Gali Opp Hafed Gate, Sukhpura Rohtak, Haryana	BVSc&AH/CCSHAU/09	2.7.85
1434	Narender Singh S/o Thakur Prasad Singh	CHSVC/464/09	201 Sagar Prisar, Nehru Nagar, Bilaspur, Chhattisgarh	BVSc&AH/JLNKVV/93-94	25.09.71
1435	Narendra Dhaka S/o Ganesh Ram	RajSVC/3698/09	V/P-Dabriyani, VIA-Ren, Teh.-Mertacity, Nagaur-341514, Rajasthan	BVSc&AH/KAU/09	19.10.85
1436	Narendra Singh Bundela S/o Sh Veer Singh Bundela	MPSVC/2630/09	Behind Police Colony, Ajaygarh, Panna, M.P.- 488220	BVSc&AH/JNKVV/09	3.09.82
1437	Narendra Singh Chandrawat S/o S. Singh Chandrawat	RajSVC/3708/10	646, Mahaveer Nagar-I, Kota-324005, Rajasthan	BVSc&AH/SKRAU/10	23.11.83
1438	Naresh Kumar Mudgal S/o Shyam Mohan Sharma	RajSVC/3770/10	V/P Samraya, Teh.- Weir, Bharatpur-321408, Rajasthan	BVSc&AH/SKRAU/10	01.07.84
1439	Naresh Kumar S/o Sh Mahavir Prasad	HarSVC/2097	Daya Ram Public School, Sirsa Road, Hisar, Haryana	BVSc&AH/CCSHAU/09	24.12.86

1440	Naresh Kumar Shrivastava	GVC/1933	1, Nidhi Bunglow, Nr. Sidhraj Jai Sing Nagar, B/H- Circuit House, Abu Road-highway, At- Palanpur, Dis : Banaskantha- 385 001	BVSc&AH/JLNKVV/90	17.2.67
1441	Naresh Kumar.C (C.Ranganathan)	TNSVC/4487/09	No.114, (Old No.42), Arya Gowda Road, Chennai-600033, TN	BVSc/TNAU/78	18.07.56
1442	Naressh Mitharwal S/o Tarachand	RajSVC/3601/09	Ward No. 2, Neem Ka Thana, Sikar, Rajasthan	BVSc&AH/RAU/09	10.07.84
1443	Narjeet Singh Rajput, S/o Jagram Singh	UPSVC/4909/09	1413 Shivkunjkuhya Road Indranagar Orai, Distt Jalaun, UP	BVSc&AH/UPPDDUPCVV /09	01.12.83
1444	Narodia Rameshchandra Babulal	GVC/718	Veterinary Dispensary, Chital Ta- Amreli, Dis- Amreli, Gujarat	BVSc&AH/GAU/83	1.6.60
1445	Narpat Singh S/o Mafat Singh	RajSVC/3647/09	V/P-Dhamseen, VIA-Bargaon, Teh.-Raniwara, Jalore-343048, Rajasthan	BVSc&AH/MAFSU/09	05.02.84
1446	Narwade Sandeep Narayan	MahaSVC/8233/09	Chatari, Tal. Umarkhed, Dist. Yavatmal- 445206, Maharashtra	BVSc&AH/MA&FSU/09	02.09.83
1447	Naseema Siddique D/o Sh Ala-Uddin Siddique	MPSVC/2614/09	Senior MIG-68, Old Subhash Nagar, Bhopal, M.P-482001	BVSc&AH/JNKVV/09	12.08.84
1448	Nataraja D S/o Doddahanumanthappa	KarnSVC/4318/09	Kodur, Peresandra -560104, Chickballapura Tq & Dt., Karnataka	BVSc&AH/KVAFSU/09	15.6.85
1449	Nath Pinky Moni S/o Sh Bhuwan Ch Nath	ASM/2474/10	C/o B.C.Nath Vill-Barpukhripur, PO-Maleswar Dt-Sonitpur, Assam	BVSc&AH/AAU/09	20.4.84
1450	Nath Rabin Chandra S/o Sh Homeswar Nath	ASM/2468/09	Vill-Daragial Gaon, PO-P.S.Kampur, Dt-Nagaon, Assam	BVSc&AH/AAU/09	1.5.81
1451	Nath Sapna S/o Sri Bhuban Ch. Nath	ASM/2476/09	C/o Sri B.C.Nath Vill-Barprkhripur, PO-Maleswar Dt-Sonitpur, Assam	BVSc&AH/AAU/09	6.11.85
1452	Navarange Pravin Pralhadrao	MahaSVC/8198/09	Rukhmininagar, Jogalkar Plot, Near Desai Drawing School Amravati, Maharashtra	BVSc&AH/MA&FSU/09	22.02.82
1453	Navase Sujit Namdev	MahaSVC/8336/10	A/P-Naigaon, Tal.Khandala, Dist.Satara- 412801, Maharashtra	BVSc&AH/MA&FSU/09	18.05.87
1454	Navav Singh S/o Amar Singh	RajSVC/3771/10	129, Anita Colony-D, Hajyawala, Sanganer, Jaipur-303902, Rajasthan	BVSc&AH/SKRAU/10	08.08.83
1455	Naveen G S/o Gangadhara Murthy T.K	KarnSVC/4279/09	2 nd Cross, Maruthinagar Gubbi-572216, Tumkur Dt., Karnataka	BVSc&AH/KVAFSU/09	25.1.87

1456	Naveen Kumar S/o Prabhati Ram	RajSVC/3600/09	Vill.-Bhesawata Khurd, VIA-Singhana, Jhunjhunu-333516, Rajasthan	BVSc&AH/RAU/09	10.05.75
1457	Naveen Pandey S/o Sh Shankar Datt Pandey	UKSVC/459/09	Teen Tash Near M.V.M. Haldwani, Distt. Nainital, Uttarakhand	BVSc&AH/GBPUA&T/09	05.06.84
1458	Naviwala Rafique Abubaker	GVC/477	602, Ayesha Tower, Gorat Road, Opp- Jilani Adajan Patiya, Surat- 395 009, Gujarat	BVSc&AH/GAU/78	13.3.54
1459	Navneet Joshi S/o Sh.Navin Chandra Joshi	UKSVC/502/10	C/o Sh. P.C.Kandpal Kapil Colony, Adarsh Nagar, Mukhani Haldwani, Distt. Nainital, Uttarakhand	BVSc&AH/RAU/03	26.02.78
1460	Navratan Chaudhary S/o Ram Prasad Chaudhary	CHSVC/532/10	Village- Darabhata, Post- Boda Daraipali, District- Mahasamund, Chhattisgarh	BVSc&AH/JLNKVV/90-91	01.04.66
1461	Nayak Indravadan Ishwarlal	GVC/3161/10	To-Nanachekhla, Ta-Talod, Dist- Sabarkantha, Gujarat	BVSc&AH/AAU/10	10.08.82
1462	Nayak Ranjitsinh Hamirsinh	GVC/803	11, Amrapali Society, Dahod, Dis- Dahod, Gujarat	BVSc&AH/GAU/84	15.12.60
1463	Nayee Nileshkumar Giridharbhai	GVC/2047	D-9, Staff Quarter, Sabarmati Ashram Gaushala, Near Gandhi Ashram, Ahmedabad, Gujarat	BVSc&AH/GAU/97	4.2.75
1464	Nayee Rameshchandra Narayanbhai	GVC/935	At & Po- Kamana, Ta- Vishnagar, Dis- Mehsana, Gujarat	BVSc&AH/GAU/86	29.7.63
1465	Naziruddin.M.D (Md.Jamaluddin)	TNSVC/4663/09	Old No.23/54 New No. Nair Vardapillai Street, Royapettah, Chennai-600014, Tamil Nadu	BVSc/MU/73	15.11.46
1466	Neelu Thakur D/o Sh Jitendra Singh Thakur	MPSVC/2623/09	M-35 Sharda Colony, Jabalpur, M.P -482002	BVSc&AH/JNKVV/09	19.1.83
1467	Neena Gupta D/o Babu Lal Gupta	RajSVC/3626/09	Babu Lal Vijay Kumar, GB-51, New Mandi Yard, Delhi Road, Alwar-301001, Rajasthan	BVSc&AH/RAU/09	31.08.83
1468	Neeraj Kumar Sharma S/o Kailash Chand Sharma	RajSVC/3633/09	V/P Liwali, Teh.-Bamanwas, Sawai Madhopur- 322211, Rajasthan	BVSc&AH/RAU/09	10.05.84
1469	Neeraj Sachan S/o R.S. Sachan	UPSVC/5037/09	105/B-2, Civil Line, Fatehpur, UP	BVSc&AH/NDUA&T/09	26.02.80
1470	Neeraj Sharma S/o Sh ishwar Dutt	HarSVC/2115	# 1023 New Housing Board Colony, Panipat, Haryana	BVSc&AH/CCSHAU/09	11.12.85
1471	Neeraj Yadav S/o S.S. Yadav	UPSVC/4938/09	177 Bapu Nagar, Shikohabad Road, Near Sunahri Nagar gate, Etah, UP	BVSc&AH/NDUA&T/09	26.03.81

1472	Neha Chaudhary D/o Sh Khajan Chandra Chaudhary	UKSVC/465/09	Parsisah Studio Building, Near Veterinary Hospital, Mallital, Nainital, Uttarakhand	BVSc&AH/GBPUA&T/09	02.06.85
1473	Neha Mishra D/o Sh J.P. Mishra	MPSVC/2648/09	New Colony, Naogaon, Chhattarpur, M.P	BVSc&AH/JNKVV/09	30.7.83
1474	Neha Sahu D/o A.S. Sahu	CHSVC/511/10	Plot No. 62/4, Street Maitri Kunj, Risali, Bhilai, Chhattisgarh	B.V.Sc.&AH/IGKVV/09	21.06.86
1475	Neha Sinha D/o K.N.Sinha	UPSVC/4980/09	Khare Brothers Gandhi Nagar, Mahoba, UP	BVSc&AH/UPPDDUPCVV/09	24.09.84
1476	Neithono Kuotsu S/o Siu Kuotsu	NSVC/0244/09	Ward No. III, Medziphema Town, Nagaland	BVSc&AH/AAU/09	16.6.84
1477	Nemichand S/o Harlal	RajSVC/3638/09	Vill.-Phoolan, Post-Deora, Teh.-Siwana, Barmer-343044	BVSc&AH/KVAFSU/09	19.05.82
1478	Neog Dibyajyoti S/o Sh Gobinda Ch Nego	ASM/2440/09	Vill No.1, Mazgaon PO- Phulbari Bokanodi, Lakhimpur, Assam	BVSc&AH/AAU/09	1.3.80
1479	Neog Ranjan S/o Shri Shiva Neog	ASM/2458/09	Vill-Dicial, PO- Silpukhuri, Dt-Sivassagr-785664, Assam	BVSc&AH/AAU/09	1.1.85
1480	Nepnam Pritam Singh S/o Sh Gopal Singh	ASM/2471/09	A.M.Road, Opp- Apsara Hakt, H.No.-30, Assam	BVSc&AH/AAU/09	23.12.84
1481	Nethajikumar.A (S.Aasai Thambi)	TNSVC/4643/09	297, Pandiyan Nagar, Manickamalayam, Erode-638004, Tamil Nadu	BVSc&AH/TANUVAS/09	18.10.85
1482	Nethra R S/o Ramachandrareddy N	KarnSVC/4295/09	Prabhakar Layout, Chintamani-560125, Chickballapura Dt, Karnataka	BVSc&AH/KVAFSU/09	26.1.87
1483	Nevse Omkar Prakash	MahaSVC/8355/10	1943, Raviwar Peth, Wai, Tal.Wai, Dist.Satara-412803, Maharashtra	BVSc&AH/MA&FSU/09	05.07.84
1484	Nidhi Pandey D/o Jai Prakash Pandey	RajSVC/3758/10	A-73, Shantilaxmi Kunj, Pawanpuri, Bikaner-334001, Rajasthan	BVSc&AH/SKRAU/10	26.05.83
1485	Nidhi Rajput D/o Sh Lalit Prasad Singh Rajput	MPSVC/2647/09	14/119, Vijay Chowk, Vijay Nagar, Jabalpur, M.P-482002	BVSc&AH/JNKVV/09	20.12.86
1486	Nihar Ranjan Dash, S/o Rajendra Kumar Dash	OSVC/2309/09	AT-EB-321, Badagada Brit Colony, Bhubaneswar-751018, Orissa	BVSc&AH/OUAT/09	28.11.85
1487	Nikam Chandrashekhar Panduranji	GVC/3039/09	Banas Dairy Colony Staff Quarter, Banas Dairy, jagana, Dist-B.K., Gujarat	BVSc&AH/PKV/89	13.09.65

1488	Nikam prashant Nawal	MahaSVC/8240/09	58-A, Phule Nagar, Sinfane, Tal-Shirpur Dist-Dhule-425405, Maharashtra	BVSc&AH/MA&FSU/09	25.01.86
1489	Nikunj A. Patel	GVC/3084/09	At&Po-Vasna-chaudhary, Navaghara, Ta-Dehgam, Diat-Gandhinagar, Gujarat	BVSc&AH/AAU/09	05.09.87
1490	Niraj Kashyap S/o Dinesh Kumar Kashyap	CHSVC/539/10	Thakur Dev Para Jarhagoan, Bilaspur, Chhattisgarh	B.V.Sc.&AH/IGKVV/09	18.02.85
1491	Niranjan B.H. S/o Hannappa	KarnSVC/4292/09	Biligere-572114, Tiptur Tq, Tumkur Dt., Karnataka	BVSc&AH/KVAFSU/09	5.2.86
1492	Nirmal Kumar Jeph S/o Gauri Shankar Meena	RajSVC/3718/10	Vill.- Rai Singh Ki Dhani, Post Cheeplata, Teh.- Neem Ka Thana, Sikar-332705, Rajasthan	BVSc&AH/SKRAU/10	12.03.86
1493	Nirmal Singh S/o Sh Ramchandra	HarSVC/2131	# 4293, Defence Colony, Jind Haryana	BVSc&AH/CCSHAU/09	16.3.86
1494	Nirmala Meena D/o Radhey Shyam Meena	RajSVC/3761/10	Vill.-Hatholi, Post- Rajopa, Teh.- Piplda, Kota, Rajasthan	BVSc&AH/SKRAU/10	05.01.85
1495	Nisha Cyriac, D/o Cyriac P.O	KSVC/3545/09	Panthalattu House, Thalayolaparambu P.O., Thalayolaparambu, Kottayam-686605, Kerala	BVSc&AH/KAU/09	29.04.85
1496	Nisha S.P. D/o N.Prabhakaran	KSVC/3603/09	Forest Staff Quarters, Near Forest Rest House, Konny, Pathanamthitta, Kerala	BVSc&AH/KAU/09	23.04.85
1497	Nisha, D/o Mohinder Singh Chandel	HVC-879/09	Vill. Barimian, P.O. Gherwin, Teh. Jandutha, distt. Bilaspur, HP	BVSc&AH/CSKHVKV/09	28.04.86
1498	Nishant Kumar S/o Upendra Thakur	JVC/631/09	Qr.No.-2194, Sec, No-XII F Bokaro Steel City, Bokaro-827012, Jharkhand	BVSc&AH/BAU/09	23.06.81
1499	Nishitha K.A., D/o Abdul Salam K.A	KSVC/3553/09	Karappan Veettil, Wadakanchery (R.S.)P.O Thrissur-680623, Kerala	BVSc&AH/KAU/09	13.04.86
1500	Nita Sharma D/o Ishwar Prasad Sharma	CHSVC/495/10	Village & Post- Bodla, District - Kabirdham, Chhattisgarh	B.V.Sc.&AH/IGKVV/09	31.08.85
1501	Nita Soni S/o Ramesh Lal Soni	CHSVC/507/10	Naman Klaring Road, Ambikapur, District- Sarguja, Chhattisgarh	B.V.Sc.&AH/IGKVV/09	18.06.82
1502	Nithish Andreyya Raja Singh. P.(K.C.J. Premsingh)	TNSVC/4464/09	9-B, Krishnapuram Second Street, (LGB Nagar) Saravanampatty PO, Coimbatore- 641035, Tamil Nadu	BVSc/TANUVAS/00	19.11.76
1503	Nithyavani.A (A.Annamalai)	TNSVC/4537/09	6, Gandhi Nagar 2nd Street, Tiruppattur, Vellore Dist. Tamil Nadu	BVSc&AH/TANUVAS/09	14.01.86

1504	Nitika Karakoti D/o Shri L.S.Karakoti	UKSVC/476/09	Village-Dhanoli-Talli PO Sinora, Tahsil- Bhikyasen, Distt. Almora, Uttarakhand	BVSc&AH/GBPUA&T/09	04.03.87
1505	Nitin Attupuram, S/o Mohan Attupuram	KSVC/3565/09	Attupurath, Pallipad (PO), Alappuzha-690512, Kerala	BVSc&AH/KAU/09	13.04.85
1506	Nitin Mohan Gupta S/o Sh R.M.Gupta	MPSVC/2655/10	M/s Vastrakok, Hanuman Chowk, Morena- 476001,M.P	BVSc&AH/JNKVV/09	13.9.83
1507	Nobal Rajkumar.T (K.S.K.Thangaman)	TNSVC/4488/09	Kumarapuri Illrd Street, Chennaimalai, Erode- 638051, TN	BVSc&AH/TANUVAS/09	17.01.85
1508	Nodoliya Muslimbhai Ahamadbhai	GVC/3018/09	At&PO-Basu, Ta Vadgam, Distt B.K.-385001, Gujarat	BVSc&AH/SDAU/09	24.07.85
1509	Nripendra Singh S/o Banspati Singh	CHSVC/528/10	Rekhankan Colony, H.No. 16, Manendragarh Road, Ambikapur, Chhattisgarh	B.V.Sc.&AH/IGKVV/09	15.10.68
1510	Nutan Ramteke D/o Sant Ram Ramteke	CHSVC/536/10	Ambagarh Chowki, Rajnandgoan, Chhattisgarh	B.V.Sc.&AH/IGKVV/09	04.06.85
1511	O.Srivivas S/o O.Raja Reddy	APSVC/04887/09	Sriramulapally (V), Kodimial (M), Karimnagar Dt. Andhra Pradesh	BVSc&AH/SVVU/09	15.01.85
1512	Odedra Hardas Jivabhai	GVC/2254	C/O, Haribhai Damjibhai Joshi, At : Advana, Ta & Dis- Porbandar ,Gujarat	BVSc&AH/GAU/00	26.5.77
1513	Ojasvita S/o Sh Surinder Kumar	HarSVC/2099	# 11B/15,Old Campus, CCS HAU Hisar, Haryana	BVSc&AH/CCSHAU/09	25.11.85
1514	Om Prakash Arya S/o Sh. Anand Ram	UKSVC/470/09	Village Nirkot, PO Naubara, distt. Almora, Uttarakhand	BVSc&AH/GBPUA&T/09	21.08.73
1515	Om Prakash Malav S/o Megh Raj	RajSVC/3688/09	Vill.-Sitapura, Post-Alphanar, VIA-Talera, Bundi-323001, Rajasthan	BVSc&AH/MAFSU/09	01.01.84
1516	Om Prakash S/o Harchand Ram	RajSVC/3618/09	V/P- Bhojasar, VIA-AAU, Teh.-Phalodi, Jodhpur-342311, Rajasthan	BVSc&AH/RAU/09	03.09.82
1517	Om Singh S/o Harkesh Singh	RajSVC/3629/09	V/P Kherali Gurjar, VIA-Ghaunsala, Teh.- Hindauncity, Karauli-322254, Rajasthan	BVSc&AH/RAU/09	02.08.82
1518	Oza Govindbhai Jivrambhai	GVC/1846	At - Bhatsar, Po- Ildoda, Ta - Chansma, Dist - Patan,Gujarat	BVSc&AH/GAU/95	1.6.66
1519	Oza Kaushikkumar Mangalbhai	GVC/1971	Bhaktikunj, Nagar Vaniya Vas, At & Po-Lodra, Ta - Mansa, Dist - Gandhinagar- 382 835, Gujarat	BVSc&AH/GAU/96	6.2.71

1520	Oza Rajkumar Shashikant	GVC/3057/09	House No.13, Osa Nivas Nr.Unnati store, Sanjay Chowk, Amraiwadi, Ahmedabad,Gujarat	BVSc&AH/AAU/09	25.07.87
1521	Oza Sanjaykumar Keshavlal	GVC/1948	A-9, "Parishram", Shaktinagar -2, East to Mansrovar Road, Palanpur-385 001, Dis- Banaskantha, Gujarat	BVSc&AH/GAU/96	23.4.74
1522	Oza Vasantbhai Vitthalbhai	GVC/1450	At. & Po: Bhatsar, Ta: Chansama, Dis-Patan - 384 230,Gujarat	BVSc&AH/GAU/91	1.6.67
1523	Oza Vijaykumar Mafatlal	GVC/2062	Prajapativas, Nr. Khatrikuva Bus Stop, At: Vijapur, Ta: Vijapur, Di: Mehsana,Gujarat	BVSc&AH/GAU/97	22.8.73
1524	P. Bhanu Babu S/o P. Nagaraju	APSVC/04940/09	B.C.Colony, D.No.21-84, Narsipatnam, Vizag Dist-531116, Andhra Pradesh	BVSc&AH/SVUU/09	27.05.86
1525	P. Guru Vishnu S/o P. Gurappa	APSVC/04864/09	2/415-B,T.B.Road, Proddutur-516360, Andhra Pradesh	BVSc&AH/SVUU/09	27.07.87
1526	P. K. Maurya S/o Dataram Maurya	UPSVC/4930/09	Moh. Padav, PO.- Nawab Ganj, Distt.- Gonda,UP	BVSc&AH/NDUA&T/09	17.02.83
1527	P. Mary Vyduryam D/o P.Prasada Rao	APSVC/04956/09	Near RCM Church, Ramanagaram, Challapalli, Krishna Dist., Andhra Pradesh	BVSc&AH/SVUU/09	23.01.86
1528	P. Naresh S/o P. Jagannadha Murthy	APSVC/04948/09	B.K. Palli (P), Kotavratla (M), Vizag Dist, Andhra Pradesh	BVSc&AH/SVUU/09	02.03.84
1529	P. Sunitha D/o P.Jaya Raju	APSVC/04972/09	D.No.1-3-25/2, Meraka Veedhi, Kovvur, West Godavari Dist-534350, Andhra Pradesh	BVSc&AH/SVUU/09	17.05.87
1530	P. Tulasidas Patel S/o P. Tulasi Das	APSVC/04937/09	D.No. 33-21-10, Patel & company, Seethampuram, Eluru Road, vijayawada- 520002, Andhra Pradesh	BVSc&AH/SVUU/09	03.05.85
1531	P.Anil S/o P.Rama Rao	APSVC/04977/09	H.No.6/185, Peddaveedhi, Gudivada, Krishna Dist., Andhra Pradesh	BVSc&AH/SVUU/09	14.07.85
1532	P.Chaturvadi D/o P.Sathaiah	APSVC/04979/09	6-9-271/7, Padma Nagar Colony, Visweswara Sizing Works, nalgonda (P), Nalgonda Dist., Andhra Pradesh	BVSc&AH/SVUU/09	10.07.85
1533	P.K. Shinde S/o Narayan Rao Shinde	CHSVC/459/09	65,Srishti Garden, Ring Road No.-01, Telibandha, Raipur,Chhattisgarh	BVSc&AH/JLNKVV/88-89	07.03.66
1534	P.K.Swarnkar S/o V.P.Swarnkar	UPSVC/4975/09	Miyapura Rath, Distt Hamirpur, UP	BVSc&AH/UPPDDUPCVV /09	18.08.81
1535	P.Manju Madhavan D/o P.Madhavan Pillai	APSVC/04847/09	D.No. 21-71/2, Sri Kanaka Mahalakshmi nagar, Kakani Nagar, NAD (P), Visakhapatnam- 530009, Andhra Pradesh	BVSc&AH/SVUU/09	28.01.85

1536	P.P. Singh S/o K.P. Singh	UPSVC/5020/09	VIII.- Habzbpur, Tehsil- Shahganj, Jaunpur, UP	BVSc&AH/JNKVV/09	09.04.83
1537	P.Pundari Babu S/o P. Sri Krishna Murthy	APSVC/04936/09	H.No. 12-42, Kothapet, Vetapalem (M), Kothapet Post, Prakasam Dist-523157, Andhra Pradesh	BVSc&AH/SVVU/09	15.06.86
1538	P.Ram Reddy S/o Laxminarsa Reddy	APSVC/04815/09	H.No. 2-51/B, Sangameshwar (P&Veterinary Council of India), Domakonda (M), Nizamabad Dt-503123, Andhra Pradesh	BVSc&AH/SVVU/08	10.04.79
1539	P.Ramya D/o P.Jayachandra Reddy	APSVC/04965/09	Pachikapallem (P), Vedhurukuppam (M), Chittoor Dist-517569, Andhra Pradesh	BVSc&AH/SVVU/09	12.07.85
1540	P.S. Deshmukh S/o D.S. Deshmukh	CHSVC/482/09	Robinson Family Ward, Palace Road, Jagdal Pur, Chhattisgarh	BVSc&AH/JLNKVV/88-89	20.02.62
1541	P.Sarada D/o P.Gopinath	APSVC/04829/09	W/o Dr.B.Suresh Babu, C/o B.Venkateswarlu, Near Old Post office, Jandrapet(P), Chirala (M), Prakasam Dt. Andhra Pradesh	BVSc&AH/SVVU/09	06.08.85
1542	P.Suresh Kumar S/o Adinarayana	APSVC/04830/09	D.No. 7-42-98/1, Sangivalasa, Chittivalasa (P), Bheemunipatnam (M), Visakhapatnam (Dt.), Andhra Pradesh	BVSc&AH/SVVU/09	22.05.85
1543	P.Venkata Narasimha Rao S/o P.Malhal Rao	APSVC/04900/09	H.No. 3-63, Near Govt.School, Srirampur (V), Manchrial (M), Adilabad Dist. Andhra Pradesh	BVSc&AH/SVVU/09	25.07.84
1544	Padaliya Dipakkumar Keshavjibhai	GVC/2284	At&Po: Navagam, Ta: Bhanvad, Dis : Jamnagar, Gujarat	BVSc&AI /GAU/00	1.10.74
1545	Padaliya Nileshkumar Ratilal	GVC/3128/10	Satadhar Society, Nr-Madhuram Society, Ravapar Road, Morabi, Dist-Rajkot, Gujarat	BVSc&AH/AAU/10	18.02.87
1546	Padheriya Yogeshkumar Dharamshibhai	GVC/3058/09	New College-37, Khetiwadi staff quarters anand Agricultural University, Anand, Gujarat	BVSc&AH/AAU/09	09.09.86
1547	Padhiyar Pradipkumar Trikamlal	GVC/3019/09	25, laxminagar society, Nr. Becharpura fatak, At&PO-Palanpur, Dist-B.K-385001, Gujarat	BVSc&AH/SDAU/09	15.05.86
1548	Padiya Nikunj Bipinchandra	GVC/3085/09	Karmadeep, Mohan Nagar, Varsada Road, Amreli, Gujarat	BVSc&AH/AAU/09	30.11.86
1549	Padmavathy.C (K.P.Kumar)	TNSVC/4433/09	Plot No.25, Rajiv Gandhi Nagar, Walajapet, Vellore 632518, Tamil Nadu	BVSc/TNAU//87	23.11.62
1550	Paghdar Ramesh Pancha	GVC/1212	C/O, Panchabhai Mavabhai Paghdar, At :- Ankolwadi (Gir), Ta- Talala (Gir), Dis- Junagadh, Gujarat	BVSc&AH/GAU/89	1.8.65
1551	Pagrut Sachin Bhalchandra	MahaSVC/8172/09	At/Post-Kanshioni, Tal. Dist.Akola-444005, Maharashtra	BVSc&AH/MA&FSU/09	02.06.83

1552	Paladiya Devraj Lalajibhai	GVC/1639	At : Lathi, Bagicha plot, Against Civil hospital, Ta - Lathi, PIN- 365 430 , Dist - Amreli , Gujarat	BVSc&AH/GAU/93	1.6.69
1553	Palanivelu.A (Angappa Gounder)	TNSVC/4452/09	Plot No.18, Venkatachalam Street, Malaiyappa Gounder layout, Gandhinagar Extn.Udumalpet Town Tirupur Dist-642154, Tamil Nadu	BVSc/TNAU/84	13.06.47
1554	Pan Rameshbhai Harjibhai	GVC/1871	At-Po. Vajdigadh, Saushtra University. Ta. Rajkot 360005,Gujarat	BVSc&AH/GAU/95	25.3.70
1555	Panchabhai Prakash Tulshiramji	GVC/2103	Maruti Chamber's, A-5, Second Floor, Goharbaugh, Billimora, Ta : Ganadevi, Dis : Navasari	BVSc&AH/PKV/88	8.10.62
1556	Panchal Akhilesh Jayantilal	GVC/1468	D-17, Vardhman Bunglows, Outside Ahmedabad Railway Crossing, Palanpur, Dis- BK, Gujarat	BVSc&AH/GAU/91	3.6.67
1557	Panchal Alpeshkumar Ghanshyambhai	GVC/1838	At&Po: Samalaya Station, Ta: Savli, Dis: Vadodara - 391 520,Gujarat	BVSc&AH/GAU/93	26.10.69
1558	Panchal Anilkumar Govinbhai	GVC/808	B- 202, Suryalok Flats, Sorabaji Compound, Juna Vadaj, Ahmedabad- 380 013, Gujarat	BVSc&AH/GAU/84	4.8.61
1559	Panchal Arvindkumar Kantilal	GVC/964	At & Post - Nandisar, Ta.- Godhra, Dist : Panchmahal – 388 712, Gujarat	BVSc&AH/GAU/86	17.3.64
1560	Panchal Hasmukhbhai Mulabhai	GVC/1471	At: Dolgadh, Po: Vaktapur, Ta: Himatnagar, Di: Sabarkantha,Gujarat	BVSc&AH/GAU/91	25.8.67
1561	Panchal Kanaiyalal Narsangbhai	GVC/1095	Mahalaxmi Society, Vav Road, Bhabhar, Dis : Banaskantha, Gujarat	BVSc&AH/GAU/88	1.6.62
1562	Panchal Kantibhai Atmaram	GVC/960	At & Po: Motijher, Ta : Kapadawanj, Dis: SK, Gujarat	BVSc&AH/GAU/87	3.6.63
1563	Panchal Kantilal Ishvarlal	GVC/1556	At & Po: Munpur, Ta: Santrampur, Dis : Panchmahal,Gujarat	BVSc&AH/GAU/92	2.5.68
1564	Panchal Natwarlal Rayajibhai	GVC/568	31, Om Nagar, Opp. Payal Park, Subhanpura, Baroda, Gujarat	BVSc&AH/GAU/80	6.5.55
1565	Panchal Pravinchandra Punjabhai	GVC/1169	Hadiyol Pul Chapariya, Opp- Vishwakarma Flour Factory, Himatnagar- 383001, Dis : Sabarkantha , Gujarat	BVSc&AH/GAU/89	1.6.66
1566	Panchal Rajendrakumar Kantilal	GVC/1555	At & Post-Nadisar, Ta-Godhara, Dist- Panchmahal-388710,Gujarat	BVSc&AH/GAU/92	2.5.68
1567	Panchal Sureshbhai Ranchhodbhai	GVC/700	Near Bandhala Pipla, At & Po- Pij, Ta- Nadiad, Dis- Kheda, Gujarat	BVSc&AH/GAU/79	1.5.54

1568	Panchami Girdharlal Vithaldas	GVC/333	4/Krishna Park Society, Nr. IRMA Gate, Opp. Community Hall, Anand-388001, Gujarat	BVSc&AH/GAU/74	3.6.49
1569	Panchbhai Nitin Dattatraya	GVC/334	C/97, Kotiyaknagar Society - 4, Ajava Road, Behind Pani Tanki, Vadodara, Gujarat	BVSc&AH/BVCKKVM5/74	22.6.52
1570	Panchlochia Prashant Hanskumar	GVC/1047	Plot No.221, Sector No 27, Gandhinagar, Gujarat	BVSc&AH/GAU/88	16.1.63
1571	Pande Pushpkant Ramlaxman	GVC/816	Rameshwar H B Park Society, Bardoli, Dis-Surat, Gujarat	BVSc&AH/GAU/84	3.6.60
1572	Pandiaraj.P (A.Palanichamy)	TNSVC/4471/09	Pullakkapatti, Devadanapatti PO, Theni district-626502	BVSc/TANUVAS/93	17.03.67
1573	Pandit Kamalnayan Motilal	GVC/1087	Plot - 696, Nr. Sarasvati Vidhya mandir, Sector - 6/B, Gandhinagar, Gujarat	BVSc&AH/GAU/88	12.8.66
1574	Pandor Jitendrakumar Manilal	GVC/3162/10	At-Malanpur, Ta-Santrampur Dist-Panchmahal, Gujarat	BVSc&AH/AAU/10	29.02.84
1575	Pandya Amitkumar satyendrprasad	GVC/3020/09	27/A, Narayannagar society, Dakor road Kapadwang, Dist-Kheda, Gujarat	BVSc&AH/SDAU/09	29.01.85
1576	Pandya Bipin Pratapray	GVC/43	3, Babarik Society, Nr. Malav Talav, Jivraj Park, Ahmedabad, Gujarat	BSc(Vet)/Bombay Uni/57	2.5.57
1577	Pandya Chandrakant Maganlal	GVC/117	"Om Shanti", 18- Yoginagar, At & Ta-Gondal, Dis-Rajkot, Gujarat	BVSc&AH/Nagpur Uni/66	15.9.43
1578	Pandya Nautamlal Chunilal	GVC/1051	At- Kundhada, Via- Thaliya, Ta- Talaja, Dist Bhavnagar, Gujarat	BVSc&AH/GAU/88	25.1.67
1579	Pandya Paragkumar Ramanchandra	GVC/1557	705, Shivam flats, Anand Mahal Road, Adajan Road, Surat, Gujarat	BVSc&AH/GAU/92	21.2.69
1580	Pandya Sanatan Chandrakant	GVC/241	F-1, Panchshil apartment Opp- Jalaram Temple, Near, Paldi Railway crossing Ahmedabad -06, Gujarat	BVSc&AH/GAU/71	4.8.47
1581	Pandya Sanketkumar Bharatkumar	GVC/2251	16-"Sanket" Santramnagar Society, Near Nehrunagar, Pij Road, Nadiad-387003 Dis-Kheda, Gujarat	BVSc&AH/GAU/00	12.5.77
1582	Pandya Umakant Vasudevabhai	GVC/921	At & Po- Rudan, Ta - Mahamadabad, Dis - Kheda, Gujarat	BVSc&AH/GAU/86	8.9.63
1583	Pandya Vinodchandra Mohanlal	GVC/66	B-4, Valbhavpark Society, B/H. Vallabh Nagar Police Choki, Nadiad- 387 002 Dis- Kheda Gujarat	BVSc/Bombay Uni/60	8.4.35

1584	Panera Dilipkumar Devayathbhai	GVC/2031	At - Kayalana (GHED), Ta - Manavadar, Dist - Junagadh PIN- 362630,Gujarat	BVSc&AH/GAU/95	25.5.71
1585	Paneri Narendra Narmadashankar	GVC/685	Hill Drive, Plot No.2250, B/H.Circuit House Bhavnagar : 364 002, Gujarat	BVSc&AH/GAU/80	17.8.54
1586	Panicker Sneha Surendra (D/o Surendra Panicker P.K	KSVC/3497/09	Pulikkallumpurathu House, Chalappally P.O, Ezhmattoor (VIA), Pathanamthitta, Kerala	BVSc&AH/MA&FSU/09	05.02.86
1587	Pankaj Garg S/o Vijay Kumar	Pb.SVC/2895/09	67, Gupta Commission Agent, Grain Market,Sardulgarh, Distt.Mansa,Punjab	BVSc&AH/GADVASU/09	11.12.87
1588	Pankaj Kumar S/o Nardev Singh	UPSVC/4902/09	Vill. Zarrifpur, PO- Nahtour, Distt.- Bijnor,UP	BVSc&AH/GBPUA&T/09	10.02.81
1589	Pansuriya Satish Gangdas	GVC/1493	76,Anjali Bungalow, B/H- Mini Ambikanagar, near Laxmipark Railway Crossing,Palanpur- 385001 , Gujarat	BVSc&AH/GAU/92	13.9.68
1590	Panwar Krishnapal Singh	GVC/1356	C/O, Veterinary Section, Sabar Dairy, At & Po- Boria, Ta-Himmatnagar, Dis- Sabarkantha PIN- 383001	BVSc&AH/GBPUAT/79	15.9.57
1591	Paradava Jayprakash Bhimjibhai	GVC/814	"Radhe", Gokuldham Soc., Block No-97, Krushnanagar Main Road, Rajkot-4, Gujarat	BVSc&AH/GAU/84	3.4.59
1592	Paramasivan.M (A.Madasamy)	TNSVC/4479/09	93, Vanigar Street, Vadassery, Nagercoil, Kanyakumari District, Tamil Nadu	BVSc/TANUVAS/95	23.04.69
1593	Parameshwara S/o Virupakshamurthy B.P.	KarnSVC/4282/09	Annapoorna Circle, Bukkambudhi-577145, Tarikere Tq, Chickmagalur Dt.,Karnataka	BVSc&AH/KVAFSU/09	15.5.86
1594	Parameswari.S (K.Shanmugam)	TNSVC/4650/09	Mannavan Kottagam, Pinnathur PO, Thiruthuraiipoondi taluk, Thiruvarur-614706, Tamil Nadu	BVSc&AH/TANUVAS/09	29.05.85
1595	Parampal Singh S/o Jaspal Singh	Pb.SVC/2887/09	134, Model Town,Phase-II,Urban Estate,Bathinda,Punjab	BVSc&AH/GADVASU/09	30.9.85
1596	Parasani Husenbhai Rahimbhai	GVC/1215	Ajwa Park, B/H Jampura Primary School, Jampura, Palanpur-385001,Gujarat	BVSc&AH/GAU/89	7.4.65
1597	Pardeshi Amit Subhash	MahaSVC/8297/09	14/A, Govt.Quarter, Sheli Mendhi Farm, Gokhalenagar, Tal. Dist. Pune- 411016,Maharashtra	BVSc&AH/MA&FSU/09	14.02.86
1598	Pardeshi Ravindra Bhagwan	MahaSVC/8203/09	Shiv Colony H.No-24, A/P-Jamner Dist- Jalgaon-424206,Maharashtra	BVSc&AH/MA&FSU/09	15.04.87
1599	Parekh Bhavinabhan Hareshkumar	GVC/2199/09	At-Maj falia At&Po Vejalpur, Ta-Kalol, Dist- Panchmahal-389340,Gujarat	BVSc&AH/AAU/99	27.07.77

1600	Pareil Tulsiben Dilipkumar	GVC/3137/10	18, Mangalam Park, Jitodia Road, Anand,Gujarat	BVSc&AH/AAU/10	22.11.87
1601	Parikh Sanjaykumar Dineshchandra	GVC/823	Veterinary Officer, Intensive Cattle Dev. Project, Krishibhavan, Paldi, AHMEDABAD, Gujarat	BVSc&AH/GAU/85	23.2.63
1602	Parmar Abhishek Vithalbhai	GVC/3129/10	D-13, Axay Society, Opp Raghuvir Estate, Odhav Road, A'Bad,Gujarat	BVSc&AH/AAU/10	15.05.88
1603	Parmar Amrutbhai Shivabhai	GVC/1422	At & Po- Ravidham, Radhanpur, Patan,Gujarat	BVSc&AH/GAU/91	2.5.68
1604	Parmar Bipinchandra Jivanlal	GVC/809	C/O, JG Parmar, 14/22, Manjushri Mill's New Chawl, Nr. Balia's Limdi, New Civil Road, Ahmedabad-16	BVSc&AH/GAU/84	6.8.61
1605	Parmar Deva Masari	GVC/1924	At- Sukhpur, Sherbag, Ta - Maliya Hatina, Dist - Junagadh,Gujarat	BVSc&AH/GAU/96	31.5.67
1606	Parmar Girishkumar Jashvantray	GVC/1477	14, Gayatri Society, At&Po: Madhapar, Ta : Bhuj, Dis- Kachchh,Gujarat	BVSc&AH/GAU/91	4.10.68
1607	Parmar Gopalbhai Somabhai	GVC/281	At- Kanoda, Ta- Chansma, Dis- Patan, Gujarat	BVSc&AH/AU/72	12.3.49
1608	Parmar Hareshbhai Govindbhai	GVC/1538	At- Simar, Via- Sherbaug (Gadu), Ta- Veraval, Dis- Junagadh PIN- 362255,Gujarat	BVSc&AH/GAU/92	13.6.69
1609	Parmar Kanji Mavsangbhai	GVC/1208	At- Lanhanka Po- Kalyanpar Ta- Vallabhipur, Dis- Bhavnagar,Gujarat	BVSc&AH/GAU/89	1.5.65
1610	Parmar Mahendrakumar Manajibhai	GVC/635	"Pitru-Ashish", Subhashnagar- 9/10, Nr. Ammrapali Cinema, Raiya Road, Rajkot- 363 001, Gujarat	BVSc&AH/GAU/78	11.1.55
1611	Parmar Maheshkumar Vajabhai	GVC/2271	At & Po- Kukadiya, Ta- Idar, Dis- Sabarkantha- 383 410,Gujarat	BVSc&AH/GAU/00	21.7.77
1612	Parmar Pratap Bhurabhai	GVC/551	225, Ajitnagar Society, Nr. Akota Stadium, Vadodara, Gujarat	BVSc&AH/GAU/80	21.8.55
1613	Parmar Pravinkumar Harjivandas	GVC/243	D-94,VrundavanTownship,Harinagarniscon Mandir Road,Gotriroad,Baroda, Gujarat	BVSc&AH/GAU/71	3.2.51
1614	Parmar Pravinsinh Amarsinh	GVC/3059/09	At&Po-Bilpad, ta-Anklav, Dist-Anand, Gujarat	BVSc&AH/AAU/09	22.08.82
1615	Parmar Rajendrasinh Punamsinh	GVC/2048	At & Po-Mujpur,Ta-Padara,Dist-Baroda- 391440,Gujarat	BVSc&AH/GAU/97	7.6.71

1616	Parmar Rohitkumar Shantilal	GVC/3130/10	At&Po-Raypura (Via-Bhayli) Dist- Baroda,Gujarat	BVSc&AH/AAU/10	12.05.87
1617	Parmar Shashikant Girdharbhai	GVC/2073	At & Po-Tintoda,Dist-Gandhinagar,Gujarat	BVSc&AH/GAU/96	22.6.74
1618	Parmar Vinodchandra Chimanlal	GVC/844	A-34, Mahakali Society, Nr. Parivar Vidhyalya, Ajwa Road, Vadodara-390 019, Gujarat	BVSc&AH/GAU/85	11.10.60
1619	Parmar Vinodkumar Balkrishna	GVC/1075	Ambika Society, Chansama Road, Patan, Gujarat	BVSc&AH/GAU/88	10.3.65
1620	Parminder Singh S/o Saroop Singh	Pb.SVC/2881/09	H.No.F-11/65, Jawahar Nagar Chowk, Nr Bright Days School,Batala Road,Amritsar- 143001	BVSc&AH/GADVASU/09	7.5.84
1621	Parsana Dipen Khimjibhai	GVC/3131/10	"Shri Ram Kripa"St-2, Bhavnath Park- 1,Haridhana Marg. B/h Kothariya Main Road, Rajkot,Gujarat	BVSc&AH/AAU/10	27.09.88
1622	Parthasarathy G (V.Gopalan)	TNSVC/4418/09	68, Venkatesa Nagar 2nd Street, Virugambakkam, Chennai-600092, Tamil Nadu	BVSc/M.U/60	31.03.39
1623	Parveen Kumar S/o Sh Rajender Singh Bodwal	HarSVC/2107	H.NO. 1, P.W.D. B & R Colony Nilokheri Dist, Kamal ,Haryana	BVSc&AH/CCSHAU/09	15.12.87
1624	Parvesh Thakur, S/o Arjun Singh Thakur	HVC-868/09	Vill. Khatnal, P.O. Ludder Mahadev, Teh. Bhoranj, distt. Hamirpur, HP	BVSc&AH/CSKHPKV/09	22.09.85
1625	Pashava Hidayatulla Abdulrauf	GVC/1804	At & Po- Iloi, Ta- Himmatnagar, Dis- Sabarkantha PIN- 383220,Gujarat	BVSc&AH/GAU/94	1.5.73
1626	Patel Chandulal Jaitaram	GVC/408	Plot No-228/B, Sector- 28,NavrachanaSpociety,Gandhinagar, Gujarat	BVSc&AH/GAU/76	27.6.52
1627	Patel Kalpeshkumar shankarbhai	GVC/1974	27,Ridhi Sidhi society,Near Jalaram Mandir.Dabhoi Dist-Baroda,Gujarat	BVSc&AH/GAU/96	24.5.74
1628	Patel Kantibhai Shankardas	GVC/511	25/B,Bombay Society, Mahavirnagar,Himatnagar, Gujarat	BVSc&AH/GAU/79	1.6.56
1629	Patel Krushnarvind Babalbhai	GVC/1891	C-5, Devcity, B/h Sayona City, RC Technical Road, Ghatlodia, Ahmedabad-61 ,Gujarat	BVSc&AH/GAU/95	12.6.73
630	Patel Maheshkumar Dalsangbhai	GVC/2122	At&Po-Jalotra,(Nava para)Ta-Vadgam,Dist- B.K.,Gujarat	BVSc&AH/GAU/88	28.7.74
531	Patel Pravinbhai Atmaram	GVC/1232	At&Po- Kalol,Kalyanpura, near Khodiyar mata Temple ,Dt -Gandhinagar,Gujarat	BVSc&AH/GAU/90	1.6.67

1632	Patel Shantilal Keshavlal	GVC/103	B-2/202, Madhuvrund (Shvi Park) Society, Ghatlodiya, A'bad, Gujarat	BVSc&AH/Nagpur Uni/65	5.5.40
1633	Patel Alkeshkumar Gopalbhai	GVC/1745	33, Chandralok, Society, Nr. Navasarijan School, Ranip, Ahmedabad- 382480,Gujarat	BVSc&AH/GAU/94	29.11.71
1634	Patel Alpesh Kumar Natavarlal	GVC/3141/10	At-Itadara, Ta-Mansa, Dist-Gandhinagar,Gujarat	BVSc&AH/AAU/10	01.05.78
1635	Patel Alpeshkumar Jayantilal	GVC/2167	279/ Tarangahill Society, Near Arjun Ashram , Chandlodiya , Ahmedabad-382481 ,Gujarat	BVSc&AH/GAU/99	1.7.76
1636	Patel Amichandbhai Shankerbhai	GVC/504	At & Po- Kaniyol, Ta- Himmatnagar, Dis-Sabarkantha, Gujarat	BVSc&AH/GAU/79	13.7.55
1637	Patel Amit Harilal	GVC/2300	"Premdeep", 2-Naval Nagar Rajkot-4,Gujarat	BVSc&AH/GAU/00	17.7.78
1638	Patel Amratbhai Bhikhabhai	GVC/608	B-6, Anil Flat, Dafnala Road, Opp- Chandralok Tower, Shahibaug, Ahmedabad-04, Gujarat	BVSc&AH/GAU/81	2.10.56
1639	Patel Amrutbha Manilal	GVC/553	D-14, Abhiswet Apartment, K K Nagar Char Rasta, Ghatlodiya, Ahmedabad-61, Gujarat	BVSc&AH/GAU/80	13.9.55
1640	Patel Amrutlal Balubhai	GVC/2290	At & Po: Koydam, Ta : Virpur , Dis : Kheda - 388 260,Gujarat	BVSc&AH/GAU/00	26.4.76
1641	Patel Amrutlal Bhikhabhai	GVC/406	At & Po- Chasa, Ta- Chokhali, Dis- Navsari, Gujarat	BVSc&AH/GAU/76	10.12.51
1642	Patel Anilkumar Cheldas	GVC/1701	At - Sunvala, Ta - Detroj, Dist - Ahmedabad,Gujarat	BVSc&AH/GAU/94	1.10.71
1643	Patel Anilkumar Prahladbhai	GVC/1274	C/O, Uttam Dairy, Ahmedabad,Gujarat	BVSc&AH/GAU/90	16.7.67
1644	Patel Arvind Manilal	GVC/368	23, Samruddhi Bunglows-I, Near Bhavin School, Off - S G Road, Thaltaj, Ahmedabad-380 054, Gujarat	BVSc&AH/GAU/75	1.6.51
1645	Patel Arvindbhai Maganlal	GVC/505	26, Sagar Bungalow, Sola Road, Nr. Gulab Tower, Ahmedabad, Gujarat	BVSc&AH/GAU/79	1.6.54
1646	Patel Arvindbhai Manilal	GVC/1491	At&Po: Sundarpur, Nr. Mahadev Vas, Ta: Vijapur, Di: Mehsana,Gujarat	BVSc&AH/GAU/92	1.6.67
1647	Patel Arvindkumar Keshavlal	GVC/1661	At & Po- Sametra, Ta- Mehsana, Dis-Mehsana - 384001,Gujarat	BVSc&AH/GAU/93	12.8.70

1648	Patel Arvinkumar Babulal	GVC/1743	At & Po - Pali, Ta -Unjha, Dis- Mehsana,Gujarat	BVSc&AH/GAU/94	16.4.71
1649	Patel Ashvinkumar Dhulabahi	GVC/3132/10	At&Po-Debhari Ganesh Chowk Patelwda Ta- Virpur Dist- Kheda,Gujarat	BVSc&AH/AAU/10	22.06.87
1650	Patel Ashish Ambalal	GVC/1767	4, Akshardham Bungalows, Near Visnagar Road, At -Unja, Ta-Unja, Dt -Mehsana,Gujarat	BVSc&AH/GAU/89	31.8.66
1651	Patel Ashish Naranbhai	GVC/2149	25, Sk Bank D Society, Gayatri Tample Road, Mahavirnagar, Himatnagar, Di: Sabarkantha, Gujarat	BVSc&AH/GAU/98	27.11.74
1652	Patel Ashishkumar Chaturbhai	GVC/1752	1, Gopi Raw Bung, Opp, Vishwas City -2, R C Technical Road, Ghatlodiya, Ahmedabad, Gujarat	BVSc&AH/GAU/94	29.8.72
1653	Patel Ashokkumar Chaturbhai	GVC/2023	At - Bhunav, Ta - Unjha, Dist - Mehsana- 384 131,Gujarat	BVSc&AH/GAU/97	1.6.69
1654	Patel Ashokkumar Naranbhai	GVC/897	C-303, Suryoday-II, Opp- Pavapuri Bus Stand, Janata Nagar Road, Ahmedabad- 61, Gujarat	BVSc&AH/GAU/86	30.3.64
1655	Patel Ashvinkumar Ratilal	GVC/1065	Nr. Jain Derasar, At & Po- Langhnaj, Ta & dis- Mehsana PIN- 382730, Gujarat	BVSc&AH/GAU/88	9.7.66
1656	Patel Ashvinkumar Virabhai	GVC/884	A/8, Akashganga Apartment, Opp- Pranav Society, Manjalpur, Vadodara-4, Gujarat	BVSc&AH/GAU/87	29.11.63
1657	Patel Ashwinbhai Dahyabhai	GVC/1754	At & Po- Laloda,Ta- Idar, Dis- SK Pin- 383 430,Gujarat	BVSc&AH/GAU/94	29.6.72
1658	Patel Atulkumar Chhaganbhai	GVC/1521	7-8, Marutinagar, Kamrej Char Rasta, Ta- Kamrej, Dis- Surat 394 185,Gujarat	BVSc&AH/GAU/92	11.6.70
1659	Patel Avinash Gordhanbhai	GVC/1290	At & Po- Koth, Ta- Dholka, Dis- Ahmedabad,Gujarat	BVSc&AH/GAU/90	2.7.67
1660	Patel Babubhai Bhagvandas	GVC/442	7/Ratnavihar Bungalows, Sola Pani Ni Tanki, Opp.Surydeep Bungalows, Sci City Rd, Sola, A'bad, Gujarat	BVSc&AH/GAU/77	6.1.55
1661	Patel Babubhai Joitaram	GVC/1248	C/O, Veterinary Section, Sabar Dairy, At & Po- Boria, Ta-Himmatnagar, Dis- Sabarkantha-1, Gujarat,	BVSc&AH/GAU/90	1.6.67
1662	Patel Babubhai Motiram	GVC/554	1-3, Ashray Duplex, Nr. Indira Bridge, Hansol, Ahmedabad- 382 475, Gujarat	BVSc&AH/GAU/80	1.6.57
1663	Patel Babubhai Rambhai	GVC/284	26, Shreenathjinagar Co-op. Housing Society, Mill Road, At & Po: Kadi, Dis : Mehsana-382 715, Gujarat	BVSc&AH/GAU/72	23.1.46

1664	Patel Babubhai Talasibhai	GVC/720	72, Nandanvan Society, Anandnagar, Idar, Ta- Idar, Dis- Sabarkantha, Gujarat	BVSc&AH/GAU/83	1.6.58
1665	Patel Babulal Becharbhai	GVC/443	H/16, Sheetalwadi Soc., Nirnaynagar Road, Ranip, Ahmedabad-382480, Gujarat	BVSc&AH/GAU/77	5.5.54
1666	Patel Babulal Kanjibhai	GVC/555	At & Po- Damavas, Ta- Khedbrahma, Dis- Sabarkantha, Gujarat	BVSc&AH/GAU/80	21.5.57
1667	Patel Babulal Maganlal	GVC/702	6, Sabar Soc., Gaytri Mandir Rd., Himmatnagar, Sabarkantha - 383 001, Gujarat	BVSc&AH/GAU/80	25.7.57
1668	Patel Babulal Virambhai	GVC/1305	At -Devinapura, Po- Mitha, Ta & Dist - Mehsana- 384 002, Gujarat	BVSc&AH/GAU/90	1.6.66
1669	Patel Bakulkumar Khemchandbhai	GVC/913	5, Prasthan Banglow-1, Nirman Complex, RC Technical Road, Ghatlodiya, Ahmedabad-61, Gujarat	BVSc&AH/GAU/87	6.7.64
1670	Patel Bakulkumar Virchandbhai	GVC/2116	33, Gurukrupa Society, Near Devti Fabrics Mill, Opp- GEB, Siddhapur, Dis- Patan PIN- 384151, , Gujarat	BVSc&AH/GAU/98	18.3.75
1671	Patel Baladevbhai Mangalbhai	GVC/946	Pushpkunj Society, At&Po: Ranasan, Ta: Vijapur, Di: Mehsana, Gujarat	BVSc&AH/GAU/87	1.2.64
1672	Patel Bankimchandra Narsinhbhai	GVC/2275	At- Surajpura, Po- Gambhoi, Ta- Himmatnagar, Dis- Sabarkantha- 383 030, Gujarat	BVSc&AH/GAU/00	23.8.78
1673	Patel Bhadreshkumar Ishwarbhai	GVC/871	11, Aksharkunj Soc., Gopi- Vidhyanager Road, Dist : Anand - 388 001, Gujarat	BVSc&AH/GAU/86	2.6.63
1674	Patel Bhagirath Dwarkadas	GVC/821	Veterinary Dispensary, Jodia Road, At & Ta- Dhrol, Dis : Jamnagar, Gujarat	BVSc&AH/GAU/84	23.1.63
1675	Patel Bhagvanbhai Punjabhai	GVC/929	5, Kameshwar Bunglows, Opp- Dev City, Nr. Ganesh park, RC Technical Road, Chanakyapuri, Ghatlodiya, Ahmedabad-61	BVSc&AH/GAU/87	1.6.62
1676	Patel Bhagwanbhai Vanamalidas	GVC/721	B-8, Parijat Bunglows, Opp- Pride Hotel, Judges Bungalow Road, Bodakdev, Ahmedabad-15, Gujarat	BVSc&AH/GAU/83	1.6.58
1677	Patel Bharatkumar Bhikhabhai	GVC/2255	At- Shihora Ta- Kapadvanj, Dis- Kheda, PIN- 387 651, Gujarat	BVSc&AH/GAU/00	21.8.78
1678	Patel Bharatkumar Bhuleshvar	GVC/1950	At - Kakachiya, Ta - Lunawada, Dist - P M S, Gujarat	BVSc&AH/GAU/96	27.5.74
1679	Patel Bharatkumar Hiralal	GVC/1885	5, Gulab Residency, SG Highway, Nera Mangaldeep Party Plot, Solagam, Sola, Ahmedabad, Gujarat	BVSc&AH/GAU/95	22.11.71

1680	Patel Bharatkumar Joitaram	GVC/1238	B-119, Rang Ashish Society, Nr. Rajeshwari Society, Ishanpur Road, Maninagar, Ahmedabad, Gujarat	BVSc&AH/GAU/90	7.9.67
1681	Patel Bharatkumar Keshavial	GVC/1224	Nr. Radhakrishan Temple, Vadio, At & Po. Nardipur, Rama Jaganowas, Ta: Kalol, Dis- Mehsana, Gujarat	BVSc&AH/GAU/90	20.6.75
1682	Patel Bharatkumar Khodidas	GVC/506	21, Swagat Bunglow, Ramosana Jakatnaka, Mehsana-2, Gujarat	BVSc&AH/GAU/79	1.8.55
1683	Patel Bharatkumar Manilal	GVC/1990	"Satiyavas" At & Po - Soja, Ta - Kalol, Dis - Gandhinagar, Gujarat	BVSc&AH/GAU/96	8.1.68
1684	Patel Bharatkumar Shivalal	GVC/507	At & Po: Koba, Ta & Dis- Gandhinagar, Gujarat	BVSc&AH/GAU/79	17.3.55
1685	Patel Bharatkumar Somabhai	GVC/1458	46, Rajnagar Dalji Park, tin Hanuman road, Deesa- 385 535, Dis- Banaskantha, Gujarat	BVSc&AH/GAU/91	4.12.67
1686	Patel Bhaveshkumar Chandubhai	GVC/3086/09	At-Umedpur, PO-Dadhaliya, Ta-Modasa, Dist- S.K, Gujarat	BVSc&AH/AAU/09	21.01.87
1687	Patel Bhaveshkumar Vasantbhai	GVC/3087/09	Umianagar society, SHETHIYAVAS, At-Jamla, Ta Kalol, Dist-Gandhinagar, Gujarat	BVSc&AH/AAU/09	18.02.87
1688	Patel Bhavikkumar Babulal	GVC/2109	At - Gothada, Nr. Dairy, Po- Satlasana, Ta- Kheralu, Dist - Mehsana-384330, Gujarat	BVSc&AH/GAU/98	31.12.75
1689	Patel Bhogibhai Harjivandas	GVC/650	8/A, Mrudul Park Society Sola Road, Ghatlodia, Ahmedabad-380 061, Gujarat	BVSc&AH/GAU/73	4.4.50
1690	Patel Bhupat kumar Bhikhabhai	GVC/1419	At & Po - Lodra, Ta: Vijapur, Di: Mehsana, Gujarat	BVSc&AH/GAU/91	22.5.68
1691	Patel Bhupendrabhai Parshottamdas	GVC/246	4, Pramukh Krupa Society, Nr. Town Hall, Anand-388001, Gujarat	BVSc&AH/GAU/76	1.5.55
1692	Patel Bipinchandra Haribhai	GVC/1544	At: Bhayasar, Po: Sattalav, Via: Shahera, Ta: Lunawada, Dis : Panchmahal- 389 21, Gujarat	BVSc&AH/GAU/92	15.2.70
1693	Patel Bipinchandra Mohanlal	GVC/892	2, Modhera Nagar Society, Modhera Road, Mehsana, Gujarat	BVSc&AH/GAU/87	24.10.64
1694	Patel Brijesh Popatlal	GVC/2282	"Bhumi", Shashrinagar, Ravapar Road, , Ta: Morbi, Dis-Rajkot, Gujarat	BVSc&AH/GAU/00	5.6.77
1695	Patel Chamanbhai Bhudarbhai	GVC/968	245, Sandalwood Society, Opp. Manjalpur Township No-1, Vadodara-11, Gujarat	BVSc&AH/GAU/86	7.9.59

1696	Patel Chandrakant Amrutlal	GVC/1484	11/Karmabhoomi, At & Ta - Visanagar, Dist - Mehsana, Gujarat	BVSc&AH/GAU/91	1.6.69
1697	Patel Chandrakantbhai Ranchhodhbhai	GVC/1550	A/11, Jalaramnagar Society, Behind Jain Derasar, Nana Bazar, Vallabh Vidhyanager- 388 120, Gujarat	BVSc&AH/GAU/92	23.1.69
1698	Patel Chandreshkumar Rasiklal	GVC/1535	B-5, Sarvoday Society, Amul Dairy Road, Anand- 388 001, Gujarat	BVSc&AH/GAU/92	16.1.67
1699	Patel Chhotabhai Ranchhoddas	GVC/372	Laxminarayan Society, Nr. Radhanpur Jakatnaka, Mehsana, Gujarat	BVSc&AH/GAU/75	1.6.51
1700	Patel Chirag Govindbhai	GVC/3060/09	A/6, Indrapuri Apprt. Nr. Nirnaynagar Garnara, Ghatlodiya, Ahmadabad, Gujarat	BVSc&AH/AAU/09	22.08.86
1701	Patel Chunilal Dwarkadas	GVC/633	12-A Karmbhumi Society, At. Visnagar, Dist. Mahesana,, Gujarat	BVSc&AH/GAU/77	7.4.51
1702	Patel Chunilal Vanmalibhai	GVC/851	Near Saminarayan Mandir, At & Po- Vyara, PIN- 394 650, Dist - Surat, Gujarat	BVSc&AH/GAU/77	1.12.54
1703	Patel Dahyabhai Shankarbhai	GVC/409	713-Ekta colony, Sector-27, Gandhinagar, Gujarat	BVSc&AH/GAU/76	1.6.51
1704	Patel Dasharathbhai Sendhabhai	GVC/1289	At & Po- Itadra, Ta - Vijapur, Dis- Mehsana, Gujarat	BVSc&AH/GAU/90	1.6.66
1705	Patel Dashrathbhai Kalidas	GVC/509	14, Ganeshpark-2, Nr. Vishvas City-2, R.C. Technical Road, Ghatiodla, Ahmedabad- 61, Gujarat	BVSc&AH/GAU/79.	6.1.54
1706	Patel Deepakkumar Maganbhai	GVC/792	Gayatri Krupa, Prabhukrupa Soc, Opp- J S Mehta High School, At - Dhansura, Dist - Sabarkantha- 383 310	BVSc&AH/GAU/84	5.12.65
1707	Patel Deven Vipinbhai	GVC/2133	AT. Tarva Post. Timbarwa Ta. Sinor, Dist ; Vadodara, Gujarat	BVSc&AH/GAU/97	20.6.76
1708	Patel Devendrakumar Dahyalal	GVC/1862	12, Asopalav bungalows, B/H, Ashoka Hotel, Near Tirupati Nagalpur, Mehsana ,Gujarat	BVSc&AH/GAU/95	3.5.72
1709	Patel Dhamendra Bhagubhai	GVC/1410	908/1, Shivam Bungalows, Sector 4-D, Gandhinagar, Gujarat	BVSc&AH/GAU/91	18.3.65
1710	Patel Dhanabhai Devashibhai	GVC/1981	At & Po- Soni, Ta: Deodar, Dis : Banaskantha PIN- 385330, Gujarat	BVSc&AH/GAU/96	1.6.73
1711	Patel Dhananjay Jagdishchandra	GVC/3061/09	26, Gurukrupa society Sidhpur, Opp-G.E.B Dist-Patan, Gujarat	BVSc&AH/AAU/09	05.05.87

1712	Patel Dhanjibhai Jethidas	GVC/310/09	C/2 Devcity, Near sayona city, R.C.Technical Road, Ghatlodiya, Ahmedabad, Gujarat	BVSc&AH/GAU/74	01.06.50
1713	Patel Dharmendrakumar Chimanlal	GVC/1256	To - Lathidad, Ta - Botad, Dist - Bhavnagar- 364710,Gujarat	BVSc&AH/GAU/90	2.10.65
1714	Patel Dharmendrakumar Somabhai	GVC/1730	10, Badrinath Society, Visnagar Road, Near Gayatri Temple, Mehsana- 384 001,Gujarat	BVSc&AH/GAU/94	4.5.72
1715	Patel Dharmesh Chandrakantbhar	GVC/2709/09	Kotawadiya Pura, Dhoja vaas, Po &Ta Chansma, Dist Patan,Gujarat	BVSc&AH/SDAU/06	21.03.84
1716	Patel Dharmeshkumamr Jayantibhai	GVC/1707	A/4, Shamvihar bunglows, Opp- Avasar party plot, Modhera Road, Mehsana-384 002, Gujarat	BVSc&AH/GAU/94	27.9.71
1717	Patel Dhirubhai Ishvarbhai	GVC/1295	B-17, Arti Society, Ajay Tenaments Vibhag-5, Vastral Road, Mahadevnagar, Ahmedabad- 382 418, Gujarat	BVSc&AH/GAU/90	1.6.67
1718	Patel Dilipkumar Ambalal	GVC/1549	At - Delwada, Ta - Khedbrahma, Dist - Sabarkantha- 383 255,Gujarat	BVSc&AH/GAU/92	22.3.69
1719	Patel Dilipkumar Balubhai	GVC/701	C/O, Veterinary Section, Sabar Dairy, At & Po- Boria, Ta-Himmatnagar, Dis- Sabarkantha 1, Gujarat	BVSc&AH/GAU/80	25.3.59
1720	Patel Dilipkumar Chaturbhai	GVC/2168	C-4, Vardhman Bunglows, Ahmedabad Highways, Near Railway Crossing, Palanpur, Gujarat	BVSc&AH/GAU/99	5.11.76
1721	Patel Dilipkumar Jesangbhai	GVC/1426	D-9, Sona Township, Kansa Char Rasta, Visnagar, Dis -Mehsana,Gujarat	BVSc&AH/GAU/91	28.6.68
1722	Patel Dilipkumar Kanubhai	GVC/2117	42/A-2, Ayodyanagar Society, Opp. Gaytri Mandir, Patan-384265, Dis : Patan , Gujarat	BVSc&AH/GAU/98	25.8.75
1723	Patel Dineshbhai Motibhai	GVC/1149	At&Po: Padedi, Ta: Lunawada, Di: Panchmahal,Gujarat	BVSc&AH/GAU/85	5.4.62
1724	Patel Dineshkumar Chhagandas	GVC/930	2 B, Amikunj Soc. Nr Naranpura post office, Naranpura, Ahmedabad-13, Gujarat	BVSc&AH/GAU/87	1.6.64
1725	Patel Dineshkumar Mangaldas	GVC/1448	Bhagatwati Street, Ganji, Viasnagar-384 315, Dis- Mehsana,Gujarat	BVSc&AH/GAU/91	27.03.70
1726	Patel Dineshkumar Mangardas	GVC/1427	Matano Pado, Bhagikhun, Nagarlimdi, At, Ta & Dis- Patan,Gujarat	BVSc&AH/GAU/91	14.3.67
1727	Patel Dineshkumar Narayandas	GVC/599	28, Chandralok Society, Modhera Road, Mehsana-2, Gujarat	BVSc&AH/GAU/81	26.1.58

1728	Patel Dineshkumar Natvarlal	GVC/1702	27 , Laxmideep Society, Ranip, Ahemdabad,Dist. Ahemdabad. PIN- 382480,Gujarat	BVSc&AH/GAU/94	2.12.70
1729	Patel Dineshkumar Prahadbhai	GVC/1506	12/ B Panna Park, Adarshanagar, Mahavirnagar, Ta - Himmatnagar, Dist - Sabarkantha- 383 001, Gujarat	BVSc&AH/GAU/92	18.6.68
1730	Patel Dipakkumar Jivanbhai	GVC/2169	Block No- 47/1, CH- type, Sector-28, Gandhinagar,Gujarat	BVSc&AH/GAU/99	9.11.74
1731	Patel Dipakkumar Maneklal	GVC/410	C-52, Rajvi Complex, Sonal CharRasta, Gurukul Rd., Memnagar, Ahmedabad, Gujarat	BVSc&AH/GAU/76	15.12.53
1732	Patel Dipakkumar Vasantlal	GVC/2242	At & Po : Virani (Moti), Ta: Nakhatrana, Dis : Kutchh-370 665,Gujarat	BVSc&AH/GAU/00	1.6.77
1733	Patel Divyesh Kantibhai	GVC/2563/10	At-Po Masal, Ta-Idar, Dist Sabarkantha- 383230,Gujarat	BVSc&AH/SDAU/05	05.12.81
1734	Patel Dushyat Kumar Ranchhodbhai	GVC/939	10/B, Natraj Bankar Society, Kheralu Road, Visnagar, Dis- Mehsana, Gujarat	BVSc&AH/GAU/87	29.7.64
1735	Patel Falajibhai Virsingbhai	GVC/2201	At & Po- Khed (Chandarani), Ta- Himmatnagar, Dis- SK,Gujarat	BVSc&AH/GAU/99	24.6.77
1736	Patel Ganeshbhai Dahyalal	GVC/1207	2, Surbhi Bunglows, Modhera Road, Mehasana,Gujarat	BVSc&AH/GAU/89	1.6.65
1737	Patel Ganeshbhai Virsangbhai	GVC/928	B/16 A, Vardhman Bunglow, Near Railway Crossing, Ahmedabad Highway,Palanpur- 385001, Dist - Banaskantha	BVSc&AH/GAU/87	22.2.63
1738	Patel Ganshyambhai Kantilal	GVC/2202	At & Po- Bagdana, Ta- Mahuwa, Dis- Bhavnagar - 364145,Gujarat	BVSc&AH/GAU/99	22.8.76
1739	Patel Ghanshyam Ambalal	GVC/1677	38,Sanidhay Bunglows,Opp-Science City,Behind sahanand Status,Near avadh Bunglow, Sola,Ahmedabad	BVSc&AH/GAU/92	5.3.69
1740	Patel Girdharbhai Shivabhai	GVC/653	19- Sagar Bunglows, Near Nirman Tower, Sola Road Gulab tower Road, Ahmedabad-61, Gujarat	BVSc&AH/GAU/76	6.1.51
1741	Patel Girishkumar Gopalbhai	GVC/1872	At & Po - Dholakuva, Ta: Mansa, Dis : Gandhinagar PIN- 382845,Gujarat	BVSc&AH/GAU/95	1.6.70
1742	Patel Girishkumar Shivabhai	GVC/2150	13, Shakuntal Society, Pologround, Alkapuri, Himatnagar- 383001, Dis : Sabarkantha, Gujarat	BVSc&AH/GAU/98	16.5.76
1743	Patel Govind Ranchhodbhai	GVC/2119	B/H. SBI Society, Nr. Anand Flats, Becharpura, Palanpur- 385 002,Gujarat	BVSc&AH/GAU/98	15.1.75

1744	Patel Govindbhai Dhulabhai	GVC/617	6A, Saibaba Society, Gayatri Mandir Road, Mahavirnagar, Himatnagar, Di: Sabarkantha, Gujarat	BVSc&AH/GAU/73	26.12.49
1745	Patel Govindbhai Ishverbhai	GVC/378	6, Kedarnath Society, Near Dwarkapuri Flat, Radhanpur Road, Mehsana, Gujarat	BVSc&AH/GAU/75	1.4.52
1746	Patel Hardikkumar Manubhai	GVC/3063/09	9-Motipark Society, Rajpur-Sidhpur Dist- Patan,Gujarat	BVSc&AH/AAU/09	21.09.86
1747	Patel Hargovindbhai Shankarbhai	GVC/1905	39, Kubernagar, B/H Green park, Ahmedabad Highway, Palanpur, Dis- BK,Gujarat	BVSc&AH/GAU/95	1.6.72
1748	Patel Haribhai Bahecharbhai	GVC/412	At : Masal, Ta- Idar, Dis- Sabarkantha, Gujarat	BVSc&AH/GAU/76	13.11.51
1749	Patel Haribhai Mavajibhai	GVC/1454	At : Dhaneri, Ta- Dantiwada, Dis- BK,Gujarat	BVSc&AH/GAU/91	1.6.67
1750	Patel Harshadbhai Muljibhai	GVC/850	At: Sayara Road, Opp. Gopalak Hostel, At & Ta- Modasa, Dis -Sabarkantha, Gujarat	BVSc&AH/GAU/85	21.10.62
1751	Patel Harshardkumar Govindbhai	GVC/1778	14, Gitanjali Soc. Highway road, Deesa, Dist - Banaskantha,Gujarat	BVSc&AH/GAU/95	29.6.72
1752	Patel Harsukhray Bhikhulal	GVC/895	"Pitru-Chhaya", Hirpara Wadi, B/H. Old Bus Stand, At & Ta-Dhoraji, Dis- Rajkot, Gujarat	BVSc&AH/GAU/86	5.6.63
1753	Patel Hasmukhbhai Amichandbhai	GVC/3022/09	To-Kumbhasan, T-Palanpur, Distt-B.K- 385515, Gujarat	BVSc&AH/SDAU/09	08.07.85
1754	Patel Hasmukhbhai Kacharalal	GVC/1766	At & Po- Kamli, Ta- Unzha, Dis- Mehsana- 384140,Gujarat	BVSc&AH/GAU/94	1.12.71
1755	Patel Hasmukhbhai Kanjibhai	GVC/1263	B/26, Jagat Nagar Part-1, Opp. Dinesh Chamber, Nr. India Colony, TBN Road, Bapunagar, Ahmedabad-24	BVSc&AH/GAU/90	10.7.67
1756	Patel Hasmukhbhai Manabhai	GVC/2076	Sabar Chilling Center, Bayad,AT&PO- Anjnavav,Ta-Bayad,S.K.,Gujarat	BVSc&AH/GAU/97	10.8.74
1757	Patel Hasmukhbhai Nagarbhai	GVC/373	97-97,Sai Ashishnagar-2, Talwadi, Rander Road, Surat, Gujarat	BVSc&AH/GAU/75	19.5.53
1758	Patel Hasmukhbhai Parsottamdas	GVC/601	84, Vidyanagar Soc.,Nr. Dharoi colony, Kheralu Road, Visnagar, Dist - Mehsana, Gujarat	BVSc&AH/GAU/81	26.1.59
1759	Patel Hasmukhbhai Ranchhoddas	GVC/1951	At- Ijpura, Po- Palaj, Ta & Dis- Mehsana PIN- 384410,Gujarat	BVSc&AH/GAU/96	12.9.73

1760	Patel Hemantbhai Babubhai	GVC/1284	33, Kameshwar Park Society, Jodhapur Cross Road, Satellite Road, Ahmedabad-15, Gujarat	BVSc&AH/GAU/90	22.5.67
1761	Patel Hirabhai Dhulabhai	GVC/444	Veterinary Dispensary, Jarod, Ta- Vaghodiya, Dis- Vadodara, Gujarat	BVSc&AH/GAU/77	13.6.54
1762	Patel Hirabhai Laljibhai	GVC/1430	At & Po- Sankhalpur, Ta- Bechraji, Dis- Mehsana PIN- 38410, Gujarat	BVSc&AH/GAU/91	6.8.66
1763	Patel Hiralal Raghubhai	GVC/510	15 Nand bunglows, Pavapuri Circle, Ghatiodia, Ahmedabad, Gujarat	BVSc&AH/GAU/79	1.3.55
1764	Patel Hitendraprasad Purushottamdas	GVC/557	Shankardas Kuva, Opp. Shanhpark Society, Indira Gandhi Marg, Nadiad, Dis- Kheda, Gujarat	BVSc&AH/GAU/80	1.6.57
1765	Patel Hiteshkumar Baldevbhai	GVC/1980	At & Po- Vanpardi, Ta- Viramgam, Dis- Ahmedabad- 382130, Gujarat	BVSc&AH/GAU/96	12.2.73
1766	Patel Hiteshkumar Baldevbhai	GVC/1980/09	At&Po-Vanpardi, Ta-Viramgam, Dis- Ahmedabad-382130, Gujarat	BVSc&AH/GAU/96	12.02.73
1767	Patel Hiteshkumar Lalabhai	GVC/1952	At- Gorna Muwada, Po- Rampatel na Muwada, Ta-Lunawada, Dis- Panchmahal, Gujarat	BVSc&AH/GAU/96	13.8.74
1768	Patel Iqbalhussain Ibrahimbhai	GVC/374	Gaytri Society, Mora Road, At-Amlasad, Dist - Navsari- 396 310, Gujarat	BVSc&AH/GAU/75	31.10.50
1769	Patel Ismail Ahmed	GVC/674	I.C.D.P, Nr Indra complex, Manjalpur, Vadodara, Gujarat	BVSc&AH/GAU/77	4.2.53
1770	Patel Ismil Ahmad	GVC/602	Veterinary Dispensary, Wagra, Dist : Bharuch, Gujarat	BVSc&AH/GAU/81	30.12.58
1771	Patel Jagdishbhai Ishvarbhai	GVC/1580	At & Po: Nagar , Ta: Khambhat , Di: Anand, Gujarat	BVSc&AH/GAU/92	20.7.72
1772	Patel Jagdishchandra Vaghajibhai	GVC/1135	Block No-177, Sheri-6/A, Subhashnagar, Ravapar Road, Morbi, Dis- Rajkot PIN- 363641, Gujarat	BVSc&AH/GAU/89	10.11.67
1773	Patel Jagdishkumar Ramabhai	GVC/1732	At : Lihoda, Patel Vas, Ramaji Mandir, Ta- Dehgam Dis- Gandhinagar- 382 315, Gujarat	BVSc&AH/GAU/94	20.9.71
1774	Patel Janakkumar Bhikhahal	GVC/1753	At - Ganthiol, Ta - Idar, Dist - Sabarkantha- 383 410, Gujarat	BVSc&AH/GAU/94	1.6.72
1775	Patel Janakkumar Ramjibhai	GVC/1291	24, Chavelinagar Society, Nr. Arodram B/h. Dreamland Soci., Mehsan, Gujarat	BVSc&AH/GAU/90	28.3.65

1776	Patel Jasvantlal Kacharalal	GVC/910	A-42, Shukan Bunglow, Mehsana Char Rasta, B/H. Swagat Hotel, Visnagar Dis- Mehsana, Gujarat	BVSc&AH/GAU/85	1.2.63
1777	Patel Jasvantkumar Virchandbhai	GVC/1342	Manekaba Society-201, Swaminarayannagar, At&Po, Ta: Modasa, Di: Sabarkantha, Gujarat	BVSc&AH/GAU/90	24.9.66
1778	Patel Jatinkumar Amrutlal	GVC/2712/09	C/25, Tapovan Bunglow's Vikram, Kansa N.A., Visnagar, Dist.Mehsana (N.G),Gujarat	BVSc&AH/SDAU/06	15.07.84
1779	Patel Jatinkumar Chinubhai	GVC/2051	C-47, Harishidhdh Park Society, Nr. Navsarjan School, Ranip, Ahmedabad- 382 480, Gujarat	BVSc&AH/GAU/97	26.5.75
1780	Patel Jayant Chamanlal	GVC/2713/09	20, Ambika Society-2,Mansa,Nr. Mahakali Temple, Mansa-382845, Dt Gandhinagar,Gujarat	BVSc&AH/SDAU/06	16.03.84
1781	Patel Jayantibhai Joitaram	GVC/1155	57, Varj Vihar Society, Opp. Chirag Daimond, L B Shashtri Road, Bapunagar, Ahmedabad-, Gujarat	BVSc&AH/GAU/89	1.5.64
1782	Patel Jayantibhai Maganbhai	GVC/1102	At & Po - Sundarpur,Ta -Vijapur, Dis - Mehsaa, Gujarat	BVSc&AH/GAU/88	16.5.63
1783	Patel Jayantibhai Manilal	GVC/906	60, Tirupatinagar, Chanasma Road, Nr. Shantiniketan High School, Patan, Gujarat	BVSc&AH/GAU/87	1.6.62
1784	Patel Jayantibhai Prahladbhai	GVC/1874	At & Po- Vaghosana Ta- Kalol, Dis - Gandhinagar PIN- 38284,Gujarat5	BVSc&AH/GAU/95	1.6.71
1785	Patel Jayantibhai Shankarbhai	GVC/723	At ; Rangpur, Po- Prempur, Ta- Himmatnagar, Dis- Sabarkantha, Gujarat	BVSc&AH/GAU/83	1.6.58
1786	Patel Jayantilal Ambalal	GVC/375	77, Ayodhyanagar Society, Nr. Kakoshi Fatak, Sidhpur, Dis- Patan, Gujarat	BVSc&AH/GAU/75	1.6.52
1787	Patel Jayantilal Dahyabhai	GVC/703	C/O, Veterinary Section, Sabar Dairy, At & Po- Boria, Ta-Himmatnagar, Dis- Sabarkantha- 1, Gujarat	BVSc&AH/GAU/80	9.10.55
1788	Patel Jayantilal Maganbhai	GVC/2121	At Po.-Juna Devaliya, Ta-Halvad, Dis: Surendranagar PIN- 363330,Gujarat	BVSc&AH/GAU/98	8.6.74
1789	Patel Jayantilal Purshottambhai	GVC/959	At & Po- Amudh, Ta - Unjha, Dis- Mehsana, Gujarat	BVSc&AH/GAU/87	13.8.62
1790	Patel Jayesh Shankerlal	GVC/2599/10	A/839, Manilaxmi Society, Adinath Nagar, Odhav, Ahmedabad-382415,Gujarat	BVSc&AH/AAU/05	01.02.82
1791	Patel Jayesh Shantilal	GVC/1017	A- 23, Tirupati Township-I, Deesa Highway road, Palanpur, Dis-Banaskantha, Gujarat	BVSc&AH/GAU/87	16.10.64

1792	Patel Jayeshkumar Babulal	GVC/1277	5, Utter Gujarat Patel Society, Part-2, Ballia Limbadi, New Civil Hospital Road, Asarwa, Ahmedabad	BVSc&AH/GAU/90	18.5.68
1793	Patel Jayeshkumar Bachunbhai	GVC/3064/09	A-13, Suncity, Infront SV Campus Near Nathalal Park Kadi-382715, Dist-Mehsana,Gujarat	BVSc&AH/AAU/09	05.09.87
1794	Patel Jayeshkumar Kantilal	GVC/2241	B/7, Harisiddha Society, Gayatri Road, Mahavirnagar, Himatnagar, Di: Sabarkantha-383 001, Gujarat	BVSc&AH/GAU/00	7.2.78
1795	Patel Jayeshkumar Manilal	GVC/1899	10, Ambika Society, Near Rajguru Factory, Vatva, Ahmedabad-382 440,Gujarat	BVSc&AH/GAU/95	29.3.73
1796	Patel Jayprakash Vallabhbhai	GVC/2052	At: Ratanpur, Po: Janvad, Ta: Santrampur, Dis : Panchmahal-389 260,Gujarat	BVSc&AH/GAU/97	4.11.74
1797	Patel Jigar Kamleshbhai	GVC/3133/10	F-41, Krishna Bunglows, Part-1, Opp-Motera Village, Motera, A,bed,Gujarat	BVSc&AH/AAU/10	21.08.88
1798	Patel Jignesh Rajendrakumar	GVC/3062/09	At-Kanjari Campa, Ta-Dhansura, Dist- Sabarkantha,Gujarat	BVSc&AH/AAU/09	29.09.82
1799	Patel Jigneshkumar Nathalal	GVC/2203	At&Po: Medhasar, Ta: Modasa, Di: Sabarkantha,Gujarat	BVSc&AH/GAU/00	16.2.77
1800	Patel Jigneskumar Kanubhai	GVC/1571	H-85,Yogidarshan Duplex, Opp.Township No.2, Darbar Chowk, Manjalpur, Vadodara - 390011, Gujarat	BVSc&AH/GAU/92	9.10.70
1801	Patel Jitendrakumar Haribhai	GVC/2170	"Matru Chhaya", Madhuvan Society, Gorwadi, Opp- Railway Hospital, Dhundhiyawadi, Palanpur- 385 001 Dis- 8K	BVSc&AH/GAU/99	2.1.76
1802	Patel Jitendrakumar Keshubhai	GVC/1512	11, Jay Yogeshwar Society, Mahaveer Nagar, Near Jivandhara Street, Himmatnagar-383001 Dis- Sabarkantha	BVSc&AH/GAU/92	6.10.70
1803	Patel Jitendrakumar Mafatlal	GVC/1174	Virpara Niwas, Bauggpura, At & Po-Denap,Ta-Visnagar, Dist-Mahasana,Gujarat	BVSc&AH/GAU/89	13.6.67
1804	Patel Jitendrakumar Ramanlal	GVC/1774	A-18, Mangalam Scociety -II, Ghodasar, Ahmedabad-50,Gujarat	BVSc&AH/GAU/94	3.1.68
1805	Patel Kalpeshkumar Chandraknat	GVC/3088/09	At&Po-Kumbharwadi, ta-Virpur, Dist-Kheda,Gujarat	BVSc&AH/AAU/09	01.05.86
1806	Patel Kalpeshkumar Natvarlal	GVC/3023/09	At-Khatasana, PO Maherwada, Ta-Unjha, Distt-Mehsana,Gujarat	BVSc&AH/SDAU/09	30.05.87
1807	Patel Kamaleshkumar Keshavlal	GVC/779	Krishnasadan,Sajjanpura,Near Ramdevpir temple.At& Po-Mansa.Dist-Gandhinagar.-382845, Gujarat	BVSc&AH/GAU/83	3.3.59

1808	Patel Kamleshkumar Madhabhai	GVC/3024/09	At&PO-Sasam, Ta-Palanpur, Dist-B.K.- 385515, Gujarat	BVSc&AH/SDAU/09	30.11.85
1809	Patel Kamleshkumar Mansukhbhai	GVC/2258	30, Motinagar Society, near GEB, Kalol, Dis- Gandhinagar- 382721, Gujarat	BVSc&AH/GAU/00	10.8.77
1810	Patel Kamleshkumar Narayanbhai	GVC/2021	G-7, Akashflat, Near Nirman Tower, Gulab Tower road, Thaltej-54, Ahmedabad, Gujarat	BVSc&AH/GAU/97	1.6.67
1811	Patel kandrap Khodidas	GVC/3134/10	B-1/11, Sai Dham Society, B/h Priya Darshininagar, Nr-Sussen Circle, Makarpura Rd, Baroda, Gujarat	BVSc&AH/AAU/10	23.04.88
1812	Patel Kanjibhai Lalajibhai	GVC/311	Plot No-738/A, Sector - 6/B, Nr Sarswati School, Gandhinagar-382 006, Gujarat	BVSc&AH/GAU/73	6.9.48
1813	Patel Kanjibhai Parshottambhai	GVC/2158	Arti Auto Mo, Station Road, Talaja, Dist - Bhavanagar, Gujarat	BVSc&AH/GAU/95	2.7.72
1814	Patel Kantilal Maganlal	GVC/1517	Veterinary Dispensary, Gadh, Ta - Palanpur, Dist - Banaskantha, Gujarat	BVSc&AH/GAU/92	1.6.68
1815	Patel Kantilal Mohanlal	GVC/380	At: Anandpura, Ta- Vadnagar, Dis -Mehsana, Gujarat	BVSc&AH/GAU/75	1.6.51
1816	Patel Kanubhai Bhagwnbhai	GVC/445	At - Gothib, Via - Sukhsar, Ta - Santrampur, Dist Godhara, Gujarat	BVSc&AH/GAU/77	1.5.53
1817	Patel Kanubhai Narandas	GVC/1953	5, Umiyanagar Society, At & Po- Devrasan Ta & Dis-Mehsana PIN- 382710, Gujarat	BVSc&AH/GAU/96	1.4.74
1818	Patel Kanubhai Ramanbhai	GVC/1539	"Guru krupa" Wadi, Kasor-B, Ta & Dis - Anand, Gujarat	BVSc&AH/GAU/92	13.6.69
1819	Patel Kanubhai Ramanlal	GVC/1297	At&Po: Gabat, Ta: Bayad, Di: Sabarkantha, Gujarat	BVSc&AH/GAU/89	1.6.65
1820	Patel Kanubhai Sankalchand	GVC/1049	B/5, Greenvilla flat, Near Vishramnagar, HBK School, Gurukul Road, ABD, Gujarat	BVSc&AH/GAU/88	16.10.65
1821	Patel Kardam Jivabhai	GVC/1257	C/O., Panchamrut Dairy, Godhara, Dis- Panchmahals, Gujarat	BVSc&AH/GAU/90	22.7.68
1822	Patel Kaushikkumar Bababhai	GVC/2001	Sabar Chilling Center, Bayad, AT&PO- Anjnavav, Ta. Bayad, S.K., Gujarat	BVSc&AH/GAU/97	19.7.74
1823	Patel Kaveshkumar Jeshingbhai	GVC/900	At - Ambagam, Ta - Bayad, Dist - Sabarkantha, Gujarat	BVSc&AH/GAU/87	21.2.65

1824	Patel Keshavlal Manilal	GVC/338	58/A, Tulasi Buglow, Radhanpur Road, Opp. Maruti Flat, Mehsana, Gujarat	BVSc&AH/GAU/74	1.6.47
1825	Patel Ketankumar Govindbhai	GVC/1542	Plot No- 168/1, Kisannagar, Sector-26, Gandhinagar, Gujarat	BVSc&AH/GAU/92	2.4.70
1826	Patel Ketankumar Shankarlal	GVC/3025/09	At&PO-Madana, Ta-Palanpur, Dist-Banaskantha, Gujarat	BVSc&AH/SDAU/09	20.04.85
1827	Patel Keyurkumar Dinshkumar	GVC/3089/09	177/2119, Surya appartment, Opp-Aakashganga appartment, Parasnagar Sola road, Naranpura, Abd, Gujarat	BVSc&AH/AAU/09	23.08.86
1828	Patel Khumabhai Kalaji	GVC/1907	Po. Madal, Ta. Tharad, Dist. Banaskantha, Gujarat	BVSc&AH/GAU/95	1.6.71
1829	Patel Kirit Dahyabhai	GVC/1285	11- Prasthan Bunglows, Part-1, B/H, Nirman Tower, Opp- ID Patel School, Chanakyapuri, Ghatlodiya, Ahmedabad-61	BVSc&AH/GAU/90	10.10.68
1830	Patel Kiritbhai Arjunbhai	GVC/848	Veterinary Dispensary, Khad Khambhalia, Ta: Lalpur, Dis : Jamnagar, Gujarat	BVSc&AH/GAU/85	18.1.63
1831	Patel Kiritkumar Mulchandbhai	GVC/1168	45, Shamvihar-2 Bunglows, B/H Perfect plaza, Radhanpur Road, Mehsana, Gujarat	BVSc&AH/GAU/85	6.7.61
1832	Patel Kiritkumar Ramanbhai	GVC/1283	C/O, Veterinary Section, Sabar Dairy, At & Po-Boria, Ta-Himmatnagar, Dis- Sabarkantha PIN- 383001	BVSc&AH/GAU/90	3.11.66
1833	Patel Kishorkumar Hargovindbhai	GVC/1294	At & Po - Visatpura, Ta - Kadi, Dis- Mehsana, Gujarat	BVSc&AH/GAU/90	8.11.67
1834	Patel Laxman Gangaram	GVC/25	E/5, Bhaskar Appartment, Mitambika Road, Naranpura, Ahmedabad-13, Gujarat	BSc (Vet)/Bombay Uni/54	1.3.58
1835	Patel Madhusudan Kanjibhai	GVC/1709	13, Vasundhara Soci. M N College road, Visnagar- 384315 Dis- Mehsana, Gujarat	BVSc&AH/GAU/94	2.12.71
1836	Patel Mafatlal Nagarbhai	GVC/1811	At - Kumbhalmer, Ta - Palanpur, Dist - Banaskantha- 385 510, Gujarat	BVSc&AH/GAU/91	17.7.69
1837	Patel Mahendrakumar Ambalal	GVC/1299	At & Po-Visol, Ta -Siddhpur, Dis- Mehsana, Gujarat	BVSc&AH/GAU/90	9.12.67
1838	Patel Mahendrakumar Chunilal	GVC/822	At & Po- Chaveli, Ta- Chanasma, Dis- Patan, Gujarat	BVSc&AH/GAU/84	3.11.61
1839	Patel Mahendrakumar Godadbhai	GVC/1784	At - Kumbhasan, Ta - Palanpur, Dist - Banaskantha- 385 515, Gujarat	BVSc&AH/GAU/94	1.7.68

1840	Patel Mahendrakumar Narayanbhai	GVC/1559	C-22, Vardhman Bungalows, Ahmedabad Highways, Near Railway Crossing, Palanpur, Gujarat	BVSc&AH/GAU/92	1.6.68
1841	Patel Mahendraprasad Mangalbhai	GVC/1265	At- Wadi, Po- Maghwasi, Ta- Lunawada Dis- Panchmahals- 380 009,Gujarat	BVSc&AH/GAU/90	26.7.68
1842	Patel Maheshbhai Maganlal	GVC/1388	Plot No-408/2, Sector- 2/B, Gandhinagar- 2,Gujarat	BVSc&AH/GAU/91	8.1.69
1843	Patel Maheshbhai Narayanbhai	GVC/1786	At & Po- Anjoi, Ta- Mansa, Dis- Gandhinagar- 382 811,Gujarat	BVSc&AH/GAU/95	1.6.70
1844	Patel Maheshkumar Chandulal	GVC/1584	At & Po - Kharod,Ta - Vijapur, Dis- Mehsana,Gujarat	BVSc&AH/GAU/92	1.6.66
1845	Patel Maheshkumar Chunilal	GVC/1843	At - Sadavel, Vav Faliya, Ta - Chikhali, Dist - Navsari- 396 560,Gujarat	BVSc&AH/GAU/95	8.6.70
1846	Patel Maheshkumar Dharamshibhai	GVC/1963	New - C - 3 , Khetiwadi Campus , AAU, Anand,Gujarat	BVSc&AH/GAU/96	5.7.73
1847	Patel Maheshkumar Jivabhai	GVC/1476	New Vada, E-13-148, Vishrampark, Nr. Bhavsar Hostel, Ahmedabad-1,Gujarat	BVSc&AH/GAU/91	10.7.67
1848	Patel Maheshkumar Narayanbhai	GVC/1798	B-44, CP Nagar part- II, Near Arjun Tower, Bhuyangdev Char Rasta,Gatlotdia, Sola road, Ahmedabad- 61	BVSc&AH/GAU/89	29.12.66
1849	Patel Maheshkumar Natvarlal	GVC/1993	780/ Someshwar Soc. Sector - 27, Gandhinagar, Gujarat	BVSc&AH/GAU/96	3.5.73
1850	Patel Maheshkumar Ranchhodhbhai	GVC/482	Shiv Shakti Housing Soc., B/h Desara Primery School, Desara,Bilimora, Dist. Navsari, Gujarat	BVSc&AH/GAU/78	25.9.54
1851	Patel Maheshkumar Rugnathbhai	GVC/2028	18, Triveni Soc. Dharam Cinema road, Mehsana-2,Gujarat	BVSc&AH/GAU/97	26.9.62
1852	Patel Manishkumar Morarjibhai	GVC/1496	B/17, Ravi Park Soc, Gayatri Mandir Road, Mahavir Nagar, Himmatnagar, Sabarkantha- 383 001, Gujarat	BVSc&AH/GAU/92	10.6.70
1853	Patel Manoj Nathubhai	GVC/1994	E/6, Vardhmannagar Flats, B/H. CP Nagar, Ghatlodiya, Sola Road, Ahmedabad-61, Gujarat	BVSc&AH/GAU/96	18.8.74
1854	Patel Manojkumar Ambalal	GVC/2054	A. & Po- Delwada, Nava Para, Ta: Mansa, Dis - Gandhinagar,Gujarat	BVSc&AH/GAU/97	23.6.74
1855	Patel Manojkumar Kantilal	GVC/2077	At -Old Rampura, Ta - Unjha, Dist - Mehsana,Gujarat	BVSc&AH/GAU/97	1.6.74

1856	Patel manojkumar Karshanbhai	GVC/3026/09	At&Po-Kothasana, tasatlasana, Dist- Mehsana, Gujarat	BVSc&AH/SDAU/09	08.08.86
1857	Patel Manubhai Bhagwandas	GVC/1790	At & Po- Ranchhodpura, Ta- Unjha, Dis- Mehsana- 384 170,Gujarat	BVSc&AH/GAU/94	21.11.70
1858	Patel Manubhai Kanjibhai	GVC/1462	At: Senadaria Gorada, Po: Vadi Na Gorada, Ta: Lunawada, Dis : Panchmahal - 389 230, Gujarat	BVSc&AH/GAU/91	1.5.68
1859	Patel Manubhai Madhavlal	GVC/382	7, Shayona Kunj Bunglows, Nr. Shayona School, Shayona City Compound, Ghatlodiya, A'bad-380 061, Gujarat	BVSc&AH/GAU/75	1.6.51
1860	Patel Manubhai Mohanbhai	GVC/1787	At - Kunwara, Opp- post Office, Ta - Sidhpapur, Dist - Patan PIN- 384270,Gujarat	BVSc&AH/GAU/94	1.6.70
1861	Patel Manubhai Parshottamdas	GVC/383	At & Po: Vanoda , Ta-Thasara , Dis- Kheda, Gujarat	BVSc&AH/GAU/75	15.6.55
1862	Patel Meetaben Virabhai	GVC/3027/09	At&PO-Vedancha, TaPalanpur, Dt-B.K.- 385511, Gujarat	BVSc&AH/SDAU/09	29.11.86
1863	Patel Mehulkumar Chhaganbhai	GVC/1445	14, Himalay Bungalow, Behind Dharti resort, Palanpur. Dist - Banaskantha,Gujarat	BVSc&AH/GAU/91	1.6.69
1864	Patel Mehulkumar Dahyalal	GVC/3142/10	At-Ranela, Po-Janvad, Ta-Santrampur, Dist- Godhara,Gujarat	BVSc&AH/AAU/10	05.03.85
1865	Patel Milankumar Rasiklal	GVC/1228	Manghlo Vad-1, Langhnaj, Ta & Dis : Mehsana - 382 730,Gujarat	BVSc&AH/GAU/90	21.9.68
1866	Patel Miteshkumar Pranjivan	GVC/1842	Soham Society, Karannagar Road, At- Kadi, Ta- Kadi, Dis- Mehsana,Gujarat	BVSc&AH/GAU/93	17.10.70
1867	Patel Mukesh Prahlabdhai	GVC/1630	A/3, Mrudal Park Society-II, Sola Road, Ghatlodia, Ahmedbad-380061,Gujarat	BVSc&AH/GAU/93	5.8.71
1868	Patel Mukeshbhai Babubhai	GVC/1192	At & Po- Balula, Ta- Thasara, Dis- Kheda,Gujarat	BVSc&AH/GAU/89	12.6.68
1869	Patel Mukeshbhai Chimanlal	GVC/1106	Narayannagar Banglows, Gota, Off- SG Road,Ahmedabad,Gujarat	BVSc&AH/GAU/88	15.5.65
1870	Patel Mukeshbhai Dahyabhai	GVC/1424	At - Itadara, Ta - Vijapur , Dist - Mehsana ,Gujarat	BVSc&AH/GAU/91	1.6.66
1871	Patel Mukeshbhai Maganlal	GVC/1048	Plot - 660/2, Panchvati Park, Sector - 23, Gandhinagar-382023, Gujarat	BVSc&AH/GAU/88	1.6.62

1872	Patel Mukeshkumar Amrutlal	GVC/2078	A/30, Sarathinagar Soci.Chansma Road, Patan,Gujarat	BVSc&AH/GAU/97	16.5.75
1873	Patel Mukeshkumar Joitabhai	GVC/1954	At- Ganeshpura (Tarabh), Ta- Visnagar, Dis- Mehsana PIN- 384310,Gujarat	BVSc&AH/GAU/96	1.6.71
1874	Patel Mukeshkumar Prabhudas	GVC/1955	B-10, Sajjannagar Society, Mansa, Ta- Mansa, Dis- Gandhinagar-382 845,Gujarat	BVSc&AH/GAU/96	10.9.73
1875	Patel Mulchand Laldas	GVC/447	46-Rang Mahol Society, Kankarol Road, Near Mahakali Temple, Mahaveer Nagar, Himmatnagar-383001 Di: Sabarkantha, Gujارات	BVSc&AH/GAU/77	1.6.53
1876	Patel Naginbhai Kashibhai	GVC/384	20, Ayush Bunglows, Keya Motors Street, Opp- Chhani Jakat Naka, Chhani, Vadodara, Gujarat	BVSc&AH/GAU/75	11.8.55
1877	Patel Nandlal Vitthal (Chadmiya)	GVC/1193	C/o, Ravji Govind Dabasia, Dhana Bhagat, Navavas, Madhupur, Ta - Bhuj, Dist - Kachchh, Gujarat	BVSc&AH/GAU/89	15.5.63
1878	Patel Naranbhai Bahecharbhai	GVC/289	12, Jay Yogeshwer, Society, Gaytri Madir, Road, Ranip, Ahembadad- 382480, Gujarat	BVSc&AH/GAU/1972	1.6.49
1879	Patel Narayanbhai Virchanddas	GVC/561	At & Po- Gojaria, Bhakt Chowk,Vata Ma, Ta & Dis-Mehsa, Gujarat	BVSc&AH/GAU/80	10.6.55
1880	Patel Narayanlal Dahyalal	GVC/290	25, S.K.Bank Colony-D-Group, Gayatri Mandir Road, Himatnagar-383001 Dis- Sabarkantha, Gujarat	BVSc&AH/GAU/1972	26.10.48
1881	Patel Narendrakumar Purshottamdas	GVC/562	A-9, Gokul appartment, Opp- Shivam Appartment, Akhbarnagar Circle, New Vadaj, Ahmedabad-13 , Gujarat	BVSc&AH/GAU/80	1.6.54
1882	Patel Narendrakumar Revabhai	GVC/1358	At: Gundiya, Po- Nava, Ta: Talod, Dis : Sabarkantha,Gujarat	BVSc&AH/GAU/89	16.8.64
1883	Patel Narendrakumar Umedbhai	GVC/879	E-35, Ayojannagar Society, Nr. Shreyas Railway crossing, Paldi, Ahmedabad-7, Gujarat	BVSc&AH/GAU/86	22.6.64
1884	Patel Nareshbhai Chunilal	GVC/817	11, Rajlaxmi Society, Nr. Jalaram Society, Opp- Laxmidarshan Apartment, Palanpur Patia, Rander Road, Surat	BVSc&AH/GAU/84	8.2.62
1885	Patel Narsinhbahi Gandalal	GVC/826	1/9, Marutinandan Vila-1, Nr Sarkari tubvel, Opp. H P Petrol pump, Bopal Road, Bopal,A'bad-58, Gujarat	BVSc&AH/GAU/84	17.12.60
1886	Patel Narsinhbhai Babubhai	GVC/1481	At-Po. Ramgadh, Po. Tambolia, Ta. Chansama, Dist. Mehsana, Gujarat	BVSc&AH/GAU/91	22.6.69
1887	Patel Narsinhbhai Natwarlal	GVC/781	5 Ronak Park, Nr. Green Park, B/h. Mali's well, Mahavirnagar, Himmatnagar,S.K., Gujarat	BVSc&AH/GAU/78	1.6.58

1888	Patel Natvarbhai Jivrambhai	GVC/1765	Veterinary Dispensary, Dhanera, Ta-Dhanera Dis-Banaskantha, Gujarat	BVSc&AH/GAU/94	1.2.71
1889	Patel Natvarbhai Shamalbhai	GVC/1434	At&Po: Laxmipura, Ta: Khedbrahma, Di: Sabarkantha, Gujarat	BVSc&AH/GAU/91	31.5.67
1890	Patel Natvarbhai Shivrambhai	GVC/859	37, Tirupati Township, Highway Road, Nr, GEB, Patan, Gujarat	BVSc&AH/GAU/86	6.1.61
1891	Patel Natvarlal Chhaganlal	GVC/314	14, Sardar Patel colony, Opp- Radhanpur Road Jakat Naka, Radhanpur Road, Mehsana- 2, Gujarat	BVSc&AH/GAU/73	20.1.49
1892	Patel Natwarlal Ganeshbhai	GVC/341	14, Khavadwala Society, Ghatlodia, Ahmedabad-380 061, Gujarat	BVSc&AH/GAU/74	16.2.54
1893	Patel Natwarlal Kacharabhai	GVC/315	B-3, Ratna Palace, Nr. Judges Bungalow, Bodakdev, Ahmedabad- 380 015, Gujarat	BVSc&AH/GAU/73	6.1.51
1894	Patel Navinchandra Ambalal	GVC/1747	At - Govindpura (Halawaruparu), Po- Dhanapura (Ghotu)Ta- Vijapur, Dis- Mehsana- 382 870, Gujarat	BVSc&AH/GAU/94	9.10.70
1895	Patel Navinchandra Dahyabhai	GVC/1084	At&Po: Nadisar, Ta: Godhra, Dis : Panchmahal- 388 712, Gujarat	BVSc&AH/GAU/88	12.4.66
1896	Patel Navinkumar Kantilal	GVC/1282	At&Po: Talod, Ta: Talod, Di: Sabarkantha, Gujarat	BVSc&AH/GAU/90	22.6.67
1897	Patel Nayanendra Ambalal	GVC/1654	At - Vardhri, Ta - Lunavada, Dist - Panchmahal, Gujarat	BVSc&AH/GAU/93	1.8.71
1898	Patel Neerajkumar Prahadbhai	GVC/1918	35, Vrudavan Park, Near Kalapinagar, Radhanpur Road, Mehsana, Gujarat	BVSc&AH/GAU/95	1.12.70
1899	Patel Nikhil Ghanshyambhai	GVC/3028/09	Care Neekita Sarris Center, Opp Purnima High School, Dehgam, Gandhinagar, Gujarat	BVSc&AH/SDAU/09	05.11.86
1900	Patel Nikunj Kumar Amrutlal	GVC/1672	At: Dalpur, Po: Agiyol, Ta: Himatnagar, Di: Sabarkantha, Gujarat	BVSc&AH/GAU/93	27.12.70
1901	Patel Nilesh Manilal	GVC/1431	Block No- 378/2, Sector- 12, "C", Gandhinagar, Gujarat	BVSc&AH/GAU/91	28.5.69
1902	Patel Nileshbhai Shambhubhai	GVC/1728	L-1/4, Gayatrinagar, Patrakar Colony-2, Adarshnagar, Naranpura, Ahmedabad - 380 013, Gujarat	BVSc&AH/GAU/94	14.6.72
1903	Patel Nimeshkumar Chimanlal	GVC/2055	Nava Kachhala, Station road, At- Lodara, Ta- Mansa, Dis- Gandhinagar, Gujarat	BVSc&AH/GAU/97	22.6.75

1904	Patel Niralkumar Ratilal	GVC/2262	At & Po: Roparipura, Nr. Post office, Chanasma, Ta- Chanamsa, Dis-Patan,Gujarat	BVSc&AH/GAU/00	12.11.77
1905	Patel Nishantkumar Rajnikant	GVC/2002	3, Tulsi Shyam Banglos, opp. Shrinagar Society, Kamlapark Road, Anand, Gujarat	BVSc&AH/GAU/99	1.2.74
1906	Patel Niteshkumar Prabhulal	GVC/2154	"Tirth" 27, Ashutosh Society, Raia Road, Rajkot-1,Gujarat	BVSc&AH/GAU/98	15.8.75
1907	Patel Pankajkumar Ishwarlal	GVC/1956	6, Madhuvan society, B/h S.T. Workshop, Becharpura, Palanpur-385001, Gujarat	BVSc&AH/GAU/96	20.6.74
1908	Patel Pankajkumar Ishwarlal	GVC/1956/09	6, Madhuvan society, B/h S.T., Workshop, Becharpura, Pal anpur-385001, Gujarat	BVSc&AH/GAU/96	20.06.74
1909	Patel Pankajkumar Jethalal	GVC/2280	At & Po:Kumbharwadi Ta:Virpur , Di:Kheda,Pin-388 260 ,Gujarat	BVSc&AH/GAU/00	11.6.77
1910	Patel Pankajkumar Kodarlal	GVC/1548	303, Shubh flat, Near Sai Chawk, Near Manjalpur Township-2, VADODARA 12, Gujarat	BVSc&AH/GAU/92	18.11.68
1911	Patel Pareshkumar Babubhai	GVC/2124	A/11, Prarambh Tenament, Railway Crossing, Vaghasi Road, Anand,Gujarat	BVSc&AH/GAU/98	29.7.75
1912	Patel Pareshkumar Sitarambhai	GVC/1520	36, Saikrupa Society, Radhanpur Highway Crossing, Mehsana,Gujarat	BVSc&AH/GAU/92	14.9.70
1913	Patel Pinakinbhai Kantilal	GVC/1264	At- Fartikui, Ta- Dabhoi, Dis- Vadodara,Gujarat	BVSc&AH/GAU/90	30.7.68
1914	Patel Poshakkumar Rambhai	GVC/1805	B, 303, Arjunratna Apartment, Opp- CT Nagar, Near Bhuyangdev Char Rasta, Gatlodiya, Ahmedabad	BVSc&AH/GAU/91	17.7.69
1915	Patel Prabhubhai Punabhai	GVC/2204	At. & Po :- Fagadi, Nr. Mukhiwas, Ta- Sanad, Ahmedabad - 382110,Gujarat	BVSc&AH/GAU/99	1.6.74
1916	Patel Pradipkumar Amrutlal	GVC/2277	Rajeshnagar Society, Maktupur Road, At - Tandav, Ta - Unjha, Dist - Mehsana,Gujarat	BVSc&AH/GAU/00	8.8.78
1917	Patel Pradipkumar Jagannathbhai	GVC/1877	At & Po : Velda, Ta: Nizar, Di: Surat PIN-394370,Gujarat	BVSc&AH/GAU/95	29.10.73
1918	Patel Pradipkumar Kantibhai	GVC/3065/09	18, Panchdev Society, Nr.Sanmanpark, Mahavirnagar, Himmatnagar,Gujarat	BVSc&AH/AAU/09	30.11.86
1919	Patel Prafulkumar Parsotambhai	GVC/2334/09	15/171, Amrapali Flats, Nr.Bhaktinagar, Bapunagar Char Rasta, Bapunagar, Ahmedabad-04,Gujarat	BVSc&AH/GAU/01	07.10.78

1920	Patel Pragneshkumar Pravinchandra	GVC/3066/09	At-Kashipura, PO-Vishnupura, Ta-Kapadwanj, Dist-Kheda,Gujarat	BVSc&AH/AAU/09	21.01.87
1921	Patel Prahladbhai Chaturbhai	GVC/1093	At - Sunok , Azad Chock, Ta - Unjha, Dist - Mehsana, Gujarat	BVSc&AH/GAU/88	25.3.66
1922	Patel Prahladbhai Kuberdas	GVC/738/09	A-15,Devcity Bunglow,Nr.Shayona City,off R.C.Technical Rd,Ghatlodiya,A'bad,Gujarat	BVSc&AH/GAU/73	10.06.50
1923	Patel Prakashbhai Girdharbhai	GVC/1137	18, Shrij Park Soc, B/h, Umiya Paliwar, Gayatri Mandir Road, Kanknol, Mahavir Nagar, Himmatnagar, Sabarkantha	BVSc&AH/GAU/89	5.7.66
1924	Patel Prakashbhai Haribhai	GVC/1077	24, Subham Bunglows, Opp- Jay Avinash society, KK Nagar Road, Gatlodia, Ahmedabad-61, Gujarat	BVSc&AH/GAU/88	1.6.61
1925	Patel Prakashbhai Nandubhai	GVC/1478	Nr. A.D.C. Bank, At&Po: Nandol, Ta: Dehgam, Dis : Gandhinagar- 382 305,Gujarat	BVSc&AH/GAU/91	18.8.69
1926	Patel Prakashkumar Madhusudan	GVC/901	Madhuvan, Nr.Chaitanya Vrund-1, V.V.Nager Road,Anan, Gujarat	BVSc&AH/GAU/86	3.6.64
1927	Patel Prakashkumar Sankabhai	GVC/2171	At&Po: Badoli, Ta: Idar, Di: Sabarkantha,Gujarat	BVSc&AH/GAU/99	6.4.75
1928	Patel Prakashkumar Sendhabhai	GVC/2273	At.Po: Ramnagar, Ta: Kalol, Dis-Gandhinagar- 382 721,Gujarat	BVSc&AH/GAU/00	1.6.76
1929	Patel Prakaskumar Babubhai	GVC/1870	At - Jagannathpura, Ta - Unjha, Dist - Mehsana,Gujarat	BVSc&AH/GAU/95	20.12.71
1930	Patel Pranav Pravinkumar	GVC/3135/10	51-Anand Nagar Society, Nr-Geeta High School, Ranip, A'bad,Gujarat	BVSc&AH/AAU/10	09.07.88
1931	Patel Prashant Kumar Bipinchandra	GVC/3029/09	C/1, Ghanshayam, Apprtment, Rameshwar Char rasta, Meghaninagar Ahmedabad- 380016, Gujarat	BVSc&AH/SDAU/09	30.07.87
1932	Patel Pravinbhai Parshottam	GVC/824	Veterinary Dispensary- Bardoli, Ta- Bardoli, Dis- Surat, Gujarat	BVSc&AH/GAU/84	31.5.59
1933	Patel Pravinbhai Pranbhai	GVC/951	16/2,SangathanSociety,Vastrapur -Drive-In Road,Memnagar,A'bad, Gujarat	BVSc&AH/GAU/87	1.8.64
1934	Patel Pravinbhai Punjabhai	GVC/1847	At & Po- Himmatpur (Dantroli), via- Vadali, Ta- Idar, Dist. : Sabarkantha PIN- 383235, Gujarat	BVSc&AH/GAU/93	1.6.69
1935	Patel Pravinbhai Ravjibhai	GVC/727	171, Radh Krishna Park, Akota Garden Road, Vadodara-20, Gujarat	BVSc&AH/GAU/83	5.2.61

1936	Patel Pravinchandra Bhagvanbhai	GVC/514	4-A, Umang Society, Nr Jai Jalaram Nagar, B/H, Mothers' School, Gotri Road, Vadodara - 390 021	BVSc&AH/GAU/79	19.5.55
1937	Patel Pravinkumar Ambalal	GVC/1245	A-8, Shruti Appt. B/H Urban Bank, Mehsana- 384 003, Gujarat	BVSc&AH/GAU/90	2.10.67
1938	Patel Pravinkumar Becharbhai	GVC/1099	At&Po: Ratanpur, Ta: Idar, Di: Sabarkantha, Gujarat	BVSc&AH/GAU/88	1.6.64
1939	Patel Pravinkumar Gordhanbhai	GVC/1884	34, Amikunj Society, O/S, Becharpura Railway Crossing, Opp- Laxminagar, Palanpur, Dis- BK, Gujarat	BVSc&AH/GAU/95	20.12.71
1940	Patel Pravinkumar Joitaram	GVC/1770	C/o, Parth Medical store, Dhanera, Ta - Dhanera-385 310 Dist - Banaskantha, Gujarat	BVSc&AH/GAU/94	25.9.71
1941	Patel Pravinkumar Shakarabhai	GVC/2217	34, Shivaji Park Society, Near Kubereshwar Mahadev, Naroda Road, Saijpur, Ahmedabad- 45, Gujarat	BVSc&AH/GAU/99	9.9.75
1942	Patel Purushottambhai Bhagvanbhai	GVC/937	A t - Pilidara, Ta & Dist - Mehsana, Gujarat	BVSc&AH/GAU/87	1.5.64
1943	Patel Rahuikumar Mahendrabhai	GVC/3067/09	Bahera Munga School, Nr. Taluka Panchayat, Dehgam, Gandhinagar, Gujarat	BVSc&AH/AAU/09	18.02.87
1944	Patel Rajabhai Motibhai	GVC/604	At - Fagudara, Po - Viruna, Ta - Deesa, Dis- Banaskantha, Gujarat	BVSc&AH/GAU/81	1.9.56
1945	Patel Rajendrakumar Shivarambhai	GVC/888	C-61, Sona township, Mill compound, Visnagar, Dis- Mehsana PIN- 384 315, Gujarat	BVSc&AH/GAU/87	1.11.62
1946	Patel Rajendrakumar Chaturbhai	GVC/1791	Near Darji vas, At & Po- Maherwada, Ta- Unjha, Dis- Mehsana PIN- 384 130, Gujarat	BVSc&AH/GAU/94	20.4.69
1947	Patel Rajendrakumar Dwarkadas	GVC/1708	At & Po- Bhunav, Ta- Siddhpur, Dis- Mehsana- 384130, Gujarat	BVSc&AH/GAU/94	25.8.71
1948	Patel Rajendrakumar Gopalbhai	GVC/2141	16/125, Kalapinagar, Asarva, Ahmedabad, Gujarat	BVSc&AH/GAU/98	20.3.76
1949	Patel Rajendrakumar Govindbhai	GVC/1729	31, Nand Bunglows, Jantanagar Road, Ghatloiya, Ahmedabad-13, Gujarat	BVSc&AH/GAU/94	25.5.72
1950	Patel Rajendrakumar Keshabhai	GVC/2205	At - Chitroda, Ta - Idar, Dist - Sabarkantha- 383 422, Gujarat	BVSc&AH/GAU/00	27.5.76
1951	Patel Rajendrakumar Somabhai	GVC/1194	60, Kohinoor Sco. Behind Kohinoor Complex, Kheralu road, Vishanagar - 384 315 Dis- Mehsana, Gujarat	BVSc&AH/GAU/89	31.5.66

1952	Patel Rajesh Dahyalal	GVC/1721	1, Mangalsmrutitenament, Ward 10A, PlotNoN254, Gurukul, Gandhidham, Gujarat	BVSc&AH/GAU/94	10.7.72
1953	Patel Rajesh Mohanlal	GVC/2079	At & Po - Brahmanvada, Ta- Unjha, Dis- Mehsana, Gujarat	BVSc&AH/GAU/97	29.3.75
1954	Patel Rajeshkumar Amrutlal	GVC/1705	SB/31 Tulsi Bunglows, B/H Perfect plaza, Radhanpur Road, Mehsana, Gujarat	BVSc&AH/GAU/94	10.5.71
1955	Patel Rajeshkumar Atmaram	GVC/2125	102, KK Complex, Dharmnagar Society, Ashwinikumar Road, Varachha, Surat- 395 008, Gujarat	BVSc&AH/GAU/98	14.3.75
1956	Patel Rajeshkumar Dahyabhai	GVC/953	24, Amitnagar, Amitnagar Circle, VIP Road, Karelibaug, Vadodara-22, Gujarat	BVSc&AH/GAU/86	25.2.62
1957	Patel Rajeshkumar Gandadal	GVC/1727	61, Shree Ganesh Kunj Society (Part-1), Nr. GST Crossing, B/h. Tirupati Society, Ranip, Ahmedabad-382 480	BVSc&AH/GAU/94	20.10.71
1958	Patel Rajeshkumar Kantilal	GVC/2049	C- Milap Flat, Suvas Compound, Opp. Ranekpur Society Society, Shahibaug, Ahmedabad-4, Gujarat	BVSc&AH/GAU/97	1.3.74
1959	Patel Rajeshkumar Ramchandrabhai	GVC/1917	At - Sendhima Chock, At & Po- Rajgadh, Ta- Visnagar, Dis- Mehsana 384 315, Gujarat	BVSc&AH/GAU/95	31.5.73
1960	Patel Rajeshkumar Ranchhodlal	GVC/1229	To: Jetalvasana, Ta: Vishnagar, Di: Mehsana, Gujarat	BVSc&AH/GAU/90	4.5.66
1961	Patel Rajnikant Dahyalal	GVC/2019	At - Itadara, Ambilivanovas, Ta - Mansa, Dist - Gandhinagar, Gujarat	BVSc&AH/GAU/97	20.5.73
1962	Patel Rajnikant Prahlabdbhai	GVC/1560	Jawahar Street, At & Po - Kamli, Ta- Unjha, Dis -Mehsana, Gujarat	BVSc&AH/GAU/92	14.1.68
1963	Patel Rakesh Nandlal	GVC/1863	D-66, Sundaram Society, Behind Vrajdharm Temple, Manjalpur, Vadodara, Gujarat	BVSc&AH/GAU/95	14.11.68
1964	Patel Rakeshbhai Nathalal	GVC/1700	11, Chakradhari Society, Jalaram Kutir, Godhra, Dis-Panchmahal, Gujarat	BVSc&AH/GAU/94	10.5.72
1965	Patel Rakeshkumar Ganeshbhai	GVC/2080	11, Radhe Bunglows, Dairy Raod, Palanpur 385 001 BK, Gujarat	BVSc&AH/GAU/97	25.6.75
1966	Patel Rakeshkumar Kantilal	GVC/2081	At - Mandotri, Po - Hansapur, Ta & Dist - Patan, Gujarat	BVSc&AH/GAU/97	13.11.74
1967	Patel Rakeshkumar Ranchhodbhai	GVC/1680	At & Post-Samna, Ta. Lunawada, Dist : Panchmahal -389230, Gujarat	BVSc&AH/GAU/93	14.8.71

1968	Patel Rakeshkumar Shivabhai	GVC/2172	At & Post-Shamna, Ta- Lunawada, Dist : Panchmahal-389 230,Gujarat	BVSc&AH/GAU/99	26.4.75
1969	Patel Ramabhai Motibhai	GVC/1621	At & Po- Lunwa, Ta- Palanpur, Dis- BK PIN- 385 001,Gujarat	BVSc&AH/GAU/93	1.6.70
1970	Patel Ramanbhai Bhikhabhai	GVC/1896	Sec-1\59, Nr. Rangoli Party Plot, Gayatri Mandir Rd., Himmatnagar, Dist : Sabarkantha- 383 001, Gujarat	BVSc&AH/GAU/95	1.6.73
1971	Patel Ramanbhai Dhulabhai S/o, P.D Jorabhai	GVC/955	C/o D J Patel, At: Vakhatpur, Po: Kidia, Ta: Lunawada, Di: Panchmahal-388710, Gujarat	BVSc&AH/GAU/87	15.06.64
1972	Patel Rameshbhai Dwarkadas	GVC/804	At&Po: Kuvasana, Ta: Visnagar, Di: Mehsana - 384 315, Gujarat	BVSc&AH/GAU/84	1.6.60
1973	Patel Rameshbhai Kesnavlal	GVC/417	31/1/B, Suraksha Soc. Vishanagar, Dis- Mehsana, Gujarat	BVSc&AH/GAU/76	2.3.52
1974	Patel Rameshbhai Manilal	GVC/565	36, Mangalam Society, Kansa Road, Visnagar, Dis-Mehsana-384 315, Gujarat	BVSc&AH/GAU/80	14.8.54
1975	Patel Rameshbhai Prabhnbhai	GVC/1865	At & PO-Kava, Ta-Idar, Dist : Sabarkantha- 383 434,Gujarat	BVSc&AH/GAU/95	15.2.72
1976	Patel Rameshbhai Prahaladbhai	GVC/566	A/11, Shrijibapa Complex, Baradge Road, Nr. Swaminarayan Temple, Vasna, Ahmedabad- 380007, Gujarat	BVSc&AH/GAU/80	23.9.57
1977	Patel Rameshbhai Somabhai	GVC/1387	At.Po: Amudh, Ta: Unjha, Mehsana PIN- 384170,Gujarat	BVSc&AH/GAU/91	1.6.68
1978	Patel Rameshchandra Bholidas	GVC/1209	Out Side Vavghar, Near Sativad, At & Ta: Mansa, Dis- Gandhinagar,Gujarat	BVSc&AH/GAU/89	13.3.65
1979	Patel Rameshchandra Jivarajbhai	GVC/1970	25, Shiv Shanti Society, Vastral Road, Ring road, Vastral Municipality, Ahmedabad- 382 418, Gujarat	BVSc&AH/GAU/96	29.9.73
1980	Patel Rameshchandra Mathurbhai	GVC/1509	41, Gayatrinagar, Bhuravav, Godhara, Dist : Panchmahal-389 001,Gujarat	BVSc&AH/GAU/92	18.6.69
1981	Patel Rameshkumar Becharbhai	GVC/1746	At : Mahadevpura , Ta:Vijapur , Di:Mehsana,Gujarat	BVSc&AH/GAU/94	28.10.70
1982	Patel Ramniklal Tribhovandas	GVC/1832	At- Po- Chandranagar, Ta- Viramgam, Dis- Ahmedabad PIN- 382150,Gujarat	BVSc&AH/GAU/95	27.1.73
1983	Patel Rashiklal Narsinhbhai	GVC/1173	At - Gaglasan, Ta - Siddhpur, Dist Patan- 384 151,Gujarat	BVSc&AH/GAU/89	1.6.65

1984	Patel Rasikbhai Revabhai	GVC/515	3, Darshan park Society, Near Chirag Park, Indira Gandhi Road, Nadiad-387 002 Dis- Kheda, Gujarat	BVSc&AH/GAU/79	1.8.55
1985	Patel Rasiklal Narottamdas	GVC/916	7, Archan Park Society, Nr. Poojan Park, Opp. Bahucharnagar, Pij Road, Nadiad-387 002, Dis- Kheda, Gujarat	BVSc&AH/GAU/87	11.10.63
1986	Patel Ratilal Somjibhai	GVC/765	2, Sabar Soc., Gaytri Mandir Rd., Himmatnagar, Sabarkantha - 383 001, Gujarat	BVSc&AH/GAU/79	21.12.54
1987	Patel Raxitkumar Rambhai	GVC/1498	13, Sarvodaynagar Society, Near Gayatri Madir, Visanagar -384315 Dis- Mehsana, Gujarat	BVSc&AH/GAU/92	13.1.69
1988	Patel Rohitkumar Ishwarbhai	GVC/1748	Sabar Vety. Center, AT&PO-Talod, Ta-Talod, Dist-S. K.-383 215, Gujarat	BVSc&AH/GAU/94	21.7.70
1989	Patel Rohitkumar Laxmichand	GVC/2082	A/8, Tirupati Bunglows, Chansma Road, patan,, Gujarat	BVSc&AH/GAU/97	27.7.74
1990	Patel Sajankumar Jivanlal	GVC/2037	C/12, Nilkamal Appart., Near. Talav Darwaja, Junagadh, Gujarat	BVSc&AH/GAU/96	16.5.74
1991	Patel Sandip Chamanbhai	GVC/3136/10	B-28, Payal Park, Nr-T.B. Three Road, Patan, Gujarat	BVSc&AH/AAU/10	25.12.87
1992	Patel Sanjay Bhanjibhai	GVC/971	902, Prathna Flats, Jalaram-4, University Road, Rajkot-5, Gujarat	BVSc&AH/GAU/85	14.9.62
1993	Patel Sanjay Gandalal	GVC/1840	C/O. B M Patel High School, At: Parbatpura, Ta: Mansa, Dis - Gandhinagar PIN- 382845, Gujarat	BVSc&AH/GAU/93	22.5.70
1994	Patel Sanjaykumar Babulal	GVC/1710	B-106, Tirupati Bunglows, B/H, Radhanpur Road, Mehsana, Gujarat	BVSc&AH/GAU/94	17.8.70
1995	Patel Sanjaykumar Babulal	GVC/2233	20, Ranuja Nagar Society, Opp. F.C.I., Modhera Road, Mehsana, Gujarat	BVSc&AH/GAU/00	1.6.78
1996	Patel Sanjaykumar Chandulal	GVC/1165	1128, Shivshakti Society, Sector- 27, Gandhinagar, Gujarat	BVSc&AH/GAU/89	8.3.65
1997	Patel Sanjaykumar Ishvarlal	GVC/1958	At & Po - Bramanwada, Ta-Unjha, Dist. Mehsana - 384 215, Gujarat	BVSc&AH/GAU/96	11.4.74
1998	Patel Sanjaykumar Jashubhai	GVC/1645	At - Jalalpura, Ta - Dholka, Dist - Ahmedabad, Gujarat	BVSc&AH/GAU/93	17.6.69
1999	Patel Sanjaykumar Parshottambhai	GVC/2253	At & Po: Ladvel, Ta: Lunawada, Dis : Panchmahal, Gujarat	BVSc&AH/GAU/00	12.8.78

2000	Patel Sanjaykumar Somabhai	GVC/2173	Sabar Chilling Center, Bayad, AT&PO- Anjnavav, Ta-Bayad, Dist:Sabarkantha, Gujarat	BVSc&AH/GAU/99	12.11.76
2001	Patel Sanjaykumar Umedbhai	GVC/2274	At - Kansa, Alatar No Madh, Ta - Visnagar, Dist - Mehsana- 384 315, Gujarat	BVSc&AH/GAU/00	14.3.78
2002	Patel Sarojben Keshavlal	GVC/2263	C/O, Mahesh L Patel, At- Kamalpur, (Vad), Ta- Vadnagar, Dis- Mehsana PIN- 384 355 , Gujarat	BVSc&AH/GAU/00	25.6.78
2003	Patel Satishchandra Jashbhai	GVC/450	10, Rajesh Society, Nr. Akshar Purshottam Chhatralay, Anand Vidhyanagar Road, Anand, Gujarat	BVSc&AH/GAU/77	16.12.56
2004	Patel Satishkumar Dahyalal	GVC/2005	E/302, Swaminarayan, A E C Cross Road, 132, Ring Road, Narayanpura, Ahmedabad-13, Gujarat	BVSc&AH/GAU/94	5.2.74
2005	Patel Satishkumar Naranbhai	GVC/2127	13, Swaminarayan Society, Near Railway Crossing, At & Po- Jambusar, Ta- Jambusar, Dis- Bharuch	BVSc&AH/GAU/98	13.11.75
2006	Patel Satishkumar Narayanbhai	GVC/1092	17, Panchvati Society Deesa Road, At & Dis- Patan PIN-38426, Gujarat	BVSc&AH/GAU/88	10.1.66
2007	Patel Satishkumar Ramjibhai	GVC/1618	At & Po: Shamna, Ta: Lunawada, Dis: Panchmahal - 389 230, Gujarat	BVSc&AH/GAU/93	9.5.71
2008	Patel Satishkumar Ranchhodas	GVC/1523	At & Po- Karshanpura, VidhyaVihar Pol, Ta- Vadnagar, Dis- Mehsana PIN- 384335, Gujarat	BVSc&AH/GAU/92	1.6.68
2009	Patel Satishkumar Vitthalbhai	GVC/940	Qt.No.B/8, Baroda Dairy, Makarpura Road, Vadodara PIN.390009, Gujarat	BVSc&AH/GAU/87	2.2.63
2010	Patel Savjibhai Ajabhai	GVC/1097	At - Piluda, Ta - Tharad, Dist - Banaskantha - 385 565, Gujarat	BVSc&AH/GAU/88	1.6.62
2011	Patel Semabhai Punjabhai	GVC/1250	At & Po- Varsada, Ta- Kankrej, Dis- B K PIN 385321, Gujarat	BVSc&AH/GAU/89	1.6.64
2012	Patel Shaileshkumar Bapujibhai	GVC/1989	At: Math, Po: Virania, Ta: Lunawada, Dis : Panchmahal- 389 210, Gujarat	BVSc&AH/GAU/97	7.8.74
2013	Patel Shaileshkumar Dashrathbhai	GVC/1255	Vishalpura, At & Po - Vadu, Ta - Kadi, Dis- Mehsana, Gujarat	BVSc&AH/GAU/90	28.1.66
2014	Patel Shaileshkumar Gobarbhai	GVC/1959	At & Po- Fudeda, Ta: Vijapur, Dis : Mehsana PIN- 382863, Gujarat	BVSc&AH/GAU/96	1.6.73
2015	Patel Shaileshkumar Govindbhai	GVC/1737	Plot No- 338, Opp- Church, Sector-23, Gandhinagar, Gujarat	BVSc&AH/GAU/94	8.8.70

2016	Patel Shaileshkumar Jivanlal	GVC/1663	At&Po: Ambasan, At: Bhut Vas, Talpad Vibhag, Ta&Di: Mehsana,Gujarat	BVSc&AH/GAU/93	14.5.69
2017	Patel Shaileshkumar Purusottambhai	GVC/1976	At - Valam, Motomadh, Ta - Visnagar, Dist - Mehsana,Gujarat	BVSc&AH/GAU/96	17.5.73
2018	Patel Shaileshkumar Shambhubhai	GVC/1860	At- Anandpura Po- Kukarwada, Ta- Vijapur, Dis- Mehsana,Gujarat	BVSc&AH/GAU/95	4.10.72
2019	Patel Shaileshkumar Shankarlal	GVC/885	44, Yogeshwar Society, Panchvati, Nr. R K Eye Hospital,Kalol, Dis-Gandhinagar, Gujarat	BVSc&AH/GAU/87	14.11.64
2020	Patel Shaileshkumar Jethalal	GVC/2276	8, Gokulnagar Society, Deesa Road, Patan-384 265,Gujarat	BVSc&AH/GAU/00	18.2.77
2021	Patel Shakarbhai Hemabhai	GVC/1362	24, Sanskar Bunglows, Randhanpur Road, Mehsa,Gujarat	BVSc&AH/GAU/89	1.3.65
2022	Patel Shankarbhai Hirabhai	GVC/1518	34, Siddharaj Jaysinh soc. Abu road Highway, Behind Sarjan Hall, Palanpur- 385 001 Dis-Banaskantha, Gujarat	BVSc&AH/GAU/92	1.6.69
2023	Patel Shankarbhai Shambhubhai	GVC/485	105, Green City, Modhera Road, Mehsana-384 002, Gujarat	BVSc&AH/GAU/78	1.11.53
2024	Patel Shantilal Gordhandas	GVC/672	30/31, Sadgurunagar, Saru Section Road, Jamnagar, Gujarat	BVSc&AH/GAU/72	18.9.48
2025	Patel Shantilal Keshavlal	GVC/103/09	B-2/202, Madhuvrund (Shvi Park) Society, Ghatlodiya, A'bad,Gujarat	BVSc&AH/NU/65	05.05.40
2026	Patel Shashikant Chaturbhai	GVC/2083	At & Po- Pimpal, Via- Dhinoj, Ta- Chansma, Dis- Patan-384225,Gujarat	BVSc&AH/GAU/97	9.11.74
2027	Patel Shashikant Laxubhai	GVC/3144/10	54/A, Sarvamangal Society, Gpeed, Nani Chovisi, Navsari,Gujarat	BVSc&AH/AAU/10	26.03.87
2028	Patel Shirishkumar Kantilal	GVC/1050	123, Dhanlaxmi Society, Opp. C.M.C., Odhav Road, Ahmedabad- 382415, Gujarat	BVSc&AH/GAU/88	30.3.65
2029	Patel Shivrambhai Jaitaram	GVC/486	At & Po- Visol, Revaparu, Ta- Unjha Dis- Mehsana, Gujarat	BVSc&AH/GAU/78	1.6.55
2030	Patel Shushilkumar Shivabhai	GVC/2174	Patel Faliya, At&Po: Limbhoi, Ta: Modasa, Di: Sabarkantha-383 316,Gujarat	BVSc&AH/GAU/99	16.10.77
2031	Patel Sumantbhai Khusalbhai	GVC/344	"Shreejivas", Nr.Kedar Park, Nr.Ganesh Dairy, Anand-388001 Dis- Anand, Gujarat	BVSc&AH/GAU/74	2.6.54

2032	Patel Sunilkumar Babulal	GVC/1965	At & Po- Dashela, Madhawas, Ta & Dis- Gandhinagar-382 355,Gujarat	BVSc&AH/GAU/96	5.2.74
2033	Patel Sureshbhai Ishwarbhai	GVC/1469	12, Someshwar Bunglow, Nr. Green Park, Modhera Road, Mehsana,Gujarat	BVSc&AH/GAU/91	1.6.68
2034	Patel Sureshbhai Mohanbhai	GVC/1682	At & Po- Kamaliwadi (Devpura), Ta & Dis- Patan- 384 265,Gujarat	BVSc&AH/GAU/93	1.4.69
2035	Patel Sureshbhai Narottambhai	GVC/1561	14, Shaktinagar, Becharpura, Opp- Bhailal Vakil, Palanpur,Gujarat	BVSc&AH/GAU/92	5.4.68
2036	Patel Sureshbhai Viththaldas	GVC/1795	B-4, Tirupati Township-1, Disa Highway, Palanpur, Dis- B.K.,Gujarat	BVSc&AH/GAU/93	30.10.68
2037	Patel Sureshkumar Hirabhai	GVC/1545	At & Po: Kheroli, Vallabh Street, Ta: Balasinor, Dis : Kheda - 388 260,Gujarat	BVSc&AH/GAU/92	13.1.69
2038	Patel Sureshkumar Ishwarbhai	GVC/1751	40, Sajan Society, Mansa Dis- Gandhinagar,Gujarat	BVSc&AH/GAU/94	1.6.72
2039	Patel Tribhovanbhai Parsottamdas	GVC/1612	At & Po- Aritha, Ta- Sami Dis- Patan,Gujarat	BVSc&AH/GAU/93	5.2.71
2040	Patel Tulsibhai Kantilal	GVC/2084	Block No- 56/1, CH- type, Sector-28, Gandhinagar,Gujarat	BVSc&AH/GAU/97	22.8.74
2041	Patel Uishnubahi Giovinbhai	GVC/1382	At & Po - Ridrol, Ta - Mansa, Dis - Gandhinagar,Gujarat	BVSc&AH/GAU/89	1.6.63
2042	Patel Umedbhai Karshanbhai	GVC/1915	Street No- 18, Juna Luxmipura, Palanpur 385002, BK,Gujarat	BVSc&AH/GAU/95	28.12.71
2043	Patel Umeshkumar Shankarlal	GVC/2020	AT. Po. Palasana Takalol (NG), Palasana, Taluko : Kalol, District : Gandhinagar,Gujarat	BVSc&AH/GAU/97	20.3.72
2044	Patel Upendrakumar Govindbhai	GVC/3138/10	"Isharasyam". Oswal-2 road No-2, Plot No- 164, Air Force-2 Gate Road, Jamnagar,Gujarat	BVSc&AH/AAU/10	03.12.87
2045	Patel Urvit Prakashkumar	GVC/3139/10	Pandya Sheri, Atalo, Amtol Gate-At&Po - Vadnagar, Dist-Mehsana,Gujarat	BVSc&AH/AAU/10	25.02.88
2046	Patel vahjibhai Rupabhai	GVC/3030/09	At-Siliasana, Ta-Dhanera, PO Kumor Dist- B.K,Gujarat	BVSc&AH/SDAU/09	01.06.83
2047	Patel Vaibhav Ramnath	MahaSVC/8187/09	At-Ugwa, Tal-Akola, Dist-Akola,Maharashtra	BVSc&AH/MA&FSU/09	16.01.85

2048	Patel Vajabhai Jethabhai	GVC/1912	At - Lelava, Po- Nenava, Ta - Dhanera, Dist - Banaskantha PIN- 385310,Gujarat	BVSc&AH/GAU/95	5.6.70
2049	Patel Varun Shankarlal	GVC/3140/10	25, Harsidhnagar Society, Nr. Sarswati School, Deesa Highway, At&Po-Patan,Gujarat	BVSc&AH/AAU/10	11.01.88
2050	Patel Vasantkumar Kalidasbhai	GVC/1634	At: Chavadi Balna Muvada, Po: Shamana, Ta: Lunawada, Di: Panchmahal - 388 23, Gujarat	BVSc&AH/GAU/93	8.8.71
2051	Patel Vijaybhai Jivabhai	GVC/2175	At & Po - Kanipur, Ta - Vadnagar, Dis : Mehsana,Gujarat	BVSc&AH/GAU/99	21.9.76
2052	Patel Vijaykumar Amrutlal	GVC/1960	Nava Harsiddhpura, Gavada Road, At - Ladol, Ta - Vijapur, Dist - Mehsana,Gujarat	BVSc&AH/GAU/96	2.3.74
2053	Patel Vijaykumar Bhikhalal	GVC/1275	C/O, Veterinary Section, Sabar Dairy, At & Po- Boria, Ta-Himmatnagar, Dis- Sabarkantha PIN- 383001	BVSc&AH/GAU/90	26.11.66
2054	Patel Vijaykumar Ramanbhai	GVC/1738	At:Ekalvelu , Ta:Thasara , Po:Rasulpura , Di:Kheda,Gujarat	BVSc&AH/GAU/94	15.5.72
2055	Patel Vijaykumar Shankarlal	GVC/2085	At - Khatasana, Karoda, Ta - Unjha, Dist - Mehsana,Gujarat .	BVSc&AH/GAU/97	7.10.74
2056	Patel Vimalkumar Kantilal	GVC/2206	At & Po- Vardhara, Ta- Virpur (Balasinor), Dis- Kheda- 388260,Gujarat	BVSc&AH/GAU/99	20.5.78
2057	Patel Vinodkumar Jashubhai	GVC/1797	11, Swagat Bunglows, Ramosana Octroi Naka, Mehsana- 384 002,Gujarat	BVSc&AH/GAU/92	10.6.69
2058	Patel Vinodkumar Tribhovanbhai	GVC/1513	Navrang Park, Near Patel Society, Deesa, Dis- Banaskantha - 385 535,Gujarat	BVSc&AH/GAU/92	10.7.69
2059	Patel Vinubhai Manilal	GVC/1078	B-30, Tulsi bunglows, Radhanpur Road, Mehsana, Gujarat	BVSc&AH/GAU/88	21.16.65
2060	Patel Vinubhai Ramdas	GVC/883	2/Hariharnagar Society, Bhavpura, Near Urmiya Madir, Kadi, Ta - Kadi, Dis- Mehsana, Gujarat	BVSc&AH/GAU/86	1.6.62
2061	Patel Vipulkumar Amritbhai	GVC/2086	19, Kashivishvanath Society, Vibhag-2, Nr. Balkrishna Mandir, Ranip, Ahmedabad	BVSc&AH/GAU/97	24.6.75
2062	Patel Vipulkumar Manubhai	GVC/2309	At & po- Davada, Patel Vas, Ta- & dis- Mehsana,Gujarat	BVSc&AH/GAU/01	3.4.75
2063	Patel Vishnubhai Ambaram	GVC/729	14, Mohan Kunj Society, Nr- Bus Stand, At & Po- Upera, Ta - Unjha, Dist - Mehsana- 384 170, Gujarat	BVSc&AH/GAU/83	1.6.59

2064	Patel Vishnubhai Somabhai	GVC/1104	Adars Mahel, Mahavirnagar, Himmatnagar, Dist - Sabarkantha, Gujarat	BVSc&AH/GAU/88	1.6.65
2065	Patel Vishnukumar Maganlal	GVC/787	At&Po: Mahadevpura, Ta: Prantij, Sabarkantha, Gujarat	BVSc&AH/GAU/84	20.5.61
2066	Patel Vishnuprasad Bababhai	GVC/963	At & Po- Modhuka, Ta - Talod, Dis : Sabarkantha PIN-383 305, Gujarat	BVSc&AH/GAU/85	30.9.63
2067	Patel Vithalbhai Govindbhai	GVC/418	9, Radhika Society, Gokuleswar Mandir, Gokulnagar, Himatnagar, Di: Sabarkantha, Gujarat	BVSc&AH/GAU/76	26.7.53
2068	Patel Vitthalbhai Naranbhai	GVC/860	Plot No: 680/1, Sector- 3C, Gandhinagar-382 006, Gujarat	BVSc&AH/GAU/87	21.10.62
2069	Patel Vitthalbhai Ramabhai	GVC/1357	At&Po: Gundal, Ta: Khedbrahma, Di: Sabarkantha, Gujarat	BVSc&AH/GAU/89	1.6.62
2070	Patel Yashvantbhai Jayantilal	GVC/1910	At : Toraniya, Po: Kherol, Ta: Prantij, Dis : Sabarkantha, Gujarat	BVSc&AH/GAU/95	1.6.73
2071	Patel Yogeshkumar Chhibubhai	GVC/3090/09	A-19, Shastri hostel, At&PO-Kalediya Ta-Sankheda Dist-Vadodara.s,Gujarat	BVSc&AH/AAU/09	18.04.87
2072	Patel Yogeshkumar Manilal	GVC/1866	At & Po: Kelamul, Ta: Santrampur, Dis : Panchmahal, Gujarat	BVSc&AH/GAU/95	28.1.73
2073	Patel Yogeshkumar Mukeshbhai	GVC/3068/09	At&Po Masai, Ta-Idar, Dist- Sabarkantha, Gujarat	BVSc&AH/AAU/09	01.05.86
2074	Patel Yogeshkumar Natvarlal	GVC/1880	Veterinary Dispensary, Dungri, Dist - Valsad, Gujarat	BVSc&AH/GAU/95	13.7.73
2075	Patel Yogeshkumar Ratilal	GVC/2143	At - Ambala, Ta - Bechraji, Dist - Mehsana, Gujarat	BVSc&AH/GAU/98	30.6.74
2076	Pathak Dineshchandra Arvindray	GVC/105	"Upanisad", 19, Sarita Vihar, Kalawad Road, Rajkot-5, Gujarat	BVSc/Bombay Uni/65	18.5.36
2077	Pathak Henguli S/o Late Phanindra Nath Pathak	ASM/2460/09	Vill&PO-Kazipara, Dt-Nalbari-781335, Assam	BVSc&AH/AAU/09	1.11.86
2078	Pathan Nadimkha Kalimahamadkha	MahaSVC/8208/09	Nawargaon, Tal. Sindewahi, Dist. Chandrapur, Maharashtra	BVSc&AH/MA&FSU/09	08.01.85
2079	Pathan Wakeel Majidkhan	GVC/1296	At&Po: Wadhona *, Ta: Nandgam (Khandeshop), Di: Amravati, Gujarat	BVSc&AH/PKV/88	20.4.65

2080	Pathare Ganesh Tukaram	MahaSVC/8165/09	A/P Bhangdewadi (Dhawalpuri), Tal. Parner, Dist. Ahmednagar-414203, Maharashtra	BVSc&AH/MA&FSU/09	18.09.85
2081	Patidar Hitendrabhai Manilal	GVC/1850	At - Shankarpura Kampa, Po - Navachiboda, Ta - Bhiloda, Dist - Sabarkantha, Gujarat	BVSc&AH/GAU/92	12.8.69
2082	Patil Abhijeet Suresh Rao	MahaSVC/8309/10	E-type, E/23, GMSSK.Ltd. Shankarnagar, Tal. Biloli, Dist. Nanded-431505, Maharashtra	BVSc&AH/MA&FSU/09	05.05.85
2083	Patil Amit Ashok	MahaSVC/8331/10	"Ashovij" Plot No.16, Shrikrishna Colony Khwajamia Road, Jalgaon, Tal. Dist. Jalgaon, Maharashtra	BVSc&AH/MA&FSU/09	28.08.85
2084	Patil Chandrashekhar Santosh	MahaSVC/8241/09	Plot No.11 Vidya Vihar Colony, Gate No.1430, Nr Mundada Gate Amalner Dt-Jalgaon- 425401, Maharashtra	BVSc&AH/MA&FSU/09	03.10.84
2085	Patil Kiran Atmaram	GVC/3101/10	Shivkrupa, 3-Satyanarayan, society, 100ft.road, Rathodchokdi, Borsad, Gujarat	BVSc&AH/MPKV/01	01.04.77
2086	Patil Mahendra Jadhav	MahaSVC/8351/10	A/P-Padalda, Tal. Shahada, Dist. Nandurbar- 425409, Maharashtra	BVSc&AH/MA&FSU/06	26.07.79
2087	Patil Ramchandra Pandurang	MahaSVC/8274/09	A/P-Jamgaon, Tal. Madha Dist. Solapur- 413209, Maharashtra	BVSc&AH/MA&FSU/09	07.11.85
2088	Patil Sachin Baburao	MahaSVC/8252/09	Chamber Lane, Asurle, Tal. Panhala, Dist. Kolhapur-416229, Maharashtra	BVSc&AH/MA&FSU/09	07.12.85
2089	Patil Sharadchandra Subhash Rao	MahaSVC/8257/09	At-Takali, Po-Walandi, Tal. Deoni Dist. Latur- 413519, Maharashtra	BVSc&AH/MA&FSU/09	10.06.85
2090	Patil Shivali Rajesaheb	MahaSVC/8238/09	Mahalangi, Tal. Chakur, Dist. Latur- 413529, Maharashtra	BVSc&AH/MA&FSU/09	02.08.84
2091	Patkar Rupali Prakash	MahaSVC/8347/10	Joy Pragati Coop. Soc., Flat No.14, 1st Floor, B- Wing, Dr. Karanjiya Rd, Tarun Bharat, Andheri (East), Mumbai-99, Maharashtra	BVSc&AH/MA&FSU/09	29.04.86
2092	Pattat Govindbhai Naranbhai	GVC/1397	At- Mal Jinjava, Ta- Talala, Dis- Junagadh PIN- 362 150, Gujarat	BVSc&AH/GAU/91	15.9.67
2093	Pavitra B.S. D/o Shivanna B.V	KarnSVC/4325/09	No.20 Margada Lamp, Birur-577116, Kadur Tq, Chickmagalur Dt., Karnataka	BVSc&AH/KVAFSU/09	22.9.86
2094	Pawan Dixit S/o D. Dixit	UPSVC/5045/09	H.No. 54, Karagavan, Rath, Distt.- Hamirpur, UP	BVSc&AH/JNKVV/09	01.01.84
2095	Pawan Kuamar Singh S/o Shri Kadam Singh	MPSVC/2600/09	H.No.72, Bhola Chowk, Nai Basti, Tikoniya, Morar, Gwalior, M.P	BVSc&AH/JNKVV/09	9.4.81

2096	Pawan Kumar Gupta S/o Satish Chand Gupta	CHSVC/481/09	Plot No.- 2, Viveka Nand Nagar, Durg, Chhattisgarh	BVSc&AH/IGKVV/96-97	01.06.73
2097	Pawan Kumar Kure S/o Tika Ram Chavi Lal Kure	CHSVC/496/10	Manoj Tailoring Stores, ST - 2, Shakti Vihar, Risali, Bhilai, District- Durg	B.V.Sc.&AH/IGKVV/09	27.04.80
2098	Pawar Avinash Jayvant	MahaSVC/8329/10	Pawar Wasti, AT-Birdawadi, Post-Ambethan, Tal Khed, Dist.Pune,Maharashtra	BVSc&AH/MA&FSU/09	24.06.86
2099	Pawar Supriya Vasantrao	MahaSVC/8237/09	Suraj Niwas, 1-7-2390-1, Nandigram Society, Behind Sharda Nagar, Tal.&Dt.Nanded- 431602,Maharashtra	BVSc&AH/MA&FSU/09	22.03.86
2100	Peaush Kumar Singh S/o Balbir Singh	UPSVC/4961/09	H.N.1157, Shambhu Nagar, Sikohabad, Distt, Firozabad, UP	BVSc&AH/UPPDDUPCVV /09	08.12.79
2101	Pednekar Riddhi Prabhakar	MahaSVC/8164/09	16, Laxmi Niwas, Kakadwadi, Opp. Arya Samaj, Girgaon, Mumbai- 400004,Maharashtra	BVSc&AH/MA&FSU/05	11.12.82
2102	Peer Mohamed.S (K.M.Shahul Hameed)	TNSVC/4429/09	37/7-A, Trichy Road, Y.M.R.Patty, Dindigul 624001, Tamil Nadu	BVSc/TANUVAS/81	10.06.55
2103	Periasamy.M (Mylagounder)	TNSVC/4426/09	Mylagounder Thottam, Naduvallur PO, Ganguvalli taluk, Salem-636005, Tamil Nadu	BVSc/M.U/67	01.05.41
2104	Perumal.S (M.Subramani)	TNSVC/4420/09	53, Sergunthar Big Street, Sholinghur, Vellore district, Tamil Nadu	BVSc/TANUVAS/96	01.12.72
2105	Pethani Kamlesh Jamnadas	GVC/2236	At :- Vadodar, Ta: Dhoraji, Di: Rajkot.Gujarat	BVSc&AH/GAU/00	4.6.78
2106	Phookan Manash Jyoti S/o Late Heremba Phookan	ASM/2466/09	Vill&PO-Kalipani,Dt-D:brugarh -786610,Assam	BVSc&AH/AAU/09	7.5.85
2107	Phukon Jayashree Chiring S/oSh Kula Chiring Phukon	ASM/2477/10	Chiring Gaon PO, Dhital Pukhuri,Dt-Sivasagar, Assam	BVSc&AH/AAU/09	31.8.85
2108	Pichai.A.K (Kasirajan)	TNSVC/4422/09	218/3, S.R.Nagar.Thirumanur, Ariyalur district-621715,Tamil Nadu	BVSc/M.U/68	08.01.40
2109	Pitchiah.U (P.Ulaganathan)	TNSVC/4431/09	379/162, Kannimar Amman Koil Street, Tenkasi-627811, Tamil Nadu	BVSc/TNAU/74	03.12.49
2110	Piyush Dube S/o Prem Prakash Dube	CHSVC/506/10	C-34, Ajay Nagar, Bilaspur,Chhattisgarh	B.V.Sc.&AH/IGKVV/09	11.05.84
2111	Piyush Kumar Singh S/o Late Prem Narayan Singh	JVC/625/09	TVO., Talijhari Talijhari, Rajmahal, Sahibganj, Jharkhand	BVSc&AH/RAU/00	23.10.73

2112	Piyusha Shalina Dona Minz W/o Albert Minz	JVC/633/09	C/o Akbert Minz, Kokar tunki Toli. Bariatu, Ranchi-834009, Jharkhand	BVSc&AH/BAU/09	30.04.85
2113	Podchalwar Kundan Suresh	MahaSVC/8182/09	Dadmahal Ward, Near Hanuman Khidki. Tal. Dist. Chandrapur-442402, Maharashtra	BVSc&AH/MA&FSU/09	20.11.84
2114	Pooja Bhardwaj D/o Sh Uttam Bhardwaj	MPSVC/2624/09	Saket Nagar Colony, Kareli Narsighpur, M.P.- 487221	BVSc&AH/JNKVV/09	24.6.83
2115	Poongothai.R (A.Rangasamy)	TNSVC/4547/09	68/40, Pappakattu Thottam, Chinniampalayam, Kanchikovil, Erode-638116, Tamil Nadu	BVSc&AH/TANUVAS/09	01.08.87
2116	Porchezhiyan.S (R.Selvam)	TNSVC/4491/09	4/1070, West Street, Chinthamani PO, Villupuram Taluk & Dist-605601, Tamil Nadu	BVSc&AH/TANUVAS/09	10.04.86
2117	Porgovan.S (S.Subramanian)	TNSVC/4610/09	121, Kallar Street, Nambivayal PO Pattukottai taluk, Thanjavur-614615, Tamil Nadu	BVSc&AH/TANUVAS/09	20.06.85
2118	Pormannan.P (K.Palanisamy)	TNSVC/4649/09	Sembulichampalayam PO, Bhavani taluk, Erode-638501, Tamil Nadu	BVSc&AH/TANUVAS/09	30.11.82
2119	Pothiraj.P (P.Pothi Naicker)	TNSVC/4436/09	Raj Nivas, 68, Ayyappa Nagar, Perumalpuram PO, Tirunelveli-627007	BVSc/M.U/70	28.04.46
2120	Prabakar.D (P.Duraisamy)	TNSVC/4496/09	Kuppanavalasu, K.T.Palayam PO, Kallimandhayam via, Oddanchatram taluk, Dindigul Dist.-TN	BVSc&AH/TANUVAS/09	21.05.85
2121	Prabhakar Hegde B S/o Narayan Hegde B	KarnSVC/4357/09	No. 154, 2nd cross, Lias Layout, R.M.V. Extn 2nd stage, Bengaluru-4, Bengaluru Urban,, Karnataka	BVSc/Mysore Uni/64	5.8.41
2122	Prabhakar.R (G.Ramakrishnan)	TNSVC/4529/09	329, Bhadrakaliannan Kovil West Street, Sathyamangalam-1, Erode Dist., Tamil Nadu	BVSc&AH/TANUVAS/09	27.06.87
2123	Prabhakaran.D (T.Duraisamy)	TNSVC/4644/09	44, Dr. Ambedkar Street, Thavittupalayam, Anthiyur-638501, Erode Dist., Tamil Nadu	BVSc&AH/TANUVAS/09	23.07.85
2124	Prabhat Gupta S/o R.P. Gupta	UPSVC/5018/09	254 Nazai Bazar Baruwa Sagar, Distt.- Jhansi, UP	BVSc&AH/JNKVV/09	06.03.84
2125	Prabhjeet Singh S/o D.S. Kular	Pb.SVC/2913/09	# 240, Sector-35A, Chandigarh-160022, Punjab	BVSc&AH/PAU/87	27.5.64
2126	Prabhu Biradar Patil S/o Adivappa	KarnSVC/4286/09	1 st Floor, Syndicate Bank, Killabhad, Terdal- 587315, Jamakandi Tq, Bagalkot Dt., Karnataka	BVSc&AH/KVAFSU/09	31.7.84
2127	Prabhu Kallur S/o Basappa	KarnSVC/4258/09	No.234, Nilkhed-586115, Sindagi Tq, Bijapur Dt., Karnataka	BVSc&AH/KVAFSU/09	6.4.86

2128	Prabhu. K.P. (M.K.Perumaal)	TNSVC/4515/09	D-42, Ramalinga Nagar, Old Suramangalam PO, Salem-636005, Tamil Nadu	BVSc&AH/TANUVAS/09	03.04.84
2129	Prabhu.R (S.K.Ramasamy)	TNSVC/4566/09	6-51, North Sellipalayam, Koyampalli PO, Karur-639114, Tamil Nadu	BVSc&AH/TANUVAS/09	30.06.86
2130	Prabhu.S (A.K. Sakthivel)	TNSVC/4629/09	18, Mariamman Kovil Street, Arachalur, Erode district-638101, Tamil nadu	BVSc&AH/TANUVAS/09	30.08.85
2131	Prabu.S (K.Solai)	TNSVC/4494/09	112/1, Karthikeyan Road, Saidapet,Arni, Thiruvannamalai (DT)-632301, TN	BVSc&AH/TANUVAS/09	24.06.85
2132	Pradeep C S/o Chikkanaik B.C.	KarnSVC/4321/09	No.1183, Metikuppa Road, H.D. Kote- 571114,Mysore Dt.,Karnataka	BVSc&AH/KVAFSU/09	26.7.86
2133	Pradeep Kumar Dhovi S/o Jullal	UPSVC/4952/09	Vill Sauthna, Po Kharagpur Gaya Distt Etawah, UP	BVSc&AH/UPPDDUPCVV /09	07.07.79
2134	Pradeep Kumar Tiwari S/o Daroga Prasad Tiwari	CHSVC/474/09	H.No. 367, Gali No. 02, Ward No.- 17, Mamta Nagar, Rajnand Village	BVSc&AH/IGKVV/07-08	10.10.80
2135	Pradip Kumar S/o Sri Dharni Dhar Ram	JVC/613/09	Nagrikala, Sijua, Tetulmari, Baghmara, Dhanbad., Jharkhand	BVSc&AH/BAU/93	20.12.66
2136	Pradip Kumar S/o Sri Sahdeo Kumar Nayak	JVC/612/09	Pirgul, Kasmar., Tenughat Bokaro-829115, Jharkhand	BVSc&AH/BAU/97	30.01.73
2137	Pragathi B.S. S/o Shridhar K	KarnSVC/4328/09	No.224,Belgola -571606, Sriangapatna Tq, Mandya Dt.,Karnataka	BVSc&AH/KVAFSU/09	27.11.86
2138	Prahalad Mangal S/o Shyam Sundar Mangal	RajSVC/3724/10	Ravi Prasad Mangal, Near Govindji Temple, Upala Bazar, Sirmathura, Dholpur-328026, Rajasthan	BVSc&AH/SKRAU/10	28.04.86
2139	Prahalad Sahay Yadav S/o Mangal Chand Yadav	RajSVC/3731/10	Vill.- Blakhen, Post-Govindgarh, Teh.-Chomu, Jaipur-303807, Rajasthan	BVSc&AH/SKRAU/10	24.01.85
2140	Prahlad Gupta S/o Amritlal Gupta	UPSVC/4977/09	Vill.- Sultanpur, PO- Marikpur, Distt.- Jaunpur,UP	BVSc&AH/NDUA&T/09	20.08.84
2141	Prajapati Alpesh jethalal	GVC/3031/09	To-Palasar, ta chansma, Dist Patan, Gujarat	BVSc&AH/SDAU/09	14.03.86
2142	Prajapati Anil Kalidas	GVC/1967/10	109/2598 Guj. Housing Board Colony, Meghananagar, Ahmedabad-16,Gujarat	BVSc&AH/GAU/96	31.01.74
2143	Prajapati Arvindbhai Atmaram	GVC/1684	At&Po: Vagosana, Ta: Kalol, Di: Mehsana- 382 845,Gujarat	BVSc&AH/GAU/93	1.6.69

2144	Prajapati Ashokkumar Lavjibhai	GVC/1460	Umriyanagar, At & Po. Boru, Ta - Mansa, Dis-Gandhinagar, Gujarat	BVSc&AH/GAU/91	6.1.66
2145	Prajapati Ashwinkumar Shankarlal	GVC/1510	11, Gayatri Krupa Society, B/H ST Division, Becharpur, Palanpur- 385001, Dist - Banaskantha, Gujarat	BVSc&AH/GAU/92	6.6.70
2146	Prajapati Babubhai Ishwarbhai	GVC/775	F/56, Umriyanagar Duplex Part - 1, Nr, Chanakypuri, New Sama Road, Baroda, Gujarat	BVSc&AH/GAU/81	1.8.55
2147	Prajapati Baljnath Shyamalal	MahaSVC/8201/09	Deshpandey Plot Badnera Road Amravati, Maharashtra	BVSc&AH/MA&FSU/09	09.01.84
2148	Prajapati Bhaveshkumar Ishwarbhai	GVC/3143/10	At-Po Gambhu, Ta-Becharaji, Dist-Mehsana, Gujarat	BVSc&AH/AAU/10	10.06.88
2149	Prajapati Bipinchandra Purushottamdas	GVC/1415	17/Pramukh Vandana Tenaments,, B/H., Manjalpur Township-2, Manjalpur, Vadodara-11, Gujarat	BVSc&AH/GAU/91	5.11.67
2150	Prajapati Chandrakantkumar Ramjibhai	GVC/1196	C-51, Ratnamani Society, Canal Road, Nr. Telephone Exchange, Patan, Gujarat	BVSc&AH/GAU/89	11.10.65
2151	Prajapati Chelabhai Becharbhai	GVC/316	21, Kedarnatha Society, Radhanpur Road, Near Aerodam, Mehsana - 2, Gujarat	BVSc&AH/GAU/73	1.8.48
2152	Prajapati Dakshitkumar Prahadbhai	GVC/3069/09	Village-Boriavi, Ta-Dist-Mehsana, Prajapativas, Gujarat	BVSc&AH/AAU/09	23.08.86
2153	Prajapati Dharmendrakumar Hargovanbhai	GVC/1975	F-16, Ruturaj Flats, T.B. Hospital Road, Mehsana, Gujarat	BVSc&AH/GAU/96	25.12.73
2154	Prajapati Dilipbhai Ishwarbhai	GVC/1992	At - Vishavaga, Near Jabareshvar Mahadev temple, Ta - Rajpipala - Nadod, Dist - Narmada, Gujarat	BVSc&AH/GAU/96	22.5.74
2155	Prajapati Govindbhai Nanalal	GVC/1225	At&Po: Vadnagar, Out of Arjunbhai Gate, Ta: Kheralu, Di: SK, Gujarat	BVSc&AH/GAU/90	1.6.62
2156	Prajapati Harshadkumar Madharlal	GVC/1438	At - Udapur Ta - Visanagar, Dist - Mehsana, Gujarat	BVSc&AH/GAU/91	25.6.66
2157	Prajapati Ishwarbhai Hargovindbhai	GVC/1082	B-29, Krishna Bunglows-III, Opp- Government Engineering College, Motera, Sabarmati, Dis-Gandhinagar	BVSc&AH/GAU/88	1.6.64
2158	Prajapati Jagdish Dwarkadas	GVC/3038/09	To-Vijapur, Visbhagya Lakshmi Society, Ta-Vijapur, T.B.Hospital, Dist-Mehsana, Gujarat	BVSc&AH/SDAU/09	23.04.84
2159	Prajapati Jayantibhai Vitthalbhai	GVC/1527	At & Po- Dethali Ta - Chanasma Dis-Mehsana, Gujarat	BVSc&AH/GAU/92	25.8.69

2160	Prajapati Kalpeshkumar Dahyabhai	GVC/3032/09	At&PO-Kheralu, Ta-Kheralu, Dist-Mehsana-384325, Gujarat	BVSc&AH/SDAU/09	29.01.86
2161	Prajapati Kamleshbhai Hirallal	GVC/1226	B/105, Tirupati BunglowsB/H Dudh Sagar dairyRadhanpur Road, Mehs,Gujara, Gujarattana	BVSc&AH/GAU/90	16.7.67
2162	Prajapati Kantibhai Kohyabhai	GVC/1829	Sabar Chilling Center, Bayad, AT&PO-Anjnavav,Ta-Bayad,S.K.,Gujarat	BVSc&AH/GAU/93	1.6.70
2163	Prajapati Karshanbhai Bhagabhai	GVC/517	Associate Professor (LPM), College of Veterinary Science & A H, SDAU, SK Nagar, Dantiwada- 385 506 Dis- Banaskantha	BVSc&AH/GAU/79	2.5.58
2164	Prajapati Keshavlal Virchandbhai	GVC/847	Vahorwad Sheri, Prajapati Vas, Dhinoj, Ta: Chanasma, Dis- Patan, Gujarat	BVSc&AH/GAU/85	16.8.61
2165	Prajapati Laljibhai Harjibhai	GVC/1505	At - Nardipur, Near Sardhav Road,Ta - Kalol, Dist - Gandhinagar,Gujarat	BVSc&AH/GAU/92	1.6.67
2166	Prajapati Mahendrakumar Narayandas	GVC/1916	Prajapativas, At & Po - Kakoshi, Ta - Siddhpur, Dis - Patan PIN- 384 290,Gujarat	BVSc&AH/GAU/95	15.10.72
2167	Prajapati Mahendrakumar Virabhai	GVC/2087	15, Shivam Nagar, Dairy Road, Near I T I, Palanpur,Gujarat	BVSc&AH/GAU/97	8.11.74
2168	Prajapati Maheshkumar Nathalal	GVC/2025	At - Kherpur, Po - Sarsav, Ta - Kadi, Dis - Mehsana ,Gujarat	BVSc&AH/GAU/97	5.3.70
2169	Prajapati Maheshkumar Ramabhai	GVC/1423	73, Rangmahal Bunglows, Near Mahakali Temple, Kankrol Road, Himmatnagar-388001 Dis- Sabarkantha	BVSc&AH/GAU/91	26.11.68
2170	Prajapati Mukeshkumar Nanalal	GVC/1473	B/90, Tirupati Bunglows,B/H, Radhanpur Road, Mehsa,Gurjat	BVSc&AH/GAU/91	1.6.67
2171	Prajapati Muljibhai Bhikhabhai	GVC/969	At: Shika, Ta: Modasa, Di: Sabarkantha, Gujarat	BVSc&AH/GAU/82	15.3.55
2172	Prajapati Narendrakumar Bhagvandas	GVC/1768	64/2, Kisannagar, Sector- 26, Gandhinagar,Gujarat	BVSc&AH/GAU/94	9.8.74
2173	Prajapati Nareshbhai Bhikhabhai	GVC/1640	Opp. Veterinary Dispensary, Prajapativas, At & Ta- Mansa, Dis : Gandhinagar,Gujarat	BVSc&AH/GAU/93	1.6.70
2174	Prajapati Natvarbhai Dhulabhai	GVC/1281	At - Detroj, Po- Lakhavad, Ta & Dis- Mehsana,Gujarat	BVSc&AH/GAU/90	1.5.64
2175	Prajapati Niravkumar Kanubhai	GVC/3145/10	Opp. Shivam Cinema, Dahod Road, Ta-Zalou, Dist-Dahod,Gujarat	BVSc&AH/AAU/10	01.12.87

2176	Prajapati Niteshkumar Somabhai	GVC/2130	1- Surya Nagar Society, Behind Malgodown, Near Chandra Colony, Mehsana-2, Gujarat	BVSc&AH/GAU/98	19.4.75
2177	Prajapati Prahaldabhai Purushottam	GVC/569	At & Po:Aamja, Ta-Kalol, Dis : Gandhinagar, Gujarat	BVSc&AH/GAU/80	9.8.57
2178	Prajapati Rameshchandra Varvabhai	GVC/1027	, 136-Sahakar Colony, Sector-25,Gandhinagar, Gujarat	BVSc&AH/GAU/85	21.2.62
2179	Prajapati Sandipkumar Sendhabhai	GVC/1657	At - Tintodan, Ta - Vijapur, Dist - Mehsana-382 865,Gujarat	BVSc&AH/GAU/93	1.6.70
2180	Prajapati Sevantilal Mulchandbhai	GVC/731	C/8, Khusbu Apprt, Near Biladi Baug, Visanagar Road, Mhesana, Gujarat	BVSc&AH/GAU/83	1.6.60
2181	Prajapati Vijay Sureshbhai	GVC/3070/09	Moto Prajaptivas, Ladol, Ta-Vikapur, Dist-Mehsana, Gujarat	BVSc&AH/AAU/09	18.04.87
2182	Prajapati Vipulkumar Govindbhai	GVC/3146/10	Narmada Vasahat, Thasra, Ta- Thasra, Dist-Kheda,Gujarat	BVSc&AH/AAU/10	16.05.88
2183	Prajapati Vishnuprashad Bhikhalal	GVC/1227	Hari om DOG Clinic,41,sai Baba complex,Opp-Hatkeshwar Bus Stop.Ahmedabad, Gujarat	BVSc&AH/GAU/90	16.6.68
2184	Prajapti Shivabhai Hirabhai	GVC/730	B-9, Megdoot Apprt., Nr. Rampark Society, Modasa, Dis-Sabarkantha - 383 315, Gujarat	BVSc&AH/GAU/83	1.6.58
2185	Prajna mohapatra, D/o Prabodh Kumar Mohapatra	OSVC/2286/09	At- Baghraroad, P.O:Baripada, Distt. Mayarbhanj, Orissa	BVSc&AH/OUAT/09	01.05.84
2186	Prakash Chandra Pandit, S/o Sridhar Pandit	OSVC/2318/09	At/PO Nuapatna, PS-Tigiria, Distt. Cuttak-754035, Orissa	BVSc&AH/OUAT/09	20.11.80
2187	Pramod Kumar S/o Duli Chand	RajSVC/3719/10	VPO-Yalsar, VIA-Kudan, Sikar, Rajasthan	BVSc&AH/SKRAU/10	28.08.82
2188	Pramod Kumar S/o Nand Kumar	RajSVC/3710/10	D-238, Basant Vihar, Jhunjhunu-333001, Rajasthan	BVSc&AH/SKRAU/10	17.11.83
2189	Pranab K.Rabha S/o Sri D.Rabha	MeghSVC/272/09	Vill-Upper Manik Ganj,East Garo Hills,Meghalaya	BVSc&AH/AAU/09	20.9.80
2190	Pranjal Singh S/o K.P.Singh	UKSVC/452/09	C/o Shri K.P.Singh, S.M (OMI)Alaknanda Bhawan THDC., Rishikesh, Distt, Dehradun, Uttarkhand	BVSc&AH/GBPUA&T/09	22.02.85
2191	Prasanna T S/o Thimmaiah T.C.	KarnSVC/4230/09	No.1641, 3 rd Cross, Vidyannagar, Mandya-571401,Karnataka	BVSc/UAS,B'lore/80	2.4.57

2192	Prasanta Kumar Singh, S/o Narahani Singh	OSVC/2260/09	At- Umar, PO-Jhadeswaspur, Distt-cuttack, Orissa-754291	BVSc&AH/OUAT/85	14.05.61
2193	Prasanth Viswanath, S/o P.K.Viswanathan	KSVC/3572/09	Puthuparambil House, Madapally P.O., Changanacherry, Kottayam-686546, Kerala	BVSc&AH/KAU/09	18.12.84
2194	Prashant Chaudhary, S/o Madan Dass Chaudhary	HVC-870/09	House NO. 118, Y.Point, Near Sahni Niwas, Poanta Sahib Distt Sirmour, HP	BVSc&AH/CSKHPKV/09	19.06.86
2195	Prashant Devangan S/o I.L. Devangan	CHSVC/503/10	Kashyap Colony, Bilaspur, Chhattisgarh	B.V.Sc.&AH/IGKVV/09	09.06.84
2196	Prashant Kumar Nayak S/o Sh Bharat Lal Nayak	MPSVC/2643/09	V&P-Bilhararaja Sagar, M.P-470051	BVSc&AH/JNKVV/09	1.07.81
2197	Pratap Tigga S/o Palasidiyus Tigga	CHSVC/541/10	Village- Sukha Pokhare, Post- Janchua, District- Jshpur, Chhattisgarh	B.V.Sc.&AH/IGKVV/09	10.03.10
2198	Prataprudra Sahu, S/o Jadumani Sahoo	OSVC/2319/09	AT/PO Bankighirdi, via-S.Rampur, Distt.Snepur-767045, Orissa	BVSc&AH/OUAT/09	14.06.84
2199	Prateek Godara S/o Motu Ram Godara	Pb.SVC/2893/09	3/105, Housing Board, Sri Ganga Nagar, Punjab	BVSc&AH/GADVASU/09	15.9.85
2200	Prathap Kumar K S/o Kuppaswamy Naidu G.K.	KarnSVC/4350/09	No.22, 2nd floor, 1st B Main, vivekanandanagar BSK 3rd stage, Bengaluru- 560085, Karnataka	BVSc&AH/KVAFSU/09	27.2.86
2201	Pravas Ranjan Sahoo, S/o Baikunthanath Sahoo	OSVC/2304/09	At/Kamalaadiha, PO/Kamaladiha, Via.- Narosingapur sub-Athagarh, Distt.-Cuttack- 754032, Orissa	BVSc&AH/OUAT/09	02.07.86
2202	Praveen Aggarwal S/o Sh Mahabir Prasad	HarSVC/2142	Purani Mandi Near Talab, Naranaul, Haryana	BVSc&AH/CCSHAU/06	19.12.81
2203	Praveen Kumar G.R. S/o Ramachandrappa D.K.	KarnSVC/4326/09	Gowdanahalli -577511, Hiriyyur Tq, Chitradurga Dt., Karnataka	BVSc&AH/KVAFSU/09	21.12.85
2204	Praveen Kumar Rohilla S/o Sh Surender	HarSVC/2098	VPO Buwana T. Julana Distt- Jind, Haryana	BVSc&AH/CCSHAU/09	29.9.85
2205	Praveen Kumar S/o Sh Jai Dev Kumar	HarSVC/2121	VPO Bhali Anandpur, Rohtak, Haryana	BVSc&AH/CCSHAU/09	25.10.86
2206	Praveen Rajan S/o Sri Rajendra Prasad	JVC/605/09	C/o Sri Rajendra Prasad, Gosaindih, Siyatand, Jamua, Giridih, Jharkhand	BVSc&AH/BAU/03	09.04.75
2207	Praveen.D.S (D.Sudhindar)	TNSVC/4571/09	61/B 37, Rani Anna Nagar, Chinna Tirupathi, Salem-636008, Tamil Nadu	BVSc&AH/TANUVAS/09	22.01.86

2208	Praveena S/o Bhimsain Rao Kulkarni	KarnSVC/4240/09	Hongunta Road, Shahabad Post-585228, Chittapur Tq, Gulbarga Dt.,Karnataka	BVSc&AH/KVAFSU/09	1.5.87
2209	Preethi Unnithan, D/o K.Govindan Unnithan	KSVC/3531/09	Lekshmee Preethi, TC 2/3261, GPP LIC, Pattom, Thiruvananthapuram, Kerala	BVSc&AH/KAU/09	19.06.85
2210	Preeti Bisht D/o Sh. M.S.Bisht	UKSVC/482/09	Village Chhanakhash Parja, P.O.Almora, Distt. Almora Uttarakhand	BVSc&AH/GBPUA&T/09	12.04.84
2211	Preeti Pandey D/o A.P.Pandey	UPSVC/4957/09	117/P/807 Kakadev Kanpur, UP	BVSc&AH/UPDDUPCVV /09	01.01.86
2212	Preetinder Rana D/o Janak Singh Rana	Pb.SVC/2679/10	Vill.Barnala P.O. & Distt.Gurdaspur,Punjab	BVSc&AH/GADVASU/06	1.3.83
2213	Preetitosh Mohapatra, S/o Raghunath Mohapatra	OSVC/2266/09	At/Po Narendrakona Subhadra lane, Distt-Puri-751002, Orissa	BVSc&AH/OUAT/09	02.07.86
2214	Prem Kumar G S/o Govindappa N	KarnSVC/4313/09	Marasandra -561203, Bengaluru Urban,Karnataka	BVSc&AH/KVAFSU/09	13.11.84
2215	Prem Prakash Verma S/o N.B.Verma	UPSVC/4949/09	Vill. Muhammadpur PO Kheriya Pati Kara Disst Firozabad, UP	BVSc&AH/UPDDUPCVV /09	25.03.84
2216	Prem Praksh Srivastav S/o R.S. Srivastav	CHSVC/486/09	36/302, Vikas Nagar, Kolra Road, Raigarh,Chhattisgarh	BVSc&AH/JLNKVV/91-92	25.06.65
2217	Prem Singh S/o Budha Ram Ji	RajSVC/3720/10	V/P-Badgoan, Teh.-Merta City, Nagaur-341510, Rajasthan	BVSc&AH/SKRAU/10	25.07.85
2218	Premanathan.R (A.Ramanathan)	TNSVC/4675/10	10/F, Thanikachalam Nagar, 50, 5th Street, Ponniamman Medu,Chennai-600110, Tamil Nadu	BVSc&AH/TANUVAS/09	06.10.87
2219	Premkrishnan G.N. S/o Gopalakrishnan B.N	KSVC/3570/09	Theyattil, Vishnu Bhavanam, Puthukkadu, (PO), Chavera, Kollam-691585, Kerala	BVSc&AH/KAU/09	15.05.84
2220	Premkumar.A (R.Ayothi)	TNSVC/4580/09	3-132, Ward 3, 4 South Street, Main Road, Anaiyampatti PO, Salem-636105, Tamil Nadu	BVSc&AH/TANUVAS/09	24.11.86
2221	Premkumar.C (S.Chinnamuthu)	TNSVC/4677/10	Sekkarappatti, Marapparai PO, Thiruchengodu taluk, Namakkal-637410, Tamil Nadu	BVSc&AH/TANUVAS/09	20.07.83
2222	Premkumar.S (G.Santhanakrishnan)	TNSVC/4623/09	866-A, Chettiyar Street, Manamelkudi PO & taluk, Pudukottai dist.-614620	BVSc&AH/TANUVAS/09	17.05.85
2223	Premraj H.D. S/o Dasavappa H.V.	KarnSVC/4228/09	E-118, Gopalagowda Extn, Droupadamma Temple, Shimoga,Karnataka	BVSc/UAS,B'lore/96	23.2.74

2224	Preteek Kashyap, S/o Bhagat Raj	HVC-871/09	House No. 44/9, Mandi, distt. Mandi, HP	BVSc&AH/CSKHPKV/09	07.08.85
2225	Pretty. V.Peter, D/o Peter V.M	KSVC/3556/09	Vadakkoot House, Star Dale, Kaniambal Road, Kunnamkulam P.O, Thrissur-680503, Kerala	BVSc&AH/KAU/09	16.01.86
2226	Priti Ekka D/o Jal Singh Ekka	CHSVC/529/10	Village & Post- Pakher Via Pathal Goan, District- Jashpur, Chhattisgarh	B.V.Sc.&AH/IGKV/09	03.07.86
2227	Priti Gupta D/o Prem Chand Gupta	RajSVC/3705/10	C/o Bansal Trading Co., Sadul Shahar, Sriganganagar-335062, Rajasthan	BVSc&AH/SKRAU/10	30.04.84
2228	Priya Ranjan Kumar S/o Sheodhari Prasad	JVC/637/09	Kura, Latehar-829206, Jharkhand	BVSc&AH/BAU/09	11.09.78
2229	Priyank Yadav S/o Sh Satvir Singh Yadav	HarSVC/2127	S.P.S.Khola, VPO Darauli T.Jatusana Distt, Rewari, Haryana	BVSc&AH/CCSHAU/09	19.8.86
2230	Priyanka D/o Ram Kumar Singh	RajSVC/3593/09	D-27, Basant Vihar, Jhunjhunu-333001, Radasthan	BVSc&AH/RAU/09	14.03.84
2231	Puneet Kr Tripathi S/o Shrikant Tripathi	UPSVC/5028/09	7 Chetanpuri Colony, Jhansi, Allahabad, UP	BVSc&AH/SVVU/09	08.01.81
2232	Punith S.K. S/o Mahabala Gowda S.K.	KarnSVC/4248/09	V-49, Sonageri, Jalsoor Village, Sullia 574249, Dakshina Kannada Dt., Karnataka	BVSc&AH/KVAFSU/09	23.4.86
2233	Purohit Rajeshbhai Champaklal	GVC/419	Gayatri Society, At-Amlasad, Dist - Navsari-396 310, Gujarat	BVSc&AH/GAU/76	23.2.54
2234	Pushpa D/o Norang Ram Bhadu	RajSVC/3763/10	V/P Thandi, Teh.-Raisingh Nagar, Sriganganagar-335706, Rajasthan	BVSc&AH/SKRAU/10	07.09.81
2235	Pushparaj.N. (G.Narayanasamy)	TNSVC/4469/09	1-13, South Street, Gopalapuram Village & PO, Keelarajakularaman via, Virudhunagar-626136, Tamil Nadu	BVSc/TANUVAS/97	12.05.74
2236	Pushpendra Singh S/o Malkhan Singh	UPSVC/5052/09	Vill. & PO- Sarila, Distt.- Hamirpur, UP	BVSc&AH/KU/09	01.07.82
2237	Pyare Lal Saral S/o C.L. Saral	CHSVC/479/09	Albelapara, Sahupara, Kander, Chhattisgarh	BVSc&AH/JLNKVV/97-98	16.04.74
2238	R. Mahesh S/o R. Anjan	APSVC/04949/09	D.No. 39-22-55/3, Madhavadhara, Visakhapatnam, Andhra Pradesh	BVSc&AH/SVVU/09	27.11.86
2239	R.A.Ansari S/o Mohd.I.Ansari	UPSVC/4974/09	Moh Kazi Tola, PO Mallawan, Distt Hardoi, UP	BVSc&AH/UPPDDUPCVV/09	10.09.81

2240	R.Chitra D/o R.Jayaraj	APSVC/04999/09	C/o Raghunandan, D.No.3-405, Road No.1. Prashanthi Nagar, Tapovanam, Anantapur Dist-515004, Andhra Pradesh	BVSc&AH/SVVU/09	10.02.85
2241	R.K. Chaudhary S/o D.R. Chaudhary	UPSVC/4933/09	Banjaria Road, Sant Kabir Nagar, UP	BVSc&AH/NDUA&T/09	09.09.87
2242	R.K. Yadav S/o B.R. Yadav	UPSVC/5035/09	Vill.- Visokher, PO- Bachchau, Distt.- Varanasi, UP	BVSc&AH/NDUA&T/09	23.12.78
2243	R.K.Verma S/o S.N.Verma	UPSVC/5048/09	H.No. 5A Jangle Matadeen PO Padari Bazar, Distt. Gorakhpur, UP	BVSc&AH/TNV&ASU/09	26.12.84
2244	R.Naga Prasanna D/o R.Nagendra	APSVC/04846/09	H.No. 2-9-64, Ashram Street, Near Gangamma Temple, Allagadda, Kurnool Dt-518543, Andhra Pradesh	BVSc&AH/SVVU/09	01.06.85
2245	R.Rama Devi D/o R.Vijayudu	APSVC/04823/09	H.No.57/64A, Near Old Municipal office, Ranga Reddigate, Fort, Old City, Kurnool, Andhra Pradesh	BVSc&AH/SVVU/09	27.07.85
2246	R.S. Dwivedi S/o A.P. Dwivedi	UPSVC/4995/09	Shivpuri, Krondia, Distt.- Sultanpur, UP	BVSc&AH/NDUA&T/09	04.01.82
2247	Rabari Kanubhai Chelabhai	GVC/1735	C-78, Indravihar Society, Nikol Road, Thakkarbapanagar-14, Ahmedabad-382350, Gujarat	BVSc&AH/GAU/94	23.10.71
2248	Rabari Maheshkumar Laljiabhai	GVC/3147/10	Rabari Vas, Ambika Chock, Lotiya Bhagol, Anand, Gujarat	BVSc&AH/AAU/10	25.05.88
2249	Radha Shrivallabh Kamat D/o Shrivallabh Kamat	GoaSVC/153/09	Suhavas, 523-E, Vodlern Bhat, Taleigao-Goa	BVSc&AH/MA&FSU/09	
2250	Radhakrishnan. N (S.Narayanan)	TNSVC/4474/09	Thandagoundampalayam PO, Mangalapuram via, Namakkal-636202, Tamil Nadu	BVSc/TANUVAS/93	06.06.70
2251	Ragesh S Jayan, S/o K.K.Subha Jayan	KSVC/3524/09	Kadavil House, Edakochi, Cochin-682006, Kerala	BVSc&AH/KAU/09	18.03.83
2252	Raghav Rameshchandra	GVC/487	6, Surbhi Tenament, Unjha Road, Patan, Gujarat	BVSc&AH/JNKVV/78	1.6.53
2253	Raghav Sharma S/o Dig Vijay Sharma	Pb.SVC/2890/09	650, Malerkotia House, Opp. Old DMC Civil Lines, Ludhiana, Punjab	BVSc&AH/GADVASU/09	29.9.86
2254	Raghavendra R S/o Rangappa N	KarnSVC/4276/09	Masthamma Street, Vinayaka Extn, Hosadurga-577527, Chitradurga Dt., Karnataka	BVSc&AH/KVAFSU/09	18.2.87
2255	Raghavendran.V.B.(V.B alasubramanian)	TNSVC/4564/09	6/B, Police Rengasamy Naidu Street, Puthur, Trichy-620017, Tamil Nadu	BVSc&AH/TANUVAS/09	20.05.86

2256	Raghubir Singh Bhadoria S/o Deshra Singh Bhadoria	MPSVC/2639/09	1094, New Darpan Colony, Thatipur, Gwalior, M.P	BVSc&AH/JNKVV/09	05.5.83
2257	Ragini Pandey S/o S.C. Tripathi	UPSVC/5068/10	Vill.- Faridabad, Teh. Machali Sahar, Jaunpur, UP	BVSc&AH/IGKV/09	20.05.85
2258	Rahul K, S/o V.Radhakrishnan	KSVC/3508/09	21/483, Souparnika, P.O Kallai, Calicut- 673003, Kerala	BVSc&AH/KAU/09	24.03.86
2259	Rahul Khanna S/o Ashok Kumar Khanna	RajSVC/3775/10	Vijay Kapoor Vatika, Jail Well, Tyagi Vatica, Bikaner-334001, Rajasthan	BVSc&AH/RAU/06	15.12.80
2260	Rahul Ravi, S/o Ravikumar.K	KSVC/3542/09	Vazhappallil House, Kaduvungal, Vallikunnam P.O, Mavelikara, Alappuzha, Kerala	BVSc&AH/KAU/09	27.05.85
2261	Raj Kumar Agarwal S/o Shambhu Dayal Agarwal	RajSVC/3645/09	Near The Moti Well, Kota Road, Itawa, Kota- 325004, Rajasthan	BVSc&AH/KVAFSU/09	05.07.83
2262	Raj Kumar Jaiswal S/o R.D. Jaiswal	CHSVC/543/10	Mungali distict Bilaspur, Chhattisgarh	B.V.Sc.&AH/IGKVV/09	01.08.82
2263	Raj Kumar Khare S/o Sh P.L.Khare	MPSVC/2652/10	F 88/15, Tulsī Nagar, Bhopal-462003	BVSc&AH/JNKVV/80	1.07.53
2264	Raj Kumar. G.B (K.Balaram)	TNSVC/4682/10	Shree nivas; Plot no.40, Balamurugan gardens, Thuraipakkam, Chennai-600097	BVSc/MU/70	03.01.49
2265	Raja. R (V.Rangasamy)	TNSVC/4581/09	II nd Ward, West Street, Vaithiya Goundanpudur PO, Attur taluk, Salem- 636115, Tamil Nadu	BVSc&AH/TANUVAS/09	18.05.86
2266	Raja.R (R.Rajendiran)	TNSVC/4504/09	2/34, Sathya Nagar, Neiyanam, Sendurai, Ariyalur dist-621714, Tamil Nadu	BVSc&AH/TANUVAS/09	15.04.85
2267	Raja.S (Sekar)	TNSVC/4617/09	12-E, Chinna Manali East street, Edappady taluk, Salem-637101, Tamil Nadu	BVSc&AH/TANUVAS/09	07.06.85
2268	Raja.V (V.Vairappan)	TNSVC/4508/09	West Kuravapulam, Vetharanyam, Nagai- 614808, Tamil Nadu	BVSc&AH/TANUVAS/09	05.04.87
2269	Rajalakshmi.V (S.N. Venkatesan)	TNSVC/4559/09	3-101-1, Va.U.Cee Nagar, Ward 3, Kosavampatti PO, Namakkal-637001, Tamil Nadu	BVSc&AH/TANUVAS/09	27.02.87
2270	Rajalingam.V (M.Veeraiyan)	TNSVC/4438/09	64, Rakkach Garden, Maniyakarampalayam Ganapathy PO, Coimbatore-641006, Tamil Nadu	BVSc/M.U/72	05.12.47
2271	Rajan.T (R.Thirumoorthi)	TNSVC/4565/09	2/241, K.Ayyampalayam PO, K.N.Puram via, Palladam taluk, Tirupur-641662, Tamil Nadu	BVSc&AH/TANUVAS/09	30.05.86

2272	Rajapandi.M (P.Murugesan)	TNSVC/4423/09	54, Porkai Pandian Street, Nehru Bazaar, Sivaganga-630561Tamil Nadu	BVSc/TANUVAS/00	10.05.75
2273	Rajapara Jayantilal Amarshibhai	GVC/1428	At & Po- Sara, Ta - Muli, Dist - Surendranagar- 363 310,Gujarat	BVSc&AH/GAU/91	15.9.67
2274	Rajasokkappan.S (S.Shanmugam)	TNSVC/4567/09	No.118 (Old No.9/61), Patel Street, Palladam, Tirupur-641664, Tamil Nadu	BVSc&AH/TANUVAS/09	07.05.86
2275	Rajdeep Kaur D/o Paramjit Singh	Pb.SVC/2892/09	Opp.City Enclave, Narinder Marg,Katcha Malak Road,Jagraon,Punjab	BVSc&AH/GADVASU/09	12.9.86
2276	Raje Aviraj Dinkar	MahaSVC/8154/09	At Post-Asu, Tal, Phaltan, Dist. Satara- 415523,Maharashtra	BVSc&AH/MA&FSU/08	02.06.85
2277	Rajendra Singh Gadhwal S/o Hemraj Gadhwal	RajSVC/3591/09	Post-Bhorki Pipal Ki Dhani, The.-Udaipurwati, Jhunjhunu-333032, Rajasthan	BVSc&AH/RAU/09	07.07.83
2278	Rajesh Chordia S/o Bhanwar Lal Chordia	RajSVC/3643/09	Fouzy Colony Nokha, Bikaner, Rajasthan	BVSc&AH/RAU/09	04.06.82
2279	Rajesh Kumar Dubey S/o Sh. Shankar Lal Dubey	UKSVC/504/10	C/o Dr. S.K. Tiwari Govt. Veterinary Hospital Purola Uttarakashi, Uttarakhand	BVSc&AH/JNKVV/01	02.04.75
2280	Rajesh Kumar Mohanty, S/o Er.Niranjan Mohanty	OSVC/2316/09	At-Molipatana, PO.Rahama-754140, Distt.Jagatsinghpur, Orissa	BVSc&AH/OUAT/09	02.07.83
2281	Rajesh Kumar S/o Bhagelu Ram	UPSVC/4922/09	Vill Dhanapur, Po Karobankaj, Jaunpur, UP	BVSc&AH/UPPDDUPCVV /09	15.07.77
2282	Rajesh Kumar S/o Sh Mala Ram	HarSVC/2112	VPO Gangwa, Distt- Hisar, Haryana	BVSc&AH/CCSHAU/09	10.6.85
2283	Rajesh Yadav S/o Sh Devendra Yadav	HarSVC/2116	W.No.1, VPO Kanina Dist- Mahendergarh, Haryana	BVSc&AH/CCSHAU/09	9.10.85
2284	Rajesh.U.M. (B.Madaswamy Pillai)	TNSVC/4457/09	14/33, School Street, Bhoothapandy & PO, Kanyakumari district -629852, Tamil Nadu	BVSc/TANUVAS/96	30.07.73
2285	Rajeshwar S Sajjan S/o Siddaramappa Sajjan	KarnSVC/4346/09	Basavanagar Part II, Hallyal Road,Dharwad- 580008,Karnataka	BVSc&AH/KVAFSU/09	1.8.85
2286	Rajeshwari R D/o Shankar J	KarnSVC/4221/09	No. 2/42, Prudence Court, 18th Cross Malleshwaram, Bangalore,Karnataka	BVSc/TNAU/86	2.6.63
2287	Rajeshwari.K (S.K.Karuppusamy)	TNSVC/4563/09	25/3, Thavasinadar street Pudhusuripalayam, Nambiyur PO, Namakkal-638458, Tamil Nadu	BVSc&AH/TANUVAS/09	23.08.85

2288	Rajinder Singh S/o Surjit Chand	Pb.SVC/2909/09	Village Pir Bux Chohan, P/o & Tehsil Jalalabad(W), Distt. Ferozepur, Punjab	BVSc&AH/GADVASU/09	10.2.81
2289	Rajit Sharma S/o Dig Vijay Kumar Sharma	Pb.SVC/2888/09	205, Waddi Mandi, Patti, Distt. Tarn Taran, Punjab	BVSc&AH/GADVASU/09	5.9.85
2290	Rajiv Devrash S/o Lt. Gangadhar Madhav Devrash	CHSVC/469/09	Pashu Chikitsalya Tilda, District-Raipur, Chhattisgarh	BVSc&AH/JLNKVV83-84	30.06.60
2291	Rajiv Kumar Mishra S/o Chitrasen	CHSVC/468/09	Pashu Chikitsalya Parisar, Raigarh, Chhattisgarh	BVSc&AH/JLNKVV/96-97	27.02.70
2292	Rajiv Singh S/o Late Sh Tekchand Rajput	UKSVC/488/09	Veterinary Officer Veterinary Hospital, Jhankat, Distt. U.S. Nagar Uttarakhand	BVSc&AH/GBPUA&T/96	01.07.71
2293	Rajkumari D/o Sh. Chhedi Prasad Viswakarma	UKSVC/478/09	Q.N.1138, Sector IVth Jha Colony Pantnagar, Distt. Nainital, Uttarakhand	BVSc&AH/GBPUA&T/09	15.05.86
2294	Rajmohan.G (A.Gopal)	TNSVC/4620/09	234/4, Melakadu, Singipuram PO, Salem-636115, Tamil Nadu	BVSc&AH/TANUVAS/09	10.03.84
2295	Rajnandan Singh S/o Late Mahavir Singh	JVC/607/09	C/o Sri Arbind Kumar Indu Suryapuri, Behind S.B.I. Officers Bank Colony Sukhdeonagar, Ranchi, Jharkhand	BVSc&AH/BAU/96	10.09.66
2296	Rajpura Javedbhai Mahammadbhai	GVC/3034/09	At&PO Mumnavas, Ta-vadgam, Dist-Banaskantha-385120, Gujarat	BVSc&AH/SDAU/09	25.10.86
2297	Rajput Arun Ram Lal	MahaSVC/8156/09	101, At-Jangipura, Post-Shendurni, Tal.Jamner, Dist. Jalgaon-424204, Maharashtra	BVSc&AH/MA&FSU/08	10.08.83
2298	Rajput Jaysingh Shankarsingh	GVC/1565	Vasudhara Dairy At : Alipur, Ta. Chikhali, Dist. Navsari : 396 521, Gujarat	BVSc&AH/PKV/90	3.10.72
2299	Rakesh Kumar Pati, S/o Rabindranath Pati	OSVC/2290/09	At/Po-Kalapada, Via-Bentkar, P.S-Sadar, Cuttak, Distt. Cuttack-754112, Orissa	BVSc&AH/OUAT/09	22.11.81
2300	Rakesh Kumar S/o Nathu Singh	RajSVC/3634/09	Vill.- Singnor Godara Ka Bass, Teh.-udaipurwati, Jhunjhunu, Rajasthan	BVSc&AH/MAFSU/09	01.06.85
2301	Rakesh Kumar Soni S/o Brijmohan Soni	CHSVC/452/09	Isai Para Auto Colony, Railway Colony, Ward No. 07, Chhattisgarh	BVSc&AH/IGKVV/07-08	18.05.83
2302	Rakesh Sheel S/o Gorang Chandra Sheel	CHSVC/524/10	Village & Post- Farasgaon, District-Bastar, Chhattisgarh	B.V.Sc.&AH/IGKVV/09	25.11.86
2303	Rakesh Verma S/o Shrinagar Verma	UPSVC/4963/09	Vill.- Amouli, PO- Hazalapur, Distt.- Ambedkar Nagar, UP	BVSc&AH/NDUA&T/09	06.06.82

2304	Rakhee Verma D/o Raghuvveer Singh Verma	RajSVC/3614/09	R.S.Verma Opp. Prodhshiksha Bhavan, Purani Ginnani, Bikaner-334001, Rajasthan	BVSc&AH/RAU/09	25.12.80
2305	Rakholiya Dhirajlal Bavalal	GVC/936	At-Moviya, Ta- Gondal, Dis-Rajkot PIN- 360 330, Gujarat	BVSc&AH/GAU/87	28.11.87
2306	Ram Govind S/o Sh Sita Ram	MPSVC/2607/09	Ram Nagar Colony, Gall No.-3, Post-Jaura, Morena, M.P-476221	BVSc&AH/JNKVV/09	8.9.83
2307	Ram Krishna Thakur S/o Late Janki Thakur	JVC/626/09	D.A.H.O. Palamu, Jali Hata, Daltonganj Palamu-822101, Jharkhand	BVSc&AH/RAU/72	15.02.48
2308	Ram Narayan Singh S/o Late Ram Itra Singh	JVC/619/09	Adarsh Puri (VIP Colony) Arsandey, Kanke-834006, Jharkhand	BVSc&AH/RAU/72	05.08.48
2309	Ram Sahay Yadav S/o Ram Sumer Yadav	UPSVC/4984/09	VIII.- Dawnadh, PO-Pandy Korar, Distt.- Gorakhpur, UP	BVSc&AH/MAFSU/09	25.06.80
2310	Ram Sewak Ram S/o Late Ram Sundar Ram	JVC/620/09	Akhauri Didari, Leshiganj Daltonganj, Palamu, Jharkhand	BVSc&AH/BAU/90	08.06.60
2311	Ram Swaroop Singh Chandes/o Bala Shaheb	CHSVC/467/09	Village & Post Badsara, Teh. - Surajput, District- Sarguja, Chhattisgarh	BVSc&AH/IGKVV/07-08	27.03.81
2312	Ramachandran.A (A.Alagappan)	TNSVC/4600/09	Poologathukadu, Thangaour PO, Idappadi taluk, Salem-637102, Tamil Nadu	BVSc&AH/TANUVAS/09	27.07.85
2313	Ramagopalan.M (G.Mathuranayagam)	TNSVC/4667/10	75 A/5, 1st Cross, North East Extension, Thillai Nagar, Trichy-18, Tamil Nadu	BVSc/MU/71	30.12.45
2314	Ramakant S/o Rameshwar Singh	UPSVC/5041/09	23/8 Muglan Mohalla, PO- Kakori, Distt.- Lucknow, UP	BVSc&AH/AAU/09	13.01.81
2315	Ramakrishnan.K.S (M.S.Swaminathan)	TNSVC/4656/09	New No.41, Mettukadai, Thevur PO, Sankari taluk, Salem District-637104, Tamil Nadu	BVSc&AH/TANUVAS/09	01.06.89
2316	Ramanathan.S (V.Subramanian)	TNSVC/4628/09	24/A, Valmiki Street, Gandhi Nagar, Saligramam, Chennai-93, Tamil Nadu	BVSc&AH/TANUVAS/09	19.12.83
2317	Ramane Sangram Pandit	MahaSVC/8189/09	At-Satarde, Post-Padal Tai-Panhala, Dist-Kolhapur 416205, Maharashtra	BVSc&AH/MA&FSU/08	22.06.85
2318	Ramani Vasantkumar Dhanji	GVC/1536	At- Padampur, Po: Bayath, Ta: Mandavi, Dis : Kutch, Gujarat	BVSc&AH/GAU/92	4.4.68
2319	Ramaraj.K (K.Kottamalai)	TNSVC/4459/09	Panchampatti, Pottalpatti PO, Rajapalayam taluk, Virudhunagar District, Tamil Nadu	BVSc/TNAU/80	25.08.55

2320	Ramesh Chandra Barala S/o Mangal Chand Barala	RajSVC/3717/10	Vill. Kacholiya, Teh.-Chomu, Jaipur-303704, Rajasthan	BVSc&AH/SKRAU/10	03.10.76
2321	Ramesh Chandra Sahu, S/o Lambodar Sahu	OSVC/2314/09	Nehrunagar-1, PO Gosaninuagoan, Berhampur Ganjam, Orissa	BVSc&AH/OUAT/09	25.02.84
2322	Ramesh Kumar S/o Radhey Shyam	RajSVC/3760/10	V/P-Kajra, Teh.-Chirawa, Jhunjhunu-333030, Rajasthan	BVSc&AH/AAU/09	01.05.84
2323	Ramesh Oraon S/o Late Sundra Oraon	JVC/618/09	Arsandey, Boreya, Kanke Ranchi-7, Jharkhand	BVSc&AH/BAU/93	16.09.66
2324	Ramesh P.N, S/o P.K Narayana Sarma	KSVC/3512/09	Paramboor illam, Thuruthicadu, PO, Mallappally, Pathanamthitta-689597, Kerala	BVSc&AH/KAU/09	11.11.85
2325	Ramesh Reddi S/o Bhaskara Rao	APSVC/04896/09	C/o J.Appalanaidu Venkampeta (P), Parvathipuram (M), Vizianagaram Dist., Andhra Pradesh	BVSc&AH/SVVU/09	12.06.86
2326	Ramesh.K (P.Kandasamy)	TNSVC/4514/09	C.N.G.Valasu, Kariampatty PO, Oddanchatram, taluk, Dindigul-624619, Tamil Nadu	BVSc&AH/TANUVAS/09	20.10.85
2327	Ramesh.P (P.Panchatcharam)	TNSVC/4468/09	No.2-19D, Thiruvalluvar Street, Othavandangudi, P.P.Nallure, Sirkali-609104	BVSc&AH/P.U/01	16.12.76
2328	Ramkumar.P.K. (N.Premkumar)	TNSVC/4569/09	Shakthi Vinayagar Society Theru, Vilandhai, Andimadam PO, Perambalur-621801, Tamil nadu	BVSc&AH/TANUVAS/09	21.05.86
2329	Ramolia Prakashkumar Madhavjibhai	GVC/1961	At - Surya(GIR), Ta - Talala, Dist - Junagadh PIN- 362140,Gujarat	BVSc&AH/GAU/96	5.5.73
2330	Ramsena Mahendraji Shantiji	GVC/1664	Dhanera Chilling Centre, Banas Dairy, Dhanera, Dis- BK PIN- 385 311,Gujarat	BVSc&AH/GAU/93	3.5.70
2331	Ramswarup S/o Om Prakash Verma	RajSVC/3623/09	Ward No.1, Sarwati Vihar, Raisingh Nagar, Sriganganagar-335051, Rajasthan	BVSc&AH/RAU/09	06.06.82
2332	Ramya.R D/o Ravindran.R	KSVC/3587/09	Thiruvonam, Palliserikkal, Sasthamcotta PO, Kollam-690521	BVSc&AH/KAU/09	27.11.85
2333	Ranbir Singh Jatav S/o Sh Mohar Singh	MPSVC/2629/09	63 Hijoniya Sadan, Siddharth Nagar,Thatipur,Gwalior,M.P-474011	BVSc&AH/JNKVV/09	6.07.82
2334	Randeep Kumar S/o Amrit Lal	Pb.SVC/2863/09	Village Bahaman Wala P/o Kotkapura, Distt Faridkot,Punjab	BVSc&AH/CCSHAU/09	30.12.80
2335	Ranganath Gudisagar S/o Vishnu	KarnSVC/4250/09	No.31/538, 10th Cross,Vidyanagar, Ranebennur-581115, Haveri Dt,Karnataka	BVSc&AH/KVAFSU/09	24.5.86

2336	Ranganatha S S/o Shakuni Gowda A.B.	KarnSVC/4337/09	No.C-26, Anthariksha Nagar, Hassan- 573201, Karnataka	BVSc&AH/KVAFSU/09	6.11.86
2337	Rani J (V.Jeyaraman)	TNSVC/4614/09	92/51, T.K. Mudali Street, Choolai, Chennai- 600112, Tamil Nadu	BVSc&AH/TANUVAS/09	24.06.86
2338	Ranjan Kumar Jha S/o Late Sh Ganga Nath Jha	JVC/650/10	TVO.Karon Madhupur, Deoghar-815357, Jharkhand	BVSc&AH/RAU/92	02.08.67
2339	Ranjna Rathore D/o M.L. Rathore	CHSVC/456/09	L.I.G. 53, Nehru Nagar, Bilaspur, Chhattisgarh	BVSc&AH/IGKVV/07-08	03.03.86
2340	Ranpariya Jayendrakumar Jayntilal	GVC/3071/09	20, Godown Area, Sajadiyali-2, Sajadiya, Ta- Jam Kadorana, Dist-Rojkot, Gujarat	BVSc&AH/AAU/09	30.01.87
2341	Ranvijay Singh S/o Birpal Singh	UPSVC/4944/09	Pathanpura (New Basti), Rath Hamirpur, UP	BVSc&AH/NDUA&T/09	01.01.79
2342	Ranvijay Singh S/o Dalwinder Singh	Pb.SVC/2874/09	H.No.34/10, Master Colony, Gurdaspur, Punjab	BVSc&AH/GADVASU/09	1.3.85
2343	Raol Dilipkumar Bhikhusinh	GVC/1110	1303/1, Sector-7D, Gandhinagar, Gujarat	BVSc&AH/GAU/88	25.6.65
2344	Ratanpara Ashvinkumar Keshavbhai	GVC/1648	Satyajit Society, At & Post: Vichhiya, Ta: Jasadan, Dis- Rajkot, Gujarat	BVSc&AH/GAU/93	7.6.71
2345	Rathod Ashokkumar Bhikhusinh	GVC/2137	Block No- 103/2, CH- type, Sector-21, Gandhinagar, Gujarat	BVSc&AH/GAU/98	14.6.76
2346	Rathod Bipinkumar Veljibhai	GVC/1080	M/87, Sector-2, K.K. Nagar, Ramna Park, Ahmedabad-61, Gujarat	BVSc&AH/GAU/88	15.7.66
2347	Rathod Kartikeykumar Bhupendrasinh	GVC/1659	45, Shivnagar Society, B/H. College, Mansa, Ta- Vijapur, Dis: Mehsana - 382 845, Gujarat	BVSc&AH/GAU/93	27.5.71
2348	Rathod Pravinbhai Girishbhai	GVC/2223	At : Bilamana, Ta- Dehgam, Dis- Gandhinagar, Gujarat	BVSc&AH/GAU/99	1.2.75
2349	Rathod Sangita Baliram	MahaSVC/8253/09	C/o Shukla Sir, Parvati Nagar, Nr G.N.Azad College, Pusad, Tal.Pusad Dt.Yavatmal- 445204, Maharashtra	BVSc&AH/MA&FSU/09	07.09.86
2350	Rathod Sanjay Uttam	MahaSVC/8280/09	At-Anand Nagar, Post-Limba, Tal.Pathri Dist.Parbhani-431506, Maharashtra	BVSc&AH/MA&FSU/09	13.07.84
2351	Rathod Sunilkumar Dasharathlal	GVC/1558	In Front Of Diwanji's Khadki, Nr. Old Post Office, At&Po: Radhanpur, Di: Banaskantha, Gujarat	BVSc&AH/GAU/92	20.3.68

2352	Rathod Vishalkumar Rohitbhai	GVC/3149/10	B/H-Talukapanchayat office, Chikhli, Siddhanathnagar, Ta-Chikhli, Dist- Navsari, Gujarat	BVSc&AH/AAU/10	24.05.86
2353	Rathva Bipinbhai Tersingbhai	GVC/2252	At & Po- Vaghra, Ta- Jetpur Para- Dist- Vadodara 391 161, Gujarat	BVSc&AH/GAU/00	16.6.76
2354	Rathi Harshad Sudhir	MahaSVC/8162/09	B-9, Bhagyashree Chhaya, Tembi Naka, Thane-400601, Maharashtra	BVSc&AH/MA&FSU/08	08.01.85
2355	Raufuallulla Nurbhai Agalodiya	GVC/2996/09	At-Nagei, PO-Moriya, Ta-Danta, Dist- Banaskantha, Gujarat	BVSc&AH/SDAU/09	22.08.86
2356	Raut Subhash Shamrao	MahaSVC/8256/09	Motoshri Niwas, 446, Nath Nagar, Tal. Dist. Parbhani-431401, Maharashtra	BVSc&AH/MA&FSU/09	23.01.84
2357	Raval Archana Harendrabhai	GVC/1925	4/ Nikunj Bunglows, Opp- Shagun Apartment, Sahakari Jin Road, Himatnagar, Di- Sabarkantha, Gujarat	BVSc&AH/GAU/95	17.6.71
2358	Raval Dilipkumar Chunilal	GVC/420	Office of Deputy Director of Animal Husbandry, District Panchayat, Jamnagar, Gujarat	BVSc&AH/GAU/76	16.6.54
2359	Raval Kanayalal Labshankar	GVC/346	9. Divya park Society, Nr. Jay Society, At. Ratanpur, Ta. Wadhvan, Dist : Surendranagar - 363 020	BVSc&AH/GAU/74	3.10.50
2360	Raval Kiritkumar Kameshbhar	GVC/996	7, Vaishali Park Society, Behind Gurudwara, Jail Road, Mehsana-384 002, Gujarat	BVSc&AH/GAU/85	15.6.61
2361	Raval Rakeshkumar Ganpatlal	GVC/1836	Sabar Chilling Center, AT&PO&Ta-Dhansura, S.K., Gujarat	BVSc&AH/GAU/90	25.8.68
2362	Raval Vishnuprasad Bholanath	GVC/1792	Amul Dairy, Amul Park D-9, SVP Road, Anand, Gujarat	BVSc&AH/GAU/94	15.5.68
2363	Ravalji Digvijaysinh Khumansinh	GVC/1629	67, Shrimantdhar Society, Nr. Borsad Crossing Anand, Dist - Kheda, Gujarat	BVSc&AH/GAU/83	7.5.70
2364	Ravi Kant Agrawal S/o Ram Baboo Agrawal	Pb.SVC/2915/09	38/100, J-Block, BRS Nagar, Ludhiana, Punjab	BVSc&AH/GBPURAT/01	21.9.76
2365	Ravi Kumar Nair, S/o Raghavan Nair	KSVC/3491/09	Puthenmadam, VP V/1576, Kuthankal lane, Manikandeswarom, Vattiyookavu, Thiruvananthapuram-695013, Kerala	BVSc&AH/GU/66	07.06.44
2366	Rani Kumar.G (C.Gnana Sekaran)	TNSVC/4673/10	House No. .1, Annamalai Street, Aruppukottai-626101, Virudhunagar Dt, Tamil Nadu	BVSc/TANUVAS/94	20.06.71
2367	Ravi Shankar A S/o Anjaneyalu	KarnSVC/4348/09	C/o MGNR compound Kallahalli Road, Mapalli- 563125, Chinthamani Tq, Chickballapura Dt., Karnataka	BVSc&AH/KVAFSU/09	3.2.84

2368	Ravichandran.A (V.Arumugam)	TNSVC/4427/09	Vedangoottam, Komboothi PO, Kamuthi taluk, Ramanathapuram-623603, Tamil Nadu	BVSc/TANUVAS/93	06.06.68
2369	Ravikumar K.P. S/o Kumare Gowda S	KansVC/4338/09	Hirede Street, Pandavapura -571434, Mandya Dt, Karnataka	BVSc&AH/KVAFSU/09	31.1.87
2370	Ravikumar.S (K.Sellamuthu)	TNSVC/4568/09	V.P.Pudhur, Kavelapatti PO, Palani taluk, Dindigul District - Tamil Nadu	BVSc&AH/TANUVAS/09	07.05.88
2371	Rawalkar Mira Gangadharrao	MahaSVC/8275/09	'Krishnai Niwas', Bhavasar Chowk, Tai, Malegaon Road, Dist. Nanded-431209, Maharashtra	BVSc&AH/MAS&FSU/09	01.01.89
2372	Reeti Tewari D/o Dr. Nanda Ballabh	UKSVC/472/09	New Bhatt Colony Talli Bamori Haldwani, distt. Nainital, Uttarakhand	BVSc&AH/GBP&T/09	11.11.89
2373	Reetu D/o Late Nandu Tirkey	JVC/640/09	Hehal, Pawatoli, Sundernagar, Ranchi-834005, Jharkhand	BVSc&AH/BRU/09	17.02.88
2374	Rekha Kumari Sharma D/o Bhikaram Sharma	RajSVC/3906/10	Imertiya Bera Pepta'c' Road, Jodhpur, Rajasthan	BVSc&AH/SK&ALI/10	15.08.82
2375	Rekha Meere D/o S.R. Meere	CHSVC/455/09	Quarter No. 865/2A, Balke Nagar, Korba, Chhattisgarh	BVSc&AH/IGNVV/07-08	30.10.83
2376	Remya Rajan.D S/o D.Rajan	KSVC/3578/09	Karthika, Cheruthazham, PO Mandur, Kannur-670501, Kerala	BVSc&AH/KAU/09	30.05.86
2377	Remya Vasudevan, D/o N.Vasudevan	KSVC/3518/09	Thengumvila Veedu, Agasthyscode, Anchal P.O. Kollam-691306, Kerala	BVSc&AH/KAU/09	04.05.86
2378	Remya.K.Vasu D/o K.N.Vasu	KSVC/3510/09	Kochumalayil House, Karimba P.O, Palakkad-678597, Kerala	BVSc&AH/KAU/09	20.05.86
2379	Remya.P.Ravindran, D/o P.Ravindran	KSVC/3595/09	Fact Qtr No. 81-13, Floor, Smakulam-683501, Kerala	BVSc&AH/KAU/09	03.01.85
2380	Remya.V, D/o K. Mukundan	KSVC/3568/09	Ma. Nivas, Kanhira Vayal, PO. Vengeri, Kozhikode-673010, Kerala	BVSc&AH/KAU/09	03.02.86
2381	Rengan K S/o Krishnan	KansVC/4232/09	No. 17 Block 26, Murvesampalga, Mysore, Karnataka	BVSc/TNAU/75	22.3.50
2382	Renjith B.L. S/o K.J.Balachandran Nair	KSVC/3598/09	Omkkaram, PP 12/914, Bhagavathinada, Thiruvananthapuram-695501, Kerala	BVSc&AH/KAU/09	09.08.85
2383	Renjith Sebastian, S/o Sebastian K.J	KSVC/3539/09	Kattakkayath House, Ukkal P.O. Kannur-670705, Kerala	BVSc&AH/KAU/09	30.01.86

2384	Resmi.S.Nair, D/o Saseendran Nair P.N	KSVC/3571/09	Puthenparambil House, Sachivothamapuram P.O., Changanacherry, Kottayam-686532, Kerala	BVSc&AH/KAU/09	20.05.85
2385	Revathi.P (K.Palanisamy)	TNSVC/4557/09	Thotiyapatty West, Kannorpatty PO, Namakkal Dist.-637014	BVSc&AH/TANUVAS/09	07.05.85
2386	Revathi.P (K.S.Palanisamy)	TNSVC/4531/09	Revathi Agency, 20/432, KMF Road, Ramchand, Kotagiri, The Nilgiris-643217, Tamil Nadu	BVSc&AH/TANUVAS/09	15.07.86
2387	Revathi.R (V.Ravindran)	TNSVC/4419/09	609, MIG,TNHB,Avadi,Chennai-600054, Tamil Nadu	BVSc/TANUVAS/02	25.01.77
2388	Bewatkar Swapnil Gajanan	MahaSVC/8190/09	C/o C.M.Belkhede,Plot No.30 Indira Ng Darshana Society, New narasala Rd Nagpur,Maharashtra	BVSc&AH/MA&FSU/09	03.03.85
2389	Ribadia Nathalal Bhagvanji	GVC/647	C / 5800, Opp. K K Kuva, Yogeshvar Nagar, Kariya Bid, Bhavnagar, Gujarat	BVSc&AH/GAU/69	28.8.45
2390	Richa D/o Chaman Lal Dogra	HVC-886/09	Vill.&PO Shyam Nagar, Teh. Dharamshala Distt. Kangra, HP	BVSc&AH/CSKHPKV/09	17.07.85
2391	Richa Rathore D/o R.K.Rathore	UPSVC/4956/09	Vill Bhidasin, Po Beharin Distt Kannauj, UP	BVSc&AH/UPPDDUPCVV /09	29.05.84
2392	Richa Shukla D/o U.C. Shukla	UPSVC/5039/09	Vill&PO- Khapitha Kalañ, Distt.- Banda,UP	BVSc&AH/KVAFSU/09	17.05.83
2393	Ricky Jhambh S/o Sh Mahender Singh	HarSVC/2109	# 301/8, Shiv Chowk, Fatehabad, Haryana	BVSc&AH/CCSHAU/09	21.12.86
2394	Ridhishankar Patel S/o Taleswar Prasad Patel	CHSVC/517/10	Vill-Dhimani, Po- Bandora, District- Jajigir, Champa,Chhattisgarh	B.V.Sc.&AH/IGKVV/09	01.10.83
2395	Rishi Deepika Dev	GVC/3003/09	15, Snow Pearl, Bungalows, nr. Vasna Jakatnaka, Vasnaroad, Vadodara, Gujarat	BVSc&AH/SDAU/09	13.04.89
2396	Rishi Kumar Padoti S/o Tejram Padoti	CHSVC/487/09	Veterinary Hospital, Jaijaipur, District - Raigarh,Chhattisgarh	B.V.Sc.&AH/JLNKVV/94	03.11.64
2397	Rishika Chadokar D/o B.R. Chadokar	CHSVC/462/09	B-3/Basant Corner, Avanti Bihar, Raipur,Chhattisgarh	BVSc&AH/IGKVV/07-08	09.11.83
2398	Ritu Paliwal D/o Sh Mahesh Kr Paliwal	MPSVC/2633/09	Katrabazar Sagar,M.P.-470002,	BVSc&AH/JNKVV/09	30.8.84
2399	Ritunpatra, D/o Prahallad Patra	OSVC/2269/09	EB-89, Stage-5, Laxmisagar, (Mahavirnagar), PO.Budheswari, Bhubnashwar-6, Orissa	BVSc&AH/OUAT/09	26.05.86

2400	Rodge Swapnil Chhaganlal Ji	MahaSVC/8197/09	At-Fulmogra, Post-Shahapur, Tal & Dist. Bhandara, Maharashtra	BVSc&AH/MA&FSU/09	06.06.87
2401	Rohin Sharma S/o Rakesh Sharma	Pb.SVC/2920/10	Near Oberoi Service Station, Manwal Bagh, Pathankot, Punjab	BVSc&AH/RAU/10	6.12.85
2402	Rohini M.C. S/o Chandrashekar M.V.	KarnSVC/4306/09	No.10/131A, New Street, Kollegal- 571440, ChamaraJanagar Dt., Karnataka	BVSc&AH/KVAFSU/09	27.12.86
2403	Rohini Sachdeva D/o Mohinder Partap Sachdeva	Pb.SVC/2903/09	4, Adarsh Nagar, H.No. 1111, Fazilka-152123, Distt.Ferozepur, Punjab	BVSc&AH/GADVASU/09	15.5.86
2404	Rohit Gupta S/o Sh R.B.Gupta	MPSVC/2654/10	G/46, Vikraykar Awas, Old Housing Board Colony, Morena -476001	BVSc&AH/JNKVV/09	20.10.84
2405	Rohit Kumar S/o Sh Neta Nand	HarSVC/2095	Gali Bal Bhaarti School, Aggarwal Colony, Fatehabad, Haryana	BVSc&AH/CCSHAU/09	12.1.86
2406	Rohit Sharma, S/o Desh Raj Sharma	HVC-881/09	Vill. Kangu ghati, P.O. Jahu, Teh. Bhoranj, distt. Hamirpur, HP	BVSc&AH/CSKHPKV/09	31.10.83
2407	Romeo Sunny, S/o Sunny Cherian	KSVC/3513/09	Panchara Puthenpura, Vellyanadu (P.O), Alappuzha, Kerala	BVSc&AH/KAU/09	05.04.86
2408	Roobavahini.R (S.Rajendran)	TNSVC/4599/09	Kasankadu, Mallyakkadu PO, Pattukkottai taluk, Thanjavur-614602, Tamil Nadu	BVSc&AH/TANUVAS/09	26.07.84
2409	Roopa Kadasani D/o Mallappa	KarnSVC/4243/09	Jayanagar, Beside AS.Jarnadar Near Mallamma Temple, Mudhol, Bagalkot.Dt, Karnataka	BVSc&AH/KVAFSU/09	29.8.85
2410	Roshan Lal Bairwa S/o Sh Kalyan Lal Bairwa	MPSVC/2627/09	V&P-Tulsek, Sheopur, M.P	BVSc&AH/JNKVV/09	6.7.81
2411	Roshini.S (R.Sathiaseelan)	TNSVC/4615/09	5, Mantha Karai Street, Sandrokkuppam, Ambur, Vellore-635814, Tamil Nadu	BVSc&AH/TANUVAS/09	27.05.86
2412	Roshna Rasheed Kutty, D/o M. Rasheed Kutty	KSVC/3525/09	Ponnuseril, Pallisserickal, Sasthamcotta- 690521, Kerala	BVSc&AH/KAU/09	30.01.85
2413	Roy Latish Chandra	MahaSVC/8209/09	B-3, S-3, Govinda Gourkhede Complex, Seminary Hills, Tal. Dist.Nagar- 440006, Maharashtra	BVSc&AH/MA&FSU/09	15.12.83
2414	Ruchi Swarnkar D/o R.K. Swarnkar	UPSVC/5016/09	Vill.- Dhamna, Tehsil- Rath, Distt.- Hamirpur, UP	BVSc&AH/JNKVV/09	17.12.85
2415	Rukmangadhan.S (A.Sethupathy)	TNSVC/4484/09	B2, Silvan Annexe, Parsn Nanjundapuram Road, Coimbatore., Tamil Nadu	BVSc/TNAU/82	03.05.59

2418	Rupal Shukla D/o A.S.Shukla	UPSVC/4987/09	554K/86 Arjun Nagar Alambagh, Lucknow, UP	BVSc&AH/UPPDDUPCVV /09	23.12.83
2417	Rupala Amrutlal Shamjibhai	GVC/1214	At: Nanivadi, Ta: Morbi, Di: Rajkot, Gujarat	BVSc&AH/GAU/85	8.10.89
2418	Rupareliya Rajesh Viththal	GVC/2056	At: Satapar, Via: Movia, Ta: Kotda Sauganee, Di: Rajkot, Gujarat	BVSc&AH/GAU/97	10.6.72
2419	Rupesh Patel S/o Manmohan Patel	CHSVC/520/10	C/o.M.M.Patel, CMPDI Colony, Dharmjaygarh, Raigarh, Chhattisgarh	B.V.Sc.&AH/IGKVV/09	21.07.81
2420	RY. Chithambaram (CT.Rayappan)	TNSVC/4659/09	Plot No.15, Rayappa House, Kannadasan Nagar, IV Street North Extension, Karaikudi- 630003, Tamil Nadu	BVSc&AH/TANUVAS/98	07.05.68
2421	S. Mahesh S/o S. Sambaiah	APSVC/04902/09	H.No-5-5-27/61/1A, Gandhinagar, Nirmal, Adilabad-504106, Andhra Pradesh	BVSc&AH/SVVU/09	09.04.86
2422	S.Bhaskara Ramaraju Sagi S/o S.V.S.Narayana Raju	APSVC/04935/09	H.No. 2/6, Gogannamam, mamidikuduru (M), East Godavari Dist-533248, Andhra Pradesh	BVSc&AH/SVVU/09	23.02.87
2423	S.Bindhu D/o S.Naganna	APSVC/04843/09	D.No.41/101C-18, Vinayaka Street, Bosinagar, Rayachoty, Kadapa Dt. Andhra Pradesh	BVSc&AH/SVVU/09	15.06.82
2424	S.Chonbenthung Kikon S/o Sh Soren Kikon	NSVC/0243/09	Mount Tiya Colony, Wokha Nagaland	BVSc&AH/AJU/09	13.11.84
2425	S.Cyta Arasan S/o Selvaraj	PondiSVC/326/09	No.33, Main Road, Thernangudy, Kasarkal- 609607	BVSc&AH/PU/08	21.10.83
2426	S.Ganga Prasad S/o S.Gangadhar	APSVC/04840/09	H.No. 4-91/2, Bussapur (P), Balkonda (M), Nizamabad Dt-503218, Andhra Pradesh	BVSc&AH/SVVU/09	10.10.84
2427	S.Guna Sekhar S/o S.Chalapathy	APSVC/04841/09	51/98-37, Kothapet, Rayachoty, Kadapa Dt., Andhra Pradesh	BVSc&AH/SVVU/09	14.06.85
2428	S.K. Gupta S/o R.P. Gupta	UPSVC/5024/09	Vill.- Mukra, PO- Guman Ganj, Naini, Banda, UP	BVSc&AH/JNKVV/09	10.07.84
2429	S.Krishna Veni D/o S.Venkata Madana Mohana Rao	APSVC/04827/09	D.No. 3-1-12(6), Near Arjaneya Swamy Temple, Gaddalagunta, Ongole, Prakasam Dt. Andhra Pradesh	BVSc&AH/SVVU/09	05.06.85
2430	S.Lavakumar S/o S.Anantha Rao	APSVC/04953/09	Gokarnapalli (V&P), Ponduru (M), Srikakulam Dist., Andhra Pradesh	BVSc&AH/SVVU/09	20.08.84
2431	S.P. Mishra S/o J.P. Mishra	CHSVC/460/09	In Front of Veterinary College, Anjora, Durg, Chhattisgarh	BVSc&AH/JLNKVV/69-70	07.12.44

2432	S.Pratap S/o S.Prapulla Chand	APSVC/08820/09	D.No.14-62, Velampeta, Kalkalur, Krishna Dt-521333, Andhra Pradesh	BVSc&AH/OUA&T/08	04.07.85
2433	S.S. Chauhan S/o G.S. Chauhan	UPSVC/5019/09	Vill.- Ganjwanar Pur, Tehsil- Chakkarh Nagar, UP	BVSc&AH/TANUVV/09	07.09.85
2434	S.S. Yadav S/o S.D. Yadav	UPSVC/5081/09	Vill & PO- Dushghat, Distt.- Gorakhpur, UP	BVSc&AH/TANUVAS/09	10.07.85
2435	S.S.L.Ganeswara Rao S/o S.Ramachandra Rao	APSVC/08874/09	Sagara (V&P) Dumbriquda (M), Araku (R.S), Visakhapatnam Dt., Andhra Pradesh	BVSc&AH/SVVU/09	19.05.78
2436	S.Sandeep Reddy S/o S.Krishna Mohan Reddy	APSVC/08944/09	D.No. 5-153, Four Temples St., Kesavaram, Mandapet (M), Kesavaram, East Godavari Dist. Andhra Pradesh	BVSc&AH/SVVU/09	08.02.86
2437	S.Sujana Sree D/o S.Guravaiah	APSVC/08865/09	III-241-E-4, Gandlapalle, Madanapalle-517325, Chittoor Dist. Andhra Pradesh	BVSc&AH/SVVU/09	02.06.85
2438	S.Sujatha D/o S.Apparao	APSVC/04961/09	M.No. 15-143/B, Kapu Street, Srungavarapu Kota, Vizianagaram Dist., Andhra Pradesh	BVSc&AH/SVVU/09	13.08.85
2439	S.Swetha D/o S.Satya Narayana	APSVC/04970/09	C/o Selection Tailors, Moosi Road, Nakrekal, Nalgonda Dist-508211, Andhra Pradesh	BVSc&AH/SVVU/09	05.05.85
2440	Sabapara Ghanshyam Prabhulal	GVC/1460	140, Avenue Park, Ravapar Road, Morbi, Dist - Rajkot- 363 641, Gujarat	BVSc&AH/GAU/93	08.69
2441	Sabapara Manishkumar Durlabhjibhai	GVC/1413	C/O, B K Zalariya, Amratnagar Society, B/H Anupam Society, Rawapar Road, Morbi- 363 642 Dis- Rajkot	BVSc&AH/GAU/91	1.12.68
2442	Sabarishbabu.M.S (M.S.Sadhasivan)	TNSVC/4507/09	5/550, Saravana Offset Compound, Muttamilpuram Colony, Sivakasi-626189, Tamil Nadu	BVSc&AH/TANUVAS/09	15.12.86
2443	Sabita lakra, D/o John Camil Lakra	OSVC/2288/09	At:Kusumdegi (C.R-Toli), Po: Kusumdegi, Distt. Sandargarh, Orissa	BVSc&AH/OUAT/09	00.05.85
2444	Sabitha.S.S (N.Swamidhas)	TNSVC/4607/09	Ayrampalli house, Vavarai, S.T.Mangadu PO, Kanyakumari dist.-629172 Tamil Nadu	BVSc&AH/TANUVAS/09	27.10.85
2445	Sachin Chopra S/o Sh Ashok Chopra	HarSVC/2143	#479, VPO Talwandi Rana Distt - Hisar, Haryana	BVSc&AH/Swami Keshwanand,RAU/10	24.6.86
2446	Sachin Kumar S/o Brajesh Kumar	UPSVC/5000/09	Hazipur Shamli, Muzaffarnagar, UP	BVSc&AH/MAFSU/09	08.07.83
2447	Sachin Kumar Shandilya, S/o Sh. S.K. Shandilya	UKSVC/467/09	House No.62, Mohalla Shivpuri, Laksar, Distt. Haridwar, Uttarakhand	BVSc&AH/GBPUA&T/09	09.10.85

2448	Sachin Shama, S/o Subhash Chand Shama	HVC-872/09	Vill.& P.O. Majhog Sultani, Teh. & Distt. Hamirpur, HP	BVSc&AH/CSKHPKV/09	30.03.85
2449	Sadanand Mahto C/o Sri Jagarnath Mahto	JVC/616/09	Block Animal Hus. Off. Godda, Jharkhand	BVSc&AH/RAU/82	10.01.59
2450	Sadasivam.P (M.Palaniappan)	TNSVC/4618/09	2-123, Modamangalam PO, Tiruchengode taluk, Namakkal-637304, Tamil Nadu	BVSc&AH/TANUVAS/09	07.06.84
2451	Sadasivan, A.S(A.Sabapathy)	TNSVC/4458/09	125, Sampath Nagar, Erode-638011, Tamil nadu	BVSc/M.U/1968	16.01.46
2452	Sagar Chand, S/o Ishwar Dass	HVC-878/09	Vill.& P.O. Chamned, Teh.& Distt. Hamirpur, HP	BVSc&AH/CSKHPKV/09	10.09.85
2453	Sahu Rajendra Kumar	GVC/1603	Zoo Supritendant Quarter, Kankariya zoo, Kankariya, Ahmedabad, Gujarat	BVSc&AH/JNKVV/89	6.1.63
2454	Saikia Manash Jyoti S/o Sh Rupeswar Saikia	ASM/2475/09	C/o Mr.R.Saikia, Vill-Tokowbari, PO&P.S- Sissiborgaon, Dt- Dhemaji, Assam	BVSc&AH/AAU/09	16.12.79
2455	Saikia Utpal S/o Uma Kant Raikia	ASM/2437/09	Vill-Hatigaon, PO-Baligaon, Dt-Nagaon- 782144, Assam	BVSc&AH/AAU/09	1.3.85
2456	Saiyad Tawfiqhussain Imdadhussain	GVC/571	Shath Bazar, Nr. Masjid, At & Ta-Vijapur, Dis- Mehsana, Gujarat	BVSc&AH/GAU/80	23.7.56
2457	Sakat Srivastava S/o R. C. Srivastava	UPSVC/5027/09	Vill&PO 198C/Bhag 1 Bindwal, Azamgarh, UP	BVSc&AH/SVVU/09	15.06.84
2458	Sakthi Devi.R (S.Rajesh)	TNSVC/4454/09	No.8/1959-F (Old No.8/139-F, Sooranayakkanpatti, Pandalgudi, Aruppukottai Virudunagar-626113, Tamil Nadu	BVSc/TANUVAS/95	11.03.72
2459	Salai Gunalan.J (M.J.Anandan)	TNSVC/4486/09	342, 15th Cross Street, CLRI Nagar, Neelankarai, Chennai-600041, TN	BVSc/M.U/69	05.10.43
2460	Samar Rahi S/o Fasi Uddin	UPSVC/4920/09	Vill.- Sabaralpur, Distt.- Bulandshehar, UP	BVSc&AH/GBPUA&T/09	01.07.86
2461	Samay Singh Meena S/o Ghamandi Ram Meena	RajSVC/3616/09	Vill.- Khohra Mulla, Post-Bada Bujurg, Teh.- Mahwadausa-322240, Rajasthan	BVSc&AH/RAU/09	12.06.80
2462	Sambit Kumar Sethi, s/o Chintamani Sethi	OSVC/2294/09	At/Po:Rimuli, P.S:Champur, Distt.-Keonjhar- 758047, Orissa	BVSc&AH/OUAT/09	10.07.85
2463	Samir Kumar Das S/o S.K.Das	GoaSVC/152/09	Pr.Scientist, ICAR, Ela, Old Goa	BVSc&AH/BCKVV/90	

2464	Samira Muduli, S/o Souri Muduli	OSVC/2313/09	Ramdas Bihar, PO. Bhawanepatna, Distt. Kalahanti, Orissa	BVSc&AH/OUAT/09	19.11.84
2465	Samita Prasad D/o Sunil Kumar Sahu	CHSVC/497/10	Near C.S.E.B. Colony, Tifra, District- Bilaspur, Chhattisgarh	B.V.Sc.&AH/IGKVV/09	15.11.83
2466	Samprikta Singh D/o Vinod Kumar Singh	CHSVC/454/09	H-09, Gulab Colony, Ambikapur, Chhattisgarh	BVSc&AH/ILNKVV/07-08	11.01.85
2467	Sanandiyā Vimalkumar Ranjibhai	GVC/2281	At - Bilia, Ta - Morbi, Dist -Rajkot, Gujarat	BVSc&AH/GAU/00	1.8.78
2468	Sanap Pritam Shivaji	MahaSVC/8310/10	Matru Chhaya, 598, Vitthal Nagar, Shirur, Tal, Shirur, Dist. Pune- 412210, Maharashtra	BVSc&AH/MA&FSU/09	28.10.86
2469	Sanat Kumar Pandit S/o Sri Raghunandan Pandit	JVC/599/09	Touring Veterinary Officer Fatehpur, Rundhit Jamtara-814166, Jharkhand	BVSc&AH/RAU/88	24.08.65
2470	Sandeep Indurkar S/o Genda Lal Indurkar	CHSVC/530/10	Bhimnagar, Ward No. 7, Misiya Plant, Dongar Garh, Rajnandgoan, Chhattisgarh	B.V.Sc.&AH/IGKVV/09	27.03.76
2471	Sandeep Kumar Mundotiya S/o Mohan Lal	RajSVC/3622/09	VIII. Mandha Madani, VIA-Palsana, Sikar- 332402, Rajasthan	BVSc&AH/RAU/09	01.10.84
2472	Sandeep Kumar S/o Kishan Lal	RajSVC/3693/09	Plot No. 69, Kailash Nagar, Marg No. A-14, Jhotwara, Jaipur-302012, Rajasthan	BVSc&AH/RAU/09	10.11.83
2473	Sandeep Kumar S/o Sh Ajmer Singh	MarSVC/2117	# 535/27, Chiranjeev Colony, Kathal, Haryana	BVSc&AH/CCSHAU/09	30.9.84
2474	Sandeep Kumar Sharma S/o Kishan Lal Sharma	RajSVC/3721/10	13, Sangam Colony, Bajrang Nagar, Road No. 14, Jaipur-302013, Rajasthan	BVSc&AH/SKRAU/10	10.01.85
2475	Sandeep M S/o Mahadevu M	KarnSVC/4311/09	No.55, 1st Stage, J.P. Nagar, Mysore- 560008, Karnataka	BVSc&AH/KVAFSU/09	14.12.86
2476	Sandeep Singh S/o Gurdeep Singh	Pb.SVC/2912/09	# 4577, Street No.-3, SAS Nagar, Abotnar Road, Mukatsar, Punjab	BVSc&AH/RAU/09	03.10.85
2477	Sandeepa Bhan D/o Surinder Bhan	Pb.SVC/2918/09	# 3/10, Senior Manager Flats, OCM Mills Chheharta, Amritsar, Punjab	BVSc&AH/MA&FSU/04	19.10.81
2478	Sandhi Latif Chhotubhai	GVC/3035/09	To-Naniwada, Ta-Kheralu, Dist.-Mehsana, Gujarat	BVSc&AH/SKRAU/00	17.09.80
2479	Sandhya Morwal D/o Bhag Chand Morwal	RajSVC/3640/09	VIII. Sainswas, Post-Phooskani, Jhunjhunu- 333701, Rajasthan	BVSc&AH/RAU/09	07.02.84

2480	Sandip Chakraborty S/o Sri Paritosh Chakraborty	TripuraSVC/176/08	C/o Paritosh Chakraborty, North Joynagar Agartala Tripura (West)	BVSc&AH/CAU/08	5.6.85
2481	Sangameswaran.R (K.Rajendran)	TNSVC/4582/09	5/3, East Periyar Street, Pudupet PO, Attur taluk, Salem, Dist.- Tamil Nadu	BVSc&AH/TANUVAS/09	29.04.86
2482	Sangeetha Raajkamal (P.Balasubramanian)	TNSVC/4475/09	23/318, Raghavendra Street, Chinnusamy Nagar, Seelanaickenpatty, Salem-636201, Tamil Nadu	BVSc/TANUVAS/00	22.06.75
2483	Sanghamitra Pramanik, D/o Biswaranjan Pramanik	OSVC/2311/09	At/Po Sahadevkhumta, Distt.-Balasore- 756001, Orissa	BVSc&AH/OUAT/09	10.06.84
2484	Sanghani Baval Thakershi	GVC/684	"Suman", 2, Bombay Housing Society, University Road, Rajkot, Gujarat	BVSc&AH/GAU/75	26.9.51
2485	Sanghani Tatsibhai Khimjibhai	GVC/318	25, Avnipark, Opp. P G Clock, Sanada Road, Nr. Canal, At- Po& Ta- Morbi- 363 641, Dis- Rajkot, Gujarat	BVSc&AH/GAU/73	28.11.48
2486	Sani Nandi S/o Sh Kiran Sankar Nandi	TripuraSVC/180/08	C/o Sri Kiran Sankar Nandi Near Ramesh H/s School PO - R.K.Pur,Udaipur,Tripura (South)	BVSc&AH/CAU/08	3.3.84
2487	Sanjay Kr. Verma S/o Jayram Verma	UPSVC/5002/09	Vill & PO- Kharouni, Distt.- Ballia,UP	BVSc&AH/NDUA&T/09	01.07.79
2488	Sanjay Kumar Pandey S/o Madangopal Pandey	CHSVC/470/09	C - 313, Shalendra Nagar, Raipur, Chhattisgarh	BVSc&AH/JLNKVV/91-92	20.08.68
2489	Sanjay Kumar S/o Ram Nath	UPSVC/4932/09	Vill.- Dharma Mubarak Patti PO. Pahitipur, Distt.- Ambedkar Nagar,UP	BVSc&AH/NDUA&T/09	03.05.79
2490	Sanjay Singh S/o Banmall Ahirwar	UPSVC/5060/09	Vill & PO Karari, Distt.- Jhansi,UP	BVSc&AH/JLNKVV/09	22.11.79
2491	Sanjay Sonkeshariya S/o Sh K.C Sonkeshariya	MPSVC/2634/09	Bajrang Chowk, Bardha Seoni, M.P -480667	BVSc&AH/JLNKVV/09	25.9.81
2492	Sanjeev Kumar Kashyap S/o Sh. Nand Kumar	UKSVC/492/09	47-Van Vihar, Balupur, Dehradun, Uttarakhand	BVSc&AH/MAU/94	17.06.72
2493	Sanjeev Kumar S/o Dhukharan Prasad	JVC/649/10	B.A.H.O.Manotharpur, Chakardharpur West. Singhbhum Jharkhand	BVSc&AH/BAU/96	27.12.67
2494	Sanjeev Kumar Sirmor S/o Ram Kumar Sirmor	CHSVC/476/09	F/21/03, Civil Line, Kanker, Chhattisgarh	BVSc.&AH/JLNKVV/95- 96	14.02.70
2495	Sanjiv Kumar	GVC/3099/10	IABMI, Anand Agricultural University, Anand, Gujarat	BVSc&AH/BAU/06	13.05.81

2496	Sanjy Kumar Pandey S/o H.S.Pandey	UPSVC/4915/09	Vill & Po Shrikanthpur VIA Chaubeypur, Distt Varanasi, UP	BVSc&AH/UPPDDUPCVV /09	01.07.80
2497	Sankhe Rahul Ashok	MahaSVC/8350/10	2/A, Keshavdham, boisar-Palghar Road, Boisar (W), Tal.Palghar, dist.Thane- 401501,Maharashtra	BVSc&AH/MA&FSU/09	25.05.87
2498	Sankillikumar.S (R.Selvarasu)	TNSVC/4676/10	33/A, Thoppukkadu street, Vengarai PO, Paramathyvelur taluk, Namakkal-637208, Tamil Nadu	BVSc&AH/TANUVAS/09	17.10.85
2499	Sant Prasad Tyagi S/o Ashok Kumar Tyagi	UPSVC/5033/09	VIII Nagla Dheer PO Barhan, Distt. Agra, UP	BVSc&AH/UPPDDUPCVV /09	11.06.85
2500	Santhosh Kumar C.N. S/o Nage Gowda C.N.	KarnSVC/4320/09	No.8, Hunsur Road, Subjail Quarters,K.R. Nagar-571602, Mysore Dt.,Karnataka	BVSc&AH/KVAFSU/09	10.3.87
2501	Santhoshkumar.S (G.Sampathkumar)	TNSVC/4527/09	826, BajanaI Koil Street, Kangeyanallore, Vellore-632006, Tamil Nadu	BVSc&AH/TANUVAS/09	22.11.86
2502	Santoki Rameshchandra Nanjibhai	GVC/1414	Veterinary Dispensary, Latipur, Ta: Dhrol, Di: Jamnagar,Gujarat	BVSc&AH/GAU/91	15.10.68
2503	Santosh Kumar S/o Kunwar Sen	UPSVC/4925/09	H.N 5/295 New Ashok Nagar Colony, Aligarh, UP	BVSc&AH/UPPDDUPCVV /09	05.05.80
2504	Santosh Kumar Sahu S/o Dwaraka Prasad Sahu	CHSVC/492/10	C/o Laxmi Deses, Hsarva,Chhattisgarh	B.V.Sc.&AH/IGKVV/09	01.06.73
2505	Santosh S/o Bheemaray Hiregoudar	KarnSVC/4269/09	Sharanabasaveshwara Steet, Aralugundige- 583310, Jevargi Tq, Gulbarga Dt.,Karnataka	BVSc&AH/KVAFSU/09	6.4.85
2506	Sapna Misra W/o Dr. Anadi Misra	UKSVC/493/09	Veterinary Officer Rudrapur Lab, Pantnagar, Distt. U.S.Nagar, Uttarakhand	BVSc&AH/GBPUA&T/89	18.09.66
2507	Saravanan. M (P.Muthupoosari)	TNSVC/4583/09	No. 43 (Old No. 34-A), Middle Street, Konangipatti PO, Namakkal District Pin- 637013, Tamil Nadu	BVSc&AH/TANUVAS/09	27.06.85
2508	Saravanan.S (K.Selvaraj)	TNSVC/4551/09	1/7-C, Periyapatti Road, Periyapatti PO, Namakkal Taluk, Namakkal-637001, Tamil Nadu	BVSc&AH/TANUVAS/09	28.10.85
2509	Sarayu Prasad Singh S/o Basudev	UPSVC/4912/09	VIII Sankarpur, Bankti Distt Basti, UP	BVSc&AH/UPPDDUPCVV /09	15.04.81
2510	Sarfaraj Alam S/o Kalim Ansari	UPSVC/5023/09	Vill.- Kolripur, Shastri Nagar, Sultanpur,UP	BVSc&AH/MAFSU/09	20.10.81
2511	Sargar Kishor Keru	MahaSVC/8318/10	Shri Siddhanath Appt.Room No.102,Sector- 10,Plot No.09,Kamothe Tal.Panel,Distt.Raigad- 09,Maharashtra	BVSc&AH/MA&FSU/09	16.01.86

2512	Sargara Bhogilal Motibhai	GVC/1706	At & Po- Punjpur, Ta- Danta, Dis- Banaskantha PIN- 385 120, Gujarat	BVSc&AH/GAU/94	1.6.70
2513	Sarin. K. Kunnath S/o K. Karthikeyan	AP SVC/04991/09	TRT-71, SPM New Colony, Sirpur, Kaghaznagar, Adilabad-504296, Andhra Pradesh	BVSc&AH/SVVU/09	27.03.86
2514	Sarma Dibya Jyoti S/o Mr Sarat Sarmah	ASM/2441/09	Vill NO.-2, Sensuwa Gaon, Barbheta, Dt- Jorhat, Assam	BVSc&AH/AAU/09	15.7.85
2515	Sarode Irawati Poleshwar	MahaSVC/8193/09	Sindhi Colony, Khamla Nagpur, Maharashtra	BVSc&AH/MA&FSU/09	17.11.86
2516	Sarodia Vinodray Keshavjibhai	GVC/941	B-77, Aalap Sanctury, University Road, Rajkot-5, Gujarat	BVSc&AH/GAU/87	16.7.62
2517	Saroj Kumar Sahoo, S/o Hrushikesh Sahoo	OSVC/2298/09	At-Dudugaon, Po: Tartara, V/A-Anandpur, Distt.-Keonjhar-758021, Orissa	BVSc&AH/OUAT/09	01.07.85
2518	Sasikumar.U (K.Uthirakumaran)	TNSVC/4540/09	2-100, Rayaloor, Saralaikadu, Chinnagoundalnoor PO, Sankari -637303, Salem Dist., Tamil Nadu	BVSc&AH/TANUVAS/09	27.12.85
2519	Sasmita Barik, D/o Ajaya Kumar Barik	OSVC/2268/09	ASCO Panposh Rourkela-4, Sundergarh, Orissa	BVSc&AH/OUAT/09	03.04.84
2520	Sat Pal S/o Sh Bal Ram	HarSVC/2119	W.NO. 5, Dabwali Road, Ellendbad, Haryana	BVSc&AH/CCSHAU/09	20.12.82
2521	Satbir Sharma S/o Sh Mahipal Sharma	HarSVC/2100	# 947/12, Vishnu Nagar, Gohana Distt, Sonapat, Haryana	BVSc&AH/CCSHAU/09	5.9.84
2522	Satender Kumar S/o Sh Balbir Singh	HarSVC/2122	#4290, Defence Colony, Jind, Haryana	BVSc&AH/CCSHAU/09	27.11.86
2523	Satheesh Raja.S (D.Selvaraju)	TNSVC/4562/09	3/25, D.S.P. Vilam, Annayampatti PO, Gangavalli taluk, Salem-636105, Tamil Nadu	BVSc&AH/TANUVAS/09	27.07.86
2524	Sathiya Priya.D (P.Duraisamy)	TNSVC/4554/09	393-A, South Railway Colony, Villupuram-605602, Tamil Nadu	BVSc&AH/TANUVAS/09	28.10.85
2525	Sathiyaraj.S (N.M.Sampath)	TNSVC/4537/09	Nallarikkai PO, Thungapuram via, Kunnam taluk, Perambalur-621716, Tamil Nadu	BVSc&AH/TANUVAS/09	09.02.86
2526	Sathiyaraj.V (Vetrivel)	TNSVC/4558/09	1-181, Naduppalayam Kattukottai Ward-1, Nagarpalayam S.P. Namakkal-637410, Tamil Nadu	BVSc&AH/TANUVAS/09	29.09.85
2527	Sathya.A (P. Annadurai)	TNSVC/4584/09	Ambedkar Nagar (Nearer to Hostel) Sendurai PO & taluk, Ariyalur district Pin-621714, Tamil Nadu	BVSc&AH/TANUVAS/09	15.05.86

2528	Satish Biradar S/o Sharanappa Biradar	KarnSVC/4267/09	No.8-10-84, Ganeshmaidan Road, Near Old Bus Stand, Bidar-585401, Karnataka	BVSc&AH/KVAFSU/09	24.4.86
2529	Satish Chand S/o Virendra Singh	RajSVC/3646/09	Vill.-Naglakhadalya, Post-Bhot, VIA-Sewar, Bharatpur-321303, Rajasthan	BVSc&AH/RAU/09	10.05.82
2530	Satish Jangra S/o Sh Krishna Jangra	HarSVC/2137	# 873 , Sector -14 P. Hisar, Haryana	BVSc&AH/CCSHAU/09	30.12.85
2531	Satish Karyaigol S/o Sambhaji	KarnSVC/4278/09	Belavi, Shelapur Post-591309, Hukkeri Tq, Belgaum Dt., Karnataka	BVSc&AH/KVAFSU/09	1.9.85
2532	Satish Kumar S/o Sh. Devesh Chandra	UKSVC/458/09	Village Gairakhan Kulquri, P.O Grunialekh Distt. Nainital, Uttarakhand	BVSc&AH/GBPUA&T/09	22.08.81
2533	Satish Patil S/o Ravasab	KarnSVC/4259/09	Satti-591240, Athani Tq, Belgaum Dt., Karnataka	BVSc&AH/KVAFSU/09	23.6.86
2534	Satpute Ashlesha Krushnakumar	MahaSVC/8200/09	B-Vandana Apartment, Pavanbhumi Wardha Road Nagar-440025, Maharashtra	BVSc&AH/MA&FSU/09	07.01.87
2535	Satya Prakash S/o Sabhapati Singh	UPSVC/5063/10	Estate of Government Primary School, Bakwal, PO- Pumrao, Distt.- Mau, UP	BVSc&AH/AAU/09	29.11.83
2536	Satya Vikash S/o Sh. Virendra Singh	UKSVC/499/10	424, Gitanjali Vihar, Rly, Road, Ganeshpur, Roorkee Haridwar, Uttarakhand	BVSc&AH/GBPUA&T/03	18.01.78
2537	Satyajit panda, S/o Dinabandhu Panda	OSVC/2282/09	At/Po-Jyotivihar-768019, Distt.-Sambalpur, Orissa	BVSc&AH/OUAT/09	25.06.83
2538	Satyaveer Singh Dangi S/o Moolchand Dangi	RajSVC/3606/09	Vill.-Jaisinghpura, Post-Barwasi, VIA- Nawalgarh, Jhunjhunu-333045, Rajasthan	BVSc&AH/RAU/09	10.07.83
2539	Satyaveer Singh S/o Murari Lal	RajSVC/3642/09	V/P-Hatheni, Bharatpur-321021, Rajasthan	BVSc&AH/KVAFSU/09	13.01.83
2540	Saubhagya Ranjan Dash, S/o Sudarsan Dash	OSVC/2315/09	At-Bodhei, P.O Dagarpada, Via-Tirtol, Distt.- Jagatsinghpur-754139, Orissa	BVSc&AH/OUAT/09	20.07.86
2541	Saurabh Gupta S/o Dev Prakash Gupta	UPSVC/4918/09	1/89 A Surendra Nagar, Distt Aligarh, UP	BVSc&AH/UPPODUPCVV /09	27.11.84
2542	Saurabh Sharma, S/o Narinder Kumar Sharma	HVC-892/09	941, Cineme Road, Ward No. 7 Palampur, P.O. Palampur Distt. Kangra, HP	BVSc&AH/CSKHPKV/09	20.06.86
2543	Savalia Ketankumar Kanjibhai	GVC/3151/10	To-Sardharpur, Ta-Jetpur, Dist-Rajkot, Gujarat	BVSc&AH/AAU/10	02.05.87

2544	Savaliya Bhagavanji Dayabhai	GVC/1123	C/O, Research Scientist, Cattle Breeding Farm, Junagadh Agricultural University, Junagadh, Gujarat	BVSc&AH/GAU/88	15.4.65
2545	Savaliya Pravin Ravajibhai	GVC/2088	At & Po - Baradia (Gir), Ta. Visvadar, Dis- Junagadh- 362 210, Gujarat	BVSc&AH/GAU/97	19.4.75
2546	Savaliya Rameshchadra Bhimajibhai	GVC/800	20-Bhaktinagar, B/H- Ranchhodnagar, Junagadh, Gujarat	BVSc&AH/GAU/84	1.1.62
2547	Savani Bhaveshkumar Vallabhai	GVC/2146	At - 36, Surbhi Raw House Behind Bhulkha Bhavan School, Adajan, Surat, Gujarat	BVSc&AH/GAU/98	5.9.75
2548	Savdhariya Nagaji Karasanbhai	GVC/733	Collector's bungalow, Near Ameer Apartment, Sarswati school avenue, Maninagar, Ahmedabad, Gujarat	BVSc&AH/GAU/83	24.10.60
2549	Savita Kumari Meena W/o Deendayal Meena	RajSVC/3696/09	House No.7/151, Mukta Prasad Colony, Bikaner, Rajasthan	BVSc&AH/RAU/09	22.07.84
2550	Savsani Nareshkumar Kalabhai	GVC/1466	Bhatiya Society, Nr. Dr Navani's hospital, NH No- 8/A, Vankaner, Dis- Surendranagar, Gujarat	BVSc&AH/GAU/91	27.3.69
2551	Sawalkar Rajendranath Somanath	MahaSVC/8205/09	At-Bhairawanath Wadi, Tal-Pandharpur Dist- Solapur-413304, Maharashtra	BVSc&AH/MA&FSU/09	01.06.85
2552	Sawani Ambalal Virabhai	GVC/1764	A/12, AMUL Park, Opp. Collector Office, Amul Dairy Road, Anand-388001, Gujarat	BVSc&AH/GAU/94	8.3.53
2553	Seema Singh D/o Ram Sumiran Pal	UPSVC/4954/09	H.N.1027 Awas Vikas No.1 Bagiya Road Kalyanpur, Kanpur, UP	BVSc&AH/UPDDUPCVV /09	05.11.83
2554	Sejaliya Mahesh Vasharambhai	GVC/2089	At - Kharchiya (Sanjaliya), Ta - Jetpur, Dist - Rajkot, Gujarat	BVSc&AH/GAU/97	25.9.73
2555	Sejani Ratilal Bhavanbhai	GVC/347	A/36, Aalap Heritage, Nr. Satya Sai Heart Hospital, Kalawad Raod, Rajkot, Gujarat	BVSc&AH/GAU/74	20.6.51
2556	Selvakumaran.D (G.Durairaj)	TNSVC/4473/09	35/31-A, Vanakara Street, M.Chavady, Thanjavur - 613001, Tamil Nadu	BVSc/TANUVAS/97	30.05.71
2557	Selvapriya.J (M.K.Jaganathan)	TNSVC/4545/09	Madagasampatti, K.Pudhupalam PO.P.Velur taluk, Namakkal-637017, Tamil Nadu	BVSc&AH/TANUVAS/09	26.07.85
2558	Selvaraj.R (Rangasamy)	TNSVC/4525/09	23/1, Muninathapuram, Semangi PO, Karur Dist.-639117, Tamil Nadu	BVSc&AH/TANUVAS/09	08.07.87
2559	Selvaraju.P (K.R. Palanisamy)	TNSVC/4633/09	Aruvankattur, Koothampalayam PO, Sankari taluk, Salem-637102, Tamil Nadu	BVSc&AH/TANUVAS/09	28.01.85

2560	Selvarani.R (R.Ramasamy)	TNSVC/4497/09	Kalamman Kovil Mela Theru, M.K.P Nagar, Palayamkottai, Tirunelveli-627002, TN	BVSc&AH/TANUVAS/09	12.06.87
2561	Selvarani.V (S.Vethamuthu)	TNSVC/4626/09	6/56, Melatheru, Venkateswarapuram, Tirunelveli-627867, Tamil Nadu	BVSc&AH/TANUVAS/09	25.05.86
2562	Semma Amina D/o Jeetendraverma	KarnSVC/4227/09	G-1/404, Shriram Shreyas Appartments, Sahakaranagar,Kodigehalli, Bengaluru- 92,Karnataka	BVSc&AH/JNKVV/90	5.1.66
2563	Sengkan K. Mark S/o (L) Shri J.M.Momin	MeghSVC/274/09	C/o Grecildak Marak,Dakkopgre,New Tura West Garo Hills,Meghalayas	BVSc&AH/AAU/09	19.12.83
2564	Senta Maheshkumar Nathabhai	GVC/1725	At- Khandera Ta- Talaja Dis- Bhavnagar,Gujarat	BVSc&AH/GAU/94	28.7.70
2565	Senta Rajabhai Kababhai	GVC/1841	First Floor, Block No-1, Tulsi Complex, Beside Uday Apartment, Mota Jadara Road, Mahuwa- 364 290, Dis- Bhavnagar	BVSc&AH/GAU/93	1.11.70
2566	Senthil Kumar S/o Rajamanikkam A	KarnSVC/4356/09	No.311,F Block,10th cross,20th Main, Sahakar Nagar,Bengaluru-560092,Karnataka	BVSc&AH/PU/03	27.9.80
2567	Senthil.R (K.Ravi)	TNSVC/4523/09	11-C, Nachiyappa Road, Mallasamudra PO, Tiruchengode taluk, Namakkal -637503, Tamil Nadu	BVSc&AH/TANUVAS/09	27.03.87
2568	Senthil.S (S.Seenivasan)	TNSVC/4532/09	6/1092-4, Shechinah Illam, K.K.Nagar Ist Street Vasavi College PO, Bhavani, Erode- 638316, Tamil Nadu	BVSc&AH/TANUVAS/09	28.05.84
2569	Senthilkumar.G (M.R.Gurusamy)	TNSVC/4513/09	16/213, Karasakadu,Muthuchettipalayam, Avinashi, Tirupur-641654, Tamil Nadu	BVSc&AH/TANUVAS/09	09.05.86
2570	Senthilkumar.S (K.Sivalingam)	TNSVC/4478/09	57, A.G. Patty Road, Namagiripet PO, Rasipuram tk, Namakkal district, Tamil Nadu	BVSc/TANUVAS/98	14.07.72
2571	Senthilkumar.T (T.Thirumalai)	TNSVC/4477/09	No.5 (old No.3/2),Manikanda Mutali 5th Steet Old Washermenpet, Chennai-600021, TN	BVSc/TANUVAS/00	11.04.76
2572	Senthilnathan.E (R.Ellappan)	TNSVC/4480/09	8, Nallappa Naicken Street, Sankari-637301, Salem District-Tamil Nadu	BVSc/TANUVAS/96	01.06.73
2573	Shah Aaturkumar Satishkumar	GVC/3073/09	"Ram Laxman". 40/A Payal Park Society, B/h Bright School, Vadodara,Gujarat	BVSc&AH/AAU/09	08.05.86
2574	Shah Akshaykumar Jayeshkumar	GVC/1372	H- 24, Jaylaxmi Duplex, Nr. Manav Dharm Ashram, Vishwamitri Road, Manjalpur, Vadodra- 390 011, Gujarat	BVSc&AH/GAU/85	25.12.63
2575	Shah Atulkumar Harivallardas	GVC/1404	4-Ankur Society, Near High School, At & Ta- Dhansura, Dis- Sabarkantha,Gujarat	BVSc&AH/GAU/91	4.3.69

2576	Shah Bharatkumar Sumantlal	GVC/857	A-93, Shrihal Duplex, Opp. Tribhovan Park, Makarand Desai Road, Vadodara-7, Gujarat	BVSc&AH/GAU/86	26.6.64
2577	Shah Brijesh Hirabhai	GVC/1966	At - Kothamba, Ta - Lunawada, Dist - Panchmahal, Gujarat	BVSc&AH/GAU/96	1.1.69
2578	Shah Chandrakant Mangulal	GVC/1435	C-204, Ambica Complex, Nr. Bus Stand, Atpo. Kheda, Ta. Mahmedabad, Dist. Kheda 387411, Gujarat	BVSc&AH/GAU/91	31.5.67
2579	Shah Dilip Prabodhchandra	GVC/607	C.D. Deptt., Sumul Dairy, Surat, Gujarat	BVSc&AH/GAU/81	1.1.55
2580	Shah Hareshbhai Kantilal	GVC/422	"Yashodhara", Nishtha Park, Gupi Vidyanagar Road, Anand, Gujarat	BVSc&AH/GAU/76	12.7.53
2581	Shah Jigarkumar Manharbhai	GVC/2235	Punit Park Society, Dakor, Ta- Thasara, Dis- Kheda - 388225, Gujarat	BVSc&AH/GAU/00	21.7.78
2582	Shah Rajnikant Dahyalal	GVC/521	25, Vahelal Society, Vibhag - 1, Opp. Mahaprabhaji ni Bethak, Naroda, Ahmedabad, Gujarat	BVSc&AH/GAU/79	2.3.56
2583	Shah Sureshchandra Vadilal	GVC/573	11- Mana Mandir, Bamroli Road, Godhara, Gujarat	BVSc&AH/GAU/80	5.7.56
2584	Shahapure Sandip Nagnathrao	MahaSVC/8255/09	Karkare Niwas, Mill Road, Nanded Tal. Dist. Nanded-431601, Maharashtra	BVSc&AH/MA&FSU/09	31.12.83
2585	Shaik. Khalisha Begum D/o Sk. Ali Saheb	APSVC/04957/09	D.No.18-1-30/B, Nimmathota, Guntur Road, Narasaraopet, Guntur Dist, Andhra Pradesh	BVSc&AH/SVU/09	06.01.87
2586	Shailendra Kumar Khare S/o B.K. Khare	CHSVC/478/09	8/02, Gitanjali Nagar, Raipur-492007, Chhattisgarh	BVSc&AH/JLNKVV/86-87	01.02.66
2587	Shailendra Kumar Rajak S/o Sri Suresh Baitha	JVC/629/09	Baligarh, Belhara, Garhwa-822114, Jharkhand	BVSc&AH/BAU/09	16.01.84
2588	Shailendra Mishr S/o Nagendra Mani Mishr	CHSVC/485/09	Block Colony, Near Sai Mandir, Kachari Par, Bakunthpur Koria, Chhattisgarh	BVSc&AH/JLNKVV/84-85	15.01.61
2589	Shailesh Kumar Gupta S/o Lt. Laxmi Prasad Gupta	CHSVC/514/10	Village- Vapsot, Teh. - Sitapur Sarguja, Chhattisgarh	B.V.Sc.&AH/IGKVV/09	25.03.83
2590	Shalika Sharma, D/o J.K. Sharma	HVC-875/09	Balaji Vihar, Distt. Kangra, HP	BVSc&AH/CSKHPKV/09	29.08.87
2591	Shalini Pandey D/o Sh. U.C. Pandey	UKSVC/473/09	Village Gairvaisali, Bithoria No.1, P.O. Haripur Nayak, Haldwani, Distt. Nainital, Uttarakhand	BVSc&AH/GBPUA&T/09	30.08.85

2592	Shalu Sheria, D/o Pritam Chand Sheria	HVC-877/09	VIII. & PO.Naihran pukhar, Teh., Dehra, distt.Kangra,HP	BVSc&AH/CSKHPKV/09	15.08.86
2593	Shama Khan D/o Dr. Abdul Ahad Khan	HVC-873/09	VIII. Narwana Bazar, P.O. Yol cant., Teh.Dharamshala, Distt. Kangra, HP	BVSc&AH/CSKHPKV/09	25.02.85
2594	Shaman.S, S/o Salim.S	KSVC/3558/09	B.V.Manzil., Anad P.O., Nedumangad, Thiruvananthapuram	BVSc&AH/KAU/09	25.04.86
2595	Shankar.S (Sellamuthu)	TNSVC/4680/10	117-C/1, Rayapanur, Melnariyappanur PO, Kallakurichi taluk, Villupuram-606201, Tamil Nadu	BVSc&AH/TANUVAS/09	02.05.84
2596	Shankar.T (S.Thangamani)	TNSVC/4642/09	104, Kanagapuram PO, Erode-638112, Tamil Nadu	BVSc&AH/TANUVAS/09	04.06.84
2597	Shanmugasundaram.A (N.Arunachalam)	TNSVC/4577/09	1/41, C-1, Indian Bank Colony, Narasothipatty, Salem-636004, Tamil Nadu	BVSc&AH/TANUVAS/09	23.06.86
2598	Shantaveer Biradar S/o Sanganagouda	KarnSVC/4277/09	Near Bazar, Babaleshwar-586113, Bijapur Tq & Dt.,Karnataka	BVSc&AH/KVAFSU/09	25.6.86
2599	Shanthipoosan.S (G.Sivaraman)	TNSVC/4440/09	No-31-E, Rajarajan Nagar, C.N.Palayam, Komarapalayam, Namakkal-638183, Tamil Nadu	BVSc/TANUVAS/02	18.09.77
2600	Sharadendu Kumar Gupta S/o Dr. Rajendra Kumar Gupta	JVC/606/09	Arsanday, Boryea, Kanke, Ranchi-834006, Jharkhand	BVSc&AH/BAU/84	19.05.60
2601	Sharddha Shrivastava D/o Sh J.K.Shrivastava	MPSVC/2631/09	H.No.700,Shahi Naka Garha, Jabalpur, M.P	BVSc&AH/JNRVV/09	28.8.82
2602	Sharma Ganesh Datt	GVC/297	Qt- No- B-1, Sugam Quarter, Vadodara Dairy, Makarpura Road, Vadodara PIN-390009, Gujarat	BVSc&AH/GBPUAT/72	1.3.51
2603	Sharma Girish Kumar	GVC/1825	15,Vrundavan park-II, Opp-Akruti Nagar, Borsad Road, ANAND-380001, Gujarat	BVSc&AH/AU/78	1.3.56
2604	Sharma Keshab Prasad S/o Late Babu Ram Sharma	ASM/2467/09	Dispur Last gate Capital Complex, Block-3, Type-VII, Qr.NO. 5, Guwahati-6, Assam	BVSc&AH/AAU/09	16.6.85
2605	Sharma Rakendrakumar Trilokinath	GVC/1270	61, Sundervansociety, Bhuravav, Godhara., Gujarat	BVSc&AH/GAU/90	17.12.62
2606	Sharma Uttam S/o Sh Padam Lal Sharma	ASM/2443/09	Phukan Nagar, Sivasnagar, PO&Vill-Phukan Nagar, Dt-Sivasagar, Assam	BVSc&AH/AAU/09	1.7.85
2607	Sharma Vinodkumar k	GVC/1749	8/2, Dharti Township, Akeshan Road, Palanpur Dis- Banaskantha, Gujarat	BVSc&AH/GAU/94	18.7.70

2608	Sharna Arun Kumar	GVC/3097/09	Bungalow No. 2188-F, Radhey Shyam nagar, Abrama road, Navsari, Gujarat	BVSc&AH/RAU/01	04.10.75
2609	Sharna Kishna Kumar	GVC/3098/09	Flat No. 3, Harikrishna sanitary Store, Vijalpore road, Navsari, Gujarat	BVSc&AH/RAU/01	01.08.76
2610	Shashi Dhar Rao S/o Late Baldeo Pd. Rao	JVC/611/09	TVO (R.P) Dumka Rasikpur Bagan, S.P. College Road, Dumka-814101, Jharkhand	BVSc&AH/RAU/86	06.01.61
2611	Shatrughan Singh S/o Sh Daljeet Singh	MPSVC/2594/09	Senior HIG -11, Kanha Kunj, Kolar Road, Bhopal, M.P	BVSc&AH/GBPUA&T/83	1.7.60
2612	Shebeeba C.S. D/o C.M Sathar	KSVC/3589/09	Chirakuzhi House, PO Velapad Thrissur	BVSc&AH/KAU/09	22.03.86
2613	Sheeba.C (M.Chandra Bruce)	TNSVC/4631/09	19-161, Pulayanvilai, Kallankuzhi & PO, Kanyakumari Dist.Pin-629166, Tamil Nadu	BVSc&AH/TANUVAS/09	20.06.86
2614	Sheetal Bhuarya S/o Devraj Bhuarya	CHSVC/508/10	Section Education Office, Antagarh, Chhattisgarh	B.V.Sc.&AH/IGKVV/09	18.08.85
2615	Sheethal.G.Mohan, D/o C.S.Mohanan	KSVC/3549/09	Thekkedathu Puthen Purayil House, Memadangu P.O., Muvattupuzha, Ernakulam-686672, Kerala	BVSc&AH/KAU/09	10.05.86
2616	Shekar Babu M.C. S/o Doddamallappa S.N.	KarnSVC/4358/09	No.506,B4,Krishna Block,National Games,Koramanagala,Bengaluru-47,Karnataka	B.VSc/UAS,B'lore/82	14.3.55
2617	Shekh Mohmmadiftikhar Mohmmadhusen	GVC/606	503, Royal Plaza, 100 Feet Road, Opp- New CK Hall, Anand- 388 001, Dis- Anand, Gujarat	BVSc&AH/GAU/81	15.3.56
2618	Shelke Dnyaneshwar Dayaram	MahaSVC/8308/09	At-Post-Bhongaon, Tal.Shegaon, Dist.Buldhana-444203, Maharashtra	BVSc&AH/MA&FSU/09	14.03.86
2619	Shelke Ramprasad Namdevrao	MahaSVC/8349/10	At-Pahegaon, Post-Pathrud, Tal.Dist.Jalgaon, Maharashtra	BVSc&AH/MAU/88	01.06.64
2620	Shelke Yogesh Balasaheb	MahaSVC/8296/09	Shelke Building, Triveninagar, Post-Rupeenagar, Tal. Haveli, Dist.Pune-412114, Maharashtra	BVSc&AH/MA&FSU/09	03.07.86
2621	Shemy V.S, S/o V.I. Shajahan	KSVC/3580/09	Vettukkal House, Mattathurkunnu P.O., Vasupuram, Thrissur-680684, Kerala	BVSc&AH/KAU/09	18.05.86
2622	Shende Kavita Ajabrao	MahaSVC/8180/09	Rathi Layout, Katol, (Near Maramay Mandir), Tal.Katol, Dist.Nagpur-441302, Maharashtra	BVSc&AH/MA&FSU/09	05.07.85
2623	Shenin P Marcily, D/o P.F.Marcily	KSVC/3516/09	Payyapilly House, Mele Murali, Industrial Estate (P.O), Palakkad-678731, Kerala	BVSc&AH/KAU/09	15.01.86

2624	Sheo Janam Singh S/o Late Shidhnath Singh	JVC/656/10	DAHO Sahibgunj Gorabadi Sahibgunj-816109, Jharkhand	BVSc&AH/RAU/75	02.08.52
2625	Sheo Shankar Pandey S/o S.N. Pandey	UPSVC/4996/09	Lalapur, Lalganj, Distt.- Mirzapur, UP	BVSc&AH/Agra Uni/67	22.11.40
2626	Sherasiya Anjum Valimamad	GVC/2207	101-C, Pooja Complex, Nr. GPO, PB NO- 46, Rajkot, Gujarat	BVSc&AH/GAU/99	3.3.77
2627	Sherin.B.Sarangom, S/o T.Sarangom	KSVC/3592/09	Ngo Quarters, No. 46/571, Melarannoor, Karamna (PO), Thiruvananthapuram-695002	BVSc&AH/KAU/09	27.12.85
2628	Shesh Asopa D/o Ghan Shyam Asopa	RajSVC/3729/10	6-C-107 J.N.V. Colony, Bikaner-334003, Rajasthan	BVSc&AH/SKRAU/10	29.08.85
2629	Shewalkar Akshay Anil	MahaSVC/8273/09	Onjal, 46-Gore Layout, Samarth Nagar, Malkapur, Tal, Dist. Akola-444004, Maharashtra	BVSc&AH/MA&FSU/09	24.05.86
2630	Shezna Mohammed Ali, S/o T.P. Mohammed Ali	KSVC/3562/09	Oasis, Atholi, Kozikode-673315, Kerala	BVSc&AH/KAU/09	27.09.85
2631	Shiela N Rao D/o Narayana Rao A	KarnSVC/4223/09	No. 257, 1st Cross, HAI 2nd Stage, Indranagar, Bengaluru, Karnataka	BVSc/UAS, B'lore/79	14.2.56
2632	Shikher Singla S/o Inderjit Singla	Pb.SVC/2880/09	VIII. Sangala, P/o Himtana, Distt. Sangrur-148023, Punjab	BVSc&AH/GADVASU/09	27.8.85
2633	Shilpa.P, D/o Sadhankumar	KSVC/3514/09	Panikkaparambil House, Jaritha Nagar, Punnamm P.O., Thrissur-680002, Kerala	BVSc&AH/KAU/09	27.02.86
2634	Shilpi Kerketta D/o Atul Kumar Kerketta	JVC/638/09	Naudi Senha, Senha Lohardga, Jharkhand	BVSc&AH/BAU/09	27.07.85
2635	Shinde Pravin Ramdas	MahaSVC/8161/09	At. Sugaon, Post-Bhose, Tal. Pandharpur, Dist. Solapur-413315, Maharashtra	BVSc&AH/MA&FSU/08	04.06.84
2636	Shinde Rahul Suresh	MahaSVC/8261/09	Yashwant, Pundi Road, Tal. Tasgaon, Dist. Sangli-416312, Maharashtra	BVSc&AH/MA&FSU/09	19.07.87
2637	Shine.S, S/o Suseelan.D	KSVC/3506/09	Shynivas, Kadavila, Vanchiyoor P.O. Alamcode (VIA), Attingal, Thiruvananthapuram, Kerala	BVSc&AH/KAU/09	11.09.84
2638	Shiphatu Thupitor S/o Y.Tsepichu Thupitors	NSVC/0248/09	Phor Village, P.O - Meluri, Dt- Phek, Nagaland	BVSc&AH/AAU/09	29.8.83
2639	Shitut Mithila Rajendra	MahaSVC/8299/09	Prafulla Society, 16, Gokuldas Pasta Road, Dadar, Mumbai-400014, Maharashtra	BVSc&AH/MA&FSU/09	06.04.86

88, Saraswati Nagar, Barwaha, Khargone, M.P.- 451115 BVSc&AH/JNKVV/09 21.11.84

2640	Shiv Kumar Dangore S/o Shiv Nandan	MPSVC/2600/09			
2641	Shiv Kumar S/o Gyarsi Lal	RajSVC/3727/10	SB-31, Barodia Basti Station Road, Jaipur-302006, Rajasthan	BVSc&AH/SKRAU/10	10.09.84
2642	Shiv Shankar Soni S/o Om Prakash Soni	RajSVC/3596/09	Sunar Colony, Near Sant Aashram, Mandawar, Teh.-mahwa, Dausa-321609, Rajasthan	BVSc&AH/RAU/09	04.10.82
2643	Shiva Kumar S/o Anand Kumar Pandeshwar	KarnSVC/4352/09	No.153, Samruddha, 2nd cross, M.S.Ramaiah North City Thamsandra Main Rd, Nagawara, Bengaluru-45, Karnataka	BVSc&AH/GAU /97	23.4.74
2644	Shivakumar M.U. S/o Umakantha	KarnSVC/4307/09	NFS, Malavalli-571430, Mandya Dt., Karnataka	BVSc&AH/KVAFSU/09	8.2.86
2645	Shivanand S/o Shibhushan	UPSVC/5042/09	Vill.- Daksarira, PO- Kumhiyawan, Kaushambi, UP	BVSc&AH/JNKVV/09	05.04.82
2646	Shivangi Bawane D/o Sh Radhey Shyam Bawane	MPSVC/2638/09	194 Ganganagar, Dewas, M.P -453446	BVSc&AH/JNKVV/09	25.06.82
2647	Shivani Sahu D/o Sh. Dhananjay Sahu	UKSVC/460/09	Vir Gir Wali, Prajpur, Distt. Dehradun, Uttarakhand	BVSc&AH/GBPUA&T/09	06.07.86
2648	Shivaraj K Katakabhavi S/o Krishnappa N Katakabhavi	KarnSVC/4265/09	No.1230/8, South Shankar Nagar, Athani-591304, Belgaum Dt, Karnataka	BVSc&AH/KVAFSU/09	26.1.87
2649	Shivastava Pranaykumar Umashankarprasad	GVC/2571/09	B-406, Paramkrishna Complex, B/H Ganesh Dairy, Anand, Gujarat	BVSc&AH/SDAU/05	11.06.80
2650	Shobhita Agarwal D/o Sh. K.K.Agarwal	UKSVC/462/09	9 Hari Kunj, G.M.S. Road, Dehradun, Uttarakhand	BVSc&AH/GBPUA&T/09	29.06.84
2651	Shradha Wasnik D/o Chandrahwas Wasnik	CHSVC/521/10	Quarter No.- 1, B street, 31 Sector, 10 Bhilai Nagar, Durg, Chhattisgarh	B.V.Sc.&AH/IGKVV/09	16.12.83
2652	Shrawan Singh Shekhawat S/o Ummed Singh Shekhawat	RajSVC/3636/09	Plot No. 194, 6D Road, Shakti Nagar, Paota 'C' Road, Jodhpur-342010, Rajasthan	BVSc&AH/CSKHPKVV/09	01.06.85
2653	Shri Ram Sihag S/o Munga Ram	RajSVC/3589/09	VPO-Nethawa, Sikar-331024, Rajasthan	BVSc&AH/RAU/09	10.07.81
2654	Shrimali Kanaiyala Motilal	GVC/618	Block No. 1181, Nr. DSP Office, Shivam Sac., Sector -27, Gandhinagar, Gujarat	BVSc&AH/GAU/82	20.3.56
2655	Shriram Singh S/o Bhaori Singh	RajSVC/3604/09	V/P- Gudawali, VIA- Sarsena, Teh.- Nadbai, Bharatpur, Rajasthan	BVSc&AH/RAU/09	15.10.77

2656	Shruti Chabba Sharma, D/o Vijay Kumar	HVC-896/09	224/5, Near Govt. High School Kotwali Bazar, Dharmshala, Distt,Kangra HP	BVSc&AH/IGKV/09	30.05.83
2657	Shukla Dhananjay Dhirajlal	GVC/574	Section Officer, Department of Social Welfare, 9th Floor, Block-2, Sachivalay, Gandhinagar, Gujarat	BVSc&AH/GAU/80	5.5.57
2658	Shukla Kaushikkumar Jayantilal	GVC/609	G/57, Nandanvan Society, Opp- Motinagar, Susen Tarsali Road, Vadodara, Gujarat	BVSc&AH/GAU/81	11.12.57
2659	Shukla Tejas Bharatbhai	GVC/3036/09	C-192, Gokul Township, B/h G.E.B. Bus Station, Gotri Road, Vadodara, Gujarat	BVSc&AH/SDAU/09	20.02.87
2660	Shweta Anand D/o R.R. Kumar	UPSVC/5075/10	H.No. 1 Baker Street Infront of IVRI Gate No- 2, Izat Nagar, Bareilly, UP	BVSc&AH/BAU/09	16.07.82
2661	Shwetha S.D/o Sundaramurthy I.H.	KarnSVC/4340/09	Nr Railwaystation, Shanthinagar, Tumkur- 572102, Karnataka	BVSc&AH/KVAFSU/09	24.8.86
2662	Shyam Lal Marandi S/o Late Gopal Marandi	JVC/651/10	B.A.H.O., Nimdih Adardih Saraikela, Kharsawan, Jharkhand	BVSc&AH/RAU/97	31.12.69
2663	Shyam Lal Sharma, S/o Prem Chand Sharma	HVC-867/09	Vill. Kaharian-Bharadi, PO.Kalol, Teh. Jandhuta, Distt, Bilaspur, HP	BVSc&AH/CSKHPKV/09	20.07.84
2664	Shyam Sundar Tripathy, S/o Purva Chandra Tripathy	OSVC/2325/09	New Street, 5th Lane, near Bypass Road, At/PO-Jeypore, Distt-Korapht-764001, Orissa	BVSc&AH/KAU/09	05.08.82
2665	Siba Prasad Nayak, S/o Kishore Chandra Nayak	OSVC/2305/09	At-Amatapara, Po-Nimapara, Distt.-Puri- 752106, Orissa	BVSc&AH/OUAT/09	22.03.83
2666	Siddiqui Al Manowar S/o Md.Zahoor Ali	JVC/615/09	(Mainachak) Kasba Dudhichak, Meherma Godda, Jharkhand	BVSc&AH/RAU/97	12.09.71
2667	Sidhanta Kumar Seth, S/o Gourange Charan Seth	OSVC/2308/09	At/Po Gadapalasuni, VIA-Parjang, Distt.- Dhenkanal, Orissa	BVSc&AH/OUAT/09	29.06.82
2668	Sidpara Ashokkumar Ravjibhai	GVC/1789	At-Navi Mengani, Ta-Kotda sangani, Dist- Rajkot, Gujarat	BVSc&AH/GAU/95	17.4.69
2669	Sikandra Abbas S/o Waris Ali	UPSVC/4967/09	Moh. Matloobpur, PO- Nagpur Jalalpur, Distt.- Ambedkar Nagar, UP	BVSc&AH/NDUA&T/09	15.03.81
2670	Sindha Harendrasinh Abhesinh	GVC/1686	Catagory- 3, Block -1/1, Kevadiya Colony, Ta- Rajpipala, Dis- Narmada, Gujarat	BVSc&AH/GAU/93	3.9.61
2671	Sindha Mehulsinh Jivanbhai	GVC/3127/10	At&Po-Kavi, Salaima, Nr-Maha Prabhuji Bethak, Ta Jambusar, Dist-Bharuch, Gujarat	BVSc&AH/AAU/10	01.01.87

2672	Sindhi Taufiqhusen Abutalib	GVC/786	39, New Aman Park soc. Sukhbag road, Palanpur- 385 001, Gujarat	BVSc&AH/GAU/84	1.6.61
2673	Singh Ajitkumar Balvatsingh	GVC/904	Office of Deputy Director of Animal Husbandry, Intensive Cattle Development Project, 3rd Floor, Sevasdan - 1, Valsad	BVSc&AH/GBPUAT/84	1.1.62
2674	Singh Surya Narayan	GVC/349	13, Shivam Society, Anand -Jitodiya Road, Anand,, Gujarat	BVSc&AH/RKVV/74	3.2.51
2675	Singh Zaabar Durga Singh	GVC/1931/09	Staff quarter, Banas Dairy, Palanpur, Dist. B.K., Gujarat	BVSc&AH/MLSU/86	01.06.58
2676	Siranjeevi Kumar.S (P.Sathiyamoorthy)	TNSVC/4519/09	27/36, Alagappa Udlayar Colony, P.K.T.Road, Peravurani, Thanjavur-614804, Tamil Nadu	BVSc&AH/TANUVAS/09	30.05.86
2677	Siva Charan Singh, S/o Sada Singh	OSVC/2303/09	At-Handipuhan, PO Durdura, Via-Jashipur, Distt.Mayurbhanj-757034, Orissa	BVSc&AH/OUAT/09	08.05.82
2678	Siva.K (M.Karunanithi)	TNSVC/4598/09	3/15, South Street, Nedumanur PO, Sankarapuram taluk, Villupuram District- 606208, Tamil Nadu	BVSc&AH/TANUVAS/09	13.06.87
2679	Sivagurunathan.P (R.Ponnusamy)	TNSVC/4672/10	Old No. 17, Ramuthevar Middle Street, Vasudeva Nallur, Tirunelveli district, Tamil Nadu	BVSc/TANUVAS/92	30.07.69
2680	Sivanarayanan T.B. S/o T.N.Balakrishnan	KSVC/3588/09	Thangalazhi House, Kallepady Road, Mulamkunna Thukavu P.O., Thrissur-680581, Kerala	BVSc&AH/KAU/09	15.12.86
2681	Sivaprakasam.A (V. Arumugam)	TNSVC/4630/09	31/3, SPIC nagar, Velachery Chennai-600042, Tamil Nadu	BVSc&AH/TANUVAS/09	12.12.85
2682	Sivaramakrishnan.V (R.Villali)	TNSVC/4579/09	2/423, Anna Nagar, Kaveripattinam, Krishnagiri Taluk & Dist.Pin-635112, Tamil Nadu	BVSc&AH/TANUVAS/09	02.06.83
2683	Siwani Chauhan D/o Sh. Jageshwar Kumar	UKSVC/480/09	D-7, TDC.Colony, PO Haldi, Distt. U.S.Nagar, Uttarakhand	BVSc&AH/GBPUA&T/09	01.06.86
2684	Smruti Ranjan Mishra, S/o Ashok Kumar Mishra	OSVC/2280/09	L.B-204, Badagada Brit Colony, Bhubaneswar- 751018, Orissa	BVSc&AH/OUAT/09	16.06.83
2685	Sobane.A.S (Senguttuvan)	TNSVC/4530/09	21, A South Poundu Street, Idappadi, Salem Dist, Pin-637101, Tamil Nadu	BVSc&AH/TANUVAS/09	04.01.85
2686	Sohita Ojha D/o Sh. N.N.Ojha	UKSVC/463/09	C/o Sh. U.C.Naudiyal 99-Nehru Colony, Dehradun Uttarakhand	BVSc&AH/GBPUA&T/09	13.06.86
2687	Sohrab Singh S/o Parvinder Singh	Pb.SVC/2919/10	Danewalia House Azimgarh, Abohar, Punjab	BVSc&AH/RAU/10	15.6.85

2688	Sojitra Vallabhbai Raghavjibhai	GVC/748	"Vraj" 28, Desai Nagar, B/H- ST Bus Stand, Junagadh, Gujarat	BVSc&AH/GAU/86	1.2.54
2689	Solanki Amrutbhai Savabhai	GVC/620	797-Adarshnagar, Sector-24,Gandhinagar, Gujarat	BVSc&AH/GAU/80	1.1.53
2690	Solanki Bharatkumar Ambalal	GVC/2225	1/2, Gujarat Housing Board, Nandesari, Ta&Di: Vadodara PIN- 391340,Gujarat	BVSc&AH/GAU/00	15.8.75
2691	Solanki Bharatkumar Ranchhodhbhai	GVC/958	Pandya Vad, Opp, Gurjarni Pole, Nr, Swaminarayan Temple, Prantij, Sabarkantha- 383 205, Gujarat	BVSc&AH/GAU/87	13.8.62
2692	Solanki Dhirendrakumar Hiralal	GVC/616	F/3, Jashoda Apprt, Vaniawad Circle, College Road, Nadiad-387 001, Dis-Kheda, Gujarat	BVSc&AH/GAU/78	2.4.56
2693	Solanki Hitendrasinh Vijaysinh	GVC/523	48, Apnagar Society, Nr. Tekrawala School, Palanpur Patia, Surat, Gujarat	BVSc&AH/GAU/79	23.11.23
2694	Solanki Jayantilal Vahaljibhai	GVC/621	Block No-6, Room No-12 (old), Officer Colony, B/h. Circuit House, R C Dutt Road, Alkapuri, Baroda-07, Gujarat	BVSc&AH/GAU/82	1.6.56
2695	Solanki Kirittbhai Dhanjibhai	GVC/575	9, Jhanvi Bunglows, IOC Road, Chandkheda, Dist Ahmedabad -382 424, Gujarat	BVSc&AH/GAU/80	18.6.57
2696	Solanki Manish Ravjibhai	GVC/3074/09	Mahi Canal Colony Bhadrn, Ta-Borsad, Dist- Anand,Gujarat	BVSc&AH/AAU/09	15.06.84
2697	Solanki Pravinsing Hirsinh	GVC/3075/09	Ramjinamuvada Po-Depoli, Ta-Bayad, Dist S.K., Gujarat	BVSc&AH/AAU/09	01.01.83
2698	Solanki Vikramsinh Gulabsinh	GVC/938	44 Sec-1, Nr. Shreeji Park, Gayatri Mandir Rd., Himmatnagar - 383 001, Gujarat	BVSc&AH/GAU/86	29.4.62
2699	Solanki Yograjsinh Dharmsinh	GVC/2017	Motisara, "Yog-Dharm", At & Po-& Dis-Patan PIN - 384 265,Gujarat	BVSc&AH/GAU/97	9.8.73
2700	Sona Katoch, D/o Kashmira Katoch	HVC-866/09	Ward No.1, House No. 37, Hira Nagar Hamirpur., HP	BVSc&AH/CSKHPKV/09	02.02.86
2701	Sonal Shrivastava D/o Sh Om Prakash Shrivastava	MPSVC/2615/09	1425.Saraswati Colony,Cherry Tal,Jabalpur,M.P	BVSc&AH/JNKVV/09	23.09.87
2702	Sonar Swapnil Suresh	MahaSVC/8321/10	Saraswati Niwas, Sonar Galli, Ward No.2, Jath,Tal.Jath, Dist.Sangli-416404,Maharashtra	BVSc&AH/MAAFSU/09	13.10.86
2703	Soni Anil Krushnakant	GVC/1141	50, Madhav Society, Opp, Nirmaynagar Shopping Center, Nirmaynagar, Ahmedabad, Gujarat	BVSc&AH/GAU/89	5.12.67

2704	Soni Gaurangbhai Ramaniklal	GVC/949	14, Navdeep Society, Gokalnagar, Mahavirnagar, Himmatnagar, Dis-Sabarkantha, Gujarat	BVSc&AH/GAU/86	2.6.64
2705	Soni Girishkumar Damjibhai	GVC/1440	24/A, Patel Society, Khedbrahma, Di: Sabarkantha, Gujarat	BVSc&AH/GAU/91	21.1.69
2706	Soni Jitendra Dahyalal	GVC/1148	376/1, GOKUL, Shantikunj Society, Sector-28, Gandhinagar, Gujarat	BVSc&AH/GAU/89	7.3.67
2707	Soni Kanaiyalal Babulal	GVC/622	170, Radha Krishna Park, Akota Garden Road, Vadodara., Gujarat	BVSc&AH/GAU/81	1.6.56
2708	Soni Sudhirkumar Vadilal	GVC/842	1- D, Xitij Appartment Plot no - 200, Sector - 22, Gandhinagar, Gujarat	BVSc&AH/GAU/85	2.12.62
2709	Sonone Pramod Vasudeorao	MahaSVC/8153/09	A/P-Sugaon, Tal. Jalgaon (Jamod), Dist. Buldhana-443402, Maharashtra	BVSc&AH/MA&FSU/08	06.09.84
2710	Sontakke Dhiraj Anil	MahaSVC/8281/09	Talgunagar, Ward No. 5, Buldana, Tal. Dist. Buldhana-443001, Maharashtra	BVSc&AH/MA&FSU/09	22.04.85
2711	Sooraj, S/o Jastee K.K	KSVC/3520/09	Kaimalangara House, Cherai P.O., Ernakulam-683514, Kerala	BVSc&AH/KAU/09	22.05.86
2712	Sorathiya Lalitchandra Manjibhai	GVC/1533	At&Po: Limbuda, Ta: Jodia, Via: Hadiana, Dis-Jamnagar - 361 011, Gujarat	BVSc&AH/GAU/92	15.2.70
2713	Soubhagya Ranjan Pradhan, S/o Surendra nath Pradha	OSVC/2323/09	B-28, Ruchika Market, Baramunda, Bhubaneswar-751003, Orissa	BVSc&AH/OUAT/09	26.06.85
2714	Sourabh Chhabra S/o Sh Sadanand Chhabra	HarSVC/2139	# 131, Prem Nagar, Hisar, Haryana	BVSc&AH/Swami Keshwanand, RAU/10	26.7.85
2715	Sourabh Kumar S/o Sh Vinod Kumar	HarSVC/2103	# 409/18, Ravidas Nagar, Arya Nagar Road, Rohtak, Haryana	BVSc&AH/CCSHAU/09	4.7.85
2716	Sourabh Sulabh S/o Dr. Upendra Yadav	JVC/636/09	Hill View Colony., M.G.M., Jamshedpur, East Singhbhum-831018, Jharkhand	BVSc&AH/BAU/09	05.10.83
2717	Sowmya T.C. D/o T.J Chandrasekharan	KSVC/3599/09	Thadathilphackal House, Thaikkattukara P.O. Aluva, Ernakulam-683106, Kerala	BVSc&AH/KAU/09	11.03.86
2718	Sreekarthika Thankappan, D/o P.K. Thankappan	KSVC/3604/09	Panachiyil House, Puliyanloor (PO), Kottayam-686573, Kerala	BVSc&AH/KAU/09	26.03.85
2719	Sreela.L, D/o V. Sreedharan Pillai	KSVC/3544/09	Sreesailam Alummodu, P.O., Kollam-691577, Kerala	BVSc&AH/KAU/09	31.05.82

2720	Sreeiaksmi C.M., D/o C.Mukundan	KSVC/3590/09	Aswathi, Kotakkat (PO), Kasargod-671357	BVSc&AH/KAU/09	31.05.85
2721	Sreesitha S.G., D/o N.A.Sreedharan Nair	KSVC/3581/09	Greenview House, Nadakkuthazha P.O., Vatakara, Kozhikode-673112, Kerala	BVSc&AH/KAU/09	29.10.85
2722	Srikala.R (S.Ganesh)	TNSVC/4446/09	No.2/85,Palla Street, Kadaperikuppam & PO, Vanur taluk, Villupuram dist, pin-605502, Tamil Nadu	BVSc&AH/P.U/04	29.07.80
2723	Srinivas Behera, s/o Nikhendranath Behera	OSVC/2300/09	At/Po Bhitara Andhari, Via-Erasama, Distt.Jagalsinghpur-754139, Orissa	BVSc&AH/OUAT/09	22.04.84
2724	Srinivas H.N. S/o Narasimalah H.N.	KarnSVC/4231/09	No.827/6, 8th A Main, BEL Layout Vidyaranyaपुरा, Bengaluru, Karnataka	BVSc/UAS, B'lore/82	20.7.59
2725	Srinivasa Kavali S/o Obanna N	KarnSVC/4224/09	2nd Ward, Bapujinagar-583135, Kudligi Tq, Bellary Dt., Karnataka	BVSc/UAS Dharwad/91	1.6.67
2726	Sriram.S.K. (S.R.Kumar)	TNSVC/4632/09	4, Mudisathamman Koll Street, New MGR Nagar, Senneerkuppam, Chennai-600056, Tamil Nadu	BVSc&AH/TANUVAS/09	20.12.85
2727	Subas Chandra Jena, S/o Gourahari Jena	OSVC/2271/09	At/Po-Dagara Via-Pratappur, Distt.-Balasore- 756083, Orissa	BVSc&AH/OUAT/09	17.04.86
2728	Subhakanta Acharja, S/o Presanna Kumar Acharya	OSVC/2274/09	At: Jagannathan, Po: Chahali, Via. Mahipur, Distt. Nayapur-752094, Orissa	BVSc&AH/OUAT/09	28.06.86
2729	Subharaj Samantara, S/o Godabarish Samantra	OSVC/2270/09	At/Po-Borigumma, Distt.-Korapat-764056, Orissa	BVSc&AH/OUAT/09	05.07.86
2730	Subhash Chand S/o Sher Singh	RajSVC/3594/09	Vill.-Tohari, Post-Tarwala, Teh.-Kishangarh Bas, Alwar-301405, Rajasthan	BVSc&AH/RAU/09	10.08.81
2731	Subhash Chander S/o Bhoop Singh	RajSVC/3684/09	VPO-Ninan, Teh.-Bhadra, Hanumangarh- 335511, Rajasthan	BVSc&AH/MAFSU/09	10.08.79
2732	Subhash Parmar S/o Sh Sita Ram Parmar	MPSVC/2625/09	Vill-Nagpur, The-Sanwer, Indore, M.P-453551	BVSc&AH/JNKVV/09	12.5.78
2733	Subhashis Samanta, S/o Sarat Chandra Samanta	OSVC/2272/09	At: Mruti Vihar, Po/Ps Athgarh, Distt. Cuttack- 754019, Orissa	BVSc&AH/OUAT/09	07.07.86
2734	Subhash Sahu S/o Gopal Chandra Sahu	OSVC/2292/09	At:Nagpal, PO:Udala ward.3 Distt., Mayurbhanj-757041, Orissa	BVSc&AH/OUAT/09	29.05.86
2735	Subhrajit Das, S/o Sarat Kumar Das	OSVC/2326/09	At/Po Balichandrapur, Distt: Jaipur, Orissa- 754205, Orissa	BVSc&AH/OUAT/09	22.06.84

2736	Subodh Jitan Hansdak S/o Late Bhadu Hansdak	JVC/647/10	C/o Smt. Sabin Vinita Hansdak, Pokhoria Amgachi, Kathikund, Dumka-814103, Jharkhand	BVSc&AH/RAU/94	22.01.64
2737	Subodh Kumar Mandal S/o Sri Ram Rantan Mandal	JVC/621/09	Block Animal Husbandary Officer Bhawnathpur, agarutari, Garwa, Jharkhand	BVSc&AH/BAU/91	15.02.64
2738	Subrahmanyam Vatasyan, F/o Leeladhar Vatasyan	HVC-876/09	Vill. Bahot, P.O. Sundernagar, Distt. Mandi, HP	BVSc&AH/CSKHPKV/09	21.01.85
2739	Subrata Das S/o Sh Narayan Das	TripuraSVC/177/08	C/o Kalipada Das, PO- Kunjaban Agartala, Tripura (West)	BVSc&AH/CAU/08	1.1.86
2740	Sudam Bag, S/o Balistha Bag	OSVC/2310/09	At/PO Jaring VIA-Bijepur, Distt.-Bargarh (O)- 768032, Orissa	BVSc&AH/OUAT/09	15.11.81
2741	Sudarshan Patra, S/o Manguli Patra	OSVC/2307/09	AT/Po Nuapatna, VIA-Tigiria, Distt.-Cattack- 754035, Orissa	BVSc&AH/OUAT/09	01.07.82
2742	Sudarshan S/o Shivalingappa C Gadad	KarnSVC/4331/09	Plot 27, Door No-6386, Sector-8, Anjaneyanagar, M.M. Exten, Belgaum- 590016, Karnataka	BVSc&AH/KVAFSU/09	30.9.86
2743	Sudhagar.M (P.Murugan)	TNSVC/4434/09	No.10, Middle Street, Thiyagadurgam PO, Villupuram-606206, Tamil Nadu	BVSc/TANUVAS/01	25.05.78
2744	Sudhakar N.R. S/o Rajanna N.M.	KarnSVC/4312/09	1st Cross, Indiranagar, Tiptur-572102, Tumkur Dt., Karnataka	BVSc&AH/KVAFSU/09	28.12.86
2745	Sudhansu Sekhar Behera, S/o Gajendra Behera	OSVC/2299/09	At/Po-Kulashree Distt. Cuttack-754104, Orissa	BVSc&AH/OUAT/09	18.05.85
2746	Sudharshan.A (A.Annamalai)	TNSVC/4493/09	Door No. 59, Elavadai PO Harur taluk, Dharmapuri Dist.-635305, T.N	BVSc&AH/TANUVAS/09	07.03.85
2747	Sudhir Naik S/o Dharmasing	KarnSVC/4275/09	Behind Jagadamba School, Beerappanagar, Indi-586209, Bijapur Dt., Karnataka	BVSc&AH/KVAFSU/09	5.6.85
2748	Sudhir Singh Yadav S/o Sh Sher Singh	HarSVC/2135	# 825, Sector -17, Gurgaon, Haryana	BVSc&AH/HAU/83	1.09.61
2749	Suhas K, D/o Karunakaran	KSVC/3517/09	Hrioya House, Kulangarath, V.O. Road, Vatakara-1, Kozhikode, Kerala	BVSc&AH/KAU/09	28.10.85
2750	Suja.S, D/o G.Sebastian	KSVC/3503/09	Joy Dale, Thirumullavaram, Kollam-691012, Kerala	BVSc&AH/KAU/09	15.09.85
2751	Sujit Gudapati S/o Satyanarayana Murthy	PondiSVC/320/09	1-460-D, Sriram Nagar, Gopal Nagari Yanam- 533464, Pondicherry	BVSc&AH/PU/09	8.6.87

2752	Sukanta Das S/o Sri Satish Ch Das	TripuraSVC/184/08	C/o Satish Ch Das, Melarmath, Gangail Road, Agartala, Near Old MLA Hostel, Tripura (West)	BVSc&AH/CAU/08	25.4.85
2753	Sulochna Sen D/o Shri Subhash Kumar Sen	MPSVC/2632/09 *	C/o SH A.P. Sen, Ram Ward Badi Bajariya Bina, Sagar, M.P-470113	BVSc&AH/JNKVV/09	20.9.84
2754	Sumankumar, M S/o Murthy N	KarnSVC/4335/09	No.82, 2B Main, 1st Stage EWS, Yelahanka Newtown, Bengaluru-560064, Karnataka	BVSc&AH/KVAFSU/09	22.6.86
2755	Sumayya.A, D/o Abdul Salam.M	KSVC/3537/09	Mithlaj Mohal. Santhi Nagar, No. 102, Kavanadu P.O. Kollam, Kerala	BVSc&AH/KAU/09	31.05.81
2756	Sumit Choudhary S/o Shish Ram Choudhary	RajSVC/3620/09	C/o Vidhyadhar, Jat Colony, Nawalgarh Road, Sikar-3320001, Rajasthan	BVSc&AH/RAU/09	03.02.85
2757	Sumit Joshi S/o P.B.Joshi	UKSVC/453/09	Near F.C.I.Godam Uttaranchal Colony Kichha, Distt. U.S. Nagar Uttarkhand	BVSc&AH/GBPUA&T/09	16.12.87
2758	Sumit S/o Sh Abhimanyu	HarSVC/2102	VPO Alakhpura Bawani Khare Distt, Bhiwani, Haryana	BVSc&AH/CCSHAU/09	4.11.86
2759	Sumit Sharma S/o Daljit Sharma	Pb.SVC/2862/09	H.No.306/1, Sector-45-A, Chandigarh, Punjab	BVSc&AH/CSKHPKV/09	24.1.86
2760	Sundar.A (P.Annadura)	TNSVC/4505/09	3/739, New Market Street, Alagappa Nagar, II Cross East, Ariyalur-621704, Tamil Nadu	BVSc&AH/TANUVAS/09	26.08.86
2761	Sunil Giri S/o Shri Diwan Giri	UKSVC/469/09	Village Dungri, PO Chamali, Distt., Pithoragarh, Uttarakhand	BVSc&AH/GBPUA&T/09	01.03.87
2762	Sunil Kumar Bishnoi S/o Om Prakash Bishnoi	RajSVC/3610/09	Vill. 6th, P.O.- Patrora, Teh.-anoopgarh, Sriganganagar-335711, Rajasthan	BVSc&AH/RAU/09	13.04.81
2763	Sunil Kumar Choudhry S/o Sh Ashok Kr Choudhry	MPSVC/2617/09	Vinayak Campus, B-7 Karariya Bhopal, M.P-462010	BVSc&AH/JNKVV/09	15.4.84
2764	Sunil Kumar Joleh S/o Ramvilas Joleh	CHSVC/490/09	Village - Hirri, Teh.- Sargarh,, District - Raigarh, Chhattisgarh	BVSc&AH/JLNKVV/91-92	31.10.70
2765	Sunil Kumar S/o Om Parkash	Pb.SVC/2910/09	VPO Mandi Amin Ganj, Tehsil Fazilka, Distt. Ferozepur-152033, Punjab	BVSc&AH/GADVASU/09	6.4.84
2766	Sunil Kumar S/o OM Prakash	RajSVC/3590/09	VPO-Chack Bhojasar, Teh Bhadra, Hanumangarh-335501, Rajasthan	BVSc&AH/RAU/09	07.01.83
2767	Sunil Kumar S/o Panna Lal Meghwal	RajSVC/3627/09	155, Prithviraj Nagar, Maharani Farm, Durgapura, Jaipur-302018, Rajasthan	BVSc&AH/RAU/09	08.01.84

2768	Sunil Kumar S/o Ram Hit	UP SVC/4934/09	Vill.- Behra, PO- Jmohe, Distt.- Basti, UP	BVSc&AH/NDUA&T/09	15.07.85
2769	Sunil Kumar Shakya S/o Sh Lal Jeet Shakya	MPSVC/2641/09	Vill-Rampur Kalan, The-Sabhalgarh, Morena (M.P)	BVSc&AH/JNKVV/09	09.7.82
2770	Sunil Narula S/o Lekh Raj	Pb.SVC/2894/09	Nai Abadi, St No-16, H.No. 1327, Bada Pul, Abohar, Distt.Ferozepur, Punjab	BVSc&AH/GADVASU/09	8.5.85
2771	Supriya Swarnkar D/o N.C Swarnkar	CHSVC/458/09	Prachi Vihar, Raigarh-496001, Chhattisgarh	BVSc&AH/IGKVV/07-08	20.01.82
2772	Suradkar Babanrao Undruji	GVC/1345	At: Pimpalgaon- Chambhare, Po: Jamkeshore, Ta: Bapshitakali, Di: Akola, Gujarat	BVSc&AH/PKV/89	5.6.60
2773	Suraj Kumar S/o Sri Arjun Prasad Singh	JVC/603/09	TVO.Chera, Palamu-822113, Jharkhand	BVSc&AH/GBPUA&T/05	17.10.78
2774	Suraj Kumar.R, S/o E.K.Rajan	KSVC/3500/09	Rajalayam House, P.O Thadicadu, Aerum, Anhal (VIA), Kollam, Kerala	BVSc&AH/PU/05	18.09.81
2775	Surender Kumar S/o Birbal Ram	RajSVC/3711/10	VPO-15-Z, Teh.- Sriganganagar, Sriganganagar-335001, Rajasthan	BVSc&AH/SKRAU/10	15.05.83
2776	Surendra Kumar Saini S/o Kajor Mal Saini	RajSVC/3728/10	Vill.-Sainipura, Post-Parasrampura, Jhunjhunu-333308, Rajasthan	BVSc&AH/SKRAU/10	10.07.83
2777	Surendran. N (P.R.Narashiman)	TNSVC/4501/09	4-A, Seventh Cross, V.Nagar, Rasipuram, Namakkal Dist.-Tamil Nadu	BVSc&AH/TANUVAS/09	14.03.86
2778	Suresh .S (V.K.Subramaniyan)	TNSVC/4510/09	Periyakattu thottam, Vellalapalayam, Kedarai PO, Gobi taluk, Erode Dist.-638458, Tamil Nadu	BVSc&AH/TANUVAS/09	15.12.85
2779	Suresh Baghel S/o Sh R.R.Baghel	MPSVC/2651/10	Vill- Umariya, The-Dharampuri, Dhar, M.P	BVSc&AH/JNKVV/09	1.1.80
2780	Suresh Kawar S/o Shyam Lal Kawar	CHSVC/519/10	Village- Mahora, Post- Kopari Masturi Kartla, Bilaspur, Chhattisgarh	B.V.Sc.&AH/IGKVV/09	01.07.82
2781	Suresh Kumar S/o Simran Lal Yadav	CHSVC/540/10	Street No.-2, H.No.-118, Sector-10, Bhilai, Chhattisgarh	BVSc&AH/JNKVV/89-90	03.03.60
2782	Suresh Kumar, S/o Chet Ram	HVC-890/09	Shyam Niwas, Near J.C.B.Public School, Sector-III, New Shimla. HP	BVSc&AH/CSKHPKV/09	08.04.83
2783	Suresh Prasad Soni S/o Bachhu Lal Soni	CHSVC/473/09	Veterinary Hospital, Lormi, District - Bilaspur, Chhattisgarh	BVSc&AH/JLNKVV/88-89	20.01.63

2784	Suresh.K.R (K.Rajalingam)	TNSVC/4518/09	Kuttiya Goundan Pudur, Kadukkampalayam PO, Gobi taluk, Erode-638476, Tamil Nadu	BVSc&AH/TANUVAS/09	08.05.86
2785	Sureshkumar.K (S.Kuppusamy)	TNSVC/4503/09	K.T.Palayam PO, Oddanchatram taluk, Dindigul Dist.624616	BVSc&AH/TANUVAS/09	18.06.85
2786	Surjeet Singh Patel S/o B.L. Patel	UPSVC/5012/09	Vill & PO- Bilati Karke (ESICH), Distt.- Jhansi,UP	BVSc&AH/JNKVV/09	25.11.85
2787	Sursawant Rakhi Mohan.	MahaSVC/8298/09	Behind Maida Mill, Vyankatesh Colony, Takiya /ward, bhandara-441904,Maharashtra	BVSc&AH/MA&FSU/09	19.07.86
2788	Suryakanth S/o Shankarappa	KarnSVC/4260/09	No.153, Nawadgeri, Bidar-585401,Karnataka	BVSc&AH/KVAFSU/09	30.3.86
2789	Suryawanshi Apeksha Avinash	MahaSVC/8283/09	Shau Maharaj Nagar, Behind BEd.College, Tal.Malegaon,Dist.Nashik.,Maharashtra	BVSc&AH/MA&FSU/09	15.11.86
2790	Suryawanshi Rahul Diliprao	MahaSVC/8181/09	'Savli'Plot No. 67, Wankhedkar Nagar, Valvadi Shivar, Tal.Dist.Dhule,Maharashtra	BVSc&AH/MA&FSU/09	26.04.86
2791	Susanth V.S., S/o V.C.Sukumaran	KSVC/3593/09	Vattaparambil House, Porathissery, Irinjalakuda (N), (PO), Thrissur-680125, Kerala	BVSc&AH/KAU/09	23.03.87
2792	Sushanta Debbarma S/o Lt Harendra Debbarma	TripuraSVC/186/09	C/o Lt.Harendra Debbarma, Nazir Pukur Para, Nr.Nine Bullets Club, Krishnanagar, Agratala, Tripura (West)	BVSc&AH/AAU/08	14.12.85
2793	Sushma Tigga D/o Late Mahadey Tigga	JVC/614/09	Mah.- Karamtoli, Morhabadi Rd. Ranchi- 834001, Jharkhand	BVSc&AH/BAU/99	11.05.69
2794	Susmita Sethi, D/o Biswanath Sethi	OSVC/2289/09	At:Goiily, Po-Jashpur, Distt-Mayurbhanj, Orissa	BVSc&AH/OUAT/09	06.01.85
2795	Sutaria Mohikumar Babubhai	GVC/3076/09	11, Kirtan tenament, Snehplaza, IOC Road, Chandkeda, A'bad,Gujarat	BVSc&AH/AAU/09	10.10.86
2796	Sutariya Purshottambhai Karmashibhai	GVC/1064	Plot 752/6, "Pramukh Yog" Vijayrajnagar, Adarsh Co-operative Society, Nr. Jewel's Circle, Bhavnagar- 364 003	BVSc&AH/GAU/88	3.12.61
2797	Suthar Rakeshkumar Natavarlal	GVC/1926	34, Sardar Patel Nagar, B/H Science College, Godhara, Dis- Panchmahals- 389 001, Gujarat	BVSc&AH/GAU/96	14.8.73
2798	Suwendu Sekhar Sahoo, S/o Bholanath Sahoo	OSVC/2324/09	At-Pada P.O:Hatura via-Baline, Distt- Dhenkamal, Orissa	BVSc&AH/OUAT/09	18.06.85
2799	Swagat Mohapatra, S/o Laxmi Narayan Mohapatra	OSVC/2297/09	B-1, Kalyani Nagar, Patrapada Bhubaneswar- 751019, Orissa	BVSc&AH/OUAT/09	04.11.85

2800	Swati Singh D/o Virendra Singh	UPSVC/4979/09	12 Civil Lines, Distt Unnao, UP	BVSc&AH/UPPDDUPCVV /09	15.06.84
2801	Swachha Akhauri W/o Avishek Kumar Lala	JVC/632/09	Akhauri, Jail hata Deltonganj, Palamu- 822101, Jharkhand	BVSc&AH/BAU/09	17.02.83
2802	Syed Abuthahir.M.A (M.Abubakkar)	TNSVC/4441/09	Narippaiyur Post, Kannirajapuram via,Ramnad district Pin-623135, Tamil Nadu	BVSc/TANUVAS/94	05.06.71
2803	Syed juberahmad Asarfmiya	GVC/1180	Veterinary Officer, Old Dairah, Nani Bajar, Palanpur, Dis- Banaskantha- 385 001, Gujarat	BVSc&AH/MAU/82	23.3.60
2804	T.B. Singh S/o S.C. Singh	UPSVC/5040/09	Vill.- Samrathpah, PO- Sonwasi, Distt.- Ballia,UP	BVSc&AH/AAU/09	23.11.85
2805	T.Chinna Pullaiah S/o T.Pradada Rao	APSVC/04870/09	Kristipadu (v)(P), Koliakuntla (T), Kurnool Dt, Andhra Pradesh	BVSc&AH/SVVU/09	10.06.83
2806	T.Manjula D/o T.Chandram	APSVC/04921/09	H.No. 6-4-4, Ramnagar, Siddipet, medak Dist- 502103, Andhra Pradesh	BVSc&AH/SVVU/09	24.08.85
2807	T.Prashanth Kumar S/o T.Baswial	APSVC/04879/09	D.No.16-2/29, Sai Niranjan Colony, Doggavanipalem, Pendurti, Vizag-571173, Andhra Pradesh	BVSc&AH/SVVU/09	21.05.87
2808	T.Praveena D/o T.Bakkaiah	APSVC/04989/09	H.No. 2-12-3, Vidyaranyapuri, Bheemaram, Hanamkonda, Warangal-506009, Andhra Pradesh	BVSc&AH/SVVU/09	12.08.82
2809	T.Rama Chandra Reddy S/o T.Kitcha Reddy	APSVC/04907/09	Kottalapalli (V), Vemulakota (P), Markapur (M), Prakasam Dt, Andhra Pradesh	BVSc&AH/SVVU/09	10.06.81
2810	T.Ranjeet Kumar S/o T.Swamy	APSVC/04814/09	8-2-703/4/1, "Ananthvilla", Road No.12, Banjara Hills, Hyderabad-500033,Andhra Pradesh	BVSc&AH/ANGRAU/96	02.02.74
2811	T.Venkata Sai Kumar S/o T.Venkateswara Rao	APSVC/05000/09	18-1-10/6,K.T.Road, Ramachandranagar, Tirupati, Andhra Pradesh.	BVSc&AH/SVVU/09	29.07.84
2812	T.Vijay Bhasker S/o T.Siddi Ramulu	APSVC/04904/09	H.No-24-5-317, Opp:NIT old Hostel gate, Dargah, Kazipet, Warangal-506004, Andhra Pradesh	BVSc&AH/SVVU/09	01.10.85
2813	Talekar Masu Jagannath	MahaSVC/8231/09	Fulasangavi, Tal. Shirur (KA), Dist. Beed- 431122,Maharashtra	BVSc&AH/MA&FSU/09	20.05.83
2814	Talukdar Banjit S/oSri Ramesh Talukdar	ASM/2454/09	Vill-Sathikuchi,PO-Gobaradal,PS-Tihu, Nalbari,Assam	BVSc&AH/AAU/09	1.8.86
2815	Talukdar Papor S/o Sh Rajani Kanta Talukar	ASM/2447/09	GaneshNagar, Basistha Guwahati-29, Assam	BVSc&AH/AAU/09	26.4.84

2816	Talukdar Pori S/o Late Suren Talukar	ASM/2433/09	Kharguli, H.No.18, Guwahati- 781004, Assam	BVSc&AH/AAU/09	18.7.81
2817	Tamizh Kumaran S/o M. Janakiraman	PondiSVC/322/09	No.68,1st Cross, D.R.Nagar,Kumaran Kudli, Kosapalayam,Puducherry-605013	BVSc&AH/PU/08	9.5.87
2818	Tanuja Kumari G.M. D/o Manjegowda	KarnSVC/4345/09	LakshmiKrupa, Nr Post Office,Hemavathinagar,Hassan-573320,Karnataka	BVSc&AH/KVAFSU/09	28.4.86
2819	Tanveer S/o Guranditta	Pb.SVC/2900/09	Dhillon Colony, Bajakhana Road,Kotkapura,Punjab	BVSc&AH/GADVASU/09	5.3.86
2820	Tapsi Mandal d/o Ramesh Chandra Mandel	CHSVC/544/10	N.H.- 08, 79 Kaifash Nagar I E, Bhilai,Chhattisgarh	B.V.Sc.&AH/IGKVV/09	17.09.82
2821	Tarkesa Pavez Gafarbhai	GVC/2292	Veterinary Dispensary, Liliya, Ta- Liliya, Dis- Amreli,Gujarat	BVSc&AH/GAU/00	7.11.75
2822	Taunk Shashikant Shyamjibhai	GVC/490	Plot No: 2/2, Sector- 3A/New, Gandhinagar, Gujarat	BVSc&AH/ GAU/78	24.11.55
2823	Thakar Ajay Praveenchandra	GVC/3077/09	213/2550, Pratiksha Appr.Sola Road, Naranpura, A'Bad,Gujarat	BVSc&AH/AAU/09	24.05.87
2824	Thaker Haresh Chetankumar	GVC/3155/10	Bhailalbhai Complex, Patel Street, Borsad, Dist, Anand,Gujarat	BVSc&AH/AAU/10	12.11.87
2825	Thakkar Bharatkumar Prabhudas	GVC/1547	At & Po- Bavla, Prabhubhavan, Ravjipara Bazar, Bavla, Dis- Ahmedabad- 382 220, Gujarat	BVSc&AH/GAU/92	6.5.69
2826	Thakor Dasharathji Baldevji	GVC/2024	B/48, Hirawadi Society, Gandhinagar Highway, Mansa - 382 845, Dis- Gandhinagar	BVSc&AH/GAU/97	1.6.71
2827	Thakor Dharmenrasinh Bhagwansinh	GVC/1127	Avadh, 1/A, Sneh Sagar So., B/H, Convent School Gandevi Road, Navsari, Ta- Dis- Navsari- 396 436, Gujarat	BVSc&AH/KKV/BU/89	11.4.66
2828	Thakor Dilipsingh Jabaraji	GVC/2018	22, C. K. Estate, Siddhapur Road, Near Nootan Society, Patan,Gujarat	BVSc&AH/GAU/97	1.6.73
2829	Thakor Harshikumar Ratilal	GVC/3156/10	B/23, Gopainagar, At-Vijalpur, Po-Erue, Ta- Jalapore, Dist-Navsari,Gujarat	BVSc&AH/AAU/10	17.06.88
2830	Thakor Pareshkumar Gobarji	GVC/734	392/2, Besides Prerna School, Sector-5/A, Gandhinagar-6, Gujarat	BVSc&AH/GAU/83	1.1.60
2831	Thakor Safimahmad Nabimiya	GVC/1368	Nana Thakor Wada, Opp- Old Masjid, At- Bhalej, Ta & Dis-Anand,Gujarat	BVSc&AH/GAU/84	19.12.61

2832	Thakre Ashok Namdeorao	GVC/1337	Dairy Colony, At & Po Majigam, Ta. Chikhali, Dist. Navsari : 396 409, Gujarat	BVSc&AH/PKV/76	5.2.57
2833	Thakur Pooja Jayendra	MahaSVC/8348/10	Bldg. No.3, Shbhedar Qts., House No.3, Dahiwalkar Buva Marg., Naigaon, Tal. Dadar(E), Dist. Mumbai-14, Maharashtra	BVSc&AH/MA&FSU/09	19.06.86
2834	Thakuria Pallabi S/o Dr. Jibeshwar Thakuria	ASM/2464/09	C/o Dr. Jibeshwar Thakuria, Pub-Sarania, Chandmari, Guwahati -781003, Assam	BVSc&AH/AAU/09	8.3.85
2835	Thakuria Pranjal S/o Sh Aswini Thakuria	ASM/2451/09	Barbari, Hengrabari, H.No.355, Opp- Barbari Siv Mandir, Guwahati -36, Assam	BVSc&AH/AAU/09	12.1.86
2836	Thangjam Cordelia Devi S/o Thangjam Gourachand	ASM/2461/09	C/o T.G. Singh, 5/301 Rani Bagan, Housing Complex, Tarakeshwar Aptt. Beltola Tiniali, Guwahati, Assam	BVSc&AH/AAU/09	18.4.85
2837	Thesia Mahendra Jadavjibhai	GVC/1470	Opp: New Telephone Exc. , Station Plot , At: Dhoraji , Di: Rajkot, Gujarat	BVSc&AH/GAU/91	22.3.69
2838	Thesia Vijaykumar Jivabhai	GVC/1893	11-B, Meghdoot Society, Mangalpara Road, B/H., Ganesh Dugdhalay, Anand-1, Gujarat	BVSc&AH/GAU/95	31.8.72
2839	Thorat Sachin Ganpat	MahaSVC/8356/10	House No. F-21, Mukundwadi Station Road, Tal. Dist. Aurangabad-431001, Maharashtra	BVSc&AH/MA&FSU/09	16.09.82
2840	Thosar Sagar Ramesh Rao	MahaSVC/8251/09	Gurukunj Mozari, Tal. Tiosa, Dist. Amravati- 444902, Maharashtra	BVSc&AH/MA&FSU/09	29.09.85
2841	Thumar Jayantilal Mohanbhai	GVC/2260	At: Balagam, Ta: Keshod, Dis : Junagadh, Gujarat	BVSc&AH/GAU/00	14.12.77
2842	Thumar Ramniklal Nanjibhai	GVC/1649	B-20, Traveni Park Society, Behind Manjalpur Township No.2, Manjalpur, Vadodara, Gujarat	BVSc&AH/GAU/93	1.10.69
2843	Tikam Chand Goyal S/o Mohan Lal Goyal	RajSVC/3713/10	Madho Prasad Tikam Chand Goyal, V/P-Reni, Teh.- Rajgarh, Alwar-301409, Rajasthan	BVSc&AH/SKRAU/10	15.07.83
2844	Tippanna S/o Manikappa	KarnSVC/4273/09	Muradnagar, Hallikhed-585414, Humnabad Tq, Bidar Dt., Karnataka	BVSc&AH/KVAFSU/09	1.1.84
2845	Tiwari Mamta W/o Mr. Bidyut Ranjan Gohain	ASM/2480/10	H.NO.1, By Lane-6, Rukmini Gaon, Guwahati- 22, Assam	BVSc&AH/AAU/89	3.3.64
2846	Tobudhok Wanshnong S/o Shri C.F. Rewarnd	MeghSVC/273/09	C/o Mr. C.F. Rewarnd, Mawlai Nongkwar, Block- 8, Shillong, Meghalaya	BVSc&AH/AAU/09	11.1.82
2847	Trailokyanath Naik, S/o Narendra Naik	OSVC/2327/10	AT: Santhapura, PO: Kusiapa, Via. Jhakurpatna, Distt.-Kendraparar, Orissa	BVSc&AH/QUAT/71	05.04.47

2848	Trangadia Bhaveshkumar Jayantilal	GVC/2179	At. Navagam, Via- Shahpur Tal. Vanthli, Dist. Junagadh Pin- 362 205,Gujarat	BVSc&AH/GAU/99	13.3.77
2849	Trangadia Bhaveshkumar Jayantilal	GVC/2179/09	At-Navagam, Via-Shahpur Tal.Vanthli, Dist- Junagadh-362205,Gujarat	BVSc&AH/GAU/99	13.03.77
2850	Transadiya Kishorbhai Popatlal	GVC/1500	"Dhara" Durwani Society, Nr. Monapark, Vastrapur Rly. Road, Ahmedabad,Gujarat	BVSc&AH/GAU/92	7.5.68
2851	Trivedi Ajitkumar Jyotishchandra	GVC/1166	H-163, Akanksha Duplex, Laxmipura Road, Vadodara-23,Gujarat	BVSc&AH/GAU/89	6.1.66
2852	Trivedi Bhasmang Kanakray	GVC/2209	"Om Animish", Dharamnagar Society, Sheri No-4, 150 Fit Raiya Ring Road, Rajkot , Gujarat	BVSc&AH/GAU/69	23.3.48
2853	Trivedi Chandravadan Shantilal	GVC/752	35, Krishna Corner, Anandwadi, Isanpur, Ahmedabad- 382443, Gujarat	BVSc&AH/GAU/73	7.5.50
2854	Trivedi Kamlesh Gunvantlal	GVC/799	Block No- 18/4, Ch- Type, Sector- 30, Gandhinagar, Gujarat	BVSc&AH/GAU/84	24.11.61
2855	Trivedi Prakashkumar Revashankar	GVC/1632	At: Semarana Muvada, Po: Nanavadadola, Ta: Lunawada, Di: Panchmahal - 389 23, Gujarat	BVSc&AH/GAU/93	15.6.71
2856	Trivedi Rajesh Pursottamdas	GVC/1273	Near Pagathia, Khara Kuvano Khancho, At.Po: Dehagam, Gandhinagar,Gujarat	BVSc&AH/GAU/90	1.8.68
2857	Truptimayee pati, D/o Sri Chakradhar Pati	OSVC/2312/09	Sriram Nagar 4th Lane, Parabeda, Heypore, Koraput-764001, Orissa	BVSc&AH/OUAT/09	13.07.84
2858	Tushant Kumar Ramteke S/o Ramu Lal Ramteke	CHSVC/498/10	Kasaridih, Subash Nagar, Durg,Chhattisgarh	B.V.Sc.&AH/IGKVV/09	22.09.82
2859	U.Kranthi Kumar S/o U.Anjaiah	APSVC/04824/09	Voletivaripalem (P) (M), Prakasam Dt., Andhra Pradesh	BVSc&AH/SVVU/09	21.03.80
2860	U.Prashanth S/o U.Shankar Reddy	APSVC/04997/09	Laxmajipally (V), Jammikunta (M) Karimnagar Dist-505122, Andhra Pradesh	BVSc&AH/SVVU/09	02.06.86
2861	U.Sri Hari S/o U.Venkaiah	APSVC/04903/09	H.No.5-2-228/5, Mustafa Nagar, Khammam, Andhra Pradesh	BVSc&AH/SVVU/09	17.06.85
2862	U.Vijay Bhaskar S/o U.Malakondaiah	APSVC/04832/09	Peddalatarapi (V), Chinnalatarapi (P), Peddapavani (Via),Gudluru (M), Prakasam Dt. Andhra Pradesh	BVSc&AH/SVVU/09	09.06.84
2863	Uday Kumar Rajput S/o Ram Gopal Rajput	UPSVC/5011/09	Vill&PO- Kushmiliya, Teh Orai, Distt- Jalaun,UP	BVSc&AH/JNKVV/09	24.12.85

2864	Uday Kumar S/o Sri Yugal Kishore Prasad	JVC/602/09	TVO, Jarmundi, Dumka, Jharkhand	BVSc&AH/RAU/97	07.05.73
2865	Uday Seetha S/o O.S.Ramacha Chandraiah	APSVC/04821/09	4/31, Temple Street, Mydhukur, kadapa Dt-516172, Andhra Pradesh	BVSc&AH/PU/09	27.07.86
2866	Udhareja Jayesh Prabhulal	GVC/1642	Kailash Society, Plot No-2, Opp. New Bus Stand, Sanala Road, Morbi - 363 641 Dis-Rajkot, Gujarat	BVSc&AH/GAU/93	30.9.71
2867	Udhayavel.S (K.K.Shanmugasundaram)	TNSVC/4526/09	Kongupatti PO, Pannapatti S.O. Salem Dist.-636305, Tamil Nadu	BVSc&AH/TANUVAS/09	30.10.86
2868	Udhreja Ratilal Govindbhai	GVC/1343	13, Amit Jivan Society, Rajwada Road, Jivaraj Park, Ahmedabad, Gujarat	BVSc&AH/GAU/95	12.6.51
2869	Ugander Singh S/o Sh Virendra Singh	HarsVC/2140	# 1716 W.No.1 Chakhi Dadri Distt Bhiwani, Haryana	BVSc&AH/Swami Keshwanand,RAU/10	4.9.86
2870	Ughad Navneet Muljibhai	GVC/2210	At & Po : Bordi Samdhiyala, Ta: Jetpur, Dis-Rajkot-360 370, Gujarat	BVSc&AH/GAU/99	22.2.78
2871	Ukani Vrajlal Jivabhai	GVC/389	At & Po: Chikhaliya, Ta: Upleta, Dis- Rajkot, Gujarat	BVSc&AH/GAU/75	24.3.51
2872	Umakant Jaiswal S/o Gananan Jaiswal	UPSVC/4986/09	Vill & PO Dultganj, Distt Balrampur, UP	BVSc&AH/UPPDDUPCVV /09	02.02.82
2873	Umap Swati Ashokrao	MahaSVC/8185/09	Duhitokunj, Teachers Colony, Tiwsa, Tal, Tiwsa, Dist. Amravati-444903, Maharashtra	BVSc&AH/MA&FSU/09	20.11.85
2874	Umesh Kumar Gupta S/o Sri Jitendra Nath	JVC/601/09	Sri Durga Palace Apartment 2C, Modi Compound Morhabadi Bariatu, Ranchi-834008, Jharkhand	BVSc&AH/RAU/82	11.11.59
2875	Umesh Kumar Maurya S/o Sh. Jai Prakash Maurya	UKSVC/454/09	294 Prem Pur Mafi, Kaulagarh, Distt., Dehradun, Uttarakhand	BVSc&AH/GBPUA&T/09	20.07.82
2876	Umesh Kumar Pajari, S/o Papa Pajari	OSVC/2293/09	At:Khala Street, PO:Jeypore, Distt-Korapha-764001, Orissa	BVSc&AH/OUAT/09	27.08.86
2877	Umesh Rajput S/o H.C. Rajput	UPSVC/5038/09	Vill.- Gugoura, PO- Kiwhouva, Distt.- Mahoba, UP	BVSc&AH/JNKVV/09	15.03.81
2878	Umretia Ramji Nathalal	GVC/1779	At : Chhodavadi, Ta : Bhesan, Dist. Junagadh 362 030, Gujarat	BVSc&AH/GAU/94	28.5.70
2879	Unadkat Bhaveshkumar Prabhudas	GVC/1741	D-230, Ambika Complex, Nr. Bus Stand, Kheda- 387 411, Gujarat	BVSc&AH/GAU/94	5.5.72

2880	Undhad Vishal Virijibhai	GVC/3157/10	To-Khorana, Ta-Rajkot, Dist-Rajkot,Gujarat	BVSc&AH/AAU/10	10.07.88
2881	Upadhyay Rajnikant Devshanker	GVC/791	8 , Shiv Bungalow, Nr. Gor's Well, Near Sahjanand school, Jasodanagar Rd., Maninagar (East), Ahmedabad.	BVSc&AH/GAU/84	24.3.62
2882	Upadhyay Maulik Rajubhai	GVC/3126/10	Old Bajar, Kansara Street, At-Kodinar, Dist-Junagadh,Gujarat	BVSc&AH/AAU/10	23.09.88
2883	Upadhyay Suketukumar Babulal	GVC/1615	19, Super-A, Tirupati Bunglow, Abu Highway, Palanpur - 385 001 Dis- Banaskantha	BVSc&AH/GAU/93	13.7.71
2884	Upadhyaya Dixitkumar Lalshanker	GVC/876	14- Akshardham Flat, Arban Bank Road, Mehsana, Gujarat	BVSc&AH/GAU/85	10.2.63
2885	Upendra Kumar S/o Ram Kewal	UPSVC/4947/09	VIII&PO- Umarpur Dostpur, Distt.- Ambedkar Nagar,UP	BVSc&AH/NDUA&T/09	16.01.80
2886	Urvashi Verma D/o Girdhar Verma	CHSVC/504/10	Civil Line, Rajmahal Colony, Kabirdham,Chhattisgarh	B.V.Sc.&AH/IGKV/09	27.06.86
2887	Usmani AbrarAhmed Abdulahemed	GVC/907	1136/7, Sihodwad, Near New water Tank, Navsari , Gujarat	BVSc&AH/GAU/87	7.4.64
2888	V. Sree Hari S/o V.Ramanaiah	APSVC/04852/09	D.No.6-164/A, Dhanalakshmi nagar, Avilala, R.C. Road, Tirupati-517501, Andhra Pradesh	BVSc&AH/SVVU/09	08.06.85
2889	V. Sreenivas S/o V.Koteswara Rao	APSVC/04950/09	Karimaramapudi (P), Savalyapuram (M), Guntur Dist., Andhra Pradesh	BVSc&AH/SVVU/09	02.04.85
2890	V.Gnani Chatitha D/o V.Pundarikachari	APSVC/04886/09	17-465 D-4-11, Vivekananda Nagar, Madanapalli Chittor Dt., Andhra Pradesh	BVSc&AH/SVVU/09	02.03.85
2891	V.Himani Reddy D/o V.Tripalu Reddy	APSVC/04918/09	D.No.5-3-40, West Street, Nayudupeta, SriPottiSreeramulu Nellore Dist., Andhra Pradesh	BVSc&AH/SVVU/09	08.07.84
2892	V.K. Gupta S/o R.P. Gupta	UPSVC/5065/10	VIII&PO- Salemgarh Bazar, Distt.- Kushinagar,UP	BVSc&AH/KU/09	06.12.76
2893	V.K. Tiwari S/o Sajan Kr. Tiwari	UPSVC/5017/09	VIII.- Sonai, PO- Aunta Meja, Distt.- Allahabad,UP	BVSc&AH/MAFSU/09	25.03.84
2894	V.S.Kiran Kumar Putti S/o V.S.R.K.Ganesh Putti	APSVC/04817/09	17/109, Mandapadu, Gudiwada, Krishna Dt- 521301,Andhra Pradesh	BVSc&AH/ANGRAU/05	14.01.82
2895	V.Somasekhar S/o V.Mallalah	APSVC/04838/09	Jagadavepet (P) (V), Velgatoor (M),Karimnagar Dt, Andhra Pradesh	BVSc&AH/SVVU/09	20.06.84

2896	Vachhani Jigneshkumar Vinaychandra	GVC/2291	At - Bhola, Ta- Dhoraji, Dis- Rajkot- 360 040, Gujarat	BVSc&AH/GAU/00	26.11.76
2897	Vachhani Rohitkumar Vallabhdas	GVC/1837	Veterinary Dispensary, Savali, Ta- Savali, Dis- Vadodara, Gujarat	BVSc&AH/GAU/95	23.9.71
2898	Vadalia Jaysukh Dhirubhai	GVC/3094/09	To-Kamalpur, Ta-jasdan, Dist-rajkot, Gujarat	BVSc&AH/AAU/09	30.01.87
2899	Vadher Anilkumar Amrutlal	GVC/1785	At : Radhu, Ta: Matar, Dis : Kheda, Gujarat	BVSc&AH/GAU/95	4.4.70
2900	Vadher Bhupat Mavji	GVC/2026	78- Neminathnagar, Model Town Road, Dumbhal, Parvat Patiya, Surat, Gujarat	BVSc&AH/GAU/97	3.5.69
2901	Vadher Gobarbhai Naranbhai	GVC/1076	At- Kantala, Girdevali, Ta - Kodinar, Dist - Junagadh, Gujarat	BVSc&AH/GAU/88	1.6.64
2902	Vadher Vashrambhai Ramabhai	GVC/427	B-53, Radhakrishna Nagar Society, Nr. Moti Baug, Junagadh- 362 001, Gujarat	BVSc&AH/GAU/76	15.8.50
2903	Vadnagara Navneet Jethabhai	GVC/1552	At & Po: Bagthala, Ta: Morbi, Dis- Rajkot, Gujarat	BVSc&AH/GAU/92	8.9.70
2904	Vagadiya Rasiklal Fullabhai	GVC/1717	At & Po- Palasva, Via: Timbawadi, Ta & Dis : Junagadh, Gujarat	BVSc&AH/GAU/94	22.6.70
2905	Vaghasia Babulal Jerambhai	GVC/1177	Veterinary Dispensary, Chalala, Ta- Dhari Dis- Amreli, Gujarat	BVSc&AH/GAU/89	15.6.65
2906	Vaghasia Chhaganlal Virajibhai	GVC/390	30-Shridhar Nagar, B/h- Lal Bag, Shashi Kunj Road, Junagadh-362 001, Gujarat	BVSc&AH/GAU/75	25.2.52
2907	Vaghasia Prakashkumar Vrajlal	GVC/1881	66, Shreenanthnagar, Street No-2, Junagadh- 362 002, Gujarat	BVSc&AH/GAU/95	15.10.74
2908	Vaghasia Savjibhai Nathubhai	GVC/1059	"SHIV KUNJ", 1- Shaktinagar, Shanteshwar Road, Joshipura, Junagadh-362 002, Gujarat	BVSc&AH/GAU/88	31.5.64
2909	Vahora Gulammahmed Ibrahim	GVC/491	12/26/58, Sarvariva Masjid Road, Bagdag Nager - Anand, Dist - Anand., Gujarat	BVSc&AH/GAU/78	29.12.54
2910	Vaishnav Kalpeshkumar Shankarlal	GVC/2180	Veterinary Dispensary, Babara, Ta- Babara, Dis- Amreli, Gujarat	BVSc&AH/GAU/99	5.10.77
2911	Vaja Ghanshyam Naranji	GVC/426	10-A, Panchshil Society, Sanskarnagar, Bhuj (Kachchh)-370 001, Gujarat	BVSc&AH/GAU/76	2.4.52

2912	Valagonth Manjibhai Ramjibhai	GVC/2101	At : Parkhadi, Po- Chhaniyana, Ta- Vadgam Dis- Banakantha- 385 410,Gujarat	BVSc&AH/GAU/98	1.6.71
2913	Valarmathi.M (K.Murugesan)	TNSVC/4640/09	M6,14/19, S.V.P.N.S Colony, Allampatti, old Aruppukottai Road, Virudhunagar-626001, Tamil Nadu	BVSc&AH/TANUVAS/09	03.07.86
2914	Vanathi.K (R.V.Krishnamoorthy)	TNSVC/4522/09	11, Mariamman Kovil Street, Thiruppathiripuliyur, Cuddalore-2, Tamil Nadu	BVSc&AH/TANUVAS/09	21.12.85
2915	Vandana D/o Sh. Bansh Gopal Yadav	UKSVC/494/09	B-61, Beni Colony Dairy Farm Nagla, U.S.Nagar, Uttarakhand	BVSc&AH/GBPUA&T/09	01.09.85
2916	Vaniya Jagdish Samatbhai	GVC/3164/10	At-Dungar, Ta-Rajula, Dist-Amreli, Gujarat	BVSc&AH/AAU/10	15.02.82
2917	Vankar Bipinchandra Gordhanbhai	GVC/3078/09	Vankar Vas, "Krishna Choke" Bandani, Ta petlad, Dist Nadiyad,Gujarat	BVSc&AH/AAU/09	07.04.84
2918	Vankar Manubhai Nathabhai	GVC/1919	At - Medh, Ta - Vadali, Dist - Sabarkantha,Gujarat	BVSc&AH/GAU/96	1.6.69
2919	Vanparia Kamleshkumar Hirjibhai	GVC/965	"Sahaj" Bhakumbhaijipura-19, Near New Telephone Exchange, VICI Rd, Dhoraji - 360140 Dt-Rajkot, Gujarat	BVSc&AH/GAU/86	5.9.62
2920	Varadharajan.T (S.Thangavelu)	TNSVC/4453/09	7, Parvathi Nagar, Tiruvannamalai Pin- 606603, Tamil Nadu	BVSc/TANUVAS/93	31.05.69
2921	Varghese Samuel Mathai, S/o Samuel Mathai	KSVC/3541/09	JO.Vetticode P.O., Kayamkulam, Alappuzha- 690503, Kerala	BVSc&AH/KAU/09	01.06.85
2922	Varsani Karsan Harji	GVC/351	Flat - 16/A, Punawadi, Opp. GEB Office, Navavas, Madhapar, Ta - Bhuj, Dist - Kachchh PIN- 370020, Gujarat	BVSc&AH/GBPUAT/74	6.3.48
2923	Varsha SinghD/o Inder Vijay Singh	CHSVC/465/09	Singh Niwas, Sector 01, Point No-9, Risali, District Durg,Chhattisgarh	BVSc&AH/IGKVV/07-08	25.01.83
2924	Varun Joy, S/o E.I.Joy	KSVC/3521/09	Edattukaran House, Mala P.O Thrissur- 680732, Kerala	BVSc&AH/KAU/09	09.08.85
2925	Varun Kumar S/o V.N. Sonkar	UPSVC/5044/09	Vill. & PO- Ambari, Distt.- Azamgarh,UP	BVSc&AH/NDUA&T/09	05.03.82
2926	Varun Rana, S/o J.P. Rana	HVC-860/09	Green Velley Colony Lohna, Teh., Palampur, Distt. Kangra, HP	BVSc&AH/CSKHVKV/09	02.05.85
2927	Varunkumar.S (M.Subramaniam)	TNSVC/4651/09	14/153-A, Velavan Nagar 2nd Street, Madalayam Road, Sivanandapuram, Coimbatore-641006, Tamil Nadu	BVSc&AH/TANUVAS/09	07.10.85

2928	Varvdiya Harshadkumar Becharbhai	GVC/3037/09	At&Po Changwada, Ta-Vadgam, Dist-B.K,- 385520, Gujarat	BVSc&AH/SDAU/09	27.04.85
2929	Vasanth.S (A.Subramani)	TNSVC/4592/09	56/61, Thirunagar, Hasthampatti, Salem- 636007, Tamil Nadu	BVSc&AH/TANUVAS/09	27.11.84
2930	Vasanthakumar.D (K.Doraiswamy)	TNSVC/4456/09	62, Simpson Nagar, Edayarpalayam, Coimbatore-641025, Tamil nadu	BVSc/TNAU/85	26.05.58
2931	Vasava Ravindrakumar Lalajibhai	GVC/2006	At: Galiba, Po: Valpar, Ta: Jaghadia, Bharuch, Gujarat	BVSc&AH/GAU/99	1.6.73
2932	Vazilabanu.M (C.S.Mahaboobkhan)	TNSVC/4625/09	19, Kamatchi Amman Koi Street, Near Mosque, Chennimalai-638051, Tamil Nadu	BVSc&AH/TANUVAS/09	21.07.85
2933	Veeramani.D.S (D.Selvanathan)	TNSVC/4428/09	Door No. 23, 6-A,Cross Street, Thendral Nagar, M.C.Road, Thanjavur-613007,Tamil Nadu	BVSc/TANUVAS/93	24.05.70
2934	Veerapandian.S (S.Sivasamy)	TNSVC/4502/09	Plot No. 5 MIG TNSCB Colony, Sarah tucker college Road , B.Colony extension,Perumalpuram, Tirunelveli-627007, TN	BVSc&AH/TANUVAS09	04.05.86
2935	Velu Mariappan. T (P.Thandaiappan)	TNSVC/4416/09	Bharathi Nagar (Kalloor), ThiruvadanaI Post, Ramanathapuram District Pin-623407, Tamil Nadu	BVSc/TANUVAS/98	30.05.73
2936	Ven Vibhabhai Karmashibhai	GVC/1962	To: Malsan, Post: Vavadi, Ta : Wav, Dis- Banaskantha,Gujarat	BVSc&AH/GAU/96	1.6.69
2937	Venkatachalam.S (V.Subramanian)	TNSVC/4681/10	22, Kottai Kinaru Street, Melur PO, Madurai- 625106, Tamil Nadu	BVSc/TNAU/77	28.04.53
2938	Venkidusamy.P (R.Palanisamy)	TNSVC/4597/09	5/69, Molapalayam, Kurumandur PO, Gobi taluk, Erode District-638457, Tamil Nadu	BVSc&AH/TANUVAS/09	06.05.85
2939	Verma Shyam Nayaram	GVC/585	C/O, Veterinary Section, Sabar Dairy, At & Po- Boria, Ta-Himmatnagar, Dis- Sabarkantha PIN- 383001	BVSc&AH/GBPUAT/80	15.12.56
2940	Vibhakar Kishorchandra Vrajlal	GVC/525	A-402, Shri Ajit Apartment, 2- Ramkrushnnagar (West), B/H. Virani High School, Rajkot-2, Gujarat	BVSc&AH/GAU/79	1.1.56
2941	Vidyanand Sharma S/o R.B. Sharma	UPSVC/5069/10	44/4, Jagriti Vihar, Sec-4, Distt.- Meerut,UP	BVSc&AH/GBPUA&T/82	01.01.58
2942	Vignesh Vasudevan S/o Vasudevan V	KarnSVC/4351/09	EZ-703,White House,6 th Main,15th cross, R.T. Nagar,Bengaluru-560032,Karnataka	BVSc&AH/KVAFSU/09	18.7.84
2943	Vihol Dilipsinh Parkhanji	GVC/1231	At & Po- Pilvai, Ta- Vijapur, Dis- Mehsana,Gujarat	BVSc&AH/GAU/89	28.1.66

2944	Vijay Kapoor, S/o Kumer Chand	HVC-862/09	Vill. Bharmat, P.O. Banuri Teh. Palampur, Distt. Kangra. HP	BVSc&AH/CSKHPKV/09	02.01.84
2945	Vijay Kumar Meena S/o Rameshwar Meena	RajSVC/3637/09	V/P-Teerath, Teh.-Bundi, Bundi-323602, Rajasthan	BVSc&AH/RAU/09	03.08.83
2946	Vijay Kumar S/o Atma Ram	RajSVC/3635/09	Chack 4 PHM, VPO-61 Head, The.-Khajuwala, Bikaner-334023, Rajasthan	BVSc&AH/RAU/09	03.06.79
2947	Vijay Malla S/o R.B. Malla	UPSVC/4992/09	C-4/7 Umesh park, Modinagar Ghaziabad,UP	BVSc&AH/CCSHAU/09	11.12.83
2948	Vijayakumar Halakatti S/o Mallikarjun	KarnSVC/4272/09	6th Cross, Rajeshwari Nagar, Ranebennur- 581115, Haveri Dt.,Karnataka	BVSc&AH/KVAFSU/09	5.7.86
2949	Vijayalakshmi T.C. D/o Chandru T.L.	KarnSVC/4327/09	No.14, Anchekempegowdaner doddi, Ramanagara Tq & Dt.-571511,Karnataka	BVSc&AH/KVAFSU/09	12.1.87
2950	Vijayaraj.P (M.Palanisamy)	TNSVC/4635/09	81/64, South Street, Neivanam, Sendurai PO. Ariyalur District, Tamil Nadu	BVSc&AH/TANUVAS/09	10.05.86
2951	Viji Wilson. D/o M.C.Wilson	KSVC/3584/09	Mangan House, Porkulam (PO)., Thiruthikkada, Thirssur-680542, Kerala	BVSc&AH/KAU/09	21.05.86
2952	Vikas Kumar S/o Sompal Singh	UPSVC/4950/09	VIII Lalpur Chauhan PO Sultanpur, Distt Moradabad, UP	BVSc&AH/UPPDDUPCVV /09	05.07.85
2953	Vikas S/o S.S. Srivastava	UPSVC/4971/09	Haridwar Puram, Rapti Nagar, Gorakhpur,UP	BVSc&AH/GBPUA&T/09	23.07.83
2954	Vikas Yadav S/o Anar Singh Yadav	UPSVC/4917/09	2/96 AVAS Vikas Colony Mainpuri, UP	BVSc&AH/UPPDDUPCVV /09	20.07.83
2955	Vikash Chandra S/o Ghasiram	UPSVC/4953/09	VIII&Po Attrajpur Saifal, Distt Etawah, UP	BVSc&AH/UPPDDUPCVV /09	03.02.84
2956	Vikash Kumar S/o Ram Narayan	UPSVC/4939/09	VIII. & PO- Sajett, Distt.- Kanpur Nagar,UP	BVSc&AH/NDUA&T/09	10.04.82
2957	Vikash Singh S/o R.P. Singh	UPSVC/4997/09	VIII & PO- Kundwli, PO- Larr Road, Distt.- Deoria,UP	BVSc&AH/NDUA&T/09	01.01.85
2958	Vikash Singh S/o Sh Ashok Kr Singh	MPSVC/2645/09	VIII-Dalneha,Post &Dt-Sidhi, M.P-486661	BVSc&AH/KVA&FSU/09	23.4.83
2959	Vikram Phogat S/o Sh Kamal Phogat	HarSVC/2132	# 1248/21, Prem Nagar, Hafed Chowk,Rohtak, Haryana	BVSc&AH/JNKVV/09	7.7.77

2960	Vikram S/o Paras Nath	UPSVC/4910/09	5/18/212 Basiya Bachara Sultanpur, Distt Faizabad, UP	BVSc&AH/UPPDDUPCVV /09	20.09.82
2961	Vikram Singh S/o Ramesh Chander	Pb.SVC/2861/09	Mohalla Dibipura H.No. BIV327,Kotkapura, Distt.Faridkot,Punjab	BVSc&AH/UPPDDUPCVV EGOA/09	26.6.86
2962	Vimal Antony Muttathettu, s/o Antony Joseph	KSVC/3550/09	Muttathettu House, Chanjody, Manthanam, P.O Kunnamthanam, Pathanamthitta-689581, Kerala	BVSc&AH/KAU/09	14.02.85
2963	Vimal Kumar S/o Sri Ganga Ram Mahto	JVC/598/09	Chichahara, Post-Matihani Saraiyahaat, Dumka, Jharkhand	BVSc&AH/JNKVV/09	03.05.81
2964	Vinay Kumar Arora S/o Vinod Kumar Arora	Pb.SVC/2907/09	H.No.297, Street No.5, Ramganj Road,Moga,Punjab	BVSc&AH/GADVASU/09	12.11.86
2965	Vinay Kumar Babele S/o Sh Jagdish Prasad	MPSVC/2621/09	20/106,Guru Nank Ward,Katni, M.P-483501	BVSc&AH/JNKVV/09	8.07.81
2966	Vinay Kumar, S/o Uttam Chand	HVC-863/09	Vill. Majehra, P.O Kachhera. Teh. Jaisinghpur, distt. Kangra., HP	BVSc&AH/CSKHPKV/09	29.07.83
2967	Vinay Punia S/o Sh Sada Ram	HarSVC/2133	# 616/3 Adrash Nagr, Gohana Distt,Sonepat, Haryana	BVSc&AH/RAU/09	1.5.87
2968	Viney Kumar S/o Sh Zile Singh	HarSVC/2130	#1148/31 Kamala Nagar,Rohtak, Haryana	BVSc&AH/CCSHAU/09	12.5.83
2969	Vinitha.A (E.T. Alrulmozhi)	TNSVC/4521/09	13/3, Welcome Apartments, Anna Nagar West Extension, Chennai-600101, Tamil Nadu	BVSc&AH/TANUVAS/09	05.12.85
2970	Vinod Kiransinh Andubhai	GVC/3158/10	At-Po Khavad, Ta-Kadi, Dist. Mehsana,Gujarat	BVSc&AH/AAU/10	20.06.86
2971	Vinod Kumar Chinta S/o Ch. V.V.Satya Narayana	APSVC/04959/09	Behind Andhra Bank, Kapati Street, Bandar. Lanka, Amalapuram (M)-533221, East Godavari Dist., Andhra Pradesh	BVSc&AH/SVVU/09	13.06.86
2972	Vinod Kumar Divatar S/o Balappa Divatar	KarnSVC/4264/09	Hiremyagiri-583236, Yelburga Tq, Koppal Dt.,Karnataka	BVSc&AH/KVAFSU/09	26.1.87
2973	Vinod Kumar K.V. S/o Venkatesh Reddy K.C.	KarnSVC/4332/09	Kothanur Village & Post-562105, Sidlaghatta,Chickballapura Dt.,Karnataka	BVSc&AH/KVAFSU/09	24.4.86
2974	Vinod Kumar S/o Atma Ram	Pb.SVC/1162/10	16, Decent Enclave,Barewal Road, Ludhiana,Punjab	BVSc& AH/GBPUA&T/79	7.4.55
2975	Vinothkumar.M (L.Manoharan)	TNSVC/4662/09	11/23, Gejaraj Mudali Street, Sainathapuram,Vellore-632001, Tamil Nadu	BVSc&AH/TANUVAS/09	27.09.86

2976	Vinu.M Nampoothiri, S/o M.Madhavan Namboothiri	KSVC/3552/09	Chandramana, Palace, Road, Kollampuzha, Attingal, Thiruvananthapuram-695101, Kerala	BVSc&AH/KAU/09	10.11.85
2977	Vipin Kumar S/o Sh. Chandan Singh Aswal	UKSVC/455/09	M.B.N.K.Kuteti Devi, Distt. Uttarkashi, Uttarakhand	BVSc&AH/GBPUA&T/09	02.02.87
2978	Vir Singh Rajput S/o D.P. Singh Rajput	UPSVC/4988/09	VIII. & PO- Itealiya (Baya) Sarila, Hamirpur,UP	BVSc&AH/NDUA&T/09	07.05.82
2979	Viram Varshneya S/o V.K. Varshneya	UPSVC/4959/09	Ravi Kunj Bhathe Valli Gali Hathras, UP	BVSc&AH/UPPDDUPCVV /09	31.05.81
2980	Viramgama Bipinkumar Premjibhai	GVC/1712	Ambapat Street, Near UCO Bank, At & Po- Supedi, Ta-Dhoraji, Dist:-Rajkot PIN:-360440, Gujarat	BVSc&AH/GAU/93	16.6.70
2981	Virani Vallabhbai Padamshibhai	GVC/766	11, Sarita Bunglows, Govind Park, B/H- Jawaharnagar, Pallyad Road, At & Ta- Botad, Dis- Bhavnagar, Gujarat	BVSc&AH/GBPUAT/72	13.9.52
2982	Virendra Kumar S/o Bhanwar Lal Dhaka	RajSVC/3715/10	V/P-Netarwas, VIA-Dhod, Sikar-332022, Rajasthan	BVSc&AH/SKRAU/10	04.05.84
2983	Virendra Kumar S/o Sh. Shyam Singh	UKSVC/484/09	Prem Nagar, Gali No:1 Near B.T.C.Hostal, Roorkee, Distt. Haridwar, Uttarakhand	BVSc&AH/UPAU/68	15.09.46
2984	Virendra Kumar S/o Vidyadhar	RajSVC/3722/10	Vill.-Padewa, Teh.-Khetri Jhunjhunu-332716, Rajasthan	BVSc&AH/SKRAU/10	02.03.86
2985	Virendra Pal Singh	GVC/656	10, Maltry Society, Nana Kumbhnath Road, Nr. Ankur Society, Nadlad - 387001, Gujarat	BVSc&AH/GBPUAT/66	16.2.43
2986	Virendra Sharma, S/o Rajendra Prasad	HVC-864/09	VIII. Khasri, P.O. Nalti, Teh. Ghumarwin, Distt Bilaspur, HP	BVSc&AH/CSKHVKV/09	10.09.82
2987	Virendra Singh S/o Babu Ram Arya	UPSVC/4928/09	B.M.M. 5 Indra Puram, Shamsabad Road, Agra-1,UP	BVSc&AH/NDUA&T/09	18.12.82
2988	Virendra Singh S/o Shishram Gurjar	RajSVC/3644/09	V/P Reandayal Gurjar, Bayasharimahavirji, Sawaimadhpor-322220, Rajasthan	BVSc&AH/KVAFSU/09	25.05.80
2989	Virinder Singh S/o C.P. Singh	UPSVC/5001/09	VIII.- Nandpur Bitra, PO- Shadpur gangu, Distt.- Muradabad,UP	BVSc&AH/GBPQA&T/09	05.06.84
2990	Virugama Jayantilal Narayanbhai	GVC/2036	At - Dholi, Ta - Dhangadhara, Dist - Surendranagar,Gujarat	BVSc&AH/GAU/96	17.6.72
2991	Vishavdeep Pahwa S/o Ramesh Kumar Pahwa	Pb.SVC/2908/09	Adarsh Nagar, Street-3,House 1055, Fazilka,Punjab	BVSc&AH/GADVASU/09	6.11.83

2992	Vishnu Kumar S/o Ram Kishan	RajSVC/3694/09	Behind Char Bhuj Temple, Malpura, Tonk-304502, Rajasthan	BVSc&AH/RAU/09	24.10.85
2993	Vishwanath S/o Siddayya	KarnSVC/4271/09	Kadwad-585226, Bidar Tq & Dt., Karnataka	BVSc&AH/KVAFSU/09	15.7.86
2994	Vishwanatha B S/o Basavalingappa	KarnSVC/4330/09	Banninagara, Sira-572137, Tumkur Dt., Karnataka	BVSc&AH/KVAFSU/09	25.3.87
2995	Vishwendar.S (A.Sambanthan)	TNSVC/4517/09	74-A, Roja Street, Poonga Nagar, Trivellore-602001, Tamil Nadu	BVSc&AH/TANUVAS/09	26.05.86
2996	Vittal Subhas Koujalagi S/o Subhas B Koujalagi	KarnSVC/4280/09	Koujalagi Post 591227, Gokak Tq, Belgaum Dt., Karnataka	BVSc&AH/KVAFSU/09	30.8.86
2997	Vivek Kumar S/o R.K. Verma	UPSVc/4927/09	Vill. & PO UGO, Distt.- Unnao, UP	BVSc&AH/NDUA&T/09	16.02.82
2998	Vivek Kumar, S/o Rajvie Maheswari	UPSVc/5021/09	Vill & PO Nmamaini, Distt. Etah, UP	BVSc&AH/UPPDDUPCVV /09	13.07.80
2999	Vivek Pal S/o V.B. Pal	UPSVc/4905/09	174 Gandhi Nagar, Distt.- Etawah, UP	BVSc&AH/GBPUA&T/09	23.10.81
3000	Vivek Unnikrishnan, S/o A.K. Unnikrishnan	KSVC/3557/09	Plot No. 205, Hill Gardens, Kuttanelloor, Thrissur-680014, Kerala	BVSc&AH/KAU/09	26.04.85
3001	Vivekanandhan.M (K.Mathaiyan)	TNSVC/4594/09	11-1-3A2, Kesavan Nagar, Kannankurichi PO, Salem-636008, Tamil Nadu	BVSc&AH/TANUVAS/09	04.10.85
3002	Vora Ghanshyambhai Kishorbhai	GVC/1406	20/1, Ranchhodnagar Soc., Opp. Jain Derasar, Rajkot, Gujarat	BVSc&AH/GAU/91	14.10.68
3003	Vora Lalitkumar Ratilal	GVC/802	13, Shiddhi Vinayak soc., R C Technical Road, Ghatalodia, Ahmedabad-61, Gujarat	BVSc&AH/GAU/84	1.4.60
3004	Vyas Hargovind Fulshankar	GVC/69	18, Lalbahadur Society, Nr. S.T. Bus Stand, Junagadh-362001, Gujarat	BVSc&AH/Bombay Uni/62	27.4.29
3005	Vyas Hargovind Fulshankar	GVC/69/09	18, Lalbahadur Society, Nr. ST. Bus Stand, Junagadh-362001, Gujarat	BVSc&AH/BU/62	27.04.29
3006	Vyas Navalray Dhaneshwar	GVC/62	Arshiwad, 2/5, Shramjeevi Society, Dhebar Road, Rajkot-2, Gujarat	BVSc/ Bombay Uni/59	8.4.35
3007	Vyas Sahdevkumar Babulal	GVC/903	At & Po-Varetha, Ta- Kheralu, Dis-Mehsana, Gujarat	BVSc&AH/GAU/86	13.6.62

3008	Vyas Sanjaykumar Rameshchandra	GVC/1436	At&Po: Laxmipura, Ta: Khedbrahma, Di: Sabarkantha,Gujarat	BVSc&AH/GAU/91	7.2.70
3009	Vyas Upendra Vasantraï	GVC/352	8,Anand Baugh Soc. Opp. Welcome Plaza, Ganesh Chokadi, Anand, Gujarat	BVSc&AH/GAU/74	25.4.52
3010	Vysakh Mohan S/o S. Vijayamohan	KSVC/3548/09	Ushamalari, Ambadi Nagar Lane-1 Sreekariyam P.O. Thiruvananthapuram, Kerala	BVSc&AH/KAU/09	14.05.86
3011	W.Deepthi Swapna Latha D/o W.Chandra Sekhar	APSVC/04844/09	H.No. 26/554, Viswasapuram, Nandyal, Kurnool Dt-518502, Andhra Pradesh	BVSc&AH/SVVU/09	01.06.85
3012	Wagh Rajesh Vishwanath	MahaSVC/8171/09	Gajanan Nagar, Ward No.17, Near M.S.E.B.Office, Tal Chikhli, Dist. Buldhana- 443201,Maharashtra	BVSc&AH/MA&FSU/09	22.07.85
3013	Waghela Chanchal Raghurajsinh	GVC/3159/10	Shivam Park Society, Nr-Sarvodaya Bank, Godi Road, Dahod,Gujarat	BVSc&AH/AAU/10	18.03.88
3014	Waghode Demant Jayant	MahaSVC/8175/09	Old 'E'-56, BTPS.Colony, Deepnagar, Tal Bhusawal, Dist.Jalgaon-425307,Maharashtra	BVSc&AH/MA&FSU/09	21.05.85
3015	Wangikar Vinay Dashrathrao	MahaSVC/8210/09	H.No.1-12-250, Plot No87, Harsh Nagar, Near Baba Nagar, Tal.Dist.Nanded- 431602,Maharashtra	BVSc&AH/MA&FSU/09	23.03.84
3016	Wankhde Dhananjay Namdeoraø	GVC/1508	At- Po-& Ta-Warud, Dist.- Amravati, Maharashtra Pin-444 906,Gujarat	BVSc&AH/PKV/88	20.5.66
3017	Wasim Shams S/o Samim Shams	CHSVC/453/09	H.No. 7A, Street No. 32, Sector No. 08, Bhilai,Chhattisgarh	BVSc&AH/JLKVV/87-88	26.05.64
3018	Y.Jaya Sudha D/o Y.Raja Reddy	APSVC/04885/09	Arepally (V), Bhavanipet (P), Machareddy (M), Nizamabad Dt-503112, Andhra Pradesh	BVSc&AH/SVVU/09	08.07.84
3019	Y.K. Yadav S/o Rampher Yadav	UPSVC/5015/09	C-2913, Avas Vikas Colony, Raja Ji Puram, Lucknow,UP	BVSc&AH/JNKVV/09	01.08.81
3020	Y.Kamala Kumari D/o Y.Satyam Naidu	APSVC/04968/09	Vunukuru (V&P), Rajam (Via), Srikakulam Dist.-532122, Andhra Pradesh	BVSc&AH/SVVU/09	19.06.86
3021	Y.Kiran Kumar S/o Y. Sathya Narayana	APSVC/04884/09	Bhaktalapuram (V&P), Penpahad (M), Nalgonda Dt-508213, Andhra Pradesh	BVSc&AH/SVVU/09	04.08.85
3022	Y.Sunil Kumar S/o Y.Koteswara Rao	APSVC/04951/09	Srinagar 3rd Line, D.No.7-17-161, Guntur-2, Andhra Pradesh	BVSc&AH/SVVU/09	04.06.83
3023	Yadav Manish Hansaraj	MahaSVC/8316/10	Khasapuri No.2, Tal, Paranda, Dist.Osmanabad-413502,Maharashtra	BVSc&AH/MA&FSU/09	05.07.86

3024	Yadav Ramansingh Matadin	GVC/1189	House No. 382/3, Sectors-29, Gandhinagar, Gujarat	BVSc&AH/HAU/85	22.2.63
3025	Yashoda D.C. D/o Chidanandaiah D.N.	KarnSVC/4244/09	Delux Roadlines, 2nd Main Road, New Mandipet, Tumkur-572101, Karnataka	BVSc&AH/KVAFSU/09	14.9.84
3026	Yashwant Singh S/o Mange Ram Dalal	Pb.SVC/2858/09	H.No.386, Sector-D, BRS Nagar, Ludhiana, Punjab	BVSc&AH/CCSHAU/94	28.6.71
3027	Yeotikar Yogendra Gunvantrao	MahaSVC/8222/09	Guruprasad Nivas, 1/9/731, Near Hanuman Road, Tal, Dist. Nanded-431605, Maharashtra	BVSc&AH/MA&FSU/09	22.04.86
3028	Yewale Prashant Somnath	MahaSVC/8337/10	Pushkaraj, 82, Sakharwadi, Trymbak Nagar, Tal. Jalgaon, Dist. Jalgaon- 425002, Maharashtra	BVSc&AH/MA&FSU/09	27.06.86
3029	Yogananda K.C. S/o Chandrashekharalah	KarnSVC/4237/09	Bilekallahalli, Togarighatta- 572121, Koratagere Tq, TumkurDt, Karnataka	BVSc&AH/KVAFSU/09	1.6.86
3030	Yogesh Kumar Kadian S/o Sh Ram Kishan Kadian	HarSVC/2113	VPO Majra (D.D) Distt- Jhajjar, Haryana	BVSc&AH/CCSHAU/09	24.6.83
3031	Yogeshpriya.S (A.Somu)	TNSVC/4546/09	53, Sanarpalayam, Voipadi PO, Vijayamangalam via, Erode-638056, Tamil Nadu	BVSc&AH/TANUVAS/09	18.04.86
3032	Yogi Nagjibhai Vithalbhai	GVC/2287	At - Ganget, Ta - Chanasma, Dist - Patan PIN- 384275, Gujarat	BVSc&AH/GAU/00	11.9.76
3033	Yokananth.S (N.Sekar)	TNSVC/4683/10	No.1-97, East Street, Semmangudi po, Kadavasal-so, Sirkali T.K., Nagapattinam.- 609104, Tamil Nadu	BVSc/TANUVAS/01	03.06.77
3034	Zaker Ali Gafoor Ali	MahaSVC/8268/09	Khaja Manzil Gulzar Colony, Nr Gulzar Masjeed Dhar Rd PBN. Tal. Dist. Parbhani- 431401, Maharashtra	BVSc&AH/MA&FSU/09	08.03.84
3035	Zala Mahendrasinh Ranjitsinh	GVC/1319	7-D, Umiyanagar Society, Berna road, Himatnagar - 383001 Dis : Sabarkantha, Gujarat	BVSc&AH/GAU/90	11.12.64
3036	Zankat Ajayraj Rajendrasinh	GVC/1249	At - Kanek, Po - Chorvad, Ta - Maliya (Hatina), Dist - Junagadh, Gujarat	BVSc&AH/GAU/90	22.5.68
3037	Zanzad Suhasini Subodh	MahaSVC/8192/09	Plot No. 429, Anand Nagar, Azamsha Layout Nagpur-440009, Maharashtra	BVSc&AH/MA&FSU/09	05.12.85
3038	Zarkar Samruddhi Mohan	MahaSVC/8194/09	H.No-20, Hanuman Nagar, Nagpur- 440009, Maharashtra	BVSc&AH/MA&FSU/09	04.06.87
3039	Ziyaul Rahman S/o Tauhid Ansari	JVC/609/09	Vill.-Ukrid Basti P.O-Bokaro Steel City P.s- Sector 12@ Block-Chas, Bokaro-827001, Jharkhand	BVSc&AH/BAU/05	15.04.77